

जयधवला सहितं

कसायपाहुडं

भाग २

[पयडिविहत्ति]

साहित्य विभाग

मा० दि० जैन संघ

भा० दि० जैनसंघग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य द्वितीयो दलः

श्रीयतिवृषभाचार्यविरचितचूर्णिसूत्रसमन्वितम्

श्रीभगवद्गुणधराचार्यप्रणीतम्

क सा य पा हु ङं

तयोश्च

श्रीवीरसेनाचार्य विरचिता जयधवलाटीका

[द्वितीयोऽधिकारः पयडिविहत्ती]

सम्पादकौ—

पं० फूलचन्द्रः
सिद्धान्तशास्त्री
भू० पू० सह-सम्पादक-
धवला

पं० कैलाशचन्द्रः
सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ
प्रधानाध्यापक स्याद्वाद महाविद्यालय
काशी

प्रकाशकः—

मन्त्री साहित्यविभाग
भा० दि० जैनसंघ, चौरासी, मथुरा

वि० सं० २००५]

वीरनिर्वाणानन्द २४७४


[ई० स० १९४८]

मूल्यं रूप्यकैकादशकम्

भा० दि० जैनसंघ-ग्रन्थमाला

ग्रन्थ-मालाका उद्देश्य—

प्राकृत, संस्कृत आदिमें निबद्ध दि० जैन सिद्धान्त,
दर्शन, साहित्य, पुराण आदिका यथा सम्भव
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन करना



सञ्चालक—

भा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्क १-२

प्रामिस्थान—

व्यवस्थापक

भा० दि० जैन संघ,

चौरासी, मथुरा

मुद्रक, रामकृष्ण दास, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, बनारस ।

स्थापनाभ्य]

प्रति १०००

[वी० नि० सं० २४६८

Sri Dig. Jain Sangha Granthmala No. 1-II

KASĀYA-PĀHŪDAM

II

(PAYADI VIHATTI)

BY

GUNABHADRĀCHĀRYA

WITH

CHURNI SUTRA OF YATIVRASHABHĀCHĀRYA

AND

THE JAYADHAVALĀ COMMENTARY OF
VĪRASENĀCHĀRYA THERE-UPON

EDITED BY

Pandit Phulachandra Siddhantashastri,

ASSISTANT EDITOR OF PRAK.

Pandit Kailashachandra, Siddhantashastri,

NYAYARTHIKA SIDDHANTARATNA,
PRADHANADHYAK, SANGHATA DIGAMBARA JAIN
VIDYALAYA, BUNDEL.

PUBLISHED BY

The Secretary Publication Department,

THE ALL-INDIA DIGAMBRA JAIN SANGHA

CHAURASI, MATHURA,

VIRA-SAMVAT 2474]

VIKRAMA S. 2005

[1948 A.C.

SRI DIG. JAIN SANGHA GRANTHAMALA

Foundation year—]

[—Vira Niravana Samvat 2468

Aim of the Series:—

Publication of Digambara Jain Siddhanta, Darsana, Purana,
Sahitya, and other Works in Prakṛta, Samskr̥ta
etc. Possibly with Hindi Commentary
and Translation.

DIRECTOR:—

SRI BHARATAVARSIYA DIGAMBARA JAIN SANGHA

No. 1. VOL. II.

To be had from:—

THE MANAGER.

SRI DIG. JAIN SANGHA.

CHAURASI MATHURA,

U. P. (India)

*Printed by—*RAMA KRISHNA DAS.

AT THE HINDU UNIVERSITY PRESS, BENARES.

1000 Copies,

Price Rs. Eleven only.

भा० दि० जैन संघ के साहित्य विभाग के सदस्यों की नामावली

संरक्षक सदस्य

८१२५) साहू शान्ति प्रसादजी ढालमिया नगर

सहायक सदस्य

१००१) लाला इयाम लाल जी रईस फर्रुखाबाद

२००१) सेठ नानचन्द जी हीराचन्द जी गांधी, उस्मानाबाद

१००१) सेठ घनश्यामदास जी मरावगी, ढालगढ़

[धर्मशली रा० व० सेठ चुन्नीलाल जी के सुपुत्र स्व० निहालचन्द जी की स्मृतिमें]

१००१) रा० व० सेठ रतनलाल जी चांदमल जी, रांची

१०००) सकल दि० जैन पंचान, नागपुर

१०००) सकल दि० जैन पंचान, गया

१००१) राय साहब लाला नन्फलराय जी, देहली

१००१) लाला महावीर प्रसाद जी (फर्म महावीर प्रसाद एण्ड सन्स) देहली

१००१) लाला जुगल केशोर जी (फर्म धूर्धामल धर्मदास) देहली

१००१) लाला रघुवीर सिंह जी (जैन वाच कम्पनी) देहली

१०००) स्व० श्रीमती मनोहरदेवी भातेश्वरी लाला वसन्त लाल फिरोजी लाल जी, जैन देहली

प्रकाशककी ओरसे

आज चार वर्षके पश्चात् कलायपाहुड (जयधवला) का यह दूसरा भाग (पर्यट विहचि) प्रकाशित करने हुए हमें हर्ष भी हो रहा है और संकोच भी। पहला भाग प्रकाशित होत ही दूसरा भाग प्रेसमें छपनेको दे दिया गया था। किन्तु प्रेसमें एक नये मैनेजरके आजानेसे दो वर्ष तक कुछ भी काम नहीं हो सका। उनके चले जानेके बाद जब वर्तमान मैनेजरने कार्यभार सम्हाला तब कहीं दो वर्षमें यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो सका।

इस बीचमें जयधवला कार्यालयमें भी बहुत सा परिवर्तन होगया। हमारे एक सहयोगी विद्वान न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमार जी के सहयोगसे तो हम पहले ही वंचित होचुके थे। बादका सिद्धान्त शास्त्री प० पूल्लचन्द जीका सहयोग भी हमें नहीं मिल सका। फिर भी यह प्रयत्नताकी वा है कि इस भागका पूर्ण अनुवाद और विंगेपार्थ उन्हींके लिखे हुए हैं और प्रारम्भके लगभग एक तिहाई फार्मोंका प्रूप भी उन्होंने देखा है। मैने तो केवल उनके साथ इस भागका आयोगान्त वाचन किया है। और प्रूप शोधन परिशिष्ट निर्माण तथा प्रस्तावना लेखनका कार्य किया है।

हमारे पास इस ग्रन्थराजके कई भाग तैयार होकर ग्वे हुए हैं, किन्तु उच्चम टिकाऊ कागजके दुष्प्राप्य होने तथा प्रेसकी अत्यन्त कठिनाईके कारण हम उन्हें जल्द प्रकाशित करनेमें असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी प्रयत्न चाट्टे ह।

इस भागका मशाधन काय, अनुवाद वगैरह पहले भागके सम्पादकाय कृतव्यममें बतलाये गये ढग पर ही किया गया है, आईप भी पूर्ववत् है, अतः उनके सम्बन्धमें फिरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। जिन्हे सब बातें जानना हो उन्हें पहले भागका देखना चाहिये।

इस भागके पृ० २९३ आदिमें जो भगवित्त्वानुगमका वणन करत हुए करण सूत्रोंके द्वारा भग्न निकालनेकी विधि बतलाइ है, उसका स्पष्ट करनेमें लग्नऊ विश्वविद्यालयके गणितके प्रधान-प्रोफेसर डा० अवधेदानारायण सिठ ने विंगेप सहायता प्रदान की है, अतः में उनका अत्यन्त आभारी हू।

काशीमें गङ्गा तट पर स्थित स्व० बा० छेदालाल जाके जिन मान्दरके नचिके भागमें जयधवला कार्यालय स्थित है, और यह सब स्व० बाबू मा० के सुपुत्र भमप्रंमों बाबू गणेशदास जी के सांजन्य और धर्म प्रेमका परिचायक है। अतः मैं बा० मा० का ऋद्धयमें आभारी हूँ।

स्याहाइ महर्षिविद्यालय काशीके अकलक सम्भवता भवनकी पूज्य शुद्धक श्री गणेशप्रसादजी वर्णीने अपनी धर्ममाता स्व० चिंगाजा बाईकी स्मृतिमें एक निषिधार्थत की है जिसके व्याजसे प्रातिवर्ष विविध विषयोंके ग्रन्थोका सफलन होता रहता है। विद्यालयके व्यवस्थापकोंक साजन्यसे उस ग्रन्थसंग्रहका उपयोग जयधवलाके सम्पादन कायम किया जा सका है। अतः पूज्य शुद्धक जी तथा विद्यालयके व्यवस्थापकोंका मैं आभारी हूँ।

सहारनपुरके स्व० लाला जम्भूप्रसाद जाके सुपुत्र रायसाहब ला० प्रहल्लकुमारजीने अपने जिनमान्दरजीकी श्री जयधवलाजाकी उस प्रति से मिलान करने दनकी उदारता दिखलाई है जो उत्तर भागकी भाद्य प्रति है। अतः मैं लाला मा० का आभारी हू। जैन सिद्धान्त भवन आगके पुस्तकाध्यक्ष प० नैमिचन्द जी ज्योतिषाचार्यके माहादत्त भवनमें सिद्धान्त ग्रन्थोंका प्रातियों तथा अन्य आवश्यक पुस्तके प्राप्त होती रहती हैं। अतः मैं उनका भी आभारी हू।

हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के मैनेजर वा० रामकृष्ण दासको तथा उनके कर्मचारियोंकी भी मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्न ही यह ग्रन्थ अपने पूर्ण रूपमें ही छपकर प्रकाशित हो सका है।

जयधवला कार्यालय
भदौनी, काशी
श्रावण कृष्णा १
बी० नि० सं० २४७४

कैलाशचन्द्र शास्त्री
मंत्री साहित्य विभाग

प्रस्तावना

INTRODUCTION.

Kasaya Palhuda deals with the Mohaniya Karman (Attachment in general) and its sub-divisions in their latent (satva) condition with especial reference to Anuyoga-dvaras, e.i. Existence (Sat), number, place, time, difference etc. Therefore the term Mūla Prakṛti (Main natural division of-Karman action) and Uttara Prakṛti (Subdivision of Karman) denote here Mohaniya and its subdivision respectively. This volume 'Payadi-Vihatti' describes the distribution of the Mohaniya in all possible details further deviding the same into the MūlaPrakṛti-Vibhakti (distribution of the Mohaniya) and the Uttara- Prakṛti-Vibhakti (distribution of the subdivision of the Mohaniya).

The Ācārya goes deeper in his treatment of The Uttara-Prakṛti-Vibhakti by creating two divisions namely Ekaika-Uttara-Prakṛti-Vibhakti and Prakṛti-Sthana-Uttara-Prakṛti-Vibhakti. The former describes individually every subdivision of the Mohaniya keeping all aspects in veiw and the later brings out clearly the distribution of the sub-divisions of the Mohaniya in fifteen main places while in existence alone. Thus the study of this volume is enough to enable one to procure the full psychological knowlege of the 'king of Karmans e.i. the Mohaniya.

The introduction of the previous volume (I) of the same will furnish with detailed information as regards the Text, Ācārī-Vṛtti, Jayadhavala-commentary there upon, the life of the author and the commentators and other things referred to here.

प्रस्तावना

इस सस्करणमें मुद्रित कलायपाहुड और उसकी चूर्णिसूत्र रूप वृत्ति तथा उन दोनोंकी टीका जयधवलके सम्बन्धमें तथा उनके रचयिताओंके सम्बन्धमें प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विस्तारसे विचार किया गया है। अतः यहां केवल इस भागके विषयका और उसमें आई हुई कुछ उल्लेखनीय बातोंका परिचय दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातोंका परिचय कराया जाता है।

१ मतभेदोंका खुलासा

१. इस भागके प्रारम्भमें ही कलायपाहुडकी बाईसवीं गाथा आती है। प्रथम भागकी प्रस्तावना (पृ० १७ आदि) में यह बतलाया है कि चूर्णिसूत्रकारने जा अधिकार निर्धारित किये हैं वे कलायपाहुडमें निर्दिष्ट अधिकारोंसे कुछ भिन्न हैं। सां इम बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करने हुए श्री वीरसेन स्वामीने गुणधराचार्यके अभिप्रायानुसार अधिकार बतलाये हैं। और आगे (पृ० १७) में आचार्य यतिवृषभने उक्त गाथाका व्याख्यान चूर्णिसूत्रोंके द्वारा करते हुए अपने माने हुए अर्थाधिकारोंका दिखलाया है। इसीसे बाईसवीं गाथा इस भागमें दो बार आई है। यतिवृषभमाचार्यने उस गाथासे ६ अर्थाधिकार सूचित किये हैं जब कि गुणधराचार्यके अभिप्रायानुसार उनसे दो ही अर्थाधिकार सूचित होतें हैं; क्योंकि गुणधराचार्यने प्रकृति विभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागाविभक्तिको मिलाकर एक अर्थाधिकार लिया है और प्रदेशविभक्ति शीणा-श्रीण और स्थित्यन्तिकको मिलाकर दूसरा अधिकार लिया है। जब कि आचार्य यतिवृषभने इन छहोंको अलग-अलग अधिकार माना है। इसीसे श्री वीरसेन स्वामीने लिखा है कि अपने माने हुए अधिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्रोंका कथन करने पर भी आचार्य यतिवृषभ गुणधराचार्यके प्रतिकूल नहीं है; क्योंकि उन्होंने दो अधिकारोंका ही ६ अधिकारोंमें विस्तृत कर दिया है। अतः उन्होंने उन्हीं विषयोंका कथन किया है जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें गुणधराचार्यने किया था

२. जैसे गुणधराचार्य और यतिवृषभमाचार्यके अभिप्रायानुसार कलायपाहुडके अधिकारोंमें भेद है, वैसे ही यतिवृषभमाचार्य और उच्चारणाचार्यमें भी अवांतर अधिकारोंका ठेकर भेद है। उच्चारणाचार्यने मूल प्रकृतिविभक्तिके सत्रह अधिकार कहे हैं जब कि यतिवृषभमाचार्यने आठ ही अधिकार कहे हैं। इसी-तरह उच्चारणाचार्यने एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिके २४ अधिकार बतलाये हैं जब कि यतिवृषभमाचार्यने ११ ही अधिकार बतलाये हैं। किन्तु इसमें भी परस्परमें प्रतिकूलता नहीं है; क्योंकि आचार्य यतिवृषभने संक्षेपसे कथन किया है जबकि उच्चारणाचार्यने विस्तारसे कथन किया है। अतः आचार्य यतिवृषभने अनेक अनुयोग द्वारोंका एकमें ही समग्र कर लिया है और उच्चारणाचार्यने उन्हें अलग-अलग कहा है।

२ चूर्णिसूत्रोंकी प्राचीनता

पृ० २१० पर एक चूर्णिसूत्र आया है—'एकस्ते विहत्तिओ कां हांदि१' अर्थात् एक प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन होता है? जय धवलमें इस पर प्रश्न किया है कि यह गुरु क्यों कहा गया? तो उत्तर दिया है कि शास्त्रकी प्रामाणिकता बतलानेके लिये। फिर प्रश्न किया है कि ऐसा पूछनेसे प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है? तो वीरसेन स्वामीने उसका यह उत्तर दिया है कि यह भगवान् महावीरसे गौतमस्वामीने प्रश्न किया था। उसका यहां निर्देश करनेसे चूर्णिसूत्रोंकी प्रामाणिकताका ज्ञान होता है तथा इससे आचार्य यतिवृषभने यह भी सूचित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है किन्तु गौतम स्वामीने भगवान् महावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है।

इससे प्रतीत होता है कि चूर्णिसूत्रोंका आधार अति प्राचीन है और भगवान् महावीरकी वाणीसे उनका निकट सम्बन्ध है।

३ 'मनुष्य' शब्दसे किसका ग्रहण ?

पृ० २११ पर चूर्णिसूत्रमें कहा है कि नियमसे क्षपक मनुष्य और मनुष्यिणी ही एक प्रकृतिक-स्थानका स्वामी होता है। श्री वीरसेन स्वामीने इसका अर्थ करते हुए कहा है कि 'मनुष्य' शब्दसे पुरुषवेद और नपुसकवेदसे विशिष्ट मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये। यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायेगा तो नपुसकवेद वाले मनुष्योंमें एक विभक्तिका अभाव हो जायेगा। इससे स्पष्ट है कि आगम ग्रन्थोंमें मनुष्य शब्दका उक्त अर्थ ही लिया गया है। यही वजह है कि आगमग्रन्थोंमें जीवकाण्डमें गीत मार्गणामें नपुसकवेदी मनुष्योंकी संख्या अलगसे नहीं बताई है और न मनुष्यके भेदोंमें अलगसे उसका ग्रहण किया है। इससे भाववेदकी विवक्षा भी स्पष्ट हो जाती है।

४ कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि मरता है या नहीं ?

पृ० २१५ पर चूर्णिसूत्रका विवेचन करते हुए यह शङ्का उठाई गई है कि कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टिके भी बाईस प्रकृतिकस्थान पाया जाता है। और वह मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है। अतः 'मनुष्य और मनुष्यनी ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं' यह वचन घटित नहीं होता। इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामीने लिखा है कि यतिवृषभाचार्यके दो उपदेश इस विषयमें हैं। अर्थात् उनके मतसे कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मरता भी है और नहीं भी मरता। यहाँ पर जो चूर्णिसूत्रमें मनुष्य और मनुष्यनीका ही बाईस प्रकृतिकस्थानका स्वामी बतलाया है सो दूसरे उपदेशके अनुसार बतलाया है। किन्तु उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिका मरण नहीं होता ऐसा नियम नहीं है। अतः उन्होंने चारों गतियोंमें बाईस प्रकृतिकस्थानका मत्व स्वीकार किया है।

५. उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभंभोजना होती है या नहीं ?

पृ० ४१७ पर यह शङ्का की गई है कि 'जो उपशम सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंभोजना करता है उसके अल्पतर विभक्ति स्थान पाया जाता है। अतः उपशमसम्यग्दृष्टिके अल्पतर विभक्ति-स्थानका काल भी बतलाना चाहिये'। इसका यह उत्तर दिया गया कि उपशम सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजना नहीं होती। इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया कि 'इसमें क्या प्रमाण है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजना नहीं होती'। तो उत्तर दिया गया कि 'चूँकि उच्चारणाचार्यने उपशमसम्यग्दृष्टिके एक अर्वास्थित पद ही बतलाया है, अल्पतर पद नहीं बतलाया। इसीसे सिद्ध है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजना नहीं होती'। इसपर फिर शङ्का की गई कि 'उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजना मानने वाले आचार्यके वचनके साथ उक्त कथनका विरोध आता है अतः इसे अप्रमाण क्यों न मान लिया जाय' / उत्तर दिया गया कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजनाका कथन करने वाला वचन सूत्र वचन नहीं है, किन्तु व्याख्यान वचन है, सूत्रसे व्याख्यान काटा जा सकता है परन्तु व्याख्यानसे व्याख्यान नहीं काटा जा सकता। अतः उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजना न माननेवाला मत अप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ दोनों ही मतोंको मान्य करना चाहिये, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके आधार पर एक मतको प्रमाण और दूसरेको अप्रमाण ठहराया जा सके।

इस शङ्का समाधानके बाद वीरसेन स्वामीने लिखा है कि 'यहाँ पर यही पक्ष प्रधान रूपसे लेना चाहिये कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजना होती है क्योंकि परंपरासे यही उपदेश चला आता है।' ऐसा शत होता है कि आचार्य यतिवृषभका यही मत है क्योंकि उन्होंने जो २४ प्रकृतिक विभक्ति-स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक मौ बचीस सागर बतलाया है वह उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंभोजना माने बिना नहीं बनता। अतः इस विषयमें भी आचार्य यतिवृषभ और उच्चारणाचार्यमें मतभेद है।

विषयपरिचय

इस भागमें प्रकृतिविभक्तिका वर्णन है ।

प्रारम्भमें ही आचार्य यतिवृषभने विभक्ति शब्दका निक्षेप करके उसके अनेक अर्थोंको बतलाया है । फिर लिखा है कि यहां पर इन अनेक प्रकारकी विभक्तियोंमेंसे द्रव्यविभक्तिके कर्मविभक्ति और नोकर्मविभक्ति इन दो अवान्तर भेदोंमें से कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है । कथाय प्राभृतमें उसका वर्णन है ।

इसके बाद कथायप्राभृतकी बार्हस्पतीय गाथाका व्याख्यान करते हुए आचार्य यतिवृषभने उससे ६ अधिकारोंका ग्रहण किया है और उनमेंसे सबसे प्रथम प्रकृतिविभक्ति नामक अर्थाधिकारका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है ।

प्रकृतिविभक्तिके दो भेद किये हैं—मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति । इस ग्रन्थमें केवल मोहनीय कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियोंका ही वर्णन है । अतः यहा मूल प्रकृतिसे मोहनीयकर्म और उत्तरप्रकृतिसे मोहनीयकर्मकी उत्तर प्रकृतिया ही ली गई हैं ।

मूलप्रकृतिविभक्ति

मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन करनेके लिये आचार्य यतिवृषभने आठ अनुयोगद्वार रक्खे हैं—स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचय, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्प बहुत्व । किन्तु उच्चारणाचार्यने सतरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन किया है । चूकि चूर्णिसूत्र सक्षित हैं और चूर्णिसूत्रकारने केवल अत्यन्त आवश्यक अनुयोगोंका ही सामान्य वर्णन किया है, अतः जयध्वलाकारने सर्वत्र अनुयोगद्वारोंका वर्णन उच्चारणावृत्तिके अनुसार ही किया है । सतरह अनुयोगद्वारोंका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है ।

समुत्कीर्तना—इसका अर्थ हाता ह-कथन करना । इसमें गुणस्थान और मार्गणाभोंमें मोहनीयकर्मका अस्तित्व और नास्तित्व बतलाया गया है । ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीवोंके मोहनीयकर्मकी सत्ता पाई जाती है और बारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उन्मत् रहित हैं । अतः जिन मार्गणाभोंमें क्षीण कथाय आदि गुणस्थान नहीं होते, उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही बतलाया है । और जिन मार्गणाभोंमें दानो अवस्थाएं संभव हैं उनमें अस्तित्व और नास्तित्व दानो बतलाए हैं ।

सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव—इसमें बतलाया है कि मोहनीयविभक्ति किसके सादि है, किसके अनादि है, किसके ध्रुव है, और किसके अध्रुव है ?

स्वामित्व—इसमें मोहनीयकर्मके स्वामीका निर्देश किया है । जिसके मोहनीयकर्मकी सत्ता वर्तमान है वह उसका स्वामी है । और जो मोहनीयकर्मकी सत्ताको नष्ट कर चुका है वह उसका स्वामी नहीं है ।

काल—इसमें बतलाया गया है कि जीवके मोहनीयकर्मकी सत्ता कितने काल तक रहती है और असत्ता कितने काल तक रहती है ? किसीके मोहनीयकी सत्ता अनादिसे लेकर अनन्तकाल तक रहती है और किसीके अनादि सान्त होती है ।

अन्तर—इसमें यह बतलाया गया है कि मोहनीयकर्मकी सत्ता एक बार नष्ट होकर पुनः कितने समयके बाद प्राप्त हो जाती है । किन्तु चूकि मोहनीयका एक बार क्षय हो जानेके बाद पुनः बन्ध नहीं होता अतः मोहनीयका अन्तरकाल नहीं होता ।

भंगविचयानुगम—इसमें नाना जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके अस्तित्व और नास्तित्वको लेकर भंगोंका विचार किया गया है।

भागाभागानुगम—इसमें यह बतलाया है कि सब जीवोंके कितने भाग जीव मोहनीयकर्मकी सत्तावाले हैं और कितने भाग जीव असत्ता वाले हैं।

परिमाण—इसमें मोहनीयकर्मकी सत्तावाले और असत्तावालोंका परिमाण बतलाया गया है।

क्षेत्र—इसमें मोहनीयकर्मकी सत्तावाले और असत्तावाले जीवोंका क्षेत्र बतलाया गया है कि वे कितने क्षेत्रमें रहते हैं।

स्पर्शन—इसमें उनका त्रिकाल विषयक क्षेत्र बतलाया गया है।

काल—इसमें नानाजीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके कालका कथन किया है। अर्थात् यह बतलाया है कि मोहनीयकर्मकी सत्तावाले और असत्तावाले जीव कब तक रहते हैं। चूंकि समारमें दोनों ही प्रकारके जीव सर्वदा पाये जाते हैं अतः उनका काल सर्वदा बतलाया है। पहला कालका वर्णन एक जीव की अपेक्षासे है और यह नाना जीवोंकी अपेक्षासे है।

अन्तर—यह अन्तर भी नानाजीवोंकी अपेक्षासे है। चूंकि मोहनीयकर्मकी सत्ता और असत्तावाले जीव सदा पाये जाते हैं अतः सामान्यसे उनमें अन्तर नहीं है।

भाव—इसमें यह बतलाया है कि मोहनीयकर्मकी सत्तावालोंके पांच भावोंमें से कौन-कौन भाव होते हैं और असत्तावालोंके कौन भाव होता है। सत्तावालोंके पारिणामिकके सिवा चार भाव होते हैं और असत्तावालोंके केवल एक धारिक भाव ही होता है।

अल्पबहुत्व—इसमें मोहनीयकर्मकी सत्ता और असत्तावालोंमें कम्ती बढ़तीपन बतलाया गया है कि कौन थोड़े हैं कौन बहुत हैं।

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त सभी अनुयोगद्वारोंमें गुणस्थान और मार्गणाओंकी अपेक्षा वर्णन किया गया है। तथा वह मोहनीय कर्मकी सत्ता और असत्ता को लेकर ही किया गया है। न ता मोहनीयके सिवा दूसर किसी कर्मका इसमें वर्णन है और न सत्ता-असत्ताके सिवा किसी दूसरी अवस्था का ही वर्णन है।

इस वर्णनके साथ मूल प्रकृत विभक्तिका वर्णन समाप्त हो जाता है जो ५९ पैजोंमें है।

उत्तरप्रकृतिविभक्ति

उत्तर प्रकृतिविभक्तिके दो भेद हैं—एक उत्तर प्रकृतिविभक्ति और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति। एक उत्तर प्रकृतिविभक्तिमें मोहनीय कर्मकी अठाईस प्रकृतियोंका पृथक् पृथक् निरूपण किया गया है। और प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिमें मोहनीय कर्मके अठाईस प्रकृतिक, सत्ताईसप्रकृतिक, छब्बासप्रकृतिक आदि १५ प्रकृतिक स्थानोंका कथन किया गया है।

एक उत्तर प्रकृतिविभक्तिका कथन चौबीस अनुयोगद्वारोंकी अपेक्षासे किया गया है। इनमें १७ अनुयोगद्वार ता मूल प्रकृतिविभक्तिवाले ही हैं। शेष हैं—सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जयन्यावविभक्ति, अजयन्यावविभक्ति और सन्निकर्ष। मोहनीयकी समस्त प्रकृतियोंको सर्वविभक्ति और उससे कमको नोसर्वविभक्ति कहते हैं। गुणस्थान और मार्गणाओंमें कहां मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका सत्त्व है और कहां उनसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व है इसका निरूपण इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें किया गया है। सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियोंको उत्कृष्टविभक्ति और उनसे कम को अनुत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। मोटे तौर पर सर्व

विभक्ति और नोसर्वविभक्तिमें तथा उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, तथापि यथार्थमें दोनोंमें अन्तर है । सर्वविभक्तिमें तो पृथक् पृथक् सब प्रकृतियोंका कथन किया जाता है और उत्कृष्टविभक्तिमें समस्त प्रकृतियोंका सामूहिक रूपसे कथन किया जाता है । इसी तरह नोसर्वविभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्तिमें भी जानना चाहिये ।

मोहनीयकी सबसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व जघन्य विभक्ति है और उससे अधिकका सत्त्व अजघन्य-विभक्ति है ।

एक प्रकृतिके अस्तित्वमें अन्य प्रकृतियोंके अस्तित्व और नास्तित्वका विचार सन्निकर्ष अनुयोग द्वारमें किया जाता है । जैसे, जो जीव मिथ्यात्वकी सत्तावाला है उसके सम्यक्त्व, सम्यक्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार कषायोंकी सत्ता होती भी है और नहीं भी होती । किन्तु शेष बारह कषाय और नव नो-कषायोंकी सत्ता अवश्य होती है । जिनके सम्यक्त्व प्रकृतिकी सत्ता है उसके मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी ४ की सत्ता हांती भी है और नहीं भी होती, किन्तु मोहनीयकी शेष प्रकृतियोंकी सत्ता अवश्य होती है । इसी तरह शेष प्रकृतियोंके वारमें विचार इस अनुयोगद्वारमें किया गया है । शेष सत्तरह अनुयोगद्वारोंमें जिन बातोंका कथन किया है उसका निर्देश पहले किया ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि मूलप्रकृति विभक्तिमें मूल प्रकृति मोहनीय कर्मको लेकर विचार किया गया है और उत्तरप्रकृति विभक्तिमें मोहनीय कर्मकी २८ उत्तर प्रकृतियोंको लेकर विचार किया गया है ।

यह उल्लेखनीय है कि आचार्य यातवृषभने अपने चूर्णसूत्रोंमें उत्तरप्रकृतिविभक्तिमें अनुयोगद्वारोंका निर्देश तो किया है किन्तु उनका कथन नहीं किया । श्री वीरसन स्वामीने उसके सब अनुयोग द्वारोंका निरूपण उच्चारणावृत्तिके आधारसे ही किया है ।

प्रकृतिस्थानविभक्तिका वर्णन करते हुए आचार्य यातवृषभने सबसे प्रथम मोहनीयके स्थानोंको गिनाया है । फिर प्रत्येक स्थानकी प्रकृतियोंका बतलाया है ।

मोहनीयके सत्त्वस्थान १५ हांते हैं—२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, और १ प्रकृतिक । पहले सत्त्वस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतिया हांती हैं । दूसरेमें सम्यक्त्व प्रकृति नहीं हांती । तीसरेमें सम्यक्त्व और सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिना हांती । चारथमें अनन्तानुबन्धी ४ कषाय नहीं हांती । पाचवेंमें चौब्रामसे मिथ्यात्व भा चला जाता है । छठेमें तेईसमेंसे सम्यक्मिथ्यात्व भी चला जाता है । सातवेंमें बाईसमेंसे सम्यक्त्व प्रकृति भा चला जाता है । आठवेंमें इक्कीसमेंसे आठ कषायें चली जाती हैं । नोवमें १३ मेंसे नपुसक वेद भा चला जाता है । दसवेंमें १२ मेंसे स्त्रीवेद भी चला जाता है । ग्यारहवेंमें छ नाकषाय भा चला जाती हैं । बारहवेंमें पुरुष वेद भा चला जाता है और केवल ४ सज्वलन कषाय रह जाती हैं । तेरहवेंमें सज्वलन कषाय चला जाता है । चौदहवेंमें संज्वलन मान चला जाता है । और पन्द्रहवेंमें संज्वलन मायाके चले जानेसे केवल एक सज्वलन लाभ शेष रह जाता है । इन पन्द्रह स्थानोंका वर्णन गुणस्थान और मार्गास्थानोंमें सत्तरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । इनमेंसे आचार्य यातवृषभने स्वामित्व, काल, अन्तर, भंगावचय, और अल्पबहुत्वका कथन ओघसे किया है । शेष कथन उच्चारणाचार्य की वृत्तिके अनुसार ही किया गया है ।

भुजकारविभक्ति

मोहनीयके उक्त सत्त्वस्थानोंका निरूपण करनेके लिये तीन विभाग और भी किये गये हैं । वे हैं— 'भुजकार', 'पदानिक्षेप और वृद्धि' । भुजकार विभक्तिमें बतलाया गया है कि उक्त सत्त्वस्थान सर्वथा स्थायी नहीं हैं, अधिक प्रकृतियोंके सत्त्वसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व हां सकता है और कम प्रकृतियोंके सत्त्वसे अधिक प्रकृतियोंका भी सत्त्व हो सकता है तथा ज्योंका त्यों भी रह सकता है । इस भुजकार विभक्तिका निरूपण भी

सतरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है, जिनमेंसे काल अनुयोगका सामान्यसे कथन यतिवृषभ आचार्यने स्वयं किया है और शेष अनुयोगद्वारोंका कथन उच्चारणा वृत्तिके आधारसे किया गया है।

पदनिक्षेप

पहले मोहनीयके २८, २७ आदि विभक्तिस्थान बतलाये हैं। उनमेंसे अमुक स्थानसे अमुक स्थान की प्राप्ति होने पर वह हानिरूप है या वृद्धिरूप है, इत्यादि बातोंका विचार पद निक्षेप नामके विभागमें किया है। जैसे एक जीव अट्टार्इस प्रकृतियोंकी सच्चा वाला है। उसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्वेलना करके सत्त्वाइस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि कही जायेगी। तथा एक जीव इक्कीस प्रकृतियोंकी सच्चा वाला है। उसने क्षपकश्रेणी पर चढ कर आठ कषायोंका क्षय करके तेरह प्रकृतिक सत्त्व स्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि कही जायेगी। इन्ही तरह मोहनीयकी सच्चा वाले किसी जीवने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टार्इस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि कहलायेगी। और चौबीस विभक्ति स्थानवाले किसी जीवने मिथ्यात्वमें जाकर अट्टार्इस प्रकृतियोंकी सच्चा प्राप्त की तो यह उत्कृष्ट वृद्धि कहलायेगी। इत्यादि बातोंका विचार इस अधिकारमें किया गया है।

इस अधिकारके प्रारम्भमें केवल एक चूर्णिसूत्र लिखकर आचार्य यतिवृषभने प्रकृति विभक्तिको समाप्त कर दिया है। हा, उच्चारणाचार्यने समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इस तीन अनुयोगद्वारोंसे पदनिक्षेपका वर्णन किया है। उर्साको लेकर स्वामी वीरसेनने कथन किया है।

वृद्धिविभक्ति

मोहनीयके उक्त सत्त्व स्थानोंमेंसे एक स्थानसे दूसरे स्थानका प्राप्त होते समय जो हानि, वृद्धि या अवस्थान होता है वह उसके सख्यातत्वं भाग है या सख्यातगुणा है इत्यादि विचार वृद्धिविभक्तिमें किया है। इस अधिकारका कथन तेरह अनुयोगद्वारोंमें किया गया है। वृद्धिविभक्तिके पूर्ण होनेके साथही प्रकृति विभक्ति समाप्त होजाती है

अनुयोगोंकी उपयोगिता

तत्त्वार्थ सूत्रके पहले अध्यायमें वस्तुतत्त्वका जाननेके उपाय बतलाते हुए कहा है कि यो तो प्रमाण और नयसे वस्तुतत्त्वका ज्ञान होता है, किन्तु उसमें सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व भी उपयोगी हैं, इनके द्वारा वस्तुका पूरा साङ्गोपांग ज्ञान हो जाता है। जैसे, यदि हमें मोटर खरीदना है तो उनके बारेमें हम निम्न बात जानना चाहेंगे—आजकल बाजारमें मोटर हैं या नहीं? कितनी हैं? कहाँ कहाँ हैं? हमेशा कहाँसे मिल सकती हैं? कब तक मिल सकती हैं? यदि बिक चुके तो फिर कितने दिन बाद मिल सकेंगी? किस किस रूप रगकी हैं? किस किसकी ज्यादा हैं और किस किसकी कम? इन बातोंसे हमें मोटरोंके विषयमें जैसे पूरी जानकारी हो जाती है वैसे ही जैनसिद्धान्तमें जीव आदि तत्त्वोंकी जानकारी भी उक्त अनुयोगद्वारोंसे कराई गई है। चूँकि प्रकृत कषायप्राभृत ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय मोहनीय कर्मका सत्त्व है अतः इसमें उसका कथन विविध अनुयोगोंके द्वारा किया गया है। उनसे उसका साङ्गोपांग परिज्ञान हो जाता है और कोई भी बात छूट नहीं जाती।

किन्तु आजके समयमें यह प्रश्न होता है कि एक मोहनीय कर्मके इतने साङ्गोपाङ्ग ज्ञानकी क्या आवश्यकता है? मनुष्य जीवनमें उसका उपयोग क्या है?

जैन सिद्धान्तका नाम जानने वाले भी इतना तो जानते ही हैं कि जैन धर्म आत्मधर्म है। वह प्रत्येक आत्माके अभ्युत्थानका मार्ग बतलाता है। और आत्माके अभ्युत्थानका सबसे बड़ा बाधक मोहनीय कर्म है। अतः उस कर्मकी कौन कौन प्रकृति कब कहाँपर कैसी हालतमें रहती है, आदि बातोंको जानना आवश्यक है।

किन्तु यह स्पष्ट है कि आत्माके अभ्युत्थानके लिये इतना सांगोपाग ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है परन्तु चित्तका एकाग्र होना आवश्यक है । और चित्तकी एकाग्रताके लिये करणानुयोगके ग्रन्थोंकी स्वाध्याय जितनी उपयोगी है उतनी अन्यग्रन्थोंकी नहीं, क्योंकि करणानुयोगका चिन्तन करते करते यदि मन अभ्यस्त हो जाता है तो उसमें कितना ही समय लगाने पर भी मन उचटता नहीं है और दुनियावी वासनाओंमें जानेसे रुक जाता है । इसीसे विपाक विचय और सस्थान विचयको धर्मध्यानका अंग बतलाया है । अतः ज्ञानकी विशुद्धि, मनकी एकाग्रता और सद्बिचारोंमें काल क्षेप करनेके लिये ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें मन लगाना चाहिये ।

हर्षका बात है कि उत्तर भारतके सहारनपुर खतौली आदि नगरोंमें आज भी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी सदगृहस्थ हैं, जो ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें अपना काल क्षेप करते हैं । उनमें सहारनपुरके बा० नेमिचन्द्र जी वकील व बा० रतनचन्द्र जी सुखतार, मुजफ्फर नगरके बा० मित्रसेन जी, खतौलीके लाला नानकचन्द्रजी तथा सलावाके लाला हुकुमचन्द्रजीका नाम उल्लेखनीय है । बा० मित्रसेनजीने जयधवलाके प्रथम भागकी स्वाध्याय करनेके बाद कुछ शक्यों जयधवला कार्यालयसे पूछी थीं जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था । ला० नानकचन्द्रजीने तो स्वाध्याय करते समय मूलमें अनुवादका मिलान तो किया ही, साथ ही साथ खतौलीके श्रीजिन मन्दिरजीकी जयधवलाकी लिखित प्रतिसे भी मूलका मिलान करके हमारे पास पाठान्तरोकी एक लम्बी तालिका भेजी । किन्तु उसमें कोई ऐसा पाठान्तर नहीं मिला जो शुद्ध हो और अर्थकी दृष्टिसे महत्त्व रखता हो । अधिकतर पाठान्तर लेखकोंके प्रमादके ही सूत्रक हैं, इसीसे उन्हें यद्वा नहीं दिया गया है । फिर भी उन्होंने मूलमें दो स्थानों पर छूटे हुए पाठोंकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है उन्हे हम सधन्यवाद यहा देते हैं—

१—पृष्ठ ९८, पं० २ में 'गायत्र स्वेत्' आदिसे पहलें 'गाम' पाठ और होना चाहिये ।

२—पृष्ठ ११०, पं० ४ में 'किञ्च वा' से पहलें 'सरुवाणुसरण' पाठ जोड़ लेना चाहिये ।

३—पृ० ३९२, पं० ३ में 'गाणजीवेदि' के स्थान में 'गाणाजीवेदि' होना चाहिये ।

शून्योंका खुलासा

जयधवलाके प्रथम भागके अन्तमें अनुयोगद्वारोंके वर्णनमें मूलमें शून्य रखे हुए हैं । लाला नानकचन्द्रजीने इन शून्योंका अभिप्राय पूछा था । इस दूसरे भागमें तो चूँकि अनुयोगद्वारोंका ही वर्णन है, अतः मूलमें शून्योंकी भरमार है । इन शून्योंके रखनेका अभिप्राय यह है बार बार उसी शब्दको पूरा न लिखकर उसके आगे शून्य रख दिया गया है । इससे लिखनेमें लाभ हो जाता है और उसके संकतसे पाठक छोड़ा गया पाठ भी हृदयगम कर लेता है । जैसे 'कम्मइय०' से कर्मणकाय योगी लिया गया है, सो पूरा 'कम्मइय-कायजोगि' न लिखकर 'कम्मइय०' लिख दिया गया है । ऐसेही सर्वत्र समझ लेना चाहिये ।

अलमिति विस्तरेण



शुद्धिपत्र

पृ०	पं०	अशुद्ध	शुद्ध	पृ०	पं०	अशुद्ध	शुद्ध
१७*	४	विहत्ती	विहत्ती १	९६	४	खवयवस्स	खवयस्स
२९	९	योगिमत्तियो	योगिमत्तियो	१२२	५	णवंसय-	णवुसय
३०	२२	जघन्य से अन्तर्मुहूर्त	जघन्य से खुदाभव ग्रहण, अन्त- मुहूर्त, अन्त- मुहूर्त	१४०	९	[एब्लोभ..... सिया अविह० ।]	यह पाठ नहीं चाहिये
४०	१०	उत्कृष्ट काल और	उत्कृष्ट काल	१५६	९	[इसी प्रकारलोभ कषायी..... नही भी है]	यह नही चाहिये
४४	१६	कर्मका उत्कृष्ट	कर्मका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट	२१८ २१८ ३०६	९ २८ ४	जोवोंके स्थान वारसादि	जोवोंके स्थान वारसादि
"	१७	जघन्यकाल	जघन्य और उत्कृष्ट काल	३११ ३८९	१३ १	वारह अकपती	वारह आदि अकपती
४६	२९	केवलियोंकी	केवलियो और सिद्धोंकी	३९२ "	१ २९	पढमादि चातके	पढमादि जातिके
५९	८	कथ भागेषु	भागेषु	४१०	६	खत्तं भंगो	खत्तं भंगो
७१	३०	लब्धपयपित्तक	लब्धपयपित्तक	४१६	२१	देघ	देव
७२	७	"	"	४२५	२४	२८, २९	२८, २७



* पृ० १८७ और १८ में चूणपूत्रोंके हिन्दी अर्थके आगे १, २, ३, ४, ५ और ६ का अंक छपनेसे रह गया है सो डाल लेना चाहिये ।

विषयसूची

विषय	पृ०	विषय	पृ०
बाईसवीं गाथा	१	मूलप्रकृतिविभक्ति	२२-७६
बाईसवीं गाथाका अर्थ	२३	मूलप्रकृतिविभक्तिके आठ अनुयोगद्वारा	२२
आचार्ययतिवृषभके चूर्णिसूत्रका आश्रय लेकर		उच्चारणाचार्यने मूलप्रकृति विभक्तिके १७	
विभक्तिका कथन	४-१३	अर्थाधिकार कहे हैं और यतिवृषभने आठ,	
विभक्ति शब्दके आठ अर्थ	४	दोनोमें विरोध क्यों नहीं है ?	”
नामविभक्ति और स्थापनाविभक्तिका अर्थ	५	आठ अधिकारोके द्वारा शेषका ग्रहण	”
द्रव्य विभक्तिका कथन	५-६	समुत्कीर्तनानुगमका कथन	२३
क्षेत्रविभक्तिका कथन	७	सादि अनादि भ्रुव और अभ्रुवानुगमका कथन	२४-२५
कालविभक्तिका कथन	८	स्वामित्वानुगमका कथन	२६
संस्थानविभक्तिका कथन	९-११	कालानुगमका कथन	२७-४४
भावविभक्तिका कथन	१२-१३	अन्तरानुगमका कथन	४४
आचार्य यतिवृषभने चूर्णिसूत्रमें २ का अंक		नाना जीवोकी अपेक्षा भर्गावच्ययानुगम	४४-४६
क्यों रक्त्वा, इसका खुलासा	१४	भागभागानुगम	४७-४९
० के अंकसे सूचित अर्थका कथन	१५	परिमाणानुगम	४९-५३
उक्त विभक्तियोंमेंसे यहा कर्म विभक्ति नामका		क्षेत्रानुगम	५३-५९
द्रव्यविभक्तिसे प्रयोजन है इसका कथन	१६	स्पर्शानुगम	६०-७१
अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंको गाथा		नाना जीवोकी अपेक्षा कालानुगम	७१-७४
सूत्रमें दिखलानेके लिये आचार्य		” ” ” अन्तरानुगम	७४-७७
यतिवृषभके द्वारा २२ वीं गाथाका		भावानुगमका कथन	७७-७८
व्याख्यान	१७-१८	अल्पबहुत्वानुगमका कथन	७८ ७९
पदके भेद और उनका अर्थ	१७	एकैक उत्तरप्रकृति विभक्ति	८०-१६८
यतिवृषभके अभिप्रायसे इस गाथासे ६ अर्था		उत्तरप्रकृतिविभक्तिके भेद	८०
धिकार सूचित होते हैं और गुणधरा		एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिका स्वरूप	”
चार्यके अभिप्रायसे दो ही अर्थाधिकार		प्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिका स्वरूप	”
बतलाये हैं इसका कथन	१८	एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिके अनुयोगद्वारा	”
प्रकृति विभक्तिका कथन करनेका प्रतिज्ञा	”	उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये २४ अनुयोग	
यतिवृषभका कथन गुणधराचार्यके प्रतिवृत्त		द्वारा और यतिवृषभभाचार्यके द्वारा कहे	
नहीं है इसका कथन	१९	गये ११ अनुयोगद्वारोंमें अविराधका	
प्रकृति विभक्तिके भेद	२०	कथन	८० ८१
मूलप्रकृतिके साथ विभक्ति शब्द ग्वनेमें		किन्तु अनुयोगका किन्तु अनुयोगमें संग्रह	
आगच्छि तथा उसका परिहार		क्रिया गया है, इसका कथन	८१-८२
यहा मोहनीय कर्मकी ही विवक्षा क्यों है /		समुत्कीर्तनाका कथन	८३-८७
इसका समाधान	”	सर्वविभक्ति मोहनीयविभक्तिका कथन	८८
आठो कर्मोंमें प्रकृति विभक्ति यानी स्वभाव		उत्कृष्टविभक्ति अनुकृष्ट विभक्तिका कथन	”
भेदका कथन	२१		

जघन्यविभक्ति अजघन्य विभक्तिका कथन	८९
सादि अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगमका	
कथन	८९-९०
स्वामित्वानुगमका कथन	९१-९८
ओघसे	९१-९२
आदेशसे	९२-९८
कालानुगमका कथन	९९-१२३
ओघसे	९९-१००
आदेशसे	१०१-१२३
अन्तरानुगमका कथन	१२३-१३०
ओघसे	१२३-१२४
आदेशसे	१२४-१३०
सन्निकर्षका कथन	१३०-१४४
ओघसे	१३०-१३२
आदेशसे	१३३-१४४
नानाजीवोंकी अपेक्षा भगविचया- नुगम	१४४-१५०
भागभागानुगमका कथन	१५१-१५७
ओघसे	१५१
आदेशसे	१५२-१५७
परिमाणानुगमका कथन	१५७-१६३
क्षेत्रानुगमका कथन	१६३-१६४
स्पर्शानुगमका कथन	१६५-१७१
ओघसे	१६५-१६६
आदेशसे	१६६-१७१
नानाजीवोंकी अपेक्षा कालानुगम	१७१-१७२
अन्तगनुगम	१७३-१७४
भावानुगमका कथन	१७५-१७६
अल्पबहुत्वानुगमका कथन	१७६-१९८
स्वस्थान अल्पबहुत्व आधमे	१७६
आदेशसे	१७७-१७९
परस्थान अल्पबहुत्व ओघसे	१७९-१८२
आदेशसे	१८२-१९८
प्रकृतिस्थान उच्च/प्रकृतिविभक्ति	
	१११-३८३
प्रकृतिस्थान शब्दका अर्थ	१९९
प्रकृतिस्थानके तीन भेद	”
उनमें से यहां सत्त्व प्रकृति स्थानोंके ही ग्रहण करनेका कथन	”

प्रकृतिस्थान विभक्तिके अनुयोग द्वारा	२००
मोहनीयके १५ सत्व स्थानोंका कथन	२०१
इन सत्व स्थानोंकी प्रकृतियोंका कथन	२०२-२०४
चौदह मार्गणाओमें स्थान समुत्कीर्तन	२०५-
	२०८
उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे अनुयोगद्वारो का कथन	२०९
सादि अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगमका कथन	२०९-२१०
यतिवृषभके द्वारा स्वामित्वानुगमका कथन	२१०-२२१
एक प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन है ?	२१०
यह प्रश्न गौतम स्वामीने महावीर भगवानसे किया था	२११
चूर्णिसूत्रमें आये 'मनुष्य' शब्दसे पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी मनुष्योंका ग्रहण करनेका कथन	२१२
पाच प्रकृतिक स्थान मनुष्योंके ही होता है मनुष्यीणिके नहीं, इसका कथन	”
दक्षीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी	२१३
बाईस प्रकृतिक	”
बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामीके विषयमें शका समाधान	२१४
ऋतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टिके विषयमें आचार्य यतिवृषभके दो उपदेशोंका कथन	२१५
उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार ऋतकृत्य वदकके मरण न करनेका कथन	”
नेईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी	२१७
चौवीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी	२१८
विसयाजना कौन करता है ?	”
विसयाजनाका लक्षण	२१९
विसयाजना और क्षणणमें अन्तर	”
छन्वीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी	२२१
सत्ताईस	”
अट्ठाईस	”
उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें स्वामित्वका कथन	२२२-२३२
कालानुगमका कथन	२३३-२८०
एक विभक्तिस्थानका जघन्यकाल	२३३

एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल	२३६	भंग निकालनेकी दूसरी विधि	३००-३१०
दो प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल	२३७	समस्त मंगोंका जोड़	३११
" उत्कृष्टकाल	२३८	आदेशमें मंगोंका निरूपण	३१२-३१५
तीन प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल	"	उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार शेष अनुयोग-	
" उत्कृष्टकाल	२३९	द्वारोंका कथन	३१६
चार प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल	२३९	भागभागानुगमका कथन	३१६-३१८
" उत्कृष्टकाल	२४०	परिमाणानुगमका कथन	३१९-३२३
पाच प्रकृतिकस्थानका काल	२४३	क्षेत्रानुगमका कथन	३२४-३२६
ग्यारह प्रकृतिकस्थानका काल	२४४	स्पर्शानुगमका कथन	३२६-३३४
बारह प्रकृतिक " "	२४५	कालानुगमका कथन	३३४-३४४
तेरह प्रकृतिक " "	"	अन्तरानुगमका कथन	३४४-३५२
बारह प्रकृतिकस्थानके जघन्यकालके विषय		भावानुगमका कथन	३५२
में विशेष कथन	२४६	पदविषयक अल्पबहुत्वका ओषकथन	३५३
इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल	२४७	" " आदेशकथन	३५५
बाईस " "	२४८	आचार्य यतिवृषभके द्वारा जीवविषयक अल्प	
तेईस " "	"	बहुत्वका कथन	३५९-३७५
चौबीस " "	२४९	वीरमेन स्वामीके द्वारा प्रत्येकके अल्प-	
छब्बीस " "	२५२	बहुत्वका उपपादन	३५९-३७५
सत्ताईस " "	२५४-२५५	उच्चारणाचार्यके अनुसार आदेशमें अल्पबहुत्व	
अठ्ठाईस " "	२५५-२५६	का कथन	३७५-३८३
उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें		भुजगार आनिशोगद्वारका कथन	
कालका कथन	२५६-२८०		३८४-४२४
अन्तरानुगमका कथन	२८१	भुजकारविभक्तिक सतरह अनुयोगद्वार	३८४
एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं	२८१	समुस्कीर्तनानुगमका कथन	"
२३ से लेकर दो प्रकृतिक स्थानों तकका		स्वामित्वानुगमका कथन	३८६
भी अन्तर नहीं	२८२	एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन	३८७
चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर	२८२	शेष अनुयोग द्वाराका कथन न करके	
" " उत्कृष्ट अन्तर	२८३	यतिवृषभके कालका ही कथन क्यों किया	
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर	२८३	इसका समाधान	"
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर	२८४	भुजकारका स्वरूप	३८८
सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर	"	भवास्थित विभक्तिस्थानके कालके तीन भंग	३८९
" " उत्कृष्ट अन्तर	२८५	उपार्धपुत्रलका अर्थ	३९१
अठ्ठाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर	"	उच्चारणाके अनुसार आदेशमें कालका	
" " उत्कृष्ट अन्तर	२८६	कथन	३९१-३९६
उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशमें		उच्चारणाके अनुसार शेष अनुयोगद्वाराका	
अन्तरकालका कथन	२८७-२९२	कथन	३९७
नानाजीवोंकी अपेक्षा भंग विषयानुगम	२९२	अन्तरानुगमका कथन	"
भजनीषपदोंके भंग लानेकी विधि	२९३	नाना जीवोंकी अपेक्षा भंग विषयानुगम	४०२
विधिकी उपपत्ति	२९४-२९९	परिमाणानुगमका कथन	४०४

भागाभागानुगमका कथन	४०६	कालानुगमका	४४२
क्षेत्रानुगमका	४०८	अतरानुगमका	४४९
स्पर्शनानुगमका	४०९	नाना जीवोकी अपेक्षा भगविचयानुगम	४५६
कालानुगमका	४१४	भागाभागानुगमका कथन	४५९
उपशम सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी		परिमाणानुगमका	४६१
विसयोजना होनेमें मतभेदकी चर्चा	४१७	क्षेत्रानुगमका	४६३
अन्तरानुगमका कथन	४१९	स्पर्शनानुगमका	४६५
देवोंमें अल्पतरके अन्तरकालको लेकर		कालानुगमका	४७०
उच्चारणाओंमें मतभेदकी चर्चा	४२०	अन्तरानुगमका	४७५
अल्पबहुत्वानुगमका कथन	४२२	भावानुगमका	४७९
पदनिक्षेप अधिकारका कथन	४२५-४३६	अल्पबहुत्वानुगमका	४७९
पदनिक्षेप कित्ते कहते हैं-	४२६		
समुत्कीर्तनानुगमका कथन	४२९	परिशिष्ट	४८५-४९३
स्वामित्वका	४३३	गाथा चूर्णिसूत्र	४८५ ४८८
अल्पबहुत्वानुगमका	४३३	अवतरणसूची	४८९
वृद्धिबिभक्ति अधिकारका कथन	४३७-४८२	ऐतिहासिक नामसूची	४९१
समुत्कीर्तनानुगमका कथन	४३७	ग्रन्थ नामोल्लेख	४९३
स्वामित्वानुगमका	४३९	गाथा चूर्णिसूत्रगत शब्द सूची	४९५
		जयधवलागत विशेष शब्द सूची	४९६



कसायपाहुडस्स
प य डि वि ह ती
विदिअ्रो अत्थाहियारो

जेणिह कमायपाहुडमखेयणयमुज्जलं अणंतत्थं ।
माहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे ॥



सिरि-जडवसदाडरियविरइय-चुणिणसुत्तममणिणदं
सिग्गि-भगवंतगुणाहरभडारओवइडुं

क सा य पा हु डं


तस्म

सिग्गि-वीग्गंणाडरियविग्गया टीका

जयधवला

तथ

पयडिविहत्ती णाम विदियो अन्थाहियारो



(४) पगदीए मोहणिजा विहत्ति तह द्विदीए अणुभागे ।

उक्कस्समणुक्कस्सं भीणमभीणं च द्विदियं वा ॥२२॥

मोहनीयकर्मकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उन्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेश विभक्ति, शीणाशीण और स्थिन्यन्तिकका कथन करना चाहिये ॥२२॥

वारेण एयत्तुवलंभादो । एसो गुणहरभट्टारएण णिदिट्ठत्थो ।

विभक्तिका कथन किया गया है, इसलिये इस अपेक्षासे वे तीनों एक हैं। ऊपर यह जो कुछ कहा गया है वह गुणधरभट्टारक द्वारा बतलाया हुआ अर्थ है।

विशेषार्थ—गुणधर भट्टारकने कमायपाहुडकी १८० गाथाएं पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें व्यवस्थित की हैं यह तो 'गाहामदे अम्भीदे' इत्यादि दूसरी गाथासे ही जाना जाता है। तथा उन्होंने 'पेज्ज वा दोमं वा' 'पयडीए मोहणिज्जा' और 'कदि पयडीओ बंधदि' ये तीन गाथाएं पारम्भके पांच अर्थाधिकारोंमें मानी हैं यह कमायपाहुडकी 'पेज्जदोमविहत्ती' इत्यादि तीसरी गाथासे जाना जाता है। पर इस तीसरी गाथाके अनुसार वीरसेनस्वामी जो पांच अधिकारोंका विभाग कर आये हैं उससे इस पूर्वोक्त उल्लेखमें फरक पड़ता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वीरसेनस्वामीने तीसरी गाथाके पूर्वार्धकी व्याख्या करते हुए जो तीन विकल्प संभव थे वे वहां बतला दिये और 'पयडीए मोहणिज्जा' इसकी व्याख्या करते हुए इससे जो चौथा विकल्प ध्वनित होता है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथाके पूर्वार्धमें विभक्ति शब्द मुख्य हैं और शेष पद उसके विषयभावसे आये हैं, अतः इस पदसे वीरसेनस्वामीने यह अभिप्राय निकाला है कि गुणधरभट्टारकके मतसे प्रकृतिविभक्ति, स्थिति-विभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंका एक अधिकार हुआ। तथा गाथाके उत्तरार्धमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक इन तीनोंके द्वारा एक प्रदेश-विभक्तिका कथन किया गया है अतः इन तीनोंका एक अधिकार हुआ। इस प्रकार इस बोधे विकल्पके अनुसार १ पेज्जदो-विभक्ति, २ प्रकृति-स्थिति अनुभागविभक्ति, ३ प्रदेश-झीणाझीण स्थित्यन्तिक, ४ बन्ध और ५ संक्रम ये पाँच अधिकार होते हैं।

उक्त चार विकल्पोंके अनुसार ५ अधिकारोंका सूचक कोष्ठक नीचे दिया जाता है—

पेज्जदोपविभक्ति	पेज्जदोपविभक्ति (प्रकृति विभक्ति)	पेज्जदोपविभक्ति (प्रकृति विभक्ति)	पेज्जदोपविभक्ति
स्थिति-विभक्ति (प्रकृतिविभक्ति)	स्थिति-विभक्ति	स्थिति-विभक्ति	प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति
अनुभागविभक्ति (प्रदेशवि० झीणाझीण और स्थित्यन्तिक)	अनुभाग विभक्ति (प्रदेशविभक्ति, झीणा- झीण और स्थित्यन्तिक)	अनुभागविभक्ति	प्रदेशविभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यन्तिक
बन्ध	बन्ध	प्रदेशविभक्ति झीणा- झीण और स्थित्यन्तिक	बन्ध
संक्रम	संक्रम	बन्ध	संक्रम

§ २. संपहि जइवसहाइरियउवइइचुणिसुत्तमस्सिदुण विहतीए परूवणं कस्सामो-

* 'विहत्ति ट्ठिदि अणुभागे च नि' अणियोगदारे विहत्ती णिक्खि-
वियव्वा । णामविहत्ती द्रवणविहत्ती दन्वविहत्ती खेत्तविहत्ती काल-
विहत्ती गणणविहत्ती संठाणविहत्ती भावविहत्ती चेदि ।

§ ३. 'विहत्ति ट्ठिदि अणुभागे च ति' एत्थ जो द्ठिदि 'इदि' सद्दो जेण पच्चयत्थे-
हिंत्तो एदं सद्दकलावं पल्लट्ठावेदि तेणोसो सरूवपयंत्थो (तो) । तत्थ जो विहत्तिसद्दो
तस्स णिक्खेवो कीरदे अणवगयत्थपरूवणादुवारेण पयदत्थग्गहणट्ठं । के ते तस्म विह-
त्तिसद्दस्स अत्था ? णामादिभावपज्जवमाणा । एतेष्वर्थेष्वेकस्मिन्नर्थे विभक्तिर्निक्षेप्तव्या

§ २. अब यनिवृषभ आचार्यके द्वारा कहे गये नृर्णिगृत्रका आश्रय लेकर विभक्तिका
कथन करते हैं—

* 'विहत्ती ट्ठिदि-अणुभागे च' इम वाक्यमें आये हुए विभक्ति शब्दका निक्षेप
करना चाहिये । यथा—नामविभक्ति, स्थापनाविभक्ति, द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, काल-
विभक्ति, गणनाविभक्ति, संस्थानविभक्ति, और भावविभक्ति ।

§ ३. यद्यपि 'ज्ञान, अर्थ और शब्द ये समान नामवाले होते हैं' इस नियमके अनु-
सार 'विहत्ति ट्ठिदि अणुभागे च' यह वाक्यसमुदाय तीनोंका वाचक हो सकता है फिर भी
इस वाक्यमें जो 'इति' शब्द आया है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें यह शब्दसमुदाय
प्रत्यय और अर्थका वाचक नहीं है किन्तु अपने स्वरूपमें प्रवृत्त है । तत्पर्य यह है कि यहाँ
पर 'विहत्ति ट्ठिदि अणुभागे च' इत्याकारक ज्ञान और इत्याकारक अर्थका ग्रहण न करके
'विहत्ति ट्ठिदि अणुभागे च' इन शब्दोंका ही ग्रहण करना चाहिये ।

उस विभक्ति शब्दके अनेक अर्थ हैं । उनमेंसे अनवगत अर्थके कथन द्वारा प्रकृत
अर्थका ज्ञान करानेके लिये उमका निक्षेप करते हैं ।

शंका—उस विभक्ति शब्दके वे अनेक अर्थ कौन कौन हैं ?

समाधान—ऊपर सूत्रमें जो नामसे लेकर भाव तक विभक्तिके भेद बतलाये हैं वे सब

(१) "णाम ठवणा दविणं सन्ने काठ तत्र भाव ण । एत्ता उ विभत्तीणं णिक्खवा छव्वहो । -

सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १ । णिक्खवो विभत्तीणं अज्जिहा दुग्गहो हारं दव्वम्मि । आगमनोआगमओ
नोआगमओ अ सो ति विहो ॥५५२॥ जाणगमरोग्गमविणं तव्वज्जिने य सा भव दुग्गहो । जीवाणमजीवाण य
जीवविभत्ती तहिं दुग्गहो ॥५५३॥ सिद्धाणग्गमिद्वाण य अज्जीवाण तु हाउ दुग्गहो उ । खवीणमखवीण य
विभासियव्वा जहा मुत्ते ॥५५५॥ भाग्गम्मि विभत्ती गल्ल नायव्वा छव्वहम्मि भावम्मि । अहिगारो एत्थ पुण
दव्वविभत्तीणं अज्जयणं ॥५५६॥—उत्त० पाट्ठ० ३६ अ० । (२) कदीनि एत्थ जो इदि सद्दो तस्म अट्ट
'हेतावेव प्रकागद्विष्यवच्छेदे विपर्यये । प्रादुर्भावे समाप्ता च 'इति' शब्द प्रकीर्णित ।' इति वचनात् ।
एतेष्वर्थेषु क्वायमिति शब्दः प्रवर्तते । स्वरूपावधारणं । नन कि सिद्धं । वृत्तिरित्यस्य शब्दस्य योऽर्थः सोऽपि
कृतिः । अर्थाभिधानप्रत्ययास्तुत्यनामधेया उति न्यायान्तस्य ग्रहणं सिद्धम् ।"—वेदाना० घ० आ० प० ५५२।

अध्याय ५० २५१ ।

न्यस्तव्या इति यावत् ।

§ ४. संपदि अट्टण्हं विहत्तीणमत्थपरूवणट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

* णोआगमदो दव्वविहत्ती दुविहा, कम्मविहत्ती चेष णोकम्म-
विहत्ती चेष ।

§ ५. णाम-ट्टवणाविहत्तीणमत्थो वुच्चदे - मरूवपयत्थो (जो) विहत्तिसदो णाम-
विहत्ती । मग्भावसग्भावट्टवणाओ ट्टवणविहत्ती । दव्वविहत्ती दुविहा आगम-णोआगम-
विहत्तिभेएण । विहत्तिपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमविहत्ती । णोआगमविहत्ती
तिविहा, जाणुअसरीरविहत्ती भवियविहत्ती तव्वदिरत्तविहत्ती चेदि । विहत्तिपाहुडजा-
णयम्म भविय-वट्टमाण-समुज्झादसरीरं जाणुअसरीरविहत्ती । भविस्सकाले विहत्तिपाहुड-
जाणओ जीवो भवियविहत्ती । एदामिं विहत्तीणमत्थो जइवमहाइरिण्ण किण्ण परूविदो ?
सुगमत्तादो । णाणावरणादिअट्टकम्मेसु मोहणीयं पयडिभेएण भिण्णत्तादो कम्मविहत्ती,
विभक्ति शब्दके अर्थ हैं ।

उनमेंसे किसी एक अर्थमें विभक्ति शब्दका निक्षेप करना चाहिये यह उक्त कथनका
तात्पर्य है ।

§ ४. अब आठों विभक्तियोंके अर्थका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* नोआगमकी अपेक्षा द्रव्यविभक्ति दो प्रकार की है कर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति
और नोकर्मनोआगमद्रव्यविभक्ति ।

§ ५. अब नामविभक्ति और स्थापनाविभक्तिका अर्थ कहते हैं—जो विभक्ति शब्द
अपने स्वरूपमें प्रवृत्त है और याह्यार्थकी अपेक्षा नहीं करता उसे नामविभक्ति कहते हैं ।
विभक्तिकी सद्भाव और असद्भावरूपमें स्थापना करना स्थापनाविभक्ति है । आगम और
नोआगमके भेदसे द्रव्यविभक्ति दो प्रकारकी है । जो विभक्तिविषयक शास्त्रको जानता है,
परन्तु उसमें उपयोगरहित है उसे आगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । नोआगमद्रव्यविभक्ति
तीन प्रकारकी है—जायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति, भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति और तद्व्य-
तिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति । उनमेंसे विभक्तिविषयक शास्त्रको जाननेवाले जीवके भविष्यत्
वर्तमान और अतीतकालीन शरीरको जायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । जो जीव
आगामी कालमें विभक्तिविषयक शास्त्रको जानेगा उसे भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं ।

शंका—इन विभक्तियोंका अर्थ यन्निवृत्त आचार्यनं क्यां नहीं कहा ?

ममाधान—इनका अर्थ सुगम है, इसलिये नहीं कहा ।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंमें जो मोहनीय कर्म है वह चूंकि प्रकृतिभेदकी अपेक्षा अन्य
कर्मोंसे भिन्न है अतः यहां कर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति पदसे उसका ग्रहण किया

(१) जीवाजीवभयकारणणिरवेक्खो अप्पाणम्मि पयट्टा खंत्तसदो णामवेत्त ।'—ध० खे० पृ० ३ ।
'नत्थ णामंतरमदो वज्जत्थे मोत्तूण अप्पाणम्मि पयट्टो ।'—ध० अ० पृ० १ ।

अद्वकम्माणि वा कम्मविहत्ती, अवसेसदव्वाणि णोकम्मविहत्ती । 'चेव'सदो समुच्चयत्थं दद्ववो ।

* कम्मविहत्ती थप्पा ।

§ ६. कुदो ? बहुवण्णणिज्जादो एदीण अहियारादो वा ।

§ ७. संपहि णोकम्मविहत्तीपरूत्रणद्वमुत्तरसुत्ताणि भणइ—

* तुल्लपदेसियं दव्वं तुल्लपदेसियस्स दव्वस्स अविहत्ती ।

§ ८. तुल्यः समानः प्रदेशः प्रदेशा वा यस्य द्रव्यस्य तत्तुल्यप्रदेशं द्रव्यं । तदन्यस्य तुल्यप्रदेशस्य द्रव्यस्य अविभक्तिर्भवति । विभजनं विभक्तिः, न विभक्तिरविभक्तिः प्रदेशैः समानमिति यावत् ।

* वेमादपदेसियस्स विहत्ती ।

§ ९. मीयतेऽनयेति मात्रा संख्या । विसदृशी मात्रा येषां ते विमात्रा विप्रदेशाः यस्मिन् द्रव्ये तद्विमात्रप्रदेशं द्रव्यं । तस्य विमात्रप्रदेशस्य द्रव्यस्य पूर्वमर्पितद्रव्यं हे । अथवा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंको कर्मतन्त्र्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं । तथा शेष द्रव्य नोकर्मतन्त्र्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहलाते हैं । यहां चूर्णिसूत्रके अन्तमें 'चेव' शब्द आया है उसे समुच्चयार्थक जानना चाहिये ।

* पहले तद्व्यतिरिक्तनोआगमके दो भेदोंमें जो कर्मविभक्ति नामका पहला भेद कह आये हैं उसका कथन स्थगित करते हैं ।

§ ६. शंका—यहां कर्मविभक्तिका कथन स्थगित क्यों किया है ।

समाधान—क्योंकि आगे चलकर कर्मविभक्तिका बहुत वर्णन करना है, अथवा कषागप्राभृतमें उसीका अधिकार है अतः यहां उसका कथन स्थगित किया है ।

§ ७. अब नोकर्मविभक्तिका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र कहते हैं—

* तुल्य प्रदेशवाला एक द्रव्य तुल्य प्रदेशवाले दूसरे द्रव्यके साथ अविभक्ति है ।

§ ८. तुल्य और समान ये दोनों शब्द समानार्थवाची हैं । अतः यह अर्थ हुआ कि जिस द्रव्यके एक या अनेक प्रदेश समान होते हैं वह द्रव्य तुल्य प्रदेशवाला कहा जाता है । वह तुल्य प्रदेशवाला द्रव्य अन्य तुल्य प्रदेशवाले द्रव्यके साथ अविभक्ति अर्थात् समान है । विभाग करनेको विभक्ति कहते हैं और विभक्तिके अभावको अविभक्ति कहते हैं । यहां जिसका अर्थ प्रदेशोंकी अपेक्षा समान होता है ।

* विवक्षित द्रव्य उससे असमान प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति है ।

§ ९. जिसके द्वारा माप अर्थात् गणना की जाती है उसे मात्रा अर्थात् संख्या कहते हैं । तथा 'वि' का अर्थ विसदृश है । अतः यह अर्थ हुआ कि जिस द्रव्यमें विमात्र अर्थात् विसदृश संख्यावाले प्रदेश पाये जाते हैं उसे विमात्रप्रदेशवाला द्रव्य कहते हैं ।

(१) "मादा णाम सग्गिम्त । विग्गदा मादा विमादा ।"—प० भा० पत्र ९०५ ।

विभक्तिरसमानं भवति प्रदेशापेक्षया न सत्त्वादिना; सर्वेषां तेन सादृश्योपलम्भात् ।

* तदुभयण अवत्तव्वं ।

§ १०. विहत्ति त्ति वा अविहत्ति त्ति वा ममाणाममाणदव्वावेक्खाए तमप्पिय-
दव्वं विहत्ति अविहत्ति त्ति वा अवत्तव्वं; दोहि धम्मोहि अकमेण जुत्तस्स दव्वस्स पहाण-
भावेण वोत्तुमसक्किज्जमाणत्तादो ।

* खेत्तविहत्ती तुल्लपदेमोगाढं तुल्लपदेमोगाढस्म अविहत्ती ।

§ ११. खेत्तविहत्ती त्ति गन्थ 'वुच्चदे' इति एदीए किरियाए सह संबधो कायव्वो;
अण्णहा अत्थणिण्णयाभावादो । किं खेत्तं ? आगामं;

"खेत्तं खल्लुं आगामं तच्चिव्वरीयं च हवन्नि णोखेत्तं ॥१॥" इति वयणादो ।

§ १२. तुल्याः प्रदेशाः यस्य तत्तुल्यप्रदेशं । कः प्रदेशः ? निर्भाग आकाशा-
वयवः । तुल्यप्रदेशं च तन् अवगाढं च तुल्यप्रदेशावगाढं । तमण्णस्म तुल्लपदेसो-
विवक्षित द्रव्य उभ विमात्र प्रदेशवाले द्रव्यकं साथ विभक्ति अर्थात् असमान है । यहां यह
असमानता प्रदेशोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, सत्त्वादिककी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्त्वा-
दिककी अपेक्षा सब द्रव्योंमें समानता पाई जाती है ।

* विभक्ति द्रव्य और अविभक्ति द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा अर्पित द्रव्य
अवत्तव्य है ।

§ १०. विभक्तिरूप और अविभक्तिरूप अर्थात् समान और असमान द्रव्यकी
अपेक्षा वह अर्पित द्रव्य युगपत् विभक्ति और अविभक्तिकी विवक्षा होनेके कारण अवत्तव्य
है, क्योंकि दोनों धर्मोंसे एक साथ संयुक्त हुए द्रव्यका प्रधान रूपसे कथन नहीं किया
जा सकता है ।

* अब क्षेत्रविभक्ति निक्षेपका कथन करते हैं । तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ दूसरे
तुल्य प्रदेशवाले अवगाढके साथ अविभक्ति है ।

§ ११. सूत्रमें 'खेत्तविहत्ती' उभ पदका 'वुच्चदे' उभ क्रियाके साथ सम्बन्ध कर लेना
चाहिये, क्योंकि उभके बिना अर्थका निर्णय नहीं हो सकता है ।

शंका-क्षेत्र किसे कहते हैं ?

समाधान-आकाशको क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि "क्षेत्र नियमसे आकाश है और
आकाशसे विपरीत नो क्षेत्र है ॥ १ ॥" ऐसा आगम वचन है ।

§ १२. जिसके प्रदेश समान होते हैं वह तुल्य प्रदेशवाला कहलाता है ।

शंका-प्रदेश किसे कहते हैं ?

समाधान-जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाशके अवयवको प्रदेश
कहते हैं ।

गाढस्स अविहत्ती ममाणं । वेमादपदेमोगाढस्स विहत्ती । तदुभएण अवत्तव्वं । एदे वे वि वियप्पा सुत्तेण ण उत्ता, कथमेत्थ उच्चंति ? ण; देमापामियभावेण सुत्तेण वेव परुविदत्तादो ।

* कालविहत्ती तुल्लममयं तुल्लममयस्स अविहत्ती ।

§ १३. कालविहत्तिणिक्खेवम्म अन्थं परुवेमि ति जाणावण्ठं कालविहत्तिणि-
हेमो । तुल्याः समानाः समयः तुल्यममयाः, तेऽस्य मन्तीति तुल्यममयिकं द्रव्यम् ।
तमणस्स तुल्लममइयम्म दव्वस्स अविहत्ती ममाणं । कुदो ? कालावेक्खाए । वेमाद-
ममइयं विहत्ती, तदुभएण अवत्तव्वं ।

* गणणविहत्तीए ए हो एक्कस्स अविहत्ती ।

§ १४. एक्कस्स ति तइयाए छट्टिणिहेमो दट्टव्वो । एक्को मंवाविसेमो एक्केण
मंवाविसेसेण मट्ठ अविहत्ती मग्गिसो । वेमादगणणाए विहत्ती । तदुभएण अवत्तव्वं ।

जो तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ हैं वह तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ कहलाना है । वह तुल्य प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ अविभक्ति अर्थात् समान है । असमान प्रदेशवाले अवगाढ़के साथ विभक्ति है । तथा युगपत् दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्य है ।

शंका—विभक्ति और अवक्तव्य ये दोनों विकल्प चूर्णमूत्रमें नहीं कहे हैं फिर यहां किमलिये कहे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उपर्युक्त दोनों विकल्प देशामर्पकभावसे मूत्रके द्वारा कहे गये हैं । अतः उनका कथन करनेमें कोई दोष नहीं है ।

* अब कालविभक्तिका अर्थ कहने हैं—तुल्य समयवाला द्रव्य तुल्य समयवाले द्रव्य की अपेक्षा अविभक्ति है ।

§ १३. 'अय काल विभक्ति निक्षेपका अर्थ कहते हैं' इतनी बातका ज्ञान करानेके लिये मूत्रमें 'कालविहत्ती' पद दिया है । तुल्य अर्थात् समान समयोंको तुल्यसमय कहते हैं । वे तुल्य समय जिन द्रव्यके पाये जाते हैं वह द्रव्य तुल्यसमयवाला कहा जाना है । वह तुल्य समयवाला द्रव्य अन्य तुल्य समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा अविभक्ति अर्थात् समान है, क्योंकि यहां कालकी अपेक्षा समानता विवक्षित है । तथा वह विवक्षित द्रव्य असमान समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा विभक्ति है और समान तथा असमान दोनों समयोंकी एक साथ प्रधानरूपसे विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है ।

* गणनाविभक्तिकी अपेक्षा एक संख्या एक संख्याका अविभक्ति है ।

§ १४. 'एक्कस्स' यह षष्ठीविभक्तिरूप निर्देश तृतीया विभक्तिके अर्थमें समझना चाहिये । एक संख्याविशेष एक संख्याविशेषके साथ अविभक्ति अर्थात् समान है । तथा वह विमदृश संख्यावाली गणनाके साथ विभक्ति अर्थात् असमान है और सदृश तथा विमदृश दोनों प्रकारकी गणनाओंकी युगपत् विवक्षा होने पर अवक्तव्य है ।

* संठाणविहत्ती दुविहा संठाणदो च, संठाणवियप्पदो च ।

§ १५. तंस-चउरंस-वट्टादीणि संठाणाणि । तंस-चउरंस-वट्टाणं मेया संठाणवियप्पा । एवं दुविहा चैव संठाणविहत्ती होदि अण्णस्स असंभवादो ।

* संठाणदो वट्टं वट्टस्स अविहत्ती ।

§ १६. संठाणदो 'विहत्ती उच्चदि' ति पयसंबंधो कायच्चो; अण्णहा अत्थावग-मणाणुववत्तीदो । अण्णदच्चट्टियवट्टं पेक्खिदूण वट्टस्स अण्णदच्चट्टियस्स अविहत्ती अभेदो । पुधभूददच्च-खेत्त-काल-भावेसु वट्टमाणाणं कथमभेदो ? ण, दच्च-खेत्त काला-णमसंठाणाणं भेदेण संठाणाणं भेदविरोहादो । किं च, पडिहासभेएण पडिहासमाणस्स भेओ, ण च एत्थ सो उ वट्टदे, तम्हा अभेयो इच्छेयच्चो । दोण्हं वट्टाणं सरिसत्तं चैव उवल्लभइ णेयत्तमिदि णासंक्खिज्जं; ममाणेयत्ताणं भेदाभावादो । दच्चादिणा णिरुद्धाणं वट्टाणं समाणत्तं तेहि चैव अणिरुद्धाणमेयत्तमिदि सयल्लोयप्पसिद्धमेयं । तम्हा वट्टस्स वट्टेण अविहत्ति ति इच्छेयच्चं ।

* संस्थान और संस्थानविकल्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकारकी है ।

§ १५. त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल आदिको संस्थान कहते हैं । तथा त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल संस्थानोंके भेदोंको संस्थानविकल्प कहते हैं । इसप्रकार संस्थान-विभक्ति दो प्रकारकी ही होती है, क्योंकि, और कोई भेद संभव नहीं है ।

* संस्थानकी अपेक्षा विभक्तिका कथन करते हैं—एक गोल द्रव्य दूसरे गोल द्रव्यके साथ अविभक्ति है ।

§ १६. 'संठाणदो' इस पदके साथ 'विहत्ती उच्चदि' इतने पदका संबन्ध कर लेना चाहिये, क्योंकि उमके बिना अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है । अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाईका अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाईके साथ अविभक्ति अर्थात् अभेद है ।

शंका—भिन्न द्रव्य, भिन्न क्षेत्र, भिन्न काल और भिन्न भावमें स्थित संस्थानोंका अभेद कैसे हो सकता है ?

समाधान—क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और काल असंस्थानरूप हैं इसलिये इनके भेदसे संस्थानोंका भेद माननेमें विरोध आता है । दूसरे, प्रतिभासके भेदसे प्रतिभासमान पदार्थमें भेद माना जाता है परन्तु वह यहां पाया नहीं जाता है, इसलिये अभेद स्वीकार करना चाहिये ।

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि गोल दो द्रव्योंमें समानता ही पाई जाती है, एकत्व नहीं, सो उमका ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, समानता और एकतामें कोई भेद नहीं है । द्रव्यादिककी अपेक्षासे जब गोलाईयां द्रव्यादिगत विवक्षित होती हैं तब उनमें समानता मानी जानी है और जब उनमें द्रव्यादिकी विवक्षा नहीं रहती तो वे एक कहलाती हैं । इसप्रकार यह बात सकल लोकप्रसिद्ध है । इसलिये एक गोलाईकी दूसरी गोलाईके साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिये ।

* वट्टं तंमस्म वा चउरंमस्म वा आयदपरिमंडलस्म वा विहत्ती ।

§ १७. कुदो ? मरिमत्ताभावादो । एवं तंम- [चउरंमा] ईणं पि वत्तव्वं ।

* वियप्पेण वट्टमंटाणाणि अमंखेज्जा लोगा ।

§ १८. एदेसिममंखेज्जा[उज्ज]लोयत्तं आगमदो चेवावगम्मदे, ण जुत्तीदो; अमंखे-

विशेषाथ—यहां संस्थानके विषयमें दो शंकाएं उठाई गई हैं। पहली यह है कि संस्थान द्रव्य आदिकी तरह अलग तो पाये नहीं जाते। वे तो द्रव्यादिगत ही होते हैं और द्रव्यादि परस्पर भिन्न होते हैं। अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रसे भिन्न होता है, अतः इनके आश्रयसे रहनेवाले संस्थान एक कैसे हो सकते हैं? वीरसेन-स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि स्वयं द्रव्यादि संस्थान-रूप नहीं हैं। जो द्रव्य उभय गणय त्रिकोण है वह कालान्तरमें गोल हो जाता है। इसी प्रकार अन्यके सम्बन्धमें भी जानना। अतः द्रव्यादिकसे संस्थानका कथंचित् भेद सिद्ध हो जाता है। और जब संस्थान द्रव्यादिकसे भिन्न हैं तब द्रव्यादिकके भेदसे संस्थानमें भेद मानना युक्त नहीं। संस्थानोंमें यदि भेद होगा तो स्वयं भेदोक्ती अपेक्षासे ही होगा अन्य द्रव्यादिकी अपेक्षासे नहीं। दूसरी शंका यह है कि पृथक् दो द्रव्योंमें जो समान दो गोलाइयां रहेंगी उन्हें समान कहना चाहिये एक नहीं। वीरसेनस्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया उसका भाव यह है कि उन समान दो गोलाईयोंमें जो हमें पार्थक्य दिखाई देता है वह द्रव्यादिभेदके कारण दिखाई देता है। यदि हम द्रव्यादिभी विवक्षा न करें तो वे गोलाईयां एक हैं। हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्याह्नमें भी उसे देखा। इस-प्रकार कालभेदसे उभयमें भेद हो जाता है। पर यदि कालभेदकी विवक्षा न करे तो वह एक है। एक आदमीने किसी गुन्दम प्रतिमाको देखकर शिल्पीसे उम्मी आकारकी दूसरी प्रतिमा बनवाई। प्रतिमाके बन जाने पर बनवानेवाला उसे देखकर कहना है 'वही है' इसमें कोई सन्देह नहीं। यद्यपि यहां पहली प्रतिमासे उक्त दूसरी प्रतिमा भिन्न है पर आकार भेद न होनेसे आकारकी अपेक्षा वे एक कही जाती है। इस प्रकार द्रव्यादिकी अपेक्षा न रहने पर संस्थानोंमें अभेद सिद्ध हो जाता है।

* विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण अथवा आयत परिमंडल संस्थानके साथ विभक्ति है ।

§ १७. चूंक गोलाईकी त्रिकोण आदि संस्थानोके साथ सदृशता नहीं पाई जाती है इसलिये गोलाई त्रिकोण आदिके समान नहीं है। इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण आदिका भी कथन करना चाहिये।

* उत्तरोत्तर भेदोंकी अपेक्षा गोल आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं ।

§ १८. गोल आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं, यह बात आगमसे ही जानी जाती है

(१) तस्स (ब्र० ००४) ईण-स०; तस्स पयाहण-अ० ।

जलोगमेत्तसंखाए वट्टमाणमदि-सुदणाणाणमणुवलंभादो ।

* एवं तंस-चउरंस-आयदपरिमंडलाणं ।

§ १६. जहा वट्टसंठाणस्स असंखेज्जलोगमेत्तवियप्पा परूविदा, तहा तंस-चउरंस-आयदपरिमण्डलाणं पि वियप्पा असंखेज्जा लोगमेत्ता त्ति वत्तव्वं ।

* सरिसवट्टं सरिसवट्टस्स अविहत्ती ।

§ २०. 'सरिसवट्टस्स' इत्ति उत्ते समाणवट्टस्सेनि भण्णिदं होदि । एसा छट्ठीविहत्ती तइयाए अत्थे दट्टव्वा । तेण सरिसवट्टं सरिसवट्टेण सह अविहत्ती अभिण्णमिदि उत्तं होदि । सरिसवट्टमसरिसवट्टेण सह विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वं ।

* एवं सञ्चत्थ ।

§ २१. जहा वट्टम्म तिण्ण भंगा एक्कम्म परूविदा तहा सेमअसंखेज्जलोगमेत्तवट्ट-संठाणाणं पुध पुध तिण्णहा परूवणा कायव्वा । सेसतंस-चउरंस-आयदपरिमंडल-संठाणाणमसंखेज्जलोभमेत्ताणमेवं चैव परूवणा कायव्वा । एदं कत्तो उपलब्भदे ? 'एवं युक्तिसे नहीं, क्योंकि असंख्यातलोक प्रमाण संख्यामें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है ।

* इसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डलके विषयमें भी जानना चाहिये ।

§ १६. जिस प्रकार गोल संस्थानके असंख्यात लोकप्रमाण विकल्प कहे हैं उसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डल आकारोंके भी विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं ऐसा कथन करना चाहिये ।

* सदृश गोल संस्थान दूसरे सदृश गोल संस्थानके साथ अविभक्ति है ।

§ २०. सूत्रमें आए हुए 'सरिसवट्टस्स' इस पदका अर्थ समान गोलाई होता है । 'सरिस-वट्टस्स' पदमें जो पष्ठी विभक्ति आई है वह तृतीया विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिये । इसलिये यह अर्थ हुआ कि समान गोल आकार दूसरे समान गोल आकारके साथ अविभक्ति अर्थात् अभिन्न है । तथा समान गोल आकार असमान गोल आकारके साथ विभक्ति है । तथा वह समान गोल आकार दूसरे समान और असमान गोल आकारोंकी एक साथ विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है ।

* इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिये ।

§ २१. जिस प्रकार एक गोल आकारके तीन भंग कहे हैं उसी प्रकार शेष असंख्यात लोक प्रमाण गोल आकारोंका अलग अलग तीन भेदरूपसे कथन करना चाहिये । तथा इनसे अतिरिक्त जो असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमण्डल आकार हैं उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये ।

शंका—'शेष असंख्यात लोकप्रमाण त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत परिमण्डल संस्थानोंके

सव्वत्थ' इत्ति सुत्तणिदेसादो । ण तं सेमवट्टसंठाणाणि चेव अस्सिदूण परूविदं अउत्त-
सेससंठाणवियप्पे अस्मिदूण परूविदत्तादो ।

* जा सा भावविहत्ती सा दुविहा, आगमदो य णोआगमदो य ।

§ २२. पुव्वं णिदिट्ठभावविहत्तीसंभालणट्ठं 'जा सा भावविहत्ति' ति परूविदं । आगमो
सुदणाणं, णोआगमो सुदणाणवदिरत्तभावो । एवं भावविहत्ती दुविहा चेव होदि ।

* आगमदो उवजुत्तो पाहुडजाणओ ।

§ २३. पाहुडजाणओ जीवो उवजुत्तो पाहुडउवजागसहिओ आगमविहत्ती होदि ।

* णोआगमदो भावविहत्ती ओदइओ ओदइयस्स अविहत्ती ।

§ २४. ओदइओ उवसमिओ खइओ खओवसमिओ पारिणामिओ चेदि णोआगम-
भावो पंचविहो होदि; सव्वभावणमेदेसु चेव पंचसु भावेसु पवेसादो । तत्थ ओदइओ
भी तीन भंग कहना चाहिये' यह अर्थ कहाँसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—'एवं सव्वत्थ' इस निर्देशसे यह अर्थ उपलब्ध होता है । क्योंकि यह सूत्र
केवल गोल आकारके शेष भेदोंकी अपेक्षा ही नहीं कहा है किन्तु संस्थानके अनुक्त समस्त
विकल्पोंकी अपेक्षासे भी कहा है ।

* ऊपर जो भाव विभक्ति कही है वह दो प्रकारकी है—आगमभावविभक्ति और
नोआगमभावविभक्ति ।

§ २२. पहले विभक्तिका निक्षेप करते समय जिग भावविभक्तिको कह आये हैं उसीका
निर्देश करनेके लिये चूर्णिसूत्रमें 'जा सा भावविहत्ती' यह पद दिया है । आगमका अर्थ
श्रुतज्ञान है और श्रुतज्ञानसे व्यतिरिक्त भावको नोआगम कहते हैं । इसप्रकार भावविभक्ति
दो प्रकारकी ही होती है ।

* जो जीव विभक्तिविषयक शास्त्रको जानता है और उसमें उपयोगसहित है
उसे आगमभावविभक्ति कहते हैं ।

§ २३. जो जीव विभक्तिका प्रतिपादन करने वाले शास्त्रका ज्ञाता है और उसमें
उपयुक्त है अर्थात् उसका उपयोग भी विभक्तिविषयक शास्त्रमें लगा हुआ है । वह जीव
आगमभावविभक्ति कहलाता है ।

* नोआगमभावविभक्ति, यथा—एक औदयिक भाव दूसरे औदयिक भावके
साथ अविभक्ति है ।

§ २४. औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके भेदसे नो-
आगमभाव पांच प्रकारका है, क्योंकि, समस्त भावोंका इन्हीं पांच भावोंमें अन्तर्भाव हो
जाता है । उनमेंसे एक औदयिकभाव दूसरे औदयिक भावके साथ अविभक्ति है, क्योंकि

(१) "भावविभक्तिस्तु जीवाजीवभावभेदात् द्विधा । तत्र जीवभावविभक्ति. औदयिकोपशमिकक्षायि-
कक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकभेदात् षट्प्रकारा । × अजीवभावविभक्तिस्तु भूताना वर्णगन्धरस-
स्पर्शसंस्थानपरिणामः । अमूर्ताना गतिस्थित्यवगाहवर्तनादिक इति ।" सू० भु० १ म० ५ उ० १ टीका ।

ओदइएण सह अविहत्ती; ओदइयभावेण भेदाभावादो ।

* ओदइओ उवसमिएण भावेण विहत्ती ।

§ २५. कुदो ? उदयजणिदेण भावेण सह उवसमजणिदभावस्स समाणत्तविरोहादो ।

* तदुभएण अवत्तव्वं ।

§ २६. ओदइओ भावो ओदइय-उवसमिय-भावेहि सणिकासिज्जमाणो अवत्तव्वो होदि, विहत्ति-अविहत्तिसद्दाणमकमेण भणणोवायाभावादो ।

* एवं सेसेसु वि ।

§ २७. जहा ओदइयस्स उवसमिएण भावेण सणिकासिज्जमाणस्स वे भंगा परू-विदा तहा सेसेसु खइय-क्खओवसमिय-पारिणामियभावेसु वि सणिकासिज्जमाणस्स वे वे भंगा परूवेयव्वा । तं जहा, ओदइयो खओवसमियस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वो । ओदइओ खइयस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वं । ओदइओ पारिणामियस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तव्वं ।

* एवं सव्वत्थ ।

उन दोनों भावोंमें औदयिकरूपसे कोई भेद नहीं पाया जाता है ।

* औदयिकभाव औपशमिकभावके साथ विभक्ति है ।

§ २५. शंका—औदयिक भाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति क्यों है ?

समाधान—क्योंकि उदयजन्य भावके साथ उपशमजन्य भावकी समानता माननेमें विरोध आता है, इसलिये औदयिकभाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति है ?

* औदयिक और औपशमिक इन दोनोंकी एक साथ विवक्षा करनेसे औदयिक भाव अवक्तव्य है ।

§ २६. औदयिक और औपशमिक भावोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ औदयिक भाव अवक्तव्य है, क्योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंके एक साथ कथन करनेका कोई उपाय नहीं पाया जाता है ।

* इसी प्रकार शेष भावोंमें भी जानना चाहिये ।

§ २७. जिसप्रकार औपशमिक भावके सम्बन्धसे औदयिक भावके दो भंग कहे हैं वसीप्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकभावोंके सम्बन्धसे भी औदयिक भावके दो दो भंग कहना चाहिये । वे इसप्रकार हैं—औदयिकभाव क्षायोपशमिक भावके साथ विभक्ति है तथा औदयिक और क्षायोपशमिक इन दोनोंकी युगपद् विवक्षा होनेसे अवक्तव्य है । औदयिक भाव क्षायिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा क्षायिक इन दोनोंकी युगपत् विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है । औदयिक पारिणामिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा पारिणामिक इन दोनों भावोंकी युगपत् विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है ।

* इसीप्रकार सर्वत्र जानना ।

§ २८. जहा ओदइयस्म भावस्म सग-पर-संजोगेण तिण्णि भंगा परूविदा तहा उवसमिय-न्वओवममिय खइय-पारिणामियाणं भावाणं पुध पुध तिण्णि भंगा परूवेयव्वा ।

* २ ।

§ २६. जइवमहाइरिएण एमो दोण्हमंको किमट्टमेत्थ इविदो ? सगहियट्टिय-अन्थस्म जाणावणट्टं । मां अन्थो अक्खरोहि क्किण्ण परूविदो ? वित्तिसुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे णिण्णामो गथो होदि त्ति भएण ण परूविदो । तं जहा, ण ताव तारिमो गंथो वित्तिसुत्तं सुत्तस्सेव विवरणाए संखित्तसहरयणाए संगहियसुत्तासेसत्थाए वित्ति-सुत्तववण्णमादो । ण टीका; वित्तिसुत्तविवरणाए टीकाववण्णमादो । ण पंजिया; विनि-सुत्तविसमपयभंजियाए पंजियववण्णमादो । ण पद्धई वि, सुत्तवित्तिविवरणाए पद्धईनव-एसादो । तदो णिण्णामत्तं गंथस्म मा होह(हि) दि त्ति अक्खरोहि ण कहिदो ।

§ ३०. को सो हिययट्टियत्थो ? उच्चदं, दव्व-खेत्त-काल भाव-मंटाणविहत्तीसु जे

§ २८. जिसप्रकार औदयिक भावके स्व और परके संयोगसे तीन भंग कहे हैं उसीप्रकार औपशमिक, श्वायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावोके भी अलग अलग तीन तीन भंग कहना चाहिये । अर्थात् प्रत्येकके तीन तीन भंग होते हैं ।

* २

§ २९. शंका—यतिवृषभाचार्यने यहां पर यह दोका अंक किसलिये रखा है ?

ममाधान—अपने हृदयमें स्थित अर्थका ज्ञान करानेके लिये उन्होंने यहां दोका अंक रखा है ।

शंका—वह अर्थ अक्षरोंके द्वारा क्यों नहीं कहा ?

ममाधान—वृत्तिमूत्रके अर्थका कथन करने पर ग्रन्थ विना नामवाला हो जाता इस भयसे यतिवृषभ आचार्यने अपने हृदयमें स्थित अर्थका अक्षरों द्वारा कथन नहीं किया । इसका सुलाना इस प्रकार है—वृत्तिसूत्रके अर्थको कहनेवाला ग्रन्थ वृत्तिसूत्र तो हो नहीं सकता क्योंकि जो सूत्रका ही व्याख्यान करता है, किन्तु जिसकी शब्दरचना संक्षिप्त है और जिसमें सूत्रके मर्मस्त अर्थको संघर्षात कर लिया गया है, उसे वृत्तिमूत्र कहते हैं । उक्त ग्रन्थ टीका भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्तिमूत्रके विशद व्याख्यानको टीका कहते हैं । उक्त ग्रन्थ पंजिका भी नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तिसूत्रके विषय पदोंको स्पष्ट करनेवाले विवरणको पंजिका कहते हैं । तथा उक्त ग्रन्थ पद्धति भी नहीं है, क्योंकि सूत्र और वृत्ति इन दोनोंका जो विवरण है उसकी पद्धति संज्ञा है । अतः यह ग्रन्थ विना नामका न हो जाय, इसलिये यतिवृषभ आचार्यने अपने हृदयमें स्थित अर्थका अक्षरोंद्वारा कथन न करके दोका अंक रखकर उसका सूचनमात्र कर दिया है ।

§ ३०. शंका—वह हृदयमें स्थित अर्थ क्या है ।

समाधान—द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, कालविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविभक्ति

निष्णि तिष्णि भंगा कहिदा तत्थ दोण्हं दोण्हं चैव भंगाणं गहणं कायच्चं, अविभत्तीण ण गहणं । कुदो ? विहत्तिणिक्खेवे कीरमाणे विहत्तिविरुद्धत्थस्स गहणाणुववत्तीदो । जदि एवं, तो अवत्तव्वभंगो वि ण घेत्तव्वोः तत्थ विहत्ताण अत्थाभावादो । ण; विहत्तीण विणा दुसंजोगाभावेण अवत्तव्वभावाणुववत्तीदो । विहत्ती-अविहत्तीणं संजोगो कथं विहत्ती होदि ? ण, कथंच भेदो अत्थि त्ति अवत्तव्वम्म वि विहत्तिभावुवलंभादो ।

इनमेंसे प्रत्येकके जो तीन तीन भंग कहे हैं उनमेंसे दो दो भंगोंका ही ग्रहण करना चाहिये अविभक्तिका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि विभक्तिका निक्षेप करते समय विभक्तिसे विरुद्ध अविभक्तिका ग्रहण नहीं हो सकता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो अवत्तव्य भंगका भी ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, अवत्तव्य भंगमें भी विभक्तिका अर्थ नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विभक्तिके बिना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंका संयोग नहीं होता और उसके न होनेसे अवत्तव्य भंग भी नहीं बनता । इससे प्रतीत होता है कि अवत्तव्यमें विभक्तिका अर्थ पाया जाता है, और इसलिये विभक्तिमें अवत्तव्य भंगका भी ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—विभक्ति और अविभक्तिका संयोगरूप अवत्तव्य भंग विभक्ति कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवत्तव्यका विभक्तिये कथंचित् भेद है, सर्वथा नहीं, इसलिये अवत्तव्यमें भी विभक्तिरूप धर्म पाया जाता है ।

विशेषार्थ—विभक्तिका निक्षेप नाग, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और भावकी अपेक्षा आठ प्रकारसे किया है । इनमेंसे द्रव्यविभक्तिके नोक्संभेदके और क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और भाव इन छहोंमेंसे प्रत्येकके विभक्ति, अविभक्ति और अवत्तव्य ये तीन तीन भंग बताये हैं । तथा यह भी बताया है कि प्रकृतमें विभक्ति और अवत्तव्य इन दोका ही ग्रहण किया है । यहां अविभक्तिका ग्रहण क्यों नहीं हो सकता, इसका यह कारण बतलाया है कि यहां विभक्तिका प्रकरण है अतः अविभक्तिको यहां कोई अवकाश नहीं । पर अवत्तव्य विभक्तिमाक्षेप होनेसे उनका ग्रहण हो जाता है । यही सबब है कि आगे सभी अनुयोगद्वारोंमें जहां विभक्ति पाई जाती है, और जहां विभक्तिके साथ अविभक्ति पाई जाती है उनका ग्रहण किया है । पर जहां केवल अविभक्ति ही पाई जाती है ऐसे केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि मार्गणास्थानोंका विचार नहीं किया है । चूर्णिसूत्रकारने इस अभिप्रायका उल्लेख अक्षरोंद्वारा न करके '२' के अंकद्वारा किया है । इस पर वीरसेनस्वामीका कहना है कि यदि चूर्णिसूत्रकार इस अभिप्रायको अक्षरों द्वारा प्रकट करते तो वह मूल ग्रन्थपर चूर्णिसूत्र न होकर चूर्णिसूत्रके अर्थका स्पष्टीकरणमात्र होता, और इस प्रकार ग्रन्थ बिना नामका हो जाता । यही सबब है कि चूर्णिसूत्रकारने उक्त अभिप्राय अंक

§ ३१. एदासु विहत्तीसु बहुवियप्पासु एदीए विहत्तीए पओजणं ति जाणावणहं उत्तरसुत्तमागदं ।

* जा सा दब्बविहत्तीए कम्मविहत्ती तीए पयदं ।

§ ३२. 'जा सा' इदि वयणेण दब्बविहत्ती मंभालिदा । मा दुविहा, कम्मविहत्ती णोकम्मविहत्ती चेदि । तत्थ दब्बविहत्ती वि जा कम्मविहत्ती तीए कम्मविहत्तीए पयदं ।

* तत्थ सुत्तगाहा ।

§ ३३. जइवसहाइरिओ अप्पणो भणिदपण्णाग्मअत्थाहियारेसु चुणिसुत्ते भणंतो सगमंक्पियअत्थाहियारे गाहासुत्तम्मि मंदंसणहं ' तत्थ सुत्तगाहा उच्चदि ' ति भणदि ।

द्वारा सूचित किया है । द्रव्य विभक्तिमें प्रदेश भेदसे द्रव्य भेद, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्रकी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, कालविभक्तिमें समयादिककी न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, गणना विभक्तिमें संख्याभेद, संस्थानविभक्तिमें आकारभेद और भावविभक्तिमें औदयिक आदि भावभेद लिये गये हैं । अविभक्तिमें इन सबकी समानता ली गई है और एक साथ विभक्ति और अविभक्ति दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्यताका ग्रहण किया है । ये सब द्रव्यविभक्ति आदि कर्मविभक्तिके नो कर्म है अतः इनका यहां इसी रूपसे कथन किया है । कर्मविभक्तिका आगे विस्तारसे कथन किया ही है इसलिए यहां उसके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है । फिर भी प्रकृतमें कर्मविभक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके एक भेदरूप मोहनीयकर्मका ग्रहण करना चाहिये । मोहनीय कर्मके साथ विभक्ति शब्दके जोड़नेकी सार्थकता इसीमें है । यद्यपि इस विषयमें आगे और भी अनेक समाधान पाये जाते हैं पर हमारी समझसे उनमें यह समाधान मुख्य है ।

§ ३१. अब अनेक प्रकारकी इन विभक्तियोंसे प्रकृतमें अमुक विभक्तिसे प्रयोजन है, यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।

* द्रव्यविभक्तिके दो भेदोंमें जो कर्मविभक्ति कह आये हैं प्रकृत कषायप्राभृतमें उससे प्रयोजन है ।

§ ३२. चूर्णिसूत्रमें आये हुए 'जा सा' इस वचनसे द्रव्यविभक्तिका निर्देश किया है । वह द्रव्यविभक्ति कर्मविभक्ति और नोकर्मविभक्तिके भेदसे दो प्रकारकी है । उनमेंसे जो कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्ति है, प्रकृत कषायप्राभृतमें उससे प्रयोजन है ।

* अब इस विषयमें सूत्रगाथा देते हैं ।

§ ३३. अपने द्वारा स्वयं कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंमें चूर्णिसूत्रोंका कथन करते हुए यतिवृषभ आचार्य अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंको गाथासूत्रमें दिखानेके लिये 'यहां सूत्रगाथा देते हैं' इस प्रकार कहते हैं ।

(४) पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति तह द्विदीए अणुभागे ।

उक्कस्समणुक्कस्सं भीणमभीणं च द्विदियं वा ॥२२॥

* पदच्छेदो । तं जहा-‘पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति’ त्ति एसा पयडि-विहत्ती ।

§ ३४. एत्थ पदं चउत्थिहं, अन्थपदं पमाणपदं मज्झिमपदं ववत्थापदं चेदि । तन्थ जेहि अक्खरोहि अन्थोवल्लूही होदि तमन्थपदं । वाक्यमर्थपदमित्यनर्थान्तरम् । अट्टक्खरणिप्पणं पमाणपदं । सोलहसयचोत्तीसकोडि-तेयासीदिलक्ख-अट्टहसरिसय-अट्टासीदिअक्खरोहि मज्झिमपदं । जत्तिएण वक्कममूहेण अहियारो समप्पदि तं ववत्था-पदं सुवंतमिजंतं वा । एदेसु पदेसु कस्म पदस्स वोच्छेदो ? ववत्थापदस्स अहियारस-रूवस्स । ‘पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति’ त्ति एत्थतण ‘इदि’ सद्दो एदस्स सरूवपयत्थ(-त्त-) यत्तं जाणावेदि तेण एमा पयडिविहत्ती पढमो अन्थाहियारो त्ति सिद्धो ।

* तह द्विदी चेदि एमा द्विदिविहत्ती २ ।

§ ३५. द्विदिविहत्ती णाम एमो विदियो अत्थाहियारो । सेसं सुगमं ।

मोहनीय प्रकृतिविभक्ति, मोहनीय स्थितिविभक्ति, मोहनीय अनुभागविभक्ति, प्रदेशविषयक उत्कृष्टानुकृष्ट, शीणाश्लीण और स्थित्यन्तिक ये छह अर्थाधिकार हैं ।

* अब इस गाथाका पदच्छेद करते हैं । वह इस प्रकार है-‘पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति’ इस पदसे प्रकृतिविभक्ति सूचित की है ।

§ ३४. पद चार प्रकार है-^५अर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद और व्यवस्थापद । उनमेंसे जितने अक्षरोंमें अर्थका ज्ञान होता है उसे अर्थपद कहते हैं । वाक्य और अर्थ-पद ये एकार्थवाची हैं । अर्थात् अर्थपदसे आशय वाक्यका है । आठ अक्षरोंसे निष्पन्न हुआ एक प्रमाणपद होता है । सोलहमौ चौतीस करोड़ तैरामी लाख भात हजार आठसौ अठासी अक्षरोंका एक मध्यमपद होता है । जितने वाक्योंके समूहसे एक अधिकार समाप्त होता है उसे व्यवस्थापद कहते हैं । अथवा, सुवन्त और लिगन्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं ।

शंका-यहां इन पदोंमेंसे किम पदका पृथक्करण किया है ?

समाधान-अधिकारका सूचक जो ‘पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति’ यह व्यवस्थापद है, उसका ही यहां पृथक्करण किया है ।

‘पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति त्ति’ इसमें आया हुआ ‘इत्ति’ शब्द इस पदके स्वरूपका ज्ञान कराना है । अतः यह प्रकृतिविभक्ति नामका पहला अर्थाधिकार है यह सिद्ध होता है ।

* गाथामें आये हुए ‘तह द्विदी चेदि’ इस पदसे स्थितिविभक्तिका सूचन होता है ।

§ ३५. यह स्थितिविभक्ति नामका दूसरा अर्थाधिकार है । शेष कथन सुगम है ।

* अणुभागे ति अणुभागविहत्ती ३ ।

§ ३६. जेण गाहाए अणुभागेति अवयवेण अणुभागो परूविदो तेण अणुभाग-विहत्ती णाम तदियो अत्थाहियारो ।

* उक्कस्ममणुक्कस्मं ति पदेस्मविहत्ती ४ ।

§ ३७. 'उक्कस्ममणुक्कस्मं' ति एदेण पदेण पदेस्मविहत्ती णाम चउत्थो अत्थाहियारो परूविदो ।

* झीणमझीणं ति ५ ।

§ ३८. झीणमझीणं ति एदेण गाहावयवेण [झीणा-] झीणं णाम पंचमो अत्था-हियारो सूदो ।

* ट्टिदियं वा ति ६ ।

§ ३९. एदेण वि ट्टिदियंतिओ णाम छट्ठो अत्थाहियारो सूदो । एवं जइवसहा-इरियाहिप्पाएण एदीए गाहाए छ अत्थाहियारा सूदो । गुणहरभट्टारयस्स अहिप्पाएण पुण दो चेव अत्थाहियारा परूविदा ति घेत्तव्वं ।

❀ तत्थ पयडिविहत्तिं वण्णइस्सामो ।

* गाथामें आये हुए 'अणुभागे' पदसे अनुभागविभक्तिका सूचन होता है ।

§ ३६. चूंकि गाथाके 'अणुभागे' इस पद द्वारा अनुभागका कथन कि .। है, इस-लिये अनुभागविभक्ति नामका तीमग अर्थाधिकार समझना चाहिये ।

* 'उक्कस्ममणुक्कस्मं' इस पदसे प्रदेशविभक्तिका सूचन होता है ।

§ ३७. गाथामें आये हुए 'उक्कस्ममणुक्कस्मं' इस पदसे प्रदेशविभक्ति नामके चौथे अर्थाधिकारका कथन किया है ।

* झीणाझीण नामका पांचवां अर्थाधिकार है ।

§ ३८. गाथाके 'झीणमझीणं' इस पदसे झीणाझीण नामका पांचवां अर्थाधिकार सूचित किया है ।

* स्थित्यन्तिक नामका छठा अर्थाधिकार है ।

§ ३९. गाथामें आये हुए 'ट्टिदियं वा' इस पदसे स्थित्यन्तिक नामका छठा अर्था-धिकार सूचित किया है । इस प्रकार यतिवृषभ आचार्यके अभिप्रायानुसार इस गाथाके द्वारा छह अर्थाधिकार सूचित किये गये हैं । किन्तु गुणधर भट्टारकके अभिप्रायानुसार इस गाथाके द्वारा दो ही अर्थाधिकार कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—यतिवृषभ आचार्य भी कसायपाहुडके मूल अधिकार पन्द्रह ही मानते हैं । इसका विशेष खुलासा हमने प्रथम भागके पृष्ठ १२७ पर किया है ।

* उगं छह अधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामके अर्थाधिकारका वर्णन करते हैं ।

§ ४०. गाहासुत्तम्मि समुद्धिद्वल्लसु अहियारेसु पयडिविहत्तिं भणिस्सामो । एदेण गुणहराइरियभणिदपण्णारमअत्थाहियारे मोत्तूण सगसंकप्पियअत्थाहियाराणां चुण्णिसुत्तं भणामि त्ति उत्तं होदि । ण च एवं भणंतो जइवसहो गुणहराइरियपडिकूलो; अत्थाहियाराणमणियमदरिसणदुवारेण गुणहराइरियमुहविणिग्गयअत्थाहियाराण चेव परूवयत्तादो ।

§ ४०. गाथासूत्रमें कहे गये छह अर्थाधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामक अर्थाधिकारका कथन करने हैं । इससे यतिवृषभ आचार्यने यह सूचित किया है कि मैं गुणधर आचार्यके द्वारा कहे गये पन्द्रह अर्थाधिकारोंको छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्र कहता हूँ । यदि कहा जाय कि अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंके अनुसार चूर्णिसूत्रोंका कथन करनेसे यतिवृषभ आचार्य गुणधर आचार्यके प्रतिकूल हैं सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यतिवृषभ आचार्यने अर्थाधिकारोंका अनियम दिखलाते हुए गुणधर आचार्यके मुखसे निकले हुए अर्थाधिकारोंका ही प्रतिपादन किया है ।

विशेषार्थ—‘पगदीण मोहणिज्जा’ इत्यादि गाथामें स्वयं गुणधर आचार्यने प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, ब्रह्माज्ञीण और स्थित्यन्तिक इन छह अधिकारोंका निर्देश किया है । इससे इतना तो मालूम पड़ ही जाता है कि इन्हें इन छहोंका कथन इष्ट है पर उनके अभिप्रायानुसार उनका समावेश दो या तीन अधिकारोंमें हो जाता है । यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने उक्त छहों अधिकारोंका स्वतन्त्ररूपसे कथन किया है, जिनसे अधिकारोंकी संख्याका ही भंग हो जाता है फिर भी उनका ऐसा करना गुणधर आचार्यके कथनके प्रतिकूल नहीं है क्योंकि स्वयं गुणधर आचार्यने जिन विषयोंका संकेत किया है उन्हींका यतिवृषभ आचार्यने स्वतन्त्र अधिकारों द्वारा विस्तारसे कथन किया है । नात्पर्य यह है कि गुणधर आचार्यने ‘पगदीण मोहणिज्जा’ इत्यादि गाथामें प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्ति इन तीनोंको मिलाकर एक अधिकार सूचित किया है । तथा प्रदेशविभक्ति, ब्रह्माज्ञीण और स्थित्यन्तिक इन तीनोंको मिलाकर दूसरा अधिकार सूचित किया है, पर यतिवृषभ आचार्यने इन प्रकृतिविभक्ति आदिका कथन पृथक् पृथक् किया है जो उनके ‘अथ पयडिविहत्तिं वण्णइस्सामो’ इत्यादि चूर्णिसूत्रोंसे जाना जाता है । इस प्रकार यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने दो अधिकारोंको छह अधिकारोंमें बांट दिया है फिर भी उन्होंने उन्हीं विषयोंका कथन किया है जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें किया गया है । इस प्रकार यद्यपि अधिकारोंकी संख्याका भंग हो जाता है फिर भी उनका यह कथन गुणधर आचार्य द्वारा कहे गये विषयके प्रतिकूल नहीं है ।

* 'पयडिविहत्ती दुविहा, मूलपयडिविहत्ती च उत्तरपयडिविहत्ती च ।

§ ४१- एत्थ 'च' सद्दो किमट्ठं कदो ? समुच्चयट्ठं । जंदि एत्वं, तो एकेणेव मग्ग विदिय 'च' सद्दो अवणेयव्वो फलाभावादो; ण, दव्व-पज्जवट्ठियणयट्ठियजीवाणमणु-ग्गहट्ठं मूलपयडिविहत्ती उत्तरपयडी च, उत्तरपयडिविहत्ती मूलपयडी च इदि भण्णदे [पुणरुत्तदोसाभावा]दो । मूलपयडी णाम एक्का चेव पज्जवट्ठियणयावलंवणाए मूल-पयडित्ताणुववत्तीदो । तदो तत्थ णत्थि विहत्तिववएसो; भेदेण विणा नदणुववत्तीदो ति ? सच्चमेदं जदि अट्ठण्हं कम्ममाणमेयत्तं विवक्खियं, किं तु मोहणीयपयडीए एयत्तमेत्थ विवक्खियं तेण मूलपयडीए विहत्तिभावो जुज्जे । मोहणीयं चेव विवक्खियमिदि कुदो णव्वदे ? [पयडीए मोहणि]जा ति एदम्हादो महाहियागदो । ण च पयडीण-

* प्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है—मूलप्रकृतिविभक्ति और उत्तर प्रकृतिविभक्ति ।

§ ४१- शंका—चूर्णिसूत्रमें 'च' शब्द किम लिये दिया है ?

समाधान—समुच्चयरूप अर्थके प्रकट करनेके लिये 'च' शब्द दिया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो एक 'च' शब्दसे ही काम चल जाता है, अतः दूसरा 'च' शब्द अलग कर देना चाहिये, क्योंकि उमका कोई प्रयोजन नहीं है ?

समाधान—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोंके उपकारके लिये चूर्णिसूत्रमें दो 'च' शब्द दिये गये हैं । जिससे यह अर्थ निकलता है कि द्रव्यार्थिक नयमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिविभक्तिके मूल प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति ये दो भेद हैं और पर्यायार्थिक नयमें स्थित जीवोंकी अपेक्षा उत्तरप्रकृतिविभक्ति और मूलप्रकृति-विभक्ति ये दो भेद हैं अतः दो 'च' शब्द देनेमें पुनरुक्त दोष नहीं है ।

शंका—मूल प्रकृति एक ही है, और पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर मूल-प्रकृति बन नहीं सकती है । अतः उमके साथ विभक्ति शब्दका व्यवहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि भेदके बिना विभक्ति शब्दका व्यवहार नहीं बन सकता ?

समाधान—यदि यहां मूलप्रकृति पदसे आठों कर्मोंकी एक रूपसे विवक्षा की गई होती तो यह कहना ठीक होता किन्तु यहां मूलप्रकृतिके एक भेद मोहनीयकी विवक्षा है अतः मूलप्रकृतिमें विभक्तिपना बन जाता है ।

शंका—यहां मोहनीय कर्म ही विवक्षित है यह कैसे जाना ?

समाधान—'पयडीए मोहणिजा' इस महाधिकारसे जाना है कि यहां मोहनीय कर्म

(१) एगणेव 'च' सद्दोण समुच्चयट्ठावगमादो विदिय 'च' सद्दो अणत्थओ ति णावणेद् सविकज्जदे; अप्पिदेगणय पडुच्च परूवणाए कीरसाणाए मूलपर्याडिट्ठिदिविहत्ती उत्तरपर्याडिट्ठिदिविहत्ती च उत्तरपयडिट्ठि-दिविहत्ती मूलपर्याडिट्ठिदिविहत्ती चेदि एग 'च' मद्दुच्चाग्ग मोत्तण विदियसद्दुच्चाग्गए अभावेण पुणरुत्त-दोसाभावादो ।—जयध० प्रे० का० प० ११८ । (२)—द (बु० ११८)—दा—स०—दो मुगमतादो—अ० (३)—व्वदे (बु० ११७) उजा ति—स० ।—व्वद मोहणीए विवज्जा ति—अ० ।

मेगो चैव सहावो सि आसंकणिजं; सम्मत्त-चरित्त-विणासणसहावं मोहणिजं, णाण-पच्छायणसहावं णाणावरणिजं, दंसणविणासण-सहावं दंसणावरणिजं, सुह-दुवसुप्पा-यणसहावं वेयणीयं, भवधारणसहावमाउअं, सरीर-गइ जाइ-वण्णादिणिप्पायणसहावं णामकम्मं, उच्च-णीचगोत्तेसुप्पायणसहावं गोदं, विग्घकरणम्मि वावदमंतगाइयं; एवम-दृण्हं पि कम्माणं पयडिविहत्तिदंसणादो । विहत्तिसदो कथं कम्मदव्वम्मि वड्ढे ? ण, आहियरणम्मि उप्पाइयस्स विहत्तिसदस्स तत्थ वत्तणे विरोहाभावादो ।

ही विवक्षित है ।

आठों प्रकृतियोंका एक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्व और चारित्रिका विनाश करना मोहनीयका स्वभाव है, ज्ञानका आच्छादन करना ज्ञानावरणका स्वभाव है, दर्शनका विनाश करना दर्शनावरणका स्वभाव है, सुख और दुःग्वको उत्पन्न करना वेदनीयका स्वभाव है, मनुष्य आदि पर्यायमें रोक रखना आयु कर्मका स्वभाव है, शरीर, गति, जाति और वर्णादिकको उत्पन्न करना नामकर्मका स्वभाव है, उंच और नीच गोत्रमें उत्पन्न कराना गोत्रकर्मका स्वभाव है और विघ्न करनेमें व्यापार करना अन्तरायकर्मका स्वभाव है । इस प्रकार आठों कर्मोंमें स्वभावभेद देखा जाता है ।

शंका—भाववाची विभक्ति शब्द द्रव्यवाची कर्मके अर्थमें कैसे रहता है ?

समाधान—अधिकरण साधनमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द द्रव्यकर्ममें रहता है, ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

विशेषार्थ—ऊपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य कर्ममें कैसे रहता है । इस शंकाका यह आशय प्रतीत होता है कि 'विभजनं विभक्तिः' इस प्रकार निरुक्ति करनेसे वि उपसर्ग पूर्वक भज धातुसे भावमें 'स्त्रियां क्तिन्' इस सूत्रसे क्तिन् प्रत्यय करने पर विभक्ति शब्द बनता है । जिसका अर्थ विभाग करना होता है । पर प्रकृतमें द्रव्यकर्म मोहनीयके स्थानमें या उसके साथ विभक्ति शब्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मोहनीय द्रव्यकर्म शब्द द्रव्यवाची है अतः उसके स्थानमें या उसके साथ भाववाची विभक्ति शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता । इस शंकाका वीरसेनस्वामीने इस प्रकार समाधान किया है कि प्रकृतमें जो विभक्ति शब्द आता है वह भावमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द न होकर अधिकरणमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द है । अतः द्रव्यकर्मके स्थानमें या विशेषणविशेष्यभावरूपसे द्रव्य कर्मके साथ विभक्ति शब्दके प्रयोग करनेमें कोई आपत्ति नहीं है । जब 'कर्मण्यधिकरणे च' इस सूत्रसे 'स्त्रियां क्तिन्' इस सूत्रमें 'अधिकरणे' इस पदकी अनुवृत्ति कर लेते हैं तब अधिकरणमें भी विभक्ति शब्द बन जाता है । ऐसी हालतमें विभक्ति शब्दकी निरुक्ति 'विभज्यतेऽस्यामिति विभक्तिः' यह होगी । जिसका

* मूलपयडिविहत्तीण इमाणि अट्ट अणियोगहाराणि । तं जह्मा—
सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो
अप्पाबहुगेत्ति ।

§ ४२. उच्चारणाइरिएहि मूलपयडिविहत्तीण सत्तारस अन्थाहियारा जइवसहा-
इरिएण अडेव अन्थाहियारा परूविदा । कथमेदेसि दोणहं वक्खाणाणं ण विरोहो ?
ण, पज्जवट्टिय-दव्वट्टियणयावलंवणाए विरोहाभावादो । कथमट्टहि सेसाहियारा संग-
हिया ? वुच्चदे । तं जहा, समुक्कित्तणा ताव पुध ण वत्तव्वा, संतेण विणा अट्टण्हमहि-
याराणमत्थित्तविरोहादो । सादिय-अणादिय-धुव-अडुवअन्थाहियारा वि पुध ण वत्तव्वा;
कालंतरेहि चेव तदन्थावगमादो । परिमाणं पि ण वत्तव्वं; अप्पाबहुगेत्ति तत्थ तस्स
अंतम्भावादो । भावाहियारो वि ण वत्तव्वो; अणुत्तसिद्धीदो, मोहोदयविरहियाणं जीवाणं
मूलपयडिसंताणुववत्तीदो । खेत्त-पोसणाणि च ण वत्तव्वाणि; उवदेसेण विणा तदव-
अर्थे 'जिसमें विभाग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं' यह होता है ।

* मूलप्रकृतिविभक्तिके विषयमें आठ अनुयोगद्वार हैं । वे इस प्रकार हैं—एक
जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय,
काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व ।

§ ४२. शंका—उच्चारणाचार्यने मूल प्रकृतिविभक्तिके विषयमें सत्रह अर्थाधिकार कहे
हैं और यतिवृषभाचार्यने आठ ही अर्थाधिकार कहे हैं, इमलिये इन दोनों न्याख्यानोंमें
विरोध क्यों नहीं आता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिकनय और द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर
एक दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—आठ अधिकारोंके द्वारा शेष नौ अधिकारोंका संग्रह कैसे हो जाता है ?

समाधान—इस शंकाका समाधान इस प्रकार है—समुत्कीर्तना नामक अधिकारको तो
पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, सत्त्वके बिना आठ अधिकारोंका अस्तित्व माननेमें
विरोध आता है । सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चार अर्थाधिकार भी पृथक् नहीं
कहने चाहिये, क्योंकि, काल और अन्तर अर्थाधिकारके द्वारा ही सादि आदि अधिकारोंके
विषयका ज्ञान हो जाता है । परिमाण अधिकार भी पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि
परिमाण अधिकारका अल्पबहुत्व अधिकारमें अन्तर्भाव हो जाता है । भावाधिकार भी
पृथक् नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, बिना कहे ही उसका अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि
जो जीव मोहनीय कर्मके उदयसे रहित हैं उनके प्रायः मूल प्रकृति मोहनीयका सत्त्व नहीं पाया
जाता है । क्षेत्र और स्पर्शन अधिकार भी नहीं कहने चाहिये, क्योंकि, उपदेशके बिना ही
क्षेत्र और स्पर्शनका ज्ञान हो जाता है । अथवा अल्पबहुत्वके साधन करनेके लिये द्रव्यका

गमादो, अप्पाबहुगसाहणदं दव्व-परिमाणे मण्णमाणे तदवगमादो वा । तम्हा विरोहो णत्थि ति सिद्धं ।

* एदेसु अणिओगहारेसु परुविदेसु मूलपयडिविहत्ती ममत्ता ह्योदि ।

§ ४३- जइवसहाइरिएण एदेसिमन्थाहियाराणं ण विवरणं कदं; सुगमत्तादो ।

§ ४४. संपहि मंदबुद्धिजणाणुग्गहट्टमुञ्जारणाइरियमुहविणिग्गयमूलपयडिविवरणं भणिम्मामो । तं जहा, समुक्कित्तणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती ध्रुवविहत्ती अद्भुवविहत्ती एगजीवेण मामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागं परिमाणं खेत्तं पोमणं कालो अंतरं भावो अप्पाबहुगं चेदि ।

§ ४५. समुक्कित्तणाणुगमेण दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयस्म अन्थि विहत्तिया अविहत्तिया च । एवं मणुस्म-मणुसपज्जत्त-मणुस्सिणी- [पंचिदिय] पंचिदियपज्जत्त-तस-तमपज्जत्त-पचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिम्म०-कम्मइय०-अवगदवेद-अकमाइ-आभिणिबोहिय०-सुद०-ओहि०-मणपज्जवणाणि-संजद-जहाक्खाद०-चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुकलेस्सा-भवमिद्धिय-सम्मादिट्ठि-खइय०-सण्णि-आहारि-अणाहारएत्ति वत्तव्वं । णेरइयादि-जाव परिमाण कहने पर क्षेत्र और स्पर्शनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है, यह मिद्ध हो जाता है ।

* इन आठों अनुयोगद्वारोंका कथन कर चुकने पर मूलप्रकृतिविभक्ति नामका पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता है ॥

§ ४३. सुगम होनेसे यतिवृषभाचार्यने इन आठों अर्थाधिकारोंका विवरण नहीं किया है ।

§ ४४. अब मन्दबुद्धिजनोका उपकार करनेके लिये उच्चारणाचार्यके मुखसे निकले हुए मूलप्रकृतिके विवरणको कहते हैं । यह ठमप्रकार है—समुत्कीर्तना, सादिविभक्ति, अनाविभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व ।

§ ४५. इनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव हैं । इसीप्रकार मनुष्य सामान्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय सामान्य, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, यथाख्यातसयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेदयावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, मंज्ञी, आहारक और अनाहारक

असण्णि त्ति सेससव्वमग्गणासु मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया णत्थि । एवं समुत्तिणा समत्ता ।

§ ४६ सादिय-अणादिय-ध्रुव-अद्भुवाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तन्थ ओघेण मोहणीयविहत्ती किं सादिया किमणादिया किं ध्रुवा किमद्भुवा । अणादिया ध्रुवा अद्भुवा च । सादियपदं णत्थि; खविदमोहणीयसमुत्तभावादे । एवमचक्षु-दंसण-भवसिद्धिया० । णवरि भवसिद्धिया० अणादिया० (भवसिद्धियाणं) ध्रुवपदं णत्थि । णिच्चण्णिगोदेसु मोहणीयस्स ध्रुवत्तमत्थि त्ति णासंकाणज्जं; तेसिं पि मोहवि-जीवोंके कहना चाहिये । अर्थात् इन जीवोंके मोहनीय कर्म पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है । नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तक शेष समस्त मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्ति वाले जीव हैं, मोहनीय विभक्तिसे रहित जीव नहीं हैं ।

विशेषार्थ—समुत्कीर्तना ञ्चट्ठका अर्थ उच्चारणा है । इसमें विवक्षित धर्मकी अपेक्षा सामान्य और विशेषरूपसे जीवोंका अस्तित्व और नास्तित्व या सामान्य और विशेषरूपसे जीवोंमें विवक्षित धर्मका अस्तित्व और नास्तित्व बतलाया जाता है । ऊपर मोहनीय कर्मकी अपेक्षा कथन किया है । सामान्यमे मोहनीय कर्मसे युक्त और उससे रहित जीव हैं यह निर्देश किया है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और क्षीणकषाय गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उससे रहित होते हैं । तथा जिन मार्गणास्थानोंमें ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएं संभव हैं उनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है । ऐसी मार्गणाओंके नाम ऊपर ही गिना दिये हैं । और जिन नरकगति आदि मार्गणाओंमें क्षीणकषाय आदि गुणस्थान नहीं पाये जाते उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही कहा है ।

इम प्रकार समुत्कीर्तना प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ४६. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ-निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है ? मोहनीय विभक्ति अनादि, ध्रुव और अध्रुव है । मोहनीय कर्ममें ओघकी अपेक्षा सादि पद नहीं है क्योंकि जिसने मोहनीय कर्मका समूल नाश कर दिया है ऐसे क्षीणकषाय जीवके फिरसे मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति नहीं होती है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके ध्रुवपद नहीं है । यदि कहा जाय कि जो भव्य जीव नित्यनिगोदिया हैं उनमें ध्रुवपद देखा जाता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके भी मोहनीयके नाश करनेकी शक्ति पाई जाती है । यदि उनके मोहनीयके नाश करनेकी शक्ति न मानी जाय तो वे भव्य न होकर अभव्योंके समान हो जायेंगे ।

(१) 'धवमद्भवणार्डय अट्टण्ह मूलपगट्टण' मूलपगतीण मत्तकम्म निविह-अणादियध्रुवअध्रुव । कह ? ध्रुवसत्तकम्मत्तादेवादी णत्थि तम्हा अणादिय, ध्रुवाध्रुवा पुञ्जुत्ता ॥१॥ कर्मप्र० सत्ता०, षण्णि० पत्र २७ ।

णामणमत्तिसंभवादो । असंभवे च ण ते भन्वा; अभव्वसमाणत्तादो । मदिअण्णाणि-
सुदअण्णाणि-असंजद-मिच्छादिट्ठी० मोहविहत्ती किं सादिया किमणादिया किं धुवा
किमद्दुवा ? सादि-अणादि-धुव-अद्दुवा । अभव्व० मोहविहत्ती किं सादिया किमणादिया
किं धुवा किमद्दुवा ? अणादिया, धुवा च । अपगतवेद० मोहविहत्ती किं सादिया
किमणादिया किं धुवा किमद्दुवा ? सादिया अद्दुवा च । मोहविहत्ती सादिया धुवा
च । एवमकसाय-सम्माइट्ठि-खइय०-अणाहारएत्ति वत्तव्वं । णवरि, अणाहा० अद्दु-
वपदं पि अत्थि । सेमसव्वमग्गणाणं मोहविहत्ती जहासंभवं अविहत्ती च सादि-अद्दुवा ।

मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि जीवोंके मोहनीयविभक्ति क्या सादि
है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है ? उक्त मार्गणाओंमें मोहविभक्ति सादि,
अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों रूप हैं । अभव्य जीवोंके मोहविभक्ति क्या सादि है, क्या
अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है ? अभव्य जीवोंके मोहविभक्ति अनादि
और ध्रुव है ।

अपगतवेदी जीवोंके मोहविभक्ति क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या
अध्रुव है ? अपगतवेदी जीवोंके मोहविभक्ति सादि और अध्रुव है । तथा अपगतवेदी
जीवोंके मोह-अविभक्ति अर्थात् मोहनीय का अभाव सादि और ध्रुव है । इसी प्रकार
अकषायी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी
विशेषता है कि अनाहारक जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका अध्रुव पद भी है । शेष सभी
मार्गणाओंमें मोहविभक्ति तथा यथासंभव मोह-अविभक्ति सादि और अध्रुव हैं ।

विशेषार्थ—गोमट्टसार कर्मकाण्डमें जो 'सादी अबंधबन्धे' इत्यादि गाथा आई है उसमें
बन्धकी अपेक्षा मादित्त्व आदिका विचार किया है, सत्त्वकी अपेक्षा नहीं । फिर भी वहां सादि
आदिके विषयमें बन्धकी अपेक्षा जो व्यवस्था दी है वह यहां सत्त्वकी अपेक्षासे जानना ।
इनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा मोहनीय कर्ममें अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये तीन पद ही बटित
होते हैं सादिपद नहीं । यही व्यवस्था अचक्षुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये । भव्योंके
ध्रुव पदको छोड़कर मोहनीय कर्मके दो पद ही पाये जाते हैं । ये दोनों मार्गणाएं मोह-
नीयकी सत्त्वव्युच्छिन्ति तक निरन्तर रहती हैं इसलिये इनमें सादिपद संभव नहीं । भव्योंके
ध्रुवपद नहीं होनेका कारण स्पष्ट है । मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि ये
चार मार्गणाएं अनादि और सादि दोनों प्रकारकी हैं । जिन जीवोंने कभी भी मिथ्यात्व
गुणस्थानको नहीं छोड़ा है और न छोड़नेकी संभावना है उनकी अपेक्षा अनादि हैं और
शेष जीवोंकी अपेक्षा सादि हैं । तथा इन मार्गणाओंमें भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके
जीव पाये जाते हैं, अतः इनमें मोहनीयके सादि आदि चारों पद संभव हैं । अभव्य

(१) मोहविहत्ती-अ० ।

एवं सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवानुगमो समत्तो ।

§ ४७. सामित्तानुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोहणीयविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स संतकम्मियस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स णट्ठमोहमंतकम्मस्स । एवमप्पणो पदानं भेदब्बं जाव अणाहारएत्ति । एवं सामित्तं समत्तं ।

जीवोंके अनादि और ध्रुव पद ही होता है यह स्पष्ट ही है । अपगतवेदी, अकषायी, सम्य-
गृष्टि, क्षायिक सम्यगृष्टि, और अनाहारक आदि मार्गणाएँ ऐसी हैं जिनमें मोहनीय कर्मका
सद्भाव और मोहनीय कर्मका अभाव दोनों पाये जाते हैं । तथा ये मार्गणाएँ सादि हैं,
अतः इनमें मोहनीयके सद्भावकी अपेक्षा सादि और अध्रुव ये दो पद ही होते हैं । पर इन
मार्गणाओंमें स्थित जिन जीवोंके मोहनीय कर्मका अभाव हो गया है उनके पुनः मोहनीय
कर्म नहीं पाया जाता । अतः इन मार्गणाओंमें मोहनीय कर्मके अभावकी अपेक्षा सादि और
ध्रुव ये दो पद होते हैं । यहां ध्रुवपद स्थायित्वकी अपेक्षासे कहा है । इतनी विशेषता है कि
समुद्रातगत सयोगिकेवल्लियोंके अनाहारकत्व सादि और सान्त है, अतः अनाहारक जीवोंके
मोहनीयकी अविभक्तिका अध्रुव पद भी होता है । इनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओंमें नरकगति
आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुछ
ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें मोहविभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों हैं । इनमें पूर्वोक्त व्यव-
स्थाके अनुसार सादि आदि पद जान लेना चाहिये ।

इस प्रकार सादि अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ।
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीयविभक्ति किसके है ? जिसके मोहनीय कर्मका सत्त्व
पाया जाता है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीयविभक्ति है । मोहनीय-अविभक्ति किसके
है ? जिसके मोहनीय कर्मके सत्त्वका नाश हो गया है ऐसे किसी भी जीवके मोहनीय-
अविभक्ति है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव
हों उनका कथन कर लेना चाहिये ।

विशेषार्थ—गुणस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीय कर्म ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है
और आगे उसका असत्त्व है । अतः ओघसे मोहनीय विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले
दोनों प्रकारके जीव बन जाते हैं । जब आदेशकी अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी
जिस मार्गणामें ग्यारहवेंसे नीचेके ही गुणस्थान संभव हैं वहां मोहविभक्ति ही होती है ।
और जिस मार्गणामें ग्यारहवेंसे आगेके गुणस्थान भी संभव हैं वहां मोहविभक्ति और
मोह-अविभक्ति दोनों होती हैं ।

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ ४८. कालानुगमेण दुविहो णिदेसो ओवेण आदेसेण य । तन्थ ओवेण मोहणीयविहती केवचिरं कालादो होदि ? अणादिया अपजवसिदा, अणादियां सपजवसिदा । अविहती केवचिरं कालादो होदि ? सादिया अपजवसिदा । एवमचक्खुदंसणाणं । णवरि अविहती जहणुक्खसेण अंतोष्टुत्तं ।

§ ४९. आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोहणीयविहती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेग दमं-वस्म-सहस्साणि; उक्खसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । पढमाए विदियाए तदियाए चउत्थीए पंचमीए छठीए सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मोहविहती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण दस-वास-सहस्माणि एग-तिण्णिण-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । उक्खसेण सग-मग-ट्टिदि (दी) ।

§ ४८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिका कितना काल है ? अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है । मोह-अविभक्तिका कितना काल है ? सादि-अनन्त काल है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी जीवोंके मोहविभक्ति और मोहअविभक्तिका काल कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अभव्य जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयका काल अनादि-अनन्त है । तथा इतर जीवोंके मोहनीयका काल अनादि-सान्त है । अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक सभी संसारी जीवोंके निरन्तर रहता है इसलिये अचक्षुदर्शनी जीवोंके मोहनीयका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त दोनों प्रकारका बन जाता है । मोह-अविभक्तिका काल सादि-अनन्त इसलिये है कि उसका आदि तो है, क्योंकि जब कोई जीव बारहवें गुणस्थानको प्राप्त होता है तभी उसका प्रारम्भ होता है । पर मोह-अविभक्तिका अन्त कभी नहीं होता, क्योंकि जिसने मोहनीयका पूरी तरहसे अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कर्मकी उत्पत्ति नहीं होती । पर अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है और बारहवें गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है । अतः अचक्षुदर्शनी जीवोंके मोह-अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ ४९. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । तथा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं पृथिवीमें रहनेवाले नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल सातों नरकोंमें क्रमसे दस हजार वर्ष, साधिक एक सागर, साधिक तीन सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक बाईस सागर है । तथा उत्कृष्ट काल अपने अपने

§ ५०. तिरिक्खेसु तिरिक्खेसु मोहविहत्ती केवचिंरं कालादो होदि ? जहण्णेण खुदाभवग्गहणं उक्खसेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । पंचिंदियतिरिक्ख-

नरककी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—नरकमें मोहनीयकर्मका एक जीवकी अपेक्षा कहां कितने काल तक सत्त्व पाया जाता है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे नरकमें एक जीवकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है, अतः सामान्यसे एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयके सत्त्वका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर होता है। पर प्रत्येक पृथिवीकी अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है वहां मोहनीयकर्मका सत्त्व भी एक जीवकी अपेक्षा उतने काल तक समझना चाहिये। अर्थात् इतने काल तक वह जीव विवक्षित नरकमें रहता है उसके बाद दूसरी गतिमें चला जाता है, इसलिये वहां उस जीवकी अपेक्षा मोहनीय कर्मका सत्त्व उतने कालतक ही कहा गया है। आगे जहां भी एक जीवकी अपेक्षा काल बनलाया है वहां भी यही अभिप्राय समझना चाहिये।

§ ५०. तिर्यचगतिमें तिर्यचोमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनोंमें जितने समय हों उतना है।

विशेषार्थ—एक जीवके तिर्यचगतिमें रहनेका जघन्य काल खुदाभवग्रहण है और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है जो अनन्त कालके बराबर होता है। जब कोई एक मनुष्य जीव लब्धपर्याप्तक तिर्यचमें सबसे जघन्य आयु खुदाभवग्रहणको लेकर उत्पन्न होता है और आयुके समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्यगतिमें चला जाता है तब तिर्यचगतिमें रहनेका जघन्य काल खुदाभवग्रहण प्राप्त होता है। तथा जब कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर तिर्यचगतिमें ही निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है तो उस जीवके तिर्यचगतिमें रहनेका काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनोंसे अधिक नहीं होता है, इसके बाद वह नियमसे अन्य गतिमें चला जाता है, इसलिये एक जीवके तिर्यच गतिमें निरन्तर रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्राप्त होता है। इसी विवक्षासे तिर्यचगतिमें एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट सत्त्व क्रमसे खुदाभवग्रहण और असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनरूप कहा है। तिर्यचगतिमें ऐसे भी अनन्तानन्त जीव हैं जिन्होंने अभी तक दूसरी पर्याय प्राप्त नहीं की है और न आगे करेंगे। यद्यपि उनकी अपेक्षा तिर्यचगतिमें मोहनीयका काल अनादि-अनन्त होता है। पर वह काल यहां विवक्षित नहीं है, क्योंकि काल प्ररूपणामें सादि-सान्त कालकी अपेक्षा विचार किया है।

पंचिदियतिरिक्खपज्जल-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मोहविहती केवचिरं कालादो होदि ?
जहणणेण खुदाभवग्गहणं अंतोमुहुत्तं अंतोमुहुत्तं । उक्कसेण तिण्णि पलिदोवमाणि

पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त, और पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतियोंमें मोह-
नीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल क्रमशः खुदाभवग्रहण, अन्तर्मुहूर्त और
अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल प्रत्येकका पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके तिर्यचोंका ग्रहण हो
जाता है, अतएव उनकी अपेक्षा जघन्य काल खुदाभवग्रहण कहा है । पर पर्याप्त जीवोंकी
जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं है, अतः पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यच
योनिमतियोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवोंकी
पर्याप्तको प्राप्त होकर प्रत्येकका तिर्यचगतिमें रहनेका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व
अधिक तीन पत्य है । अर्थात् पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें जीव पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन
पत्य काल तक रहता है, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तोंमें सैंतालीस पूर्वकोटि अधिक तीन
पत्य काल तक रहता है और योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन
पत्य काल तक रहता है । यथा—कोई एक जीव तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां संज्ञी
स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें क्रमशः आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण
करके अनन्तर इमीप्रकार असंज्ञी स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ
पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण करके पश्चात् लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यचमें उत्पन्न हुआ ।
वहां अन्तर्मुहूर्त काल तक रह कर पश्चात् असंज्ञी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषवेद और
नपुंसकवेदके साथ क्रमशः आठ आठ पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमण करके पुनः संज्ञी स्त्रीवेदी
और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पूर्वकोटि और पुरुषवेदियोंमें सात पूर्वकोटि काल तक रह
कर तीन पत्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें रहकर देव हो जाता है । इस प्रकार
पंचेन्द्रियतिर्यचोंमें पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य काल प्राप्त हो जाता है । पंचेन्द्रिय
पर्याप्त तिर्यचोंमें काल कहते समय ऊपर बीचमें जो लब्ध्यपर्याप्त भवका ग्रहण कराया गया
है उसे नहीं कराना चाहिये, क्योंकि, पर्याप्तकताके साथ लब्ध्यपर्याप्तकताका विरोध है ।
इसलिये संज्ञी और असंज्ञी जीवोंमें तीनों वेदोंके साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है
ऐसा न करके एक बार ही उत्पन्न कराना चाहिये और अन्तके वेदमें आठ पूर्वकोटिके
स्थानमें सात पूर्वकोटि काल तक परिभ्रमणका विधान करना चाहिये । इसप्रकार करनेसे
पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यचोंका काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य होता है । योनिमती
पर्याप्त तिर्यचोंमें असंज्ञीकी अपेक्षा आठ और संज्ञीकी अपेक्षा सात पूर्वकोटियोंका ही विधान
करना चाहिये, क्योंकि, इनके स्त्रीवेदके अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता है । इसप्रकार
योनिमती पर्याप्त तिर्यचोंमें परिभ्रमणका काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य प्राप्त होता

पुव्वकोटिपुधतेणग्महियाणि । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त० मोहविहती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण सुहाभवग्गहणं उक्खसेण अंतोद्दुत्तं । एवं मणुस-पंचिदियं-तस-अपज्जत्ताणं वत्तम्भं ।

§ ५१. मणुसगदीए मणुस-मणुमपज्जत्त-मणुसिणीसु मोहविहतीए पंचिदिय-तिरिक्खतिगभंगो । अविहती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोद्दुत्तं । उक्खसेण पुव्व-कोडी देसणा ।

है । इसी अपेक्षासे उक्त तीनों प्रकारके जीवोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा है । यहां पृथक्त्वका अर्थ तीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्या न लेकर विपुल लेना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्यकाल सुहाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त और त्रस लब्ध्यपर्याप्त जीवोंके भी मोहनीय कर्मका जघन्य काल सुहाभवग्रहण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उक्त गतिके जीव लब्ध्यपर्याप्त अवस्थाकी अपेक्षा कमसे कम सुहाभवग्रहण काल तक विवक्षितपर्यायमें रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं । तथा अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालतक रहकर अन्य गतिको चले जाते हैं । क्योंकि, विवक्षित पर्यायमें लगातार आगमोक्त संख्यात सुहाभवोंके ग्रहण करने पर भी उनके कालका जोड़ अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होता है । इसी अपेक्षासे यहां मोहनीयका जघन्य काल सुहाभवग्रहण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ ५१. मनुष्यगतिये सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके मोहनीय विभक्तिका काल क्रमशः पंचेन्द्रिय सामान्य तिर्यच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यच और योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यच इन तीनोंके अनुसार कहे गये कालके समान जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टसे पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्य समझना चाहिये । उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंके मोहनीय विभक्तिका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—मनुष्यगतिके जीव संज्ञी ही होते हैं, इसलिये तिर्यचोंमें असंज्ञियोंकी अपेक्षा जो पूर्वकोटियां कही हैं वे यहां नहीं कहना चाहिये, अतः उन्हें अलग कर देनेपर सामान्य मनुष्योंमें सैतालीम पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य, पर्याप्त मनुष्योंमें तेईम पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य और मनुष्यनियोंमें सात पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । तथा जघन्यकाल उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका सुहाभवग्रहण व अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि, कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमेंसे किसी एकमें रूपका होकर तथा उक्त-

६ ५२. देवगइए देबेसु मोहविहतीए षोडशमंगो । णवरि भवणवासियादि जाव सव्वदमिद्धि चि सग सग जहणुक्कम्म द्विदी भणिदव्वा । तं जहा, भवणादि जाव सव्वद्वेत्ति मोहविहती केवचिरं । गदो होदि ? जहण्णेण दसवस्ससहस्साणि दसवस्ससहस्साणि पालिदोपमस्म अट्ट गो, पालिदोवमं सादिरेयं, वे सत्त दस चोइस सोलस अट्टारम वीस वावीस तेवीम चउवीस पंचवीस छुब्बीस सत्तावीस अट्टावीस एगुण-त्तीस तीस एकत्तीस वत्तीम सागरोवमाणि सादिरेयाणि । उक्कम्सेण सागरोवमं सादि-काल तक रहकर यदि अन्य गतिको चला जाय तो जघन्यकाल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है । इसी अपेक्षासे उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमें मोहनीय कर्मका जघन्यकाल खुदाभवग्रहण व अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पत्य कहा है । उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें मोहनीयके असत्त्वका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि किसी एक क्षीणकपायी मनुष्यके सयोगी होकर अन्तर्मुहूर्त काल तक रह, समुद्रातकर और योगनिरोधके साथ अयोगी होकर मोक्ष चले जानेमें जितना काल लगता है उस सबका योग भी अन्तर्मुहूर्त ही होता है । तथा मोहनीय कर्मके अभावका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि कहनेका कारण यह है कि किसी एक मनुष्यने गर्भसे लेकर आठ वर्षकी अवस्था होने पर संयमको प्राप्त किया और अन्तर्मुहूर्त प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें रहा । अनन्तर अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपरायमें एक एक अन्तर्मुहूर्त रहकर क्षीणमोह हो गया । इस प्रकार क्षीणमोह होनेतक छह अन्तर्मुहूर्त होते हैं । तो भी इनका योग एक अन्तर्मुहूर्त होता है । इस प्रकार एक पूर्वकोटिमें से आठवर्ष अन्तर्मुहूर्त कम कर देनेपर मोहनीय कर्मके अस-न्वके साथ मनुष्य पर्यायमें रहनेका उत्कृष्टकाल देशोन पूर्वकोटि प्राप्त हो जाता है ।

६ ५२. देवगतिमें—देवोंमें मोहनीय विभक्तिका काल नारकियोंके समान है । इसनी विशेषता है कि भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्टकाल क्रमसे अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । वह इस प्रकार है—भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? भवनवासियोंमें दस हजार वर्ष, व्यंतरोंमें दस हजार वर्ष, ज्योतिषियोंमें पत्यके आठवें भाग प्रमाण, सौधर्म—ऐशान कल्पमें साधिक पत्य, सनत्कुमार—माहेन्द्रमें साधिक दो सागर, ब्रह्म—ब्रह्मोत्तरमें साधिक सात सागर, लान्तव--कापिष्ठमें साधिक दस सागर, शुक्र-महाशुक्रमें साधिक चौदह सागर, सतार—सहस्रारमें साधिक सोलह सागर, आनत—प्राणतमें साधिक अठारह सागर, आरण—अन्युतमें साधिक बीस सागर, नौ त्रैवेयकोंमें क्रमसे साधिक बाईस, साधिक तेईस, साधिक चौबीस, साधिक पन्चीस, साधिक छब्बीस, साधिक सत्ताईस, साधिक अट्टाईस, साधिक उनतीस और माधिक तीस सागर, नव अनुदिशोंमें साधिक इकतीस सागर और चार अनुत्तरोंमें साधिक बत्तीस सागर प्रमाण जघन्य काल

रेयं पलिदोवमं मादिरैयं [पलिदोवमं मादिरैयं] वे सागरोवमाणि [मादिरैयाणि] सत्त-
दस-चौदस-सोलस-अट्टारस-सागरोपमाणि सादिरैयाणि, वीस-बाबीस-तेवीस-चउवीस-
पंचवीस-छव्वीस-सतावीस-अट्टावीस-एगुणतीस तीस-एक्कीस-वत्तीस-तेत्तीस-सागरोव-
माणि । णवरि, सव्वट्ठे जहण्णुक्कस्सभेदो णत्थि ।

§ ५३. इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-सव्वविगल्लिंदिय-पंचकाय-
बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ताणं सुहाबन्धे जो आलावो सो कायव्वो ।

है । और उत्कृष्टकाल भवनत्रिकमें क्रमशः भाधिक एक सागर, साधिक पत्य, साधिक
पत्य, सोलह खगोंमें साधिक दो सागर, साधिक मात सागर, साधिक दस सागर, साधिक
चौदह सागर, साधिक सोलह सागर, साधिक अठारह सागर, वीस सागर, बाईस सागर,
नौ प्रवेयकोंमें क्रमसे तेईस, चौबीस, पच्चीस, छव्वीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस
और इक्कीस सागर, नौ अनुद्दिशोंमें वत्तीस सागर, और पांच अनुत्तरोमें तेतीस सागर है ।
इतनी विशेषता है कि सर्वार्थभिद्धिमें जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका भेद नहीं पाया जाता ।

विशेषार्थ-यहां नारिक्योंके कालके समान जो देवोंमें मोहनीय कर्मका काल कहा है
वह सामान्यकी अपेक्षासे है. क्योंकि, दोनों गतियोंमें जघन्य आयु दस हजार वर्ष और
उत्कृष्ट आयु तेनीस सागर प्रमाण होनी है । विशेषकी अपेक्षा तो देवोंके जिन भेदमें जहां
जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां मोहनीय कर्म का उतना जघन्य और उत्कृष्टकाल
समझना चाहिये जिनका कि ऊपर उल्लेख किया ही गया है ।

§ ५३. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय,
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त,
ममी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, पांचों म्यवरकाय और उनके बादर और
सूक्ष्म तथा सभी बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त इनका सुहाबन्धमे जो काल
बताया है वही इनमें मोहनीय विभक्तिका काल समझना चाहिये ।

विशेषार्थ-सुहाबन्धमें सामान्य एकेन्द्रियोंका जघन्य काल सुहाभवग्रहण प्रमाण और
उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण बताया है । असंख्यातपुद्गलपरिवर्तनोंके समयोंकी
यदि गणना की जाय तो उसका प्रमाण अनन्त होता है । बादर एकेन्द्रियोंका जघन्यकाल
सुहाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया है । यहां
अंगुलके असंख्यातवें भागसे असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उन्सर्पिणियोंके कालका
ग्रहण किया है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल संख्यात
हजार वर्ष बतलाया है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंका जघन्यकाल सुहाभवग्रहण प्रमाण और
उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त बतलाया है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंका जघन्यकाल सुहाभवग्रहणप्रमाण
और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोकप्रमाण बतलाया है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तोंका जघन्यकाल

५४. पंचिदिय-पंचिदियपज त-तस-तस५जत्ताणं मोहविहती केवचिरं कालादो होदि ? जहणणेण खुद्दाभवग्रहणं अंतोहुत्तं उक्खसेण सागरोवममहस्सं पुब्बकोडिपुध-अन्तमुहूर्तं और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुहूर्तं ही बतलाया है । सूक्ष्म पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्तं प्रमाण बतलाया है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त इन जीवोंका जघन्य काल क्रमशः खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तमुहूर्तं प्रमाण कहा है । तथा दोनोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है । द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण तथा उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्तंप्रमाण कहा है । काय मार्गणादी अपेक्षा पृथिवीकायिक, अग्नायिक और वायुकायिक जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अंख्यात लोक प्रमाण कहा है । वादर पृथिवी, वादर जल, वादर अग्नि, वादर वायु और वादर वनस्पति प्रत्येक शरीर इनका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है । यहां कर्मस्थितिसे मत्तर कोड़ कोड़ी सागरप्रमाण काल लेना चाहिये । वादर पृथिवी पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्नायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्तं और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थिति वादर हजार वर्ष, वादर जलकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्ष, वादर अग्नायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थिति तीन दिन, वादर वायुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्ष और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है । वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्नायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्तं प्रमाण कहा है । सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्नायिक, सूक्ष्म वायुकायिक और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्तोंका काल जिम प्रकार ऊपर कह आये हैं उम प्रकार समझना चाहिये । इसप्रकार इन उपर्युक्त जीवोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही यहां मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल है ।

५४. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त तथा त्रम और त्रसपर्याप्त जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? पंचेन्द्रिय और त्रसके जघन्यकाल खुद्दाभवग्रहण प्रमाण तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त और त्रसपर्याप्त जीवके जघन्य काल अन्तमुहूर्तं है । तथा उत्कृष्ट काल पंचेन्द्रिय जीवके पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर, पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके सौ पृथक्त्व

चेणम्भहियं, सागरोवममदपुधत्तं, वेसागरोवमसदसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणम्भहियाणि, वेसागरोवममहम्मं । अविहत्तियाणं मणुसभंगो ।

§ ५५. पंचमण०-पंचवचि०विहत्ती अविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगंसुमओ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

सागर, त्रमजीवके पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और त्रसपर्याप्त जीवके पूरे दो हजार सागर है। तथा मोहनीय कर्मसे रहित पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रमपर्याप्त जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल मोहनीय कर्मसे रहित मनुष्योंके कालके समान जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—कोई एक जीव यदि पंचेन्द्रियोंमें निरन्तर परिभ्रमण करे तो वह पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक हजार सागर कालतक ही पंचेन्द्रिय रहता है, अनन्तर उसकी पंचेन्द्रिय पर्याय छूट जाती है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवका भी अपने अपने उक्त उत्कृष्ट कालतक उस उस पर्यायमें निरन्तर अधिकसे अधिक परिभ्रमणका प्रमाण समझना चाहिये। इनका जघन्य काल स्पष्ट ही है। इन पंचेन्द्रियादिकोंमें मोहनीय कर्मका अभाव मनुष्यके ही होता है, अतः मनुष्यगतिमें जो मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल ऊपर कह आये हैं वही पंचेन्द्रियादि चारोंकी अपेक्षासे भी समझना चाहिये।

§ ५५. पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके मोहनीय विभक्ति और अविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—कोई एक मोह विभक्ति वाला काययोगी जीव काययोगका काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रहा अनन्तर मर कर काययोगी हो गया। अथवा कोई एक मोहविभक्तिवाला काययोगी जीव काययोगका काल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको प्राप्त हुआ जो कि एक समय तक रहा। अनन्तर व्याघात हो जानेसे दूसरे समयमें पुनः उसके काययोग हो गया। इस प्रकार विवक्षित मनोयोगके साथ मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। इसी प्रकार वचन योगकी अपेक्षासे मोहविभक्तिके एक समय प्रमाण कालका कथन करना चाहिये। मोहअविभक्ति क्षीणमोहगुणस्थानमें होती है। और क्षीणमोह गुणस्थानमें पृथक्त्ववितर्कवीचार तथा एकत्ववितर्कअवीचार ये दोनों ध्यान सम्भव हैं। वीरसेन स्वामी कर्म अनुयोगद्वारमें ध्यानका कथन करते हुए लिखते हैं कि 'क्षीणकपायके कालमें सर्वत्र एकत्ववितर्क अवीचार ध्यान ही होता है यह बात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर वहां परिवर्तन द्वारा योगका एक समय प्रमाण कालका कथन नहीं बन सकता है। अतः

(१ —ण गीण कसायद्वाण सव्वन्थ एपत्तविदक्कवीचारजाणमेव जोमपरत्तत्तीए एगसमयपरत्तणण-हाणुववत्तीदो । बणेण तदद्दादीए पुधत्तविदक्कवीचारम्म वि सभवमिद्दादी । घ० क० प० पृ० ८३९ उ० ।

§ ५६. कायजोगी० विहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जह० एगममओ । उक्० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियड्ढा । अविहत्ती० मणजोगिभंगो । एवमोरालिय० । णवरि विहत्ती उक्स्सेण वावीसवस्ससहम्माणि देसुणाणि । ओगालियमिस्स० विहत्ती जह० खुदा० तिममयाणं -यूणं) उक्स्सेण अंतोमुहुत्तं । अविहत्ती केव० ? जहणणुक्स्सेण एगममओ । वेउविय०-आहार०विहत्ती० मण०भंगो । वेउवियमिस्स०विहत्ती केवचि० ? जहणणुक्स्सेण अंतोमुहुत्तं । एवमाहागमिस्स०-उवममसम्माइट्ठि-सम्माभिच्छाइटी० । कम्मइय० विहत्ती जह० एगममओ, उक्स्सेण तिण्णि समया । अविहत्ती केव० ? जहणणुक्स्सेण तिण्णि समया ।

इससे जाना जाता है कि क्षीणकपायके प्रारम्भमें पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान भी सम्भव है तथा अद्वापरिमाणका निर्देश करते समय तीनों योगोंके कालसे एकत्व वितर्क अविचार ध्यानका काल बहुत अधिक बनलाया है और एकत्ववितर्क अवीचार ध्यानके कालसे क्षीणकपायका काल बहुत अधिक बनलाया है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि क्षीणकपाय गुणस्थानमें उक्त दोनों ध्यान सम्भव हैं । अतः जो सूक्ष्मसांप्रायिक संयत जीव विवक्षित मनोयोग और वचनयोगके कालमें एक समय शेष रहने पर क्षीणकपायी होता है उसके विवक्षित मनोयोग और वचनयोगमें मोहअविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तथा सभी मनोयोगों और वचनयोगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः इनकी अपेक्षा मोहअविभक्ति और मोहअविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ ५६. काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । तथा काययोगियोंके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियोंके समान है । इसी प्रकार औदारिककाययोगियोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट काल देशोन चाईस हजार वर्ष है । औदारिक मिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन समय कम गृहाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । और मोहनीय अविभक्तिका कितना काल है ? मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । वैक्रियिक काययोगी और आहारककाययोगी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनोयोगियोंके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तर्मुहूर्त काल है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टी जीवोंके जानना चाहिये । कर्मणकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । और अविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय काल है ।

§ ५७. वेदानुवादेण इन्धिवेदपुरिमवेदविहती केवाचिं ? जह० एगसमओ अंतो-

विशेषार्थ—अपक सूक्ष्ममांपराय गुणस्थानके कालमें एक समय शेष रहने पर जिसे काययोगकी प्राप्ति होती है उनकी अपेक्षा काययोगमें मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा काययोगका उत्कृष्ट काल अमंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है इस अपेक्षासे काययोगमें मोहविभक्तिका उत्कृष्ट काल अमंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है । मनोयोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पहले घटित करके लिख आये हैं उमी प्रकार काययोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त घटित करके जानना । इन्ही प्रकार औदारिक काययोगियोंके मोहविभक्ति और मोह अविभक्तिका काल जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके मोह विभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष होता है क्योंकि औदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है इससे अधिक नहीं । यहां कुछ कमसे मतलब पर्यायके प्रारम्भमें होनेवाले कार्मणकाययोग और औदारिक निश्चल्ययोगके कालमें है । इन दोनोंके सम्मिलित काल अन्तर्मुहूर्तको बाईस हजार वर्षमेंसे कम कर देने पर शेष समस्त कालमें औदारिककाययोग होता है । औदारिकमिश्र-काययोगमें मोहविभक्तिका जो जघन्य काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है इसका कारण यह है कि सबसे जघन्य क्षुद्रभवको ग्रहण करनेवाले लक्ष्यपर्यायकके औदारिक मिश्रण जघन्य काल होता है तथा उत्कृष्ट काल मंख्यात हजार क्षुद्रभवांमें परिश्रमण करके जो पर्यायकमें उत्पन्न होकर औदारिक काययोगी हो जाता है उसके होता है । जो भी इस मालका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त होता है । औदारिक मिश्रणयोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, सयोगिकवलीके कषाट समुद्रातकी अपेक्षा कहा है । वैकिकिककाययोग और आहारककाययोगका जघन्य काल एक समय मरण और व्याधानकी अपेक्षा प्राप्त होता है तथा इनका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इन योगोंमें मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त मनोयोगके समान बन जाता है । वैकिकिकमिश्र, आहारक मिश्र, उपशम म्यक्त्व और सम्पुग्निध्या-दृष्टिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही होता है अतः यहां मोहविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा । कार्मण काययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है अतः यहां मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा । तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्रातके समय कार्मणकाययोग ही होता है जिसका काल तीन समय है । अतः इस अपेक्षासे कार्मणकाययोगमें मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा ।

§ ५७. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीषके मोहनीयविभक्तिका

मुहुत्तं, उक्क० सगट्टिदी । णवुंस० विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ उक्क० अणंतकालं० । अवगदवेद० विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । अविहत्ती० ओघभंगो ।

§ ५८. कसायाणुवादेण कोहादिचउक्कविहत्ती केव० ? जहणुक्क० अंतोमुहुत्तं । कितना काल है ? स्त्रीवेदीके जघन्य काल एक समय और पुरुषवेदाक जघन्य काल अन्तमुहुत्त है । तथा दोनोंके उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । नपुंसकवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहुत्त है । अपगतवेदियोंके मोहनीय अविभक्तिके कालका कथन ओघके समान है ।

विशेषार्थ—जो पहले स्त्री वेदी या नपुंसकवेदी था वह उपशम श्रेणीसे उतरते समय सवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुष वेदके साथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों वेदोंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल एक समय पाया जाता है । जो पहले सवेदी था वह उपशमश्रेणी पर चढ़कर एक समयके लिये अपगतवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुषवेदी हो गया उसके मोहनीय विभक्तिका काल एक समय पाया जाता है । पुरुषवेदकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहुत्तसे कम नहीं हो सकता । वह इस प्रकार है—जो पहले पुरुषवेदी था वह उपशमश्रेणीसे उतरते समय पुरुषवेदी होकर स्वयंसे जघन्य अन्तमुहुत्त काल तक विश्राम करके जब पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण करके अवेदभावको प्राप्त होता है तब उसके पुरुषवेदके साथ मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहुत्त पाया जाता है । उत्कृष्टरूपसे स्त्रीवेद और पुरुषवेदके साथ मोहनीय कर्मका काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण बतलाया है । यहां अपनी अपनी स्थितिसे स्त्रीवेदी और पुरुषवेदीकी केवल एक पर्याय प्रमाण स्थितिका ग्रहण नहीं करना चाहिये किन्तु जितनी पर्यायोंमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अविच्छिन्न धारा चलती है तत्प्रमाण स्थिति लेना चाहिये । स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काल पत्योपम शतपृथक्त्व है और पुरुषवेदका उत्कृष्ट काल सागरोपम शतपृथक्त्व है । अतः इन दोनों वेदोंके साथ मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट काल भी इतना ही समझना चाहिये । एकेन्द्रिय जीवोंकी प्रधानतासे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण कहा है, अतः नपुंसकवेदके साथ मोहनीय कर्मका काल भी तत्प्रमाण सिद्ध होता है । अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्ति अन्तमुहुत्तसे अधिक कालतक नहीं पायी जाती है यह स्पष्ट ही है ।

§ ५८. कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधादि चारों कपायवालोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुहुत्त काल है । कपाय रहित जीवोंके अपगत वेदियोंके समान कथन करना चाहिये ।

अकसाई० अवगदवेदभंगो । गाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु विहत्तीए तिण्णि भंगा । जो मो मादि० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ठा । विहंग० विहत्ती केव० ? जह० एगममओ, उक्कस्सेण तेत्तीसे मागरोवमाणि देसूणाणि । आभिणिबोहिय०-सुद०-ओहि० विहत्ती जह० अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण छावट्टिमागरोव-माणि सादिरेयाणि । अविहत्ती० जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । मणपज्जव० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । अविहत्ती० जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

विशेषार्थ—क्रोधादि चारों कपार्योंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है इसमें दो मत पाये जाते हैं । एक मतके अनुसार क्रोधादि कपाय एक समय रहकर भी गरणादिकके निमित्तसे बदली जा सकती हैं । और दूसरे मतके अनुसार क्रोधादिका जघन्य काल भी अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं होता है । यहां दूसरी मान्यताका ही महण किया है । तदनुसार क्रोधादि चारोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

ज्ञानमार्गेणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिके कालकी अपेक्षा तीन विकल्प होते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-गान्त और सादि-मान्त । उनमेंसे जो सादि-मान्त विकल्प है उसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अर्द्ध पुद्गल परिवर्तन होता है । विभंगज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेनीस मागर है । आभिनिबोधिकज्ञानी श्रुतज्ञानी और अविज्ञानी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक लियामठ मागर है । तथा मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनः पर्ययज्ञानिोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है । तथा मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान अभव्य जीवोंके अनादि-अनन्त, भव्य जीवोंके अनादि-मान्त और जिन्हें एक बार सम्यग्दर्शन हो कर पुनः मिथ्यात्वकी प्राप्ति हुई है उनके सादि-मान्त काल तक पाया जाता है । उनमेंसे यहां सादि-मान्त मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल बताया है । जो सम्यक्त्वी जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके उक्त दोनों अज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक पाई जाती है । तथा जो सम्यक्त्वी मिथ्यात्वको प्राप्त होकर कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल तक मिथ्यात्वके साथ परिभ्रमण करके सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके मोहनीय विभक्ति उक्त दोनों अज्ञानोंके साथ कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल तक पाई जाती है । जो उपशम सम्यग्दृष्टि देव या नारकी जीव उपशम सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रहने पर सासादन-

§ ५६. संजमाणुवादेण संजद० विहत्ती० अविहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसुणा । मामाइयछेदो० विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ उक्क० पुव्वकोडी देसुणा । परिहारवि० विहत्ती केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देसुणा । एवं संजदासंजद० । सुहुममांपगाइय० विहत्ती केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं ।

रम्यदृष्टि होकर द्वितीय समयमें मरकर जब निर्धर या मनुष्य हो जाता है, तब उसके विभंगज्ञानके साथ सामादन गुणस्थानमें मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी जाती है । विभंगज्ञान अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होता है इसलिये अपर्याप्त अवस्थाके कालको कम कर देने पर सातवें नरकमें विभंगज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति देशोन तेतीस सागर काल तक प्राप्त होती है । मनिज्ञानादि नीनों ज्ञानोके साथ मोहनीय विभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक रहनी है यह तो स्पष्ट है पर उत्कृष्ट रूपसे साधिक छियासठ सागरोपम काल तक कैसे पाई जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हैं—किन्नी एक देव या नारकी जीवने उपशम सम्यक्त्वसे वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया और वह उसके साथ वहां अन्तर्मुहूर्त रहा । अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटिकी आयु वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । पुनः क्रमसे वीम सागर आयुवाले देवोंमें, पूर्व कोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें, वाईम सागर आयुवाले देवोंमें और पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । पुनः यहां श्रायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिना प्रारंभ करके चौवीम सागर आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर और वहांसे आकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अत्यल्प आयुके शेष रहने पर श्रपकश्रेणीका आरोहण करके क्षीणकपायी हो गया । उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अविज्ञानके साथ साधिक छियासठ सागर काल तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है । यहां साधिकसे चार पूर्वकोटि काल का घटण किया है । इन नीनों ज्ञानोके साथ मोहनीय विभक्तिका अभाव अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है यह स्पष्ट ही है । कोई एक मनःपर्ययज्ञानी मनःपर्ययज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालमें क्षीणकपायी हो जाय तो उसके मनःपर्ययज्ञानके साथ अन्तर्मुहूर्तकाल तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है । पूर्वकोटिकी आयुवाले जिन मनुष्यने जाठ वपकी वयमें ही संयमके साथ मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके देशोन पूर्वकोटि काल तक मनःपर्ययज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति पाई जाती है ।

§ ५६. संयममार्गणाके अनुवाचमे संयनोंके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि है । सामायिक और छेदोपस्थापना संयमको प्राप्त संयनोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है । परिहारवशुद्धि संयनोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि है । इसीप्रकार

अविहत्तीए मणुसभगो । असंजद० मदिअण्णाणिभंगो ।

§ ६०. दंमणाणुवादेण चक्खुदंमण० विहत्तीए तसपञ्जचभंगो । अविहत्तीए आभिणि० भंगो । ओहिदंमण० ओहिणाणिभंगो ।

संयतासंयतोंका भी कथन करना चाहिये । सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । यथाख्यात-शुद्धिसंयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । यथाख्यात संयतोंके मोहनीय अविभक्तिके कालका कथन मनुष्योंके समान जानना चाहिये । असंयतोंके मत्यज्ञानियोंके समान जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—संयम परिहारविशुद्धिसंयम और संयमासंयमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल और देशोनपूर्वकोटि है इससे कम नहीं, इसलिये इनमें मोहनीयका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि कहा है । इतनी विशेषता है कि परिहारविशुद्धिके कालमें देशोनका अर्थ अडतीस वर्ष और देशसंयमके कालमें देशोनका अर्थ अन्तर्मुहूर्त पृथक्त्व करना चाहिये । सामायिक, छेदोपस्थापना और सूक्ष्मसांपरायिक जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा कहा है । उसमें पहलेके दो संयमोंका एक समय काल उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवके दमवेसे नौवेंमें आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा । और सूक्ष्म सांपरायिक एक समय काल उपशमश्रेणी पर आरोहण करनेवालेके दसवेंमें एक समय ठहरकर मरनेवालेके तथा उपशमश्रेणीसे उतरनेवालेके ग्यारहवेंसे दमवेमें आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा । सामायिक और छेदोपस्थापनाका उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि स्पष्ट ही है । सूक्ष्म सांपरायिक संयमका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त दमवे गुणस्थानके कालकी अपेक्षासे कहा है । यथाख्यातसंयमका एक समय काल ग्यारहवें गुणस्थानमें एक समय रहकर मरनेवाले जीवके होता है । उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त उपशान्तमोह गुणस्थानके कालकी अपेक्षा कहा है । इसप्रकार जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल हो वहां मोहनीयकर्मका उतना काल समझना चाहिये । जिन संयतोंने मोहनीयकर्मका नाश कर दिया है, उनके मोहका अभाव जघन्यरूपसे अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है, क्योंकि आयु कर्मके अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं वे मोहके बिना संसारमें अन्तर्मुहूर्त काल तक ही रहते हैं । तथा पूर्वकोटिकी आयुवाले जिन संयतोंने आठ वर्षकी अवस्थामें केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनके देशोन पूर्वकोटि कालतक मोहनीयका अभाव पाया जाता है ।

§ ६०. दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी जीवोंके मोहनीयविभक्तिका काल त्रयपर्याप्त जीवोंके समान होता है । तथा अविभक्तिका काल आभिनिबोधिक ज्ञानीके समान है । अविधिदर्शनीके मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिका काल अविधिज्ञानीके समान होता है ।

§ ६१. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० विहत्ती० जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्खस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि सादिरेयाणि । तेउ-पम्माणं विहत्ती केवच्चिरं काला-दो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्खस्सेण वे अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । सुक्क० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहत्ती० मणुसभंगो ।

विशेषार्थ—त्रसपर्याप्तकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर कह आये हैं । उसीप्रकार चक्षुदर्शनी जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये । यह काल क्षयोपशमकी प्रधानतासे कहा है । उपयोगकी प्रधानतासे नहीं, क्योंकि उपयोगकी अपेक्षा चक्षुदर्शनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही होते हैं । बारहवें गुणस्थानका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वह चक्षुदर्शनीके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल समझना चाहिये । अवधि-ज्ञानीके मोहनीयकर्म और उसके अभावका काल ऊपर ही कह आये हैं उसीप्रकार अवधि-दर्शनीके जानना चाहिये ।

§ ६१. लेश्यामार्गणाके अनुवादासे कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्यावाले जीवोंके साधिक तेतीस सागर, नीललेश्यावाले जीवोंके साधिक सत्रह सागर और कापोत-लेश्यावाले जीवोंके साधिक सात सागर हैं । तेज और पद्मलेश्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेजलेश्यावाले जीवोंके साधिक दो सागर और पद्मलेश्यावाले जीवोंके साधिक अठारह सागर हैं । शुक्ल-लेश्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हैं । शुक्ललेश्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका काल मनुष्योंके समान है ।

विशेषार्थ—एक लेश्याका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, तथा उत्कृष्ट काल सातवे नरककी अपेक्षा कृष्ण लेश्याका साधिक तेतीस सागर, पांचवे नरककी अपेक्षा नीलका साधिक सत्रह सागर, तीसरे नरककी अपेक्षा कापोतका साधिक सात सागर, सौधर्म-पेशानस्वर्गकी अपेक्षा पीतका साधिक दो सागर, सत्तार-सहस्रार स्वर्गकी अपेक्षा पद्मका साधिक अठारह सागर और शुक्ल लेश्याका सर्वार्थभिद्धिकी अपेक्षा साधिक तेतीस सागर हैं । यहां साधिकसे विवक्षित पर्यायके पूर्ववर्ती पर्यायका अन्तिम अन्तर्मुहूर्त और उत्तरवर्ती पर्यायका प्रथम अन्तर्मुहूर्त लिया है, क्योंकि उम समय भी वही लेश्या रहती है । इस प्रकार जिस लेश्याका जघन्य और उत्कृष्ट जितना काल हो उसके अनुसार मोहनीयकर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल समझना चाहिये । मोहका अभाव केवल शुक्ल लेश्यामें मनुष्योंके ही होता है अतः उसका कथन मनुष्योंमें मोहके अभावके कथनके समान करना चाहिये ।

§ ६२. भवियाणुवादेण भवमिद्धि० विहत्ति० अणादिओ सपञ्जवसिदो । अविहत्तीए मणुसभंगो । अभवसिद्धि० विहत्ती अणादिअपञ्जवसिदा । सम्मत्ताणुवादेण सम्मादि० विहत्ती० आभिणि० भंगो । अविहत्ती० ओघभंगो । गइय० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं मागरोवमाणि मादिरेयाणि । अविहत्ती० ओघभंगो । वेदगसम्मादि० विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० छावटिगागरोवमाणि । सासण० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० छ आवलियाओ । मिच्छादिट्ठी० मदिअण्णाणिभंगो ।

§ ६२. भव्यभार्गणाके अनुवादसे भव्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि-सान्त है । और इनके मोहनीय अविभक्ति का काल मनुष्योंके समान है । तथा अभव्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि अनन्त है । सम्यक्त्व भार्गणाके अनुवादसे सामान्य सम्यग्दृष्टि जीवोंके मोहनीय विभक्तिका काल आर्भान्द्राधिकज्ञानियोंके समान है । तथा उनके मोहनीय अविभक्तिका काल ओघके समान है । आधिकसम्यग्दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काठ सर्वाधिक तेती सागर है । तथा आधिकसम्यग्दृष्टियोंके मोहनीय अविभक्तिका काठ ओघके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल छायागट सागर है । सामान्य सम्यग्दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काठ काठ पदम । और उत्कृष्ट काल छ आवली है । मिथ्या-दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका काल मत्यज्ञानियोंके समान है ।

निशेषार्थ—मतिज्ञानियोंके मोहनीयता काठ उपर दिग्गन्ध ही आये हैं । सम्यग्दृष्टि सामान्यके मोहनीयके अभावका काल ओघप्ररूपणके समान जानना चाहिये । कोई जीव आधिकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर ही क्षीणमोह हो जाता है । और कोई आधिकसम्यग्दृष्टि आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम दो पूर्वोक्ति अधिक तेतीम सागर कालके बाद क्षीणमोह होगा है । अतः इस निवेक्षामे आधिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीय कर्मका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल सर्वाधिक तेतीम सागर कहा है । सामान्य प्ररूपणामे मोहनीयके अभावका काल काठ कहा है तथा आधिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीयके अभावका काल समझना चाहिये । वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । जो पहले कई बार सम्यग्दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि ओघ मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टि हो चुका है ऐसा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करेगा और नहां जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक रहकर पुनः मिथ्यात्वको जय प्राप्त हो जाता है । त उसके वेदकसम्यक्त्वका अन्तर्मुहूर्त काल देखा जाता है । तथा उसका उत्कृष्ट काल छायागट सागर है । कोई एक उपशम सम्यग्दृष्टि मनुष्य वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर मनुष्यपर्याय संतन्वी शेष भुज्यमान आयुसे रहित बीस सागरापम आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहामे पुनः मनुष्य होकर मनुष्यायुसे न्यून वाईम सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे पुनः मनुष्य होकर भुज्यमान मनुष्यायुसे तथा देवपर्यायके अनन्तर प्राप्त होनेवाली मनुष्यायुमेंसे आधिक

§ ६३. सण्णियाणुवादेण सण्णि० विहत्ती० जह० खुदाभवग्रहणं, उक्क० सागरो-
वमसदपुधत्तं । अविहत्ती० जहण्णुक्कस्सेण अंतोसुहुत्तं । अरुण्णि० एइंदियभंगो । आहार०
विहत्ती० जह० खुदाभवग्रहणं तिममयुणं, उक्कस्सेण अंगुलम्म असंखेज्जदिभागो ।
अविहत्ती० मणुमभंगो । अणाहारि० विहत्ती० कम्मइय० भंगो । अविहत्ती० ओघभंगो ।
सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने तकके कालसे न्यून चौवीरा सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर
वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । मनुष्य पर्यायमें जो वेदनका काल अन्तर्मुहूर्त शेष
रहा तब दर्शनमोहनीयकी क्षणिका प्रारंभ करते कृतकृत्यवेदक, सम्यग्दृष्टि हुआ । इस
प्रकार कृतकृत्यवेदकके चरम समय तक वेदक सम्यग्दर्शनके दृष्टारट सागर पूरे हो जाते
हैं । अतः इन विवक्षासे वेदकसम्यग्दृष्टिके मोहनीय वर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा
है । सासादनका जघन्य काल एक वस । और उत्कृष्ट काल लृह आवली प्रमाण है । इस
विवक्षासे सामादन सम्यग्दृष्टिके मोहनीय जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । मत्यज्ञान
और मिथ्यात्वका समान काल देव्यार मिथ्याज्ञानोंके मोहनीय वर्मका जघन्य और उत्कृष्ट
काल मत्यज्ञानियोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६३. संज्ञीमार्गणाके अनुयायि संज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल खुदा-
भवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल तो पृथक्त्व सागर है । संज्ञी जीवोंके मोहनीय अवि-
भक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अज्ञाननिर्जन है । असंज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका
काल एकैन्द्रिय जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—कोई एक असंज्ञी जीव संज्ञी पर्यायोंमें उत्पन्न होकर पुनः असंज्ञी हो जावे
तो उसके संज्ञी होनेका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण पाया जाता है । तथा कोई एक
असंज्ञीजीव संज्ञियोंमें उत्पन्न होकर और वहां तो पृथक्त्व सागर काल तक परिभ्रमण करके
असंज्ञी हो जाये तो उसके संज्ञी होनेका उत्कृष्ट काल भी पृथक्त्व सागर पाया जाता है ।
इस विवक्षासे संज्ञी जीवोंके मोहनीय वर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । क्षीणमोहका
जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही संज्ञी जीवोंके मोहनीय वर्मका जघन्य और उत्कृष्ट
काल जानना चाहिये । असंज्ञियोंमें एकैन्द्रियोंका काल मुख्य है, इसलिये असंज्ञियोंमें
मोहनीय कर्मका काल एकैन्द्रियोंमें मोहनीय कर्मके कालके समान बताया है ।

आहार मार्गणाके अनुयायि अहारी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य काल तीन
समय कम खुदाभवग्रहणप्रमाण है । और उत्कृष्ट काल अज्ञानके अनन्त्यातवे भागप्रमाण है ।
आहारी जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनुष्योंके समान है ।
अनाहारियोंके मोहनीय विभक्तिका काल धर्मणस्सययोगियोंके समान है । तथा मोहनीय
अविभक्तिका काल ओघके समान है । इनकी विशेषता है कि मोहनीय अविभक्तिका
जघन्य काल तीन समय है ।

णवरि, जह० तिण्णि समय।

एवं कालो समत्तो ।

§ ६४. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । ओघेण विहत्तीणं पत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारएत्ति अप्पप्पणो पदाणं चित्तिऊण वत्तच्चं ।

एवमंतरं समत्तं ।

§ ६५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण विहत्ती अविहत्ती० णियमा अत्थि । एवं मणुस्स-मणुसपज्जत्त-मणुसिणी-पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-तिण्णिमण०-तिण्णिवाचि०-कायजोगि-ओरा-

विशेषार्थ—एक पर्यायमें आहारकका सबसे जघन्य काल तीन समय कम खुदाभव-ग्रहणप्रमाण है । तथा उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है जो कि असंख्या-तासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण होता है । इस विवक्षासे आहारक जीवके मोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है । मनुष्योंमें मोहनीय कर्मके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल ऊपर कह आये हैं वही आहारकोंके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये । विशेष बात यह है कि यहां चौदहवें गुणस्थानका काल घटाकर कथन करना चाहिये; क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें जीव अनाहारक होता है । ऊपर कर्मणकाययोगमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट काल तीन समय कह आये हैं वही अनाहारकोंके मोहनीय कर्मका जघन्य काल जानना चाहिये । अनाहारकके मोहनीयके अभावका जो जघन्य काल तीन समय बतलाया है वह प्रतर और लोकपूरण समुद्घातकी अपेक्षासे कहा है । तथा अनाहारकके मोहनीय अविभक्तिका उत्कृष्ट काल सादि-अनन्त होगा क्योंकि सिद्ध होनेपर भी जीव अनाहारक ही रहता है ।

इमप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ६४. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार गति मार्गणासे लेकर अनाहारक मार्गणातक अपने अपने पदोंका चिन्तवन करके व्याख्यान करना चाहिये ।

विशेषार्थ—मोहनीयका क्षय होकर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती अतः ओघ और आदेशसे मोहविभक्तिका अन्तर काल नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

§ ६५. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ-निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा विचार करने पर मोहनीय विभक्ति और मोहनीय-अविभक्ति नियमसे है । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यिनी पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी

लिय०-संजद०-सुकले०-भवसिद्धिय०-संम्मादि०-[खइयसम्माइट्टि]-आहारि०-अणाहारएत्ति वत्तव्वं ।

§ ६६. मणुसअपज्ज० सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया । एवं वेउच्चियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-सुहुम०-उवसम०-सासण०-सम्माभिच्छादिट्टि त्ति वत्तव्वं । वे-मण०-वेवचि० सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिण्णि भंगा । एवमोरालियमिस्सं०-[कम्म-इय०]-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-चक्खु०-अचक्खु०-ओहिदंसण०-सण्णि-और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्ल लेइयावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारकके कहना चाहिये । अर्थात् उक्त मार्गणा वाले जीव नियमसे मोहनीय कर्मसे युक्त भी होते हैं और मोहनीय कर्मसे रहित भी होते हैं ।

विशेषार्थ—ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और क्षीण-कपायसे लेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं । उपर्युक्त मार्गणाओंमें ग्यारहवेंसे नीचेके और ऊपरके गुणस्थान संभव है अतः उनमें सामान्य प्ररूपणाके अनुसार मोहनीय कर्मसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित जीव बन जाते हैं ।

§ ६६. लब्धपर्याप्तक मनुष्योंमें कदाचित् एक जीव मोहनीय विभक्तिवाला है और कदाचित् अनेक जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सूक्ष्मसांपराधिकसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी मार्गणाएं कही हैं वे सब सान्तग हैं । अर्थात् उक्त मार्गणा-वाले जीव कभी होते और कभी नहीं होते । जब इन मार्गणाओंमें जीव होते हैं तो कभी एक जीव होता है और कभी अनेक जीव होते हैं । इसी अपेक्षासे उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय कर्मसे युक्त एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग कहे हैं ।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचन योगी जीवोंमें कदाचित् सभी जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं । कदाचित् बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है । कदाचित् बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और बहुत जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं । इस प्रकार तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार औदारिक-मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षु-दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोगको छोड़कर ऊपर जितनी (१)-दि (वु०...६) आ-म०, दिट्ठि० सासण० आ-अ०, आ० । (२)-स्स (वु०...४) आ-म० ।-स्स० वेउच्चियमिस्स० आ-अ०, आ० ।

त्ति वत्तव्वं । अन्नगद्वेद० मिया मव्वे जीवा अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, मिया अविहत्तिया च विहत्तिया च एवं तिण्णि भंग्गा । एवमकसायि-जहाक्खाद० । ससमव्वमग्गणासु विहत्तिया णियमा अत्थि ।

पाणाजीवेहि भंगविच्चओ समत्तो ।

मार्गणाँ गिना आये हैं वे वारहवे गुणस्थान तक होनी हैं । तथा वारहवां गुणस्थान सान्तर है । कभी इन गुणस्थानमें एक भी जीव नहीं होना तथा कभी अनेक जीव होते हैं और कभी एक जीव होता है । जब इन गुणस्थानवाला एक भी जीव नहीं होता तब उक्त मार्गणाओंमें कदाचित् सभी जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं यह पहला भंग बन जाता है । जब वारहवें गुणस्थानमें एक जीव होता है तब उक्त मार्गणाओंमें कदाचित् अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है यह दूसरा भंग बन जाता है । तथा जब वारहवे गुणस्थानमें अनेक जीव होते हैं तब उक्त मार्गणाओंमें कदाचित् अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं यह तीसरा भंग बन जाता है । पर औद्वागिकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्तिका कथन करते समय सयोगिकेवली गुणस्थानकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । यद्यपि सयोगकेवली गुणस्थानमें सर्वदा बहुत जीव रहते हैं । पर औदारिक-मिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग सयोगिकेवलियोंके समुद्धात अवस्थामें ही होता है । और सयोगिकेवली जीव सर्वदा समुद्धात नहीं करते । तथा सयोगकेवली जीव जब समुद्धात करते हैं तो कदाचित् एक जीव समुद्धात करता है और कदाचित् अनेक जीव समुद्धात करते हैं । अतः इन अपेक्षासे औदारिकमिश्रकाययोगी और कर्मणकाययोगी जीवोंके भी उक्त प्रकारसे तीन भंग हो जाते हैं ।

अपगतवेदी जीवोंमें कदाचित् सभी जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं । कदाचित् अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय विभक्तिवाला है । कदाचित् अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले और अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं, इस प्रकार तीन भंग होते हैं । इसी प्रकार कथनरहित जीवोंके और यथाख्यातमयतोंके भी कथन करना चाहिये । शेष सभी मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव नियमसे होते हैं ।

विशेषार्थ—अपगतवेदी जीव नौवें गुणस्थानके त्रवेद भागसे आगे होते हैं । उनमें क्षपकश्रेणीके द्मवं गुणस्थान तकके जीव और उपशमश्रेणीके जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं । अतः जब मोहनीय कर्मसे युक्त अवेदी जीव नहीं पाया जाता है तब मुख्यतः सयोग केवलियोंकी अपेक्षा सभी अवगतवेदी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं, यह पहला भंग बन जाता है । जब नौवेंके अवेद भागसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कोई एक ही जीव मोहनीय कर्मसे युक्त पाया जाता है तब 'कदाचित् अनेक अपगतगतवेदी जीव

§ ६७. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण यं । [तत्थ] ओघेण विहत्ति० सव्वजीवाणं केवडिओ भागो । अणंता भागा । अविहत्ति० सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालिय-मिस्स०-कम्मइय०-अचक्खुदं०-भवसिद्धि०-आहार-अणाहारएत्ति वत्तव्वं ।

§ ६८. मणुसगदीए मणुस्सेसु विहत्ति० सव्वजीवा० केवडिओ भागो ? असंखेजा भागा । अविहत्तिया मव्वजीवाणं केव० भागो ? असंखेज्जदिभागो । एवं पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तमपज्जत्त-पंचमण०-पंचवच्चि०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं और एक जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होता है यह दूमरा भंग बन जाता है । तथा जत्र नोंवके अचेद भागसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक बहुतसे जीव मोहनीय कर्मसे युक्त पाये जाते हैं तब बहुतसे अपगतवेदी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं और बहुतसे जीव मोहनीय कर्मसे सहित भी होते हैं यह तीसरा भंग बन जाता है । इसी प्रकार कपायराहत जीवोंके ओर यथाख्यात भयंतोंके उक्त तीन भंग होते हैं । पर यहां 'एक जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होता है या बहुतसे जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं' ये विकल्प उपग्रान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा ही कहना चाहिये । इस प्रकार ऊपर जिन मार्गणः विशेषोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त होने और न होनेका कथन कर आये हैं उन मार्गणःस्थानोंके छोड़कर जेव जितने भी मार्गणाओके अवान्तर भेद हैं उनमें जीव मोहनीय कर्मसे युक्त ही होते हैं ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामका अनुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ ६७. भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघानिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिकाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । मोहनीय विभक्तिकाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । उमीप्रमाण वा मोहनीय, आहारककाययोगी, आहारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके भी कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी भी मार्गणाः गिनार्ह हैं उनका प्रमाण अनन्त होते हुए भी उनमेंसे बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और अनन्तवें भागप्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं, अतएव उक्त मार्गणाओंकी प्ररूपणा ओघके समान कही गई है ।

§ ६८. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिकाले जीव समस्त मनुष्योंके कितने भाग-प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मोहनीय विभक्तिकाले जीव सब मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । उमीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त

वस्तुदंसण-ओहिदंसण-राकले०-सणिण ति वत्तव्वं । मणुपज्जत्त-मणुसिणीसु विहत्ति०
सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? संखेज्जा भागा । अविहत्ति० केवडिओ भागो ?
संखेज्जादिभागो । एवं मणुपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं । जहाक्खादेसु विहत्तिया सव्व-
जीवाणं केवडिओ भागो ? संखेज्जादिभागो । अविहत्तिया संखेज्जा भागा ।

§ ६६. अवगदवेद० विहत्ति० सव्वजी० केव० ? अणंतिमभागो । अविहत्ति०

ब्रह्म, ब्रह्मपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-
ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेदयक और संज्ञी जीवोंके भी कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—मनुष्यगतिमें मनुष्य जीव असंख्यात हैं । उनमेंसे बहुभाग मोहनीय कर्मसे
युक्त हैं और असंख्यातैक भागप्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कर्मसे रहित है । मनुष्योंके
अतिरिक्त ऊपर और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार व्यवस्था जानना
चाहिये । क्योंकि, उनमेंसे प्रत्येक मार्गणाका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात
बहुभागप्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और असंख्यात एक भागप्रमाण क्षीणमोही
जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं ।

मनुष्यपर्याप्त और योनिमती मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव मनुष्य पर्याप्त और
योनिमती मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मोहनीय अवि-
भक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनःपर्यय-
ज्ञानी और संयतोंका भी कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—पर्याप्तमनुष्य, योनिमतीमनुष्य, मनःपर्ययज्ञानी और संयत इन चारों राशियोंका
प्रमाण संख्यात होते हुए भी इनमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव बहुत होते हैं और मोहनीय
कर्मसे रहित जीव अल्प होते हैं । इसीलिये इन चारों स्थानोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव
संख्यात बहुभागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण कहे हैं ।

यथाख्यात संयतोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सब यथाख्यातमंयत जीवोंके कितने
भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भाग-
प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।

विशेषार्थ—यथाख्यात संयत ग्यारहवें गुणस्थानसे चौदहवें गुणस्थान तक होता है ।
उसमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव ग्यारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं, शेष मोहनीयसे रहित
है जो कि ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीवोंसे संख्यातगुणे हैं । इसीलिये ऊपर यह कहा है कि
संख्यातवें भागप्रमाण मोहनीय विभक्तिवाले और संख्यात बहुभागप्रमाण मोहनीय अवि-
भक्तिवाले यथाख्यातसंयत जीव होते हैं ।

§ ६६. अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्व अपगतवेदी जीवोंके कितने
भागप्रमाण है ? अनन्त एक भागप्रमाण है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भागप्रमाण

सव्वजी० केव० ? अणंता भागा । एवं अकसाय-सम्मादिट्ठि-खइय० वत्तव्वं । सेसाणं मग्गणाणं णन्थि भागाभागो एगपदत्तादो ।

एवं भागाभागो ममत्तो ।

१७०. परिमाणानुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह-पयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च केवडिया ? अणंता । एवमणाहारीणं वत्तव्वं ।

१७१. आदेसेण णिरयगईणं षोइएसु मोह०विहत्ति० केवडि० ? असंखेज्जा । एवं हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अकपायिक, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके कथन करना चाहिये । ये ऊपर जितनी भी मार्गणाएँ कह आये हैं उनसे अतिरिक्त शेष मार्गणाओंमें भागाभाग नहीं होता है, क्योंकि, उनमें एक स्थान पाया जाता है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदियोंमें नीवें गुणस्थानके अवेदभागमें लेकर सभी गुणस्थानवर्ती और गुणस्थानानीत जीवोंका ग्रहण कर लिया है । अतः उनमें मोहनीय विभक्तिवाले अनन्त बहुभागप्रमाण और मोहनीय अविभक्तिवाले अनन्त बहुभागप्रमाण जीव कहे हैं । यही व्यवस्था अकपायिक, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके सम्बन्धमें भी जानना चाहिये । विशेष बान यह है कि कपायरहित जीव ग्यारहवे गुणस्थानसे और सम्यग्दृष्टि तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानसे होते हैं । अतः इनका भागाभाग कहते समय उस उस गुणस्थानसे लेकर भागाभाग करना चाहिये । प्रारंभसे लेकर यहां जिन मार्गणास्थानोंका भागाभाग कहा गया है उन्हें छोड़कर शेष सभी मार्गणास्थानोंमें एक स्थान ही पाया जाता है, अतः वहां भागाभाग नहीं बन सकता है ।

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

१७०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है, ओर्घानर्देश और आदेशनिर्देश । उनमें ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार अनाहारक जीवोंके भी कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—बारहवें गुणस्थानके पहले जितने भी संसारी जीव हैं वे सब मोहनीय कर्मसे युक्त हैं । और बारहवें गुणस्थानसे लेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । इन दोनों राशियोंका प्रमाण अनन्त है, अतः ऊपर मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्त कहे गये हैं । अनाहारकोंमें विग्रहगतिको प्राप्त हुए जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्घातगत सयोग केवली, अयोग-केवली तथा सिद्ध जीव मोहनीयसे रहित होते हैं । ये दोनों ही अनाहारक राशियां अनन्त हैं, इसलिये ऊपर मोहनीय कर्मसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित अनाहारक जीवोंका कथन ओघप्ररूपणाके समान कहा है ।

१७१. आदेशसे नरकगतिमें नरकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असं-

सत्तसु पुढवीसु । सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुरस अपज्जत्त-देव० भवणादि जाव अवरा-
इदंताणं सव्वविगल्लिदिय-पंचिदियअपज्जत्त-तसअपज्जत्त-पुढवि०-आउ०-[तेउ०]
वाउ०-बादरपुढवि०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरआउ०-पज्जत्तअपज्जत्त-बादरतेउ०-पज्जत्त-
अपज्जत्त-बादरवाउका०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुम पुढवी०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमआउ०-
पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमतेउ०-पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमवाउ०-पज्जत्तअपज्जत्त-बादरवणप्फदि-
पत्तेय०-पज्जत्तअपज्जत्त-बादरणिगोदपदिट्ठिद०-पज्जत्तअपज्जत्त-वेउव्विय०-वेउव्विय-
मिस्स०-इत्थि०-पुरिम०-विभंग०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-उवमम०-सासण०-
सम्मामिच्छादिट्ठीणं वत्तव्वं ।

§ ७२. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु विहत्ति० केवडि० ? अणंता । एवं सव्वएइंदिय०-
वणप्फदि०-बादर० पज्जत्त अपज्जत्त०-सुहुम० पज्जत्त अपज्जत्त-णिगोद० बादर० पज्जत्त
ख्यात हैं । इसीप्रकार सातो पृथिवियोंमें कथन करना चाहिये । तथा सभी पंचेन्द्रिय
तिर्यच, मनुष्य लब्धपर्याप्त, सामान्यदेव, भवनवामियोसे लेकर अपराजित स्वर्ग तकके देव,
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, त्रम लब्धपर्याप्त, पृथिवीकायिक, अष्कायिक,
तैजस्कायिक, वायुकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त,
बादर अष्कायिक, बादर अष्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर तैजस्कायिक, बादर तैजस्का-
यिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त,
सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म अष्कायिक, सूक्ष्म
अष्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक
शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर निगोदप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके
पर्याप्त और अपर्याप्त, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रिमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंग-
ज्ञानी, संयतामंयत, तेजोलंश्यावाले, पद्मालेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि,
सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-सामान्यसे नारकी अमंख्यात होते हैं और प्रत्येक नरकके नारकी भी
असंख्यात ही होते हैं । तथा वे सब मोहनीय कर्मसे युक्त ही होते हैं । इसीलिये उपर
मोहनीय कर्मसे युक्त सामान्य और विशेष नारकियोंका प्रमाण असख्यात कहा है ।
अनन्तर जो मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें भी प्रत्येकका प्रमाण अमंख्यात है और वे सब
मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारकियोंके समान कहा है ।

§ ७२. तिर्यचगतिमें तिर्यचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।
इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय जीव, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक तथा उनके
पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सामान्यनिगोद

अपज्जत्त-सुहुम०पज्जत्त अपज्जत्त-णवुंसयवेद-चत्तारि कसाय-मदि-सुद अण्णाणि-अस-जद० तिणिलेस्सा-अभवसिद्धिय-मिच्छाइट्ठि-असण्णित्ति वत्तव्वं ।

§ ७३. मणुसगईए मणुस्सेसु विहत्ति० केवडि० ? असंखेज्जा । अविहत्ति०संखेज्जा । एवं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तम-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद-ओहि०-चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुक्कले० सण्णित्ति वत्तव्वं । मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु विहत्ति० अविहत्ति० केवडि० ? संखेज्जा । एवं मणपज्जव०-संजदा० वत्तव्वं ।

§ ७४. सव्वठदेवेसु विहत्ति० केवडि० ? संखेज्जा । एवमाहार०-आहारमिस्स०-सामाइय-छेदोवट्टावण-परिहारविसुद्धि-सुहुमसांपराइयसंजदाणं वत्तव्वं ।

वाटरनिगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और लोभ व.पायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्ण, नील और कापोत लेइयावाले, अभव्य, मिध्याइट्ठि और असंझी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—तिर्यंचोका प्रमाण अनन्त होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं । इसीप्रकार ऊपर और जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं वे सब अनन्तराशि प्रमाण हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त हैं । अतः उनका कथन तिर्यंचोके समान कहा है ।

§ ७३. मनुष्यगतिये मनुष्योमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेश्यावाले और संझी जीवोंको कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—नामान्य मनुष्योंका प्रमाण असंख्यात है उनमें असंख्यात जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और संख्यात क्षीणमोहनीय जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । ऊपर जो और मार्गणाँ गिनाई हैं उनमेंसे प्रत्येकमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये ।

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतोके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यिणी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंका प्रमाण संख्यात है । इसमें संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और संख्यात एक भाग-प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं ।

§ ७४. सर्वार्यसिद्धिके देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, और सूक्ष्मसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये ।

§ ७५. कायजो० विहत्ति० केत्तिया ? अणता । अविहत्ति० संखेज्जा । एव-
मोरालिय०-ओरालियमिस्म०-कम्मइय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारएत्ति वत्तव्वं ।

§ ७६. अवगदवेद० विहत्ति० केत्ति० ? संखेज्जा । अविहत्तिया केत्तिया ?
अणता । एवमकमा० वत्तव्वं । मग्गादिट्ठी० विहत्ति० केत्ति० ? असंखेज्जा । अविहत्ति०

विशेषार्थ—जिम प्रकार मवार्थमिद्धिके देव संख्यात होते हुए भी वे सब मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं । उसीप्रकार ऊपर कहे गये शेष मार्गणास्थानोमें भी जानना चाहिये ।

§ ७५. काययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कर्मणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—काययोगियोंका प्रमाण अनन्त है । तथा उनमें मोहनीयकर्मसे युक्त और मोहनीय कर्मसे रहित दोनों प्रकारके जीव पाये जाते हैं । जो बारहवे और तेरहवे गुण-स्थानवर्ती जीव हैं वे मोहनीय कर्मसे रहित हैं, अतः उनका प्रमाण संख्यात है और शेष ग्यारह गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं, अतः उनका प्रमाण अनन्त है । औदारिककाययोगियोंका कथन भी इसीप्रकार समझना चाहिये । कर्मणकाययोगियोंमें पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानमें विग्रहगतिको प्राप्त मोहनीय कर्मसे युक्त जीव लेना चाहिये । प्रत्येक समयमें अनन्त जीव विग्रहगतिको प्राप्त होते हैं, इस नियमके अनुसार उनका प्रमाण अनन्त होता है । कर्मणकाययोगियोंमें प्रतर और लोकपूरण समुद्धानको प्राप्त सम्यग्दृष्टी मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं । वे संख्यात ही हैं । औदारिकमिश्रकाययो-गियोंमें नवीन शरीर ग्रहण करनेके प्रथम समयमें लेकर अन्तर्मुहूर्त काल पर्यन्त मंचित हुए पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानके नियंत्रण और मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये । वे अनन्त हैं और मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं । तथा कपाटसमुद्धानको प्राप्त औदारिक मिश्रकाययोगी मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये । इनका प्रमाण संख्यात ही है । अचक्षुदर्शनियोंमें प्रारंभसे लेकर ग्यारह गुणस्थान तकके जीव मोहनीय कर्मसे युक्त और बारहवे गुणस्थानके जीव मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये । भव्य और आहारकोंमें भी ग्यारह गुणस्थानके जीव मोहनीय कर्मसे युक्त और शेष मोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये । इतना विशेष है कि मोहनीय कर्मसे रहित आहारकोंमें बारहवें और तेरहवे गुणस्थानके ही जीव होते हैं चौदहवेंके नहीं ।

§ ७६. अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार कपायरहित जीवोंके कथन करना चाहिये । सम्यग्दृष्टियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके भी इसीप्रकार

केत्तिया ? अणंता । एवं खइयसमाइट्टीणं वत्तव्वं ।

एवं परिमाणं समत्तं ।

§ ७७. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह-
विहत्ति० केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । मोहअविहत्ति० केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्ज-
दिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेसु, सव्वलोगे वा । एवं कायजोगि-भवसिद्धिय-अणाहारित्ति ।
कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—मोहनीय कर्मसे युक्त अपगतवेदी जीव नौवें गुणस्थानके अवेदभागसे ग्यारहवें गुणस्थान तक और मोहनीय कर्मसे युक्त कपायरहित जीव उपशान्तमोह गुणस्थानमें ही पाये जाते हैं । अतएव इन दोनोंका प्रमाण मंख्यात कहा है । तथा शेष सभी ऊपरके गुणस्थानवर्ती और भिन्न जीव अपगतवेदी और अकपायी होते हुए मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं अतः इन दोनोंका प्रमाण अनन्त कहा है । संसारस्थ सम्यग्दृष्टियों और क्षायिक-सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात है, किन्तु उनमें सिद्धोंका प्रमाण मिलाकर अनन्त कहा है । इन दोनोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीवोंका ग्रहण करते समय चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीव ही लेना चाहिये । अतः सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव असंख्यात होते हैं । तथा मोहनीय कर्मसे रहित जीव अनन्त होते हैं ।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ ७७. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें, लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्रमें और सर्व लोकमें रहते हैं । इसी प्रकार काययोगी, भव्य और अनाहारी जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—वर्तमान निवामस्थानको क्षेत्र कहते हैं । वह जीवोंकी स्वस्थान, समुद्धात और उपपादरूप अवस्थाओंके भेदसे तीन प्रकारका होता है । स्वस्थानके स्वस्थानस्वस्थान और विहारवत्स्वस्थान इस प्रकार दो भेद हैं । समुद्धात भी वेदना, कपाय, वैक्यिक, मारणान्तिक, तैजम, आहारक और केवलिके भेदसे सात प्रकारका है । यहां जीवोंकी उत्तरभेदरूप इन दस अवस्थाओंमें प्रत्येक पदकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार न करके सामान्य-रीतिसे विचार किया गया है । अतः जिस स्थानमें जिस पदकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्रकी संभावना है उसका ही सामान्य रूपाणामें ग्रहण कर लिया गया है । मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंके क्षेत्रका कथन करते समय मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्रधानता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीवोंका वर्तमान निवास स्थान सर्वलोक है । सासादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त मोह तकके

§ ७८. आदेसेण णिरयगईण णेगइएसु मोहविहत्ति० केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखे-
ज्जदिभागे । एवं मव्वणेरइय-मव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस अपज्जत्त-सव्वदेव-सव्वविग-
ल्लिंदिय-पंचिदियअपज्जत्त-तमअपज्जत्त-बादरपुठवि०पज्जत्त-बादरआउ०पज्जत्त-बादर-
तेउ०पज्जत्त-बादरवणप्फदि०पत्तेय०पज्जत्त-बादरणगोदपदिद्विपज्ज०-वेउच्चिय०-वेउ-
च्चियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-इत्थि०-पुरिम०-विहंग०-मामाइय-छेदो०-पग्घिा०-
सुहुम०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-उवमम०-सामण०-मम्मामिच्छेत्ति वत्तव्वं ।

मोहनीय विभक्ति वाले जीवोंकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका वर्तमान निवास स्थान लोकका अमंख्यातवां भाग है । मोहनीय अनिभक्तियाले जीवोंके क्षेत्रका प्ररूपण करते समय ऊपर तीन प्रकारका क्षेत्र कहा है । उनमें लोकका अमंख्यातवा भागप्रमाण क्षेत्र श्रीणमोह, समुद्घातरहित केवली या दंड और कपाट समुद्घातको प्राप्त केवली, अयोगकेवली और सिद्ध जीवोंके क्षेत्रकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि, इनका वर्तमान निवास लोकके अमंख्यातवे भाग-प्रमाण क्षेत्रमें है । लोकका असंख्यान बहुभाग प्रमाण क्षेत्र प्रतरसमुद्घातकी अपेक्षासे कहा है, क्योंकि, प्रतरसमुद्घातको प्राप्त केवलीने, जगश्रेणीप्रमाण जगप्रतरोंमेंसे ६३३१०, ५६६६० योजन प्रमाण जगप्रतरोंको घटा देने पर जो लोकका बहुभाग प्रमाण क्षेत्र रहता है उसे वर्तमान कालमें स्पर्श किया है । तथा सर्वलोक क्षेत्र लोकपूरण समुद्घातको प्राप्त केवलीके वर्तमान निवासकी अपेक्षासे कहा है । तथा जिन स्थानोंकी प्रधानतासे ओघक्षेत्रका कथन किया है वे स्थान काययोगी, भव्य और अनाहारी जीवोंके भी पाये जाते हैं, अतः इनका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान कहा है ।

§ ७८. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तियाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके अमंख्यातवे भाग क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार सभी प्रथमादि सातों नरकोंके नारकी, सभी पंचेन्द्रित्तिरिक्ख, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर अपकार्याक-पर्याप्त, बादर तैजस्कायिकपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, बादरनिगोद-प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काय-योगी, आहारकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकमंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिमंयत, सूक्ष्मभांगायसंयत, संयतामंयत, तेजोलेइयावाले, पद्म-लेइयावाले, वेदकमस्यगृष्टि, उपशम सम्यगृष्टि, सामादन सम्यगृष्टि और सम्यगृष्टि-मिथ्या-दृष्टि जीवोंके लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—ऊपर कहे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है—

९७६. तिरिक्खगईण तिरिक्खेगु मोहविहत्ति० केवडि खेत्ते ? सन्वलोए । एवं

मार्गणास्थान	स्व, स्व	वि.स्व.	वेद०	कपा	वैक्रि.	तै०	आ.	मा.	उप.
सभी नारकी, पचेन्द्रिय									
ति, पं० पर्याप्त ति०,									
पं० योनिमती ति०,									
सभी देव, उपशम	"	"	"	"	"	"	"	"	"
म०, सामादत्त,									
स्त्रीवेदी,									
पुरुपवेदी, वेदकसम्य									
गृष्टि, पीत लेख्या-	"	"	"	"	"	"	"	"	"
वालं, पद्माले०									
वैक्रियिककाययोग,	"	"	"	"	"	"	"	"	"
विभंगज्ञा०									
विकलत्रय भा० और	"	"	"	"	"	"	"	"	"
पर्याप्त									
विकलत्र० ल०, पचे०									
ति० ल०, मनु० ल०,									
पचे० ल०, वा० पृ०									
प०, वा० ज० प०,	"	"	"	"	"	"	"	"	"
प्र० वन० प०, सप्र०									
प्र० व० प०, त्रस									
ल०,									
सामाधित, दे० गे०	"	"	"	"	"	"	"	"	"
सयतासंयत, परिहा०	"	"	"	"	"	"	"	"	^
गम्यगिग्यागृष्टि	"	"	"	"	"	"	"	"	^
आहारककाययोग	"	"	"	"	"	"	"	"	^
आहारकमिश्र	"	"	"	"	"	"	"	"	^
सुद्धमसापराय	"	"	"	"	"	"	"	"	^

इसप्रकार उक्त मार्गणाओमें कोष्टकके अनुसार जो पद बताये हैं, उन सब पदोंकी अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है अधिक नहीं ।

§७६. तिर्यचगतमें तिर्यचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व-

एकेन्द्रिय, तेजकायिक व वायुकायिक	"	×	"	"	"	×	×	"	"
बादर एकेन्द्रिय, बादर तेजकायिक, बादर वायु- कायिक, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर तेज कायिक पर्याप्त	"	×	"	"	"	×	×	"	"
एकेन्द्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म तेज व इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पृथिवी, जल, वनस्पति और निगोद तथा इनके सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त	"	×	"	"	×	×	×	"	"
बादर एकेन्द्रिय, बादर तेज, बादर वायु ये तीनों अपर्याप्त, बादर पृथिवी, बादर जल, बादर वनस्पति, बादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त	"	×	"	"	×	×	×	"	"

कोष्ठक नम्बर एक के चारों कपायवाले विहारवत्स्वस्थान, वैक्रियिक, तैजस और आहारक समुद्घातको छोड़कर शेष पांच पदोंमें सर्व लोकमें रहते हैं, क्योंकि इन पांच पदोंमें रहनेवालोंका प्रमाण अनन्त है और वे सर्व लोकमें पाये जाते हैं। नम्बर दोके सामान्य निर्यच आदि जीव विहारवत्स्वस्थान और वैक्रियिकसमुद्घातको छोड़कर शेष पांच पदोंसे सर्व लोकमें रहते हैं। इसका कारण पहलेके समान जानना चाहिये। नम्बर तीनके जीव वैक्रियिक समुद्घातको छोड़कर शेष पांच पदोंसे सर्व लोकमें रहते हैं। इनमेंसे तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंका प्रमाण अमंख्यात लोक है इसलिये एकेन्द्रियोंके समान इनके भी सर्व लोकमें पाये जानेमें कोई आपत्ति नहीं है। नम्बर चारके बादर एकेन्द्रिय आदि और नम्बर छहके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि जीव केवल मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्व लोकमें पाये जाते हैं। क्योंकि, ये जीवराशियां बादर होनेसे सब जगह रह तो नहीं सकती हैं फिर भी ये जब सूक्ष्म जीवोंमें जाकर उत्पन्न होनेके पहले मारणान्तिक समुद्घात करते हैं तब इनका वर्तमान क्षेत्र सर्व लोक पाया जाता है। तथा लोकके किसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन बादरोंमें उत्पन्न

§ ८०. मणुसगईण मणुसेसु मणुसपज्ज०-मणुसिणि० मोह०विहत्ति०केव०खेत्ते०? लोग० असंखे० भागे । अविहत्ती० ओघभंगो । एवं पांचिदिय-पांचिदियपज्ज०-तस-तसपज्ज०-अवगदवेद०-अकसा०-संजद-जहाक्खाद०-सुक०-सम्मादि०-खइयसम्मादिट्ठि होते हैं तब भी इनका सर्व लोक क्षेत्र पाया जाता है । इस प्रकार इनका मारणान्तिक समुद्रात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्व लोकमें वर्तमान निवास बन जाता है । नम्बर पांचके एकेन्द्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदोंसे सर्वलोकमें रहते हैं । इम कोष्ठकके अनुमार सभी जीवोंका जिन पदोंकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वह प्रकृतमें उपयोगी नहीं है इमलिये नहीं लिखा है । विशेष जिज्ञासुओंको उसे क्षेत्रानुयोग द्वारसे जान लेना चाहिये ।

§ ८०. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका कथन ओघके समान है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रम पर्याप्त, अपगतवेदी, अकपायी, संयत, यथाख्यातसंयत, शुक्ल लेइयावाले, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक-सन्त्यग्दृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणाओमें स्थित जीवोंमें किनके कितने पद होते हैं, इमका ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है—

	स्व.	वि.	स्व.	वे.	क.	वै.	तै.	आ.	के.	मा.	उ.
मनुष्य पर्याप्त, पंचेन्द्रिय,											
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम,	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
त्रस पर्याप्त, शुक्लेइया,											
सम्यग्दृष्टि, क्षायिक स.											
संयत	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
मनुष्यनी	”	”	”	”	”	”	×	”	”	”	”
अकपायी, अपगतवेदी,	”	”	”	×	×	”	”	×	”	”	”
यथाख्यात संयत											

मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले ये सभी जीव केवल समुद्रातके प्रतर और लोक पूरणरूप अवस्थाओंको छोड़कर शेष संभव सभी पदोंके द्वारा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । तथा उक्त सभी जीव प्रतरसमुद्रातकी अपेक्षा लोकके असंख्यात बहुभागोंमें और लोकपूरण समुद्रातकी अपेक्षा सर्वलोकमें रहते हैं ।

मोहनीय विभक्तिवाले बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके

त्ति वत्तव्वं । बादरवाउ० पज्ज० विहत्ति० केव० ? लोग० संखेज्जदिभागे । वडु-
माणकाले मारणंतिय-उववादपदेहि वि णत्थि सव्वलोगो, लोगस्स संखेज्जदिभागे चेव
मारणंतियं मेद्धमाण उप्पज्जमाणजीवाणं चेव पहाणभावुवलंभादो । पंचमण०-पंचवचि०-
मोह० विहत्ति० अविहत्ति० केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखे० भागे । एवमाभिणि०-
सुद०-ओहि०-मणप०-चक्खु०-ओहि०-सण्णित्ति वत्तव्वं । ओरालिय० विहत्ति० केव०
खेत्ते० ? सव्वलोगे । अविहत्ति० मणजोगिभंगो । एवमोरालियमिस्स० अचक्खु० आहार-
एत्ति वत्तव्वं । कम्मइय० विहत्ति० केव० खेत्ते ? सव्वलो० । अविहत्ति० केव० खेत्ते ?
असंखेज्जेसु वा भागेषु सव्वलोगे वा । एवं खेत्तं समत्तं ।

संख्यातवे भाग क्षेत्रमें रहते हैं । इनका मारणान्तिक समुद्रात और उपपाद पदोंकी अपेक्षा
भी वर्तमानकालमें सर्व लोकक्षेत्र नहीं है, क्योंकि इनमें लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें
ही मारणान्तिक समुद्रात और उपपादवाले जीवोंकी ही प्रधानता देखी जाती है ।

विशेषार्थ—बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, वेदना,
ऋपाय, मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें ही रहते
हैं, क्योंकि पांच राजु लम्बे और एक राजु प्रतररूप क्षेत्रमें ही इनका आवास पाया जाता
है, जो कि लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है । यद्यपि वायुकायिक जीव उक्त क्षेत्रके
वाहर भी मारणान्तिक समुद्रात करते हैं और उक्त क्षेत्रसे वाहरके अन्य जीव भी इनमें
उत्पन्न होते हैं पर उनका प्रमाण स्वल्प है । अतः इतने मात्रसे इनका क्षेत्र लोकका संख्यात
बहुभाग या सर्वलोक नहीं बन सकता है । तथा वैक्रियिक समुद्रातकी अपेक्षा बादर
वायुकायिक पर्याप्त जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय
अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते
हैं । इमीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधि-
दर्शनी और संज्ञीजीवोंके कहना चाहिये । औदारिककाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव
कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । अविभक्तिवालोंमें मनोयोगियोंके समान भंग
है । इसीप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगी, अचक्षुदर्शनी और आहारक जीवोंके कहना
चाहिये । कर्मणकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व-
लोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात
बहुभाग और सर्वलोक क्षेत्रमें रहते हैं ।

विशेषार्थ—पहले ऊपर कहे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये कोष्टक
दिया जाता है—

§ ८१. फोसणाणुगमेण दुविहो णिद्धेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह० विहत्तिएहि केव० खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । अविहत्तिएहि केव० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असं० भागो, असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा । एवं कायजोगि-भवसिद्धिय-अणाहारि त्ति वत्तव्वं ।

मार्गणा	स्व.	वि.	वे.	क.	वै.	तै.	आ.	मा.	के.	उप.
पांचों मनोयोगी पांचों वचनयोगी और मनःपर्ययज्ञानी	"	"	"	"	"	"	"	"	>	×
मति श्रुत, अवधिज्ञानी, अवधिदर्शनी, चक्षुद०, अचक्षुद० संज्ञी	"	"	"	"	"	"	"	"	×	"
औदारिक काययोगी,	"	"	"	"	"	"	"	"	"	×
औदारिकमिश्रका०	"	<	"	"	"	"	"	×	"	"
आहारकका०	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
कार्मणकाययोगी	"	×	"	"	"	"	"	"	"	"

इन मनोयोगी आदि मार्गणाओंमें क्षेत्रका कथन ऊपर किया ही है अतः जहां स्वस्थान आदि जिम पदकी अपेक्षा विभक्तिवाले या संभव अविभक्तिवाले जीवोंके जितना क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिये । कथनमें और कोई विशेषता न होनेसे यहां नहीं लिखा है । यहां कार्मणकाययोगमें पांच पद बतलाये हैं । पर तत्त्वतः यहां केवल समुद्रात और उपपाद ये दो पद ही संभव हैं । शेष तीन पद अपेक्षा विशेषसे कहे गये हैं ।

इस प्रकार क्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ८१. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्वलोक स्पर्श किया है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया है । इसीप्रकार काययोगी, भव्य और अनाहारकोंके स्पर्शनका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—स्पर्शनमें त्रिकालविषयक क्षेत्रका ग्रहण किया है । पर भविष्यकालीन क्षेत्र और अतीतकालीन क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है दोनों समान हैं, अतएव इन दोनोंमेंसे एक अतीतकालीन क्षेत्रके कह देनेसे दूसरेका ग्रहण अपने आप हो जाता है, अतः उसे

§ ८२. आदेशेण गिरयगईए गेरइयेसु विहत्ति० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असं० भागो, छ चोदस भागा वा देखणा। पढमाए पुठवीए खेत्तंभांगो। विदियादि जाव सत्त-मिच्छि विहत्ति० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असं० भागो एक बे तिण्णि चत्तारि पंच प्रायः पृथक् नहीं कहा है। किन्तु अतीतमें ही गमित कर लिया है। इसीप्रकार जहां एक ही स्थानमें दो स्पर्शन क्षेत्र कहे गये हैं उनमेंसे पहला प्रायः वर्तमानकालकी अपेक्षा और दूसरा अतीतकालकी अपेक्षा कहा गया है। यद्यपि ओघकी अपेक्षा मोहनीय कर्मोंसे युक्त जीवोंके केवलिसमुद्घातको छोड़कर शेष सभी पद पाये जाते हैं, पर यहां मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्रधानतासे स्पर्शन कहा गया है, क्योंकि, मोहनीय कर्मसे युक्त मिथ्यादृष्टि जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं, इसलिये इन जीवोंने अपनेमें संभव पदोंसे वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोहनीय कर्मसे रहित जीवोंके स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान और केवल समुद्घात ये तीन पद पाये जाते हैं। इनमेंसे स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थानको प्राप्त हुए तथा दण्ड और कपाट समुद्घात गत मोहनीय कर्मसे रहित जीवोंने वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। प्रतर समुद्घात गत उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा लोकपूरण समुद्घातगत उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोकका स्पर्श किया है। सामान्य काययोगी और भव्य जीवोंके स्पर्शनके कथनमें उक्त कथनसे कोई विशेषता नहीं है। अनाहारकोंके कथनमें थोड़ी विशेषता है। जो इसप्रकार है- मोहनीय कर्मसे युक्त अनाहारक जीव विग्रहगतिमें ही पाये जाते हैं, अतएव इनके स्वस्थान, वेदना, कपाय और उपपाद ये चार पद होते हैं। इन चारों ही पदोंसे उक्त जीवोंने दोनों कालोंकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोहनीय कर्मसे रहित अनाहारक जीव प्रतर और लोकपूरण समुद्घात गत भयोगी और अयोगी जिन होते हैं। इनमेंसे अयोगी जिन दोनों कालोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रको स्पर्श करते हैं। प्रतर और लोकपूरणकी अपेक्षा स्पर्शन ऊपर ही कहा जा चुका है।

§ ८२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और देशोन छ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान कहना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक मोहनीय कर्मसे युक्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र और दूसरी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन एक बटे चौदह राजु, तीसरी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन दो बटे चौदह राजु, चौथी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन तीन बटे चौदह राजु, पांचवीं पृथिवीकी अपेक्षा देशोन चार बटे चौदह राजु, छठी पृथिवीकी अपेक्षा देशोन पांच बटे चौदह राजु और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा देशोन

छ चौदस भागा वा देखूणा ।

छह वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है ।

विशेषार्थ—मामान्य नारकियोंका वर्तमानकालीन स्पर्शन कहते समय पहले नरकके नारकियोंका प्रमाण प्रधान है, क्योंकि, यहा छह नरकोंके नारकियोंसे असंख्यातगुणे नारकी पाये जाते हैं । यद्यपि सातवे नरकके नारकियोंकी अवगाहना पहले नरकके नारकियोंकी अवगाहनासे बहुत बड़ी है फिर भी उमकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, क्षेत्र लाते समय सातवे नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उमकी अपेक्षा पहले नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है । नारकियोंके स्वस्थानस्वस्थान, विहारवस्वस्थान, वेदनासमुद्गात, कषायसमुद्गात और वैक्रियिकसमुद्गातकी अपेक्षा स्पर्शनका कथन करने पर इन स्थानोंको प्राप्त नारकियोंकी जितनी राशिया हो उन्हे प्रमाण घनागुल्के संख्यातवे भाग-मात्र अवगाहनासे गुणित कर देने पर विवक्षित पदकी अपेक्षा अपने अपने क्षेत्रका प्रमाण आ जाता है, जिसे लोकरसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्शन होता है । इतना विशेष है कि वेदना और कषायसमुद्गातकी अपेक्षा क्षेत्र लाते समय मूल अवगाहनाको नौगुणी और वैक्रियिकसमुद्गातकी अपेक्षा क्षेत्र लाते समय मूल अवगाहनाको संख्या-नगुणी कर लेना चाहिये । तथा उन स्थानोंको प्राप्त जीवोंकी संख्या भी मूल राशिके संख्यातवे भाग प्रमाण होती है । अर्थात् जहा जितनी राशि हो उमके संख्यातवे भाग प्रमाण जीव विहार, वेदनासमुद्गात, कषायसमुद्गात और वैक्रियिकसमुद्गात करते है अधिक नहीं । मारणान्तिक समुद्गातकी अपेक्षा क्षेत्र लाते समय भी पहले नरकके नारकियोंकी संख्याकी अपेक्षा ही उसे लाना चाहिये, क्योंकि, यहां मारणान्तिक समुद्गात करनेवाले जीव शेष छहों नरकोंमे मारणान्तिक समुद्गात करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा अधिक है । पर उनके विग्रहकी अपेक्षा क्षेत्रकी लम्बाई राजुके असंख्यातवे भाग मात्र ही पाई जाती है । मारणान्तिक समुद्गात करनेवाले जीवोंकी राशि ऋजुगति और विग्रहगतिकी अपेक्षा दो प्रकारकी होती है । उनमेंसे यहा विग्रहकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्गात करनेवाली राशि ही विवक्षित है, क्योंकि, इसके क्षेत्रकी लम्बाई ऋजुगतिकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्गात करनेवाले जीवके क्षेत्रकी लम्बाईकी अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है । एक समयमें जितने जीव विग्रहगतिसे अन्य पर्यायमें जाते हैं उनके असंख्यातवे बहुभागप्रमाण जीव मारणान्तिक समुद्गात करते हैं । इसलिये इस राशिके आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण उपक्रमण-कालसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्गात करने वाली जीवराशिका प्रमाण आ जाता है । पुनः इसे राजुके असंख्यातवे भागप्रमाण लम्बे और अपनी अवगाहनासे नौगुणे प्रतररूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्गातकी अपेक्षा स्पर्शनका प्रमाण आ

६८३. निरिक्खगईए निरिक्खेसु खेत्तभंगो । एवं णवगेवेज्जादि जाव सब्बट्ट०-
 मव्व एइंदि०-पुढवि०-बादरपुढवि०-बादरपु०अप०-आउ०-बादरआउ०-बादरआउ-
 अपज्ज०-तेउ०-बाद०तेउ०-बादरतेउ०अप०-बाउ०-बादरवाउ०-बादरवाउ० अप०-
 सुहुमपुढवि०-सुहु०पुढविपज्ज०-सु० पु०अपज्ज०-सुहुमाउ०-सुहुम आउपज्ज०-सु०
 आउ अपज्ज०-सु० तेउ०-सु० तेउ० पज्ज०-सुहु० तेउ० अपज्ज-सुहुमवाउ०-सु०
 जाता है । जो लोकसे भाजित करने पर लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है । उप-
 पादकी अपेक्षा स्पर्शन लाते समय दृमरी पृथिवीकी अपेक्षासे लाना चाहिये । एक समयमें
 उपपादको प्राप्त होनेवाले जीवोंके प्रमाणको एक राजु लम्बे और तिर्यचोंकी अवगाहनासे
 नौगुणे प्रतर रूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर उपपादकी अपेक्षा स्पर्शन आ जाता है,
 जो लोकसे भाजित करने पर उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है । यह जो ऊपर
 भिन्न-भिन्न नरकोंकी प्रधानतासे स्पर्शन कहा गया है इसमें शेष नारकियोंके स्पर्शनके
 मिला देने पर भी वह लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है । इसी प्रकार अतीत
 कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, और वैक्रियिक पदोंको
 प्राप्त सामान्य नारकियोंका स्पर्शन क्षेत्र लोकके अमंख्यातवें भाग प्रमाण है । पर मारणा-
 न्तिकसमुद्धान और उपपादको प्राप्त हुए सामान्य नारकियोंका स्पर्शन देशोन लृह वटे
 चौदह राजु प्रमाण है, क्योंकि, मारणान्तिक समुद्धान और उपपादकी अपेक्षा अतीतकालमें
 देशोन तीन हजार थोजन कम आनुपूर्वीके योग्य मध्यलोकसे लेकर सातवें नरक तकके
 सभी क्षेत्रका स्पर्शन किया है । विशेषरूपसे विचार करने पर पहले नरकके स्पर्शन और
 क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है । अर्थात् पहले नरकका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकका
 अमंख्यातवां भागप्रमाण जानना चाहिये । द्वितीयादि नरकोंमें मारणान्तिक समुद्धान और
 उपपादकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्शनका कथन करते समय मध्यलोकसे उस उम नरक
 भूमि तक जितने राजु हों, देशोन उतना स्पर्शन कहना चाहिये । शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन
 ओघके समान है ।

६८३. तिर्यचगतिमें तिर्यचोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान
 जानना चाहिये । नौ त्रैवेयकसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंका स्पर्शन भी इसीप्रकार अर्थात्
 क्षेत्रके समान जानना चाहिये । तथा सर्व एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, वादर पृथिवीकायिक,
 वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, अप्कायिक, वादर अप्कायिक, वादर अप्कायिक अपर्याप्त,
 अग्निकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, वादर वायु-
 कायिक, वादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त,
 सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्का-
 यिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त,

वाउ०पज्ज०-मु० वाउ० अपज्ज०-वण०-बादरवण०-बाद० वणप्फदि पज्ज०-बाद०
 वण० अपज्ज०-सुहु० वण०-सुहु० वण० पज्जत्तापज्ज-णिगोद०-बादरणिगो०-बादर-
 णिगोद पज्जत्तापज्जन-सुहुमणिगो०-सु० णि० पज्ज० अपज्ज०-ओगलिय०-ओग-
 लियमिस्स०-वेउत्तियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-कम्मइय०-णवुंसय०-चत्तारि-
 कमाय-मदिअण्णाण सुदअण्णाण-मणपज्जव०-मामाइय-छेदोवट्टावण-परिहारविमुद्धि-
 सुहुममांपराइय-अमंजद०-अचयन्वु०-तिणिलेस्सा०-अभवसिद्धि०-मिच्छादिट्टि-असण्णि०
 आहारि त्ति वत्तच्चं ।

सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक,
 वादर वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त,
 सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त,
 निगोद, वादर निगोद, वादर निगोद पर्याप्त, वादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म
 निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रि-
 यिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसक-
 वेदी, क्रोध, गान, माया और लोभ इन चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मनः
 पर्ययज्ञानी, मामाधिकमंथत, छेदोपस्थापनामंथत, परिहारविमुद्धिसंथत, सूक्ष्म मांपरायसंथत,
 असंथत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभन्थ, मिश्यादृष्टि, अमंझी
 और आहारक जीवोंके स्पर्शनका कथन क्षेत्रके समान ररना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें स्पर्शन सामान्यमे अपने अपने क्षेत्रके समान
 जानना चाहिये । निर्यचोंमें क्षेत्र सर्वलोक है स्पर्शन भी इतना ही है । नौ प्रवेयकोंसे
 लेकर सर्वार्थ गिद्धिनकके देवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है स्पर्शन भी इतना
 ही है । सर्व एकैन्द्रियोका क्षेत्र सर्वलोक है, स्पर्शन भी इतना ही है । ऊपर कहे गये
 पृथिवीकायिक जीवोंके लेकर सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्त जीवों तकका क्षेत्र सर्वलोक है,
 स्पर्शन भी इतना है । औदारिक काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंका क्षेत्र
 सर्वलोक है स्पर्शन भी इतना ही है । वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका क्षेत्र लोकके असंख्या-
 तवें भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है । आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी
 जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है । कर्मणकाय-
 योगी, चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंका क्षेत्र सर्वलोक है, स्पर्शन भी इतना
 ही है । मनःपर्ययज्ञानीसे लेकर सूक्ष्ममांपरायसंथत जीवों तकका क्षेत्र लोकके असंख्या-
 तवें भागप्रमाण है, स्पर्शन भी इतना ही है । असंथत, से लेकर आहारी पर्यन्त जीवोंका
 क्षेत्र सर्वलोक है स्पर्शन भी इतना ही है । इन उपर्युक्त सभी मार्गणास्थानोंमें विशेष पदोंकी
 अपेक्षा स्पर्शनमें क्षेत्रसे जहां जो विशेषता हो वह स्पर्शन अनुयोगद्वारासे जान लेना चाहिये ।

§ ८४. सव्वपंचिंदियतिरिक्ख० विहत्ति० केव० खेतं पोसिदं ? लोगस्स असंखे-
ज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्जत्त-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदियअपज्जत्त-
तसअपज्जत्त-बादरपुढवि० पज्ज०-बादरआउ० पज्जत्त-बादरतेउ० पज्ज०--बादरवणप्फदि
पत्तेय० पज्ज०--बादरणिगोदपडिद्विदपज्जत्ताणं वत्तव्वं । बादरवाउ० पज्जत्त० विहत्ति०
लोगस्स संखेज्जदि भागो, सव्व-लोगो वा । मणुम-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं विहत्ति०
पंचिंदियतिरिक्खभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो ।

§ ८४. सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श
क्रिया है ? लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श क्रिया है । इसी
प्रकार मनुष्य लब्धपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चन्द्रिय लब्धपर्याप्त, त्रस लब्धपर्याप्त, बादर
पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर अप्कायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति-
कायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके स्पर्श-
नका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-पंचेन्द्रियतिर्यच, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यच, योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यच और
लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रियतिर्यचोने वर्तमानमें अपने अपने संभव पदोंके द्वारा लोकके असंख्या-
तवे भाग क्षेत्रका स्पर्श क्रिया है । इन्हीं चारों प्रकारके तिर्यचोंन अतीत कालमें मारणांतिक
समुद्घात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श क्रिया है, क्योंकि, इन
दोनों पदोंकी अपेक्षा इनका त्रसनालीके बाहर भी सर्वत्र सद्भाव देखा जाता है । तथा
अतीत कालमें शेष पदोंके द्वारा उक्त चारों प्रकारके तिर्यचोंने लोकका असंख्यातवां भाग-
प्रमाण क्षेत्र स्पर्श क्रिया है जिसका 'सव्वलोगो वा' में आये हुए 'वा' पदसे समुच्चय कर
लेना चाहिये । लब्धपर्याप्त मनुष्योसे लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर तकके
जीवोंके स्पर्शनमें इन उपर्युक्त तिर्यचोंके स्पर्शनसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिये तिर्यचोंके
स्पर्शनके समान ऊपर कहे गये शेष मार्गणास्थानोंमें भी स्पर्शन समझना चाहिये ।

बादर वायुकायिक पर्याप्तकोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने वर्तमानमें लोकका संख्या-
तवा भाग प्रमाण क्षेत्र और सर्वलोक स्पर्श क्रिया है ।

विशेषार्थ-बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका वर्तमान क्षेत्र का विचार क्षेत्रप्ररूपणामें
क्रिया है अतः वहासे जानना । तथा अतीत कालमें उक्त जीवोंने मारणान्तिकसमुद्घात और
उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श क्रिया है, क्योंकि, अतीतकालकी अपेक्षा इनका सर्व-
लोकमें गमन और लोकके किसी भी भागसे आकर अन्य जीवोंका इनमें उत्पन्न होना संभव
है । तथा अतीत कालमें शेष पदोंके द्वारा इन जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका ही
स्पर्श क्रिया है जिसका 'सव्वलोगो वा' में आये हुए 'वा' पदसे समुच्चय कर लेना चाहिये ।

सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन

§ ८५. देवगईए देवेसु विहात्ति० केव० खेतं पोसिदं। लोगस्म असंखेज्जदिभागो, अट्टणव चोदसभागा वा देखणा। एवं मोहम्मीसाण देवाणं वत्तव्वं। भवणवासिय-
वाणवेंतर-जोइसियाणं केव० खेतं पोसिदं? लोगस्म असंखेज्जदिभागो अद्दुट्ट अद्दु
पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके स्पर्शनके समान है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त तीनों प्रकारके
मनुष्योंका स्पर्शन ओघके समान है।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय तिर्यचोंका स्पर्शन लोकके अमंख्यातवें भाग प्रमाण और सर्वलोक
कह आये हैं वही मोहनीय कर्मसे युक्त उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंका समझना चाहिये।
तथा मोहनीय कर्मसे रहित उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पर्शन लोकके अमंख्यातवें भाग
प्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्वलोक जानना चाहिये।

§ ८५. देवगतिमें देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है?
लोकका अमंख्यातवां भाग, देशोन आठ बटे चौदह राजु और देशोन नौ बटे चौदह राजु क्षेत्र
स्पर्श किया है। सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका स्पर्शन इसी प्रकार कहना चाहिये।

विशेषार्थ—देवोंने वर्तमान कालमें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्वस्थान, वेदना, कषाय,
वैक्रियिक, मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा लोकके अमंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका
स्पर्श किया है। स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा अतीतकालमें भी लोकके अमंख्यातवें भाग
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा अतीतकालमें विहारवन्वस्थान, वेदना, कषाय और
वैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योंकि,
नीचे तीसरी पृथिवी तक और ऊपर अच्युत कल्प तक देवोंका विहार देखा जाता है।
यहां देशोनसे तीसरी पृथिवीके अन्तिम एक हजार योजन मोटे क्षेत्रका और देवोंके द्वारा
अगम्य प्रदेशका ग्रहण किया है। मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा देशोन नौ बटे चौदह
राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। क्योंकि, मारणान्तिक समुद्रातमें देवोंका मध्य लोकसे
नीचे दो राजु और ऊपर सात राजु इम प्रकार नौ राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श देखा जाता
है। उपपाद पदकी अपेक्षा देशोन छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।
यद्यपि मध्य लोकसे नीचे अब्बहुलभाग तक और ऊपर अच्युत कल्पसे आगे मातवी राजुमें
भी देवोंका उपपाद देखा जाता है, फिर भी वह सब मिलाकर देशोन छह बटे चौदह
राजुसे अधिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि, सर्वत्र देवोंका उत्पाद आनुपूर्वीगत प्रदेशोंके
अनुसार ही होता है। सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंका स्पर्शन उपपादको छोड़कर बाकी
सब सामान्य देवोंके स्पर्शनके समान ही है।

मोहनीय विभक्तिवाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श
किया है? लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु, कुछ कम
आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है।

णव चौदसभागा वा देखणा । सणक्कुमारादि जाव सहस्सारा ति विहासि० केव० खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अट्ट चौदसभागा वा देखणा । आणद-पाणद-आरण-अच्चुद० विहत्ति० केव० खेत्तं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चौदस भागा वा देखणा ।

विशेषार्थ—उक्त तीनो प्रकारके देवोंने वर्तमान कालमें मंभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकका अमंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थान और उपपाद पदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । विहारव-त्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा अपने आप देशोन साढ़े तीन वटे चौदह राजु और पर प्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया हैं । भवनत्रिक देव स्वयं विहार करते हुए ऊपर भौभर्म-पेशानकल्प तक और नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं । तथा यदि कोई ऊपरका देव लेजाये तो ऊपर अच्युत कल्पतक जासकते हैं । इसप्रकार स्वप्रयोगसे देशोन साढ़े तीन वटे चौदह राजु और परप्रयोगसे देशोन आठ वटे चौदह राजु क्षेत्र हो जाता है । समुद्धानकी अपेक्षा देशोन नौ वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । यहां नौ राजुसे ऊपर सात राजु और नीचे दो राजु क्षेत्र लेना चाहिये ।

सानत्कुमार स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग नरकके मोहनीय विभक्तियाले देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका अमंख्यातवा भाग और देशोन आठ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है ।

विशेषार्थ—सानत्कुमारसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देवोंने वर्तमान कालमें लोकका असंख्यातवा भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । विहारवत्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, इनका नीचे तीसरे नरक तक और ऊपर अच्युत कल्प तक आना जाना देखा जाता है । उपपाद पदकी अपेक्षा सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पवामी देवोंने देशोन तीन वटे चौदह राजु, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर कल्पवामी देवोंने देशोन साढ़े तीन वटे चौदह राजु, लान्तव कापिष्ठ-कल्पवामी देवोंने देशोन चार वटे चौदह राजु, शुक्र-महाशुक्र कल्पवामी देवोंने देशोन साढ़े चार वटे चौदह राजु और गनार-सहस्रार कल्पवामी देवोंने देशोन पांच वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है ।

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कल्पवामी मोहनीय विभक्तियाले देवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग और देशोन छ वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है ।

§ ८६. पांचिदिय-पांचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-विहत्ति० केव० खेतं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ट चोदम भागा वा देसुणा, सच्चलोगो वा । अविहत्ति० केव० ? ओघभंगो । एवं पंचमण०-पंचवत्ति०-चक्खुदंसण०-सण्णित्ति वत्तच्चं । णवरि, अविहत्ति० खेतभंगो ।

विशेषार्थ—उक्त कल्पवामी देवोंने वर्तमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकका अमंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकका अमंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है । विहारवत्त्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोंन छह वटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि इन आनतादि देवोंका चित्रा पृथिवीके ऊपरके तलसे नीचे गमन नहीं पाया जाता है । उपपादकी अपेक्षा आनत-प्राणत कल्पवामी देवोंने कुछ कम साढ़े पांच वटे चौदह राजु और आरण-अच्युतकल्पवासी देवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि, मध्यलोकसे आनत-प्राणत कल्प साढ़े पांच राजु और आरण-अच्युत कल्प छह राजु है ।

§ ८६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम और त्रमपर्याप्त जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका अमंख्यातवां भाग, त्रम नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक क्षेत्र स्पर्श किया है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? ओघके समान स्पर्श है । इसी प्रकार पांचो मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन पांचों मनोयोगी आदि जीवोंके मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम और त्रम पर्याप्तकोमें मोह विभक्तिवाले-जीवोंने वर्तमानमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकके अमंख्यातवां भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अतीत कालमें स्वस्थानस्वस्थान, तैजस समुद्रात और आहारकसमुद्रातकी अपेक्षा लोकका अमंख्यातवां भाग स्पर्श किया है । विहारवत्त्वस्थान, वेदना समुद्रात, कषायसमुद्रात और वैक्रियिकसमुद्रातकी अपेक्षा त्रम नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछकम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा मारणान्तिक समुद्रात और उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्रात करते हुए उक्त जीव सर्वलोकमें पाये जाते हैं । तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमेंसे पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव पहले समयमें समस्त लोकमें पाये जाते हैं । मोह अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका वर्तमानकालीन और अतीत-कालीन स्पर्श ओघके समान है । अतः ओघप्ररूपणमें जो मुलासा किया है वह यहां समझ लेना चाहिये । विशेष बात यह है कि ओघप्ररूपणमें मोह अविभक्तिवाले जीवोंमें सिद्धोंका

§ ८७. इत्थि०-पुरिस०-विहात्ति० केव० खेचं पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, अट्ट चोद्दसभागा वा देसूणा, सव्वलोगो वा । एवं विहंगणाणीणं वत्तव्वं । अवगद० विहत्ति० खेत्तभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो । एवमकसाइ०-संजद०-जहाक्खाद० वत्तव्वं ।

भी ग्रहण किया है । पर यहां उनका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वे समस्त कर्मोंसे रहित होते हैं, अतः उनमें पंचेन्द्रिय आदि व्यवहार नहीं होता । मोहनीय विभक्तिवाले चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका सभी पदोंकी अपेक्षा वर्तमानकालीन और अतीतकालीन स्पर्श पंचेन्द्रियादिके समान है । किन्तु पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके उपपाद पद नहीं होता, अतः इनका शेष पदोंकी अपेक्षा दोनों प्रकारका स्पर्श पंचेन्द्रियादिके समान ही है । पर पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संज्ञी और चक्षुदर्शनी जीवोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, केवलिसमुद्घातमें मनोयोग और वचनयोग नहीं होता । तथा केवली संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकारके व्यपदेशसे रहित हैं । तथा चक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है । अतः इनके लोकका असंख्यात बहुभाग और समस्त लोक स्पर्श नहीं बन सकता ।

§ ८७. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जान लेना चाहिये । अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है, तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीवोंका स्पर्श ओघके समान है । इसी प्रकार अकषायी, संयत और यथाख्यात संयत जीवोंमें मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—मोहनीय विभक्तिवाले स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंने वर्तमानकालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा और अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थान, तैजससमुद्घात और आहारकसमुद्घातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंके तैजस और आहारकसमुद्घात नहीं होता है । तथा विहारवत्त्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात और वैक्रियिकसमुद्घातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है और मारणान्तक समुद्घात तथा उपपादकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । विभंग ज्ञानियोंके स्वस्थान-स्वस्थान, विहारवत्त्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तक समुद्घात ये छह पद होते हैं । स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंके इन छह पदोंकी अपेक्षा जिस प्रकार वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श कहा है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके जानना चाहिये ।

§ ८८. आमिणिबोहिय०-सुद०-ओहि० विहत्ति० केव० खेत्त० पोमिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ट चोदस भागा वा देखणा । अविहत्ति० खेत्तभंगो । एवमोहिदंसणीणं वत्तव्वं । संजदासंजद० विहत्ति० केव० खेत्त पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो, छ चोदस भागा वा देखणा । तेउलेस्सा० सोहम्मभंगो । पम्मलेस्सा० सहस्सारभंगो । अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव ग्यारहवें गुणस्थान तक होते हैं जिनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श संभव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका दोनों प्रकारका स्पर्श ओषके समान है, अतः ओषप्ररूपणाके समय जो गुलामा कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । उमसे इसमें कोई विशेषता नहीं । अकपायी आदि जीवोंका मोहनीयविभक्ति और मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श अपगतवेदियोंके समान है । पदोंकी अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लेना चाहिये ।

§ ८८. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी जीवोंके स्पर्शन कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इनके केवल समुद्घातको छोड़कर शेष नौ पद होने हैं । उनमेंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंके मारणान्तक और उपपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्श त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण है । शेष सभी पदोंकी अपेक्षा वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्शन तथा मारणान्तक और उपपाद पदकी अपेक्षा वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है । मोहनीय विभक्ति और मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं है । पर मोहनीय अविभक्तिवाल उक्त जीवोंके एक स्वस्थानस्वस्थान पद ही होता है, शेष नहीं ।

संयतासंयतमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

विशेषार्थ—अतीतकालमें मारणान्तक समुद्घातकी अपेक्षा संयतासंयतोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । क्योंकि, संयतासंयत तिर्यंच और मनुष्य जीव अच्युत कल्प तक मारणान्तक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं । शेष सभी प्रकारका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

पीतलेश्यामें सौधर्मके समान पद्मलेश्यामें सहस्रारके समान और शुक्लेश्यामें भंयतासंयतोंके समान स्पर्शन है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके शुक्लेश्यामें ओषके

सुकलेस्मा० विहत्ति० संजदासंजदभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो । सम्मादिट्टि-खइय० विहत्ति० आभिणिवोहियभंगो । अविहत्ति० ओघभंगो । वेदय० विहत्ति० आभिणिवोहियभंगो । एवमुवमम०-सम्मामि० वत्तव्वं । सासण० विहत्ति० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स अमंखेज्जदिभागो, अट्ट बारह चोइसभागा वा देसूणा ।

एवं पोसणं समत्तं

१ ८६. कालानुगमेण दुविहो णिडेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह-विहत्तिया अविहत्तिया च केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा । एवं मणुस्स-मणुस्स-पज्जत्त-मणुमिणी पंचिंदिय-पंचि० पज्जत्त-तम-तमपज्ज०-तिण्णिण मण०-तिण्णिण वचि० कायजोगि०-ओगलिय०-संजद-सुकले०-भवमिद्धि०-सम्मादिट्टि-खइय०-आहारि अणाहारए त्ति वत्तव्वं । मणुस्सअपज्ज० विहत्ति० केव० कालादो होंति ? जह० मुदाभवग्गहणं । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स अमंखेज्जदि भागो । दोमण०-दोवचि०-समान स्पर्शनं है । मोहनीय विभक्तिवाले सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोके मति-ज्ञानियोके समान स्पर्शनं है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले सम्यग्दृष्टि और क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीवोके ओघके समान स्पर्शनं है । मोहनीय विभक्तिवाले वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोके मतिज्ञानियोके समान स्पर्शनं है । तथा इभी प्रकार उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोके स्पर्शनं जानना चाहिये । मोहनीय विभक्तिवाले मामादन सम्यग्दृष्टियोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके अमंन्यातवे भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

इस प्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समान हुआ ।

१ ८६. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्वकाल है । इभीप्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिणी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, सामान्य, मत्स्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्लेंद्रियावाले, भठ्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-यहां मोहनीयविभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका नाना जीवोकी अपेक्षा काल बतलाया है । सामान्यसे तो उक्त दोनो प्रकारके जीव सर्वदा हैं ही । पर ऊपर जितनी मार्गणाए बतलाई हैं उनमें भी दोनो प्रकारके नाना जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इमीलिये इनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है ।

लब्धपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्यकाल मुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसका यह

विहत्ति० सञ्चद्धा । अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । ओरालिय-मिम्स० विहत्ति० सञ्चद्धा । अविहत्ति० जहण्णेण एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समय्या । एवं कम्मइय० । णवरि, अविहत्ति० जह० तिण्णिण समय्या । वेउन्वियमि० विहत्ति० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पलिदोवमस्स अमंखेज्जदिभागो । आहार० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं सुहुमसांपगाइय० । आहारमि० जहण्णुक्क० अंतोमु० ।

तात्पर्य है कि लब्धपर्याप्तकमनुष्य कमसे कम मुदाभवग्रहण प्रमाण कालतक और अधिकसे अधिक पत्न्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक निरन्तर अवश्य पाये जाते हैं इसके बाद उनका अन्तर हो जाना है । अतः इमी अपेक्षामे लब्धपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है ।

अमत्य और उभय मनोयोगी तथा असत्य और उभय वचनयोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । औदात्तिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाल जीव सर्वदा होते हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इमी प्रकार कर्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कर्मणकाययोगियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाल जीवोंका जघन्यकाल तीन समय है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाल जीवोंका कितना काल है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पत्न्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । आहारक काययोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । इमीप्रकार सूक्ष्ममांपरायिक मंयत जीवोंके जानना चाहिये । आहारक-मिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—नाना जीवोंकी अपेक्षा अमत्य और उभय ये दोनों मनोयोग और ये ही दोनों वचनयोग सर्वदा पाये जाते हैं । अतः इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाल जीव सर्वदा होते हैं यह कहा है । तथा बारहवे गुणस्थानकी अपेक्षा उक्त योगोंमें मोहनीय अविभक्तिवाल भी जीव पाये जाते हैं । अतः जिन जीवोंके उक्त दोनों मनोयोगों और वचनयोगोंके कालमें एक समय शेष रहने पर बारहवां गुणस्थान प्राप्त हुआ है उनके उक्त योगोंकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय बन जाता है । तथा उक्त योगोंका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त होनेसे उसकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाल जीवोंका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । यहां यह शंका होती है कि बारहवे गुणस्थानमें योगपरिवर्तन नहीं होता, अतः यहां उक्त दोनों मनोयोग और वचन योगोंका जघन्यकाल एक समय नहीं कहना चाहिये । उसका यह समाधान है कि यहां एक योगसे योगान्तर नहीं होता, यह ठीक है

§ ६०. अवगद० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । अविहत्ति० सव्वद्धा । एवमकसाय०—जहाक्खाद० वत्तव्वं । आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-चक्खु०-अचक्खु०-ओहिदंसण०-सणिण० विहत्ति० सव्वद्धा । अविहत्ति० जहणुक्क० अंतोमु० । उवसम०—सम्मामि० वेउव्वियमिस्सभंगो । सासण० विहत्ति० जह० एगसमओ फिर भी मनोयोग और वचनयोगकी अपेक्षा अपने अवान्तर भेदोंमें परावर्तन होनेमें कोई बाधा नहीं है । इसका यह तात्पर्य है कि मनोयोगसे वचनयोग या काययोग नहीं होता । इसी प्रकार अन्य योगोंकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिये । पर मनोयोग या वचनयोगका एक अवान्तर भेद होकर उसके स्थानमें दूसरा अवान्तर भेद आ सकता है । नाना जीवोंकी अपेक्षा औदारिकमिश्र काययोग और कर्मणकाययोग सर्वदा पाये जाते हैं तथा इनमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव भी सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है । पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके औदारिकमिश्र काययोग और कर्मणकाययोग सर्वदा नहीं होते । जब केवली केवलिसमुद्घात करते हैं तब उनके कपाट समुद्घातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और लोकपूरणसमुद्घातके समय कर्मणकाययोग होता है । अब यदि नाना जीव एक साथ केवलिसमुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और तीन समय पाया जाता है और यदि लगातार नाना जीव केवलिसमुद्घात करते हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका उत्कृष्टकाल संख्यात समय पाया जाता है, क्योंकि अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगातार केवलिसमुद्घात करते हैं । वैक्रियिक मिश्रकाययोगी आदिका काल भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिये ।

§ ६०. अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीव सर्वदा होते हैं । इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा बारहवें गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अपगतवेदी होते हैं, इस अपेक्षासे इनका सर्वकाल कहा है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अविधिदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं । तथा उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि मोहनीय विभक्तिवालोंका काल वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और

उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । गिरय० तिरिक्खगइ-आदिसेमाणं मग्गणाणं मोह-
विहत्तियाणं कालो सव्वद्दा ।

एवं कालो समत्तो ।

§ ६१. अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देशो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण विहत्ति०
अविहत्ति० णत्थि अंतरं, गिरंतरं । एव मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तस-
तसपज्ज०-तिण्णिमण०-तिण्णिवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-संजद-सुक्क०-भव-
सिद्धिय०-सम्मादि०-खइय०-आहारि-अणाहारए त्ति वत्तव्वं ।

§ ६२. आदेसेण गिरयगदीए णेरइएसु विहत्ति० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरइय०
उत्कृष्टकाल पत्त्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा नरकगति और तिर्यङ्गगति आदि
शेष मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं ।

विशेषार्थ—मतिज्ञान आदि मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्ति-
वाले दोनों प्रकारके जीव होते हैं । उनमेंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव तो सर्वदा पाये
जाते हैं पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक पाये जाते
हैं, क्योंकि नाना जीवोंकी अपेक्षा भी बारहवें गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्त-
र्मुहूर्त ही है । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मत्याहृष्टियोंका नानाजीवोंकी अपेक्षा जघन्य
और उत्कृष्टकाल वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके कालके समान है । नानाजीवोंकी अपेक्षा
सासादन सम्यग्दृष्टियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्त्योपमके असंख्यातवें
भाग प्रमाण है । अतः सासादनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है ।
ऊपर जिन मार्गणाओंका कथन कर आये उनसे अतिरिक्त नरकगति आदि प्रायः सभी
मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले ही जीव होते हैं । तथा वे मार्गणाणं सर्वदा होती हैं
अतः उनमें रहनेवाले मोहनीयविभक्तिवाले जीवका काल भी सर्वदा कहा है ।

इस प्रकार कालानुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ ६१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ।
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तर-
काल नहीं है, क्योंकि वे सर्वदा पाये जाते हैं । इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यिणी
ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रपर्याप्त, त्रम, त्रमपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनु-
भय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत,
शुक्लेद्रयावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके
कथन करना चाहिये । अर्थात् इन मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अवि-
भक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये अन्तरकाल नहीं है ।

§ ६२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर-

सव्वतिरि०-सव्वदेव०-सव्व-एइंदिय०-सव्वाविगलिंदिय - पंचिंदियअपज्जत्त-तस-
अपज्ज०-पंचकाय०-वेउव्विय०-तिण्णिवेद०-चत्तारिकसाय०-तिण्णिअण्णाणि-सामाइय०
छेदोव०-परिहार०-संजदासंजद-असंजद-पंचलेस्सा०-अभवसिद्धि०-वेदगसम्माइट्ठि
मिच्छाइट्ठि असण्णित्ति वत्तव्वं । मणुसअपज्ज० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो-
वमस्म असंखेज्जदिभागो । एवं सासण०-सम्मामिच्छाइट्ठीणं वत्तव्वं । दोमण०-
दोवचि० विहत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । अविहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क०
छम्मासा । एवमाभिणि०-सुद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सण्णीणं वत्तव्वं ।

§ ६३. ओरालियमिस्स० विहत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । अविहत्ति० जह०
काल नहीं है । इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तिर्यंच, सभी देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकले-
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, बैक्रियिककाययोगी, तीनों
वेदवाले, क्रोधादि चारों कपायवाले, तीन अज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि-
हारविशुद्धिसंयत, संयतामंयत, असंयत, कृष्णादि पांच लेख्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यग्दृष्टि,
मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें जीव
निरन्तर पाये जाते हैं और वे मोहयुक्त ही हैं, अतः इनमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका
अन्तरकाल नहीं है ।

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्न्योपमके अमंख्यातवें भाग है । इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि
और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका कहना चाहिये । अर्थात् इन तीनों मार्गणाओंका नानाजीवों-
की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्न्योपमके अमंख्यातवें
भागप्रमाण है, अतः इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्त-
रकाल कहा है ।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगियोंमें मोहनीयविभक्ति-
वाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि वे निरन्तर पाये जाते हैं । तथा मोहनीय अवि-
भक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है ।
इसी प्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं वे बारहवें गुणस्थान तक पाई जाती हैं ।
और बारहवां गुणस्थान सान्तर है । उसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
छह महीना है, अतः इन मार्गणाओंमें भी मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है । तथा इन मार्गणाओंमें मोहनीय विभ-
क्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट है ।

§ ६३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं

एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । एवं कम्मइय० ओहिणाण-मणपज्जव०-ओहिदंसण० वराव्वं । वेउक्खियमिस्स० विहत्ति० जह० एगसमओ उक्क० बारस मुहुत्ताणि । आहार०--आहारमिस्स० विहत्ति० जह० एगसमओ उक्क० वासपुधत्तं । अवगद० विहत्ति० जह० एगसमओ उक्क० छम्मासा । अविहत्ति० णत्थि अंतरं ।

है, वे निरन्तर पाये जाते हैं । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यय-ज्ञानी और अवधिदर्शनी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर्युक्तमार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, क्योंकि औदारिकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोगका मिध्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा, अवधिज्ञान और अवधिदर्शनका असंयतादि चार गुणस्थानोंकी अपेक्षा तथा मनःपर्ययज्ञानका प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । अतः उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा हैं । तथा औदारिकमिश्र और कर्मणकाययोगमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व बतलाया है उसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्तिसे रहित तेरहवें गुणस्थानवाले जीवोंके कपाट-समुद्घातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और प्रतर तथा लोकपूरण समुद्घातके समय कर्मणकाययोग होता है । और इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है, अतः इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है । तथा अवधिज्ञान, अवधिदर्शन और मनःपर्ययज्ञानके साथ चारों क्षपकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । इन चारों क्षपकोंमें क्षीणकषाय गुणस्थान भी सम्मिलित है, अतः अवधिज्ञान आदि उक्त तीन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है ।

बैक्रियिकमिश्रकाययोगी मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी मोहनीय-विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । इसका यह तात्पर्य है कि इन मार्गणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहाँ इन इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल होता है ।

अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—चार क्षपक गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना बताया है, अतः इस अपेक्षासे अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका उक्त अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । अपगतवेदियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तर-

§ ६४. अकसाय० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधचं । अविहत्ति० णत्थि अंतरं । एवं जहाक्खाद० वचव्वं । सुहुमसांप० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । उवसम० विह० जह० एगसमओ, उक्कस्सेण चउवीस अहोरणाणि ।

एवमंतरं समत्तं

§ ६५. भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण विहत्ति० काल नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाये जाते हैं जो कि अपगतवेदी होते हुए मोहनीयविभक्तिसे रहित हैं ।

§ ६४. अकषायियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार यथाख्यातसंयतोंके जानना चाहिये । सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । उपशमसम्यग्दृष्टि मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिन रात है ।

विशेषार्थ—अकषायीजीवोंके ग्यारहवें गुणस्थानमें ही मोहनीयकी सत्ता पाई जाती है और उसका जघन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है अतः अकषायी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है । तथा अकषायियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालके नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाये जाते हैं । मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयतोंका अन्तर काल भी इसी प्रकार कहना चाहिये । विशेष बात यह है कि मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयतोंके अन्तर कालका अभाव सयोग केवलियोंकी अपेक्षासे कहना चाहिये । सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना स्पष्ट ही है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिन रात है । अतः मोहनीय विभक्तिकी अपेक्षा उपशम सम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल भी इतना ही कहा है । यद्यपि जीवट्टाणके अन्तरानुयोगद्वारमें असंयत उपशमसम्यग्दृष्टियोंका और खुदाबन्धमें सामान्य उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात बताया है और यहां उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिनरात है, इसलिये जीवट्टाण और खुदाबन्धके उक्त कथनसे इस कथनमें विरोध आता हुआ प्रतीत होता है पर इसे विरोध न मानकर मान्यताभेद मानना चाहिये, इसलिये कोई दोष नहीं है ।

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

६५. § भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ।

को भावो ? ओदइओ उवसामिओ खइओ खओवसमिओ वा । अविहत्ति० को भावो ? खइओ भावो । एवं जाव अणाहारए त्ति ।

§ ६६. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिहंसो, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण सन्वत्थोवा अविहत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अचक्खु०-भवसि०-आहारि०-अणाहारए त्ति वत्तव्वं । मणुसगईए मणुस्सेसु सन्वत्थोवा अविह०विहत्ति० असंखेज्जगुणा । एवं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवत्ति० आभिणि०-सुद०-ओहिणाण-चक्खुदंसण-ओहिदं० उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा भाव है ? औदायिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके तीन तीन भेद हैं—औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक । तथा मिथ्यात्व मिथ्यात्व कर्मके उदयसे होता है । अतः इनमेंसे जहां जो भेद संभव हो उसकी अपेक्षा वहां वह भाव समझ लेना चाहिये । अन्यत्र सासादनसम्यग्दृष्टिके पारिणामिक और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके क्षायोपशमिक भाव बताया है पर यहां उस विवक्षाभेदकी अपेक्षा नहीं की है ऐसा प्रतीत होता है । अतः सासादनमें अनन्तानुबन्धी आदिके उदयकी अपेक्षा और सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें मिश्र आदि प्रकृतिके उदयकी अपेक्षा औदायिक भाव जानना चाहिये । इसी प्रकार जिस मार्गणास्थानमें उपर्युक्त भावोंमेंसे जो भाव संभव हो उसका कथन कर लेना चाहिये ।

इमप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

§ ६६. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यद्यपि मोहनीयकी अविभक्तिवाले अनाहारक जीवोंमें अयोगकेवली और सिद्धोंका भी ग्रहण हो जाता है तो भी मोहनीय विभक्तिवाले अनाहारक जीव इनसे अनन्तगुणे हैं । शेष कथन सुगम है ।

मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षु-दर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेइयावाले और मंझी जीवोंके कथन करना चाहिये ।

सुक्कले० सण्णि त्ति वत्तव्वं । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा अविहत्ति० विहत्ति० संखेज्जगुणा । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं । अवगदवे० सव्वत्थोवा विहात्ति० अविहत्ति० अणंतगुणा । एवमकसाय-सम्मादिट्ठि-सइयसम्मादिट्ठीणं णेदव्वं । जहा-क्खाद० सव्वत्थोवा विहत्ति०, अविहत्ति० संखेज्जगुणा । सेसासु मग्गणासु णत्थि अप्पाबहुगं एगपदत्तादो ।

एवं मूलपयडिविहत्ती समत्ता ।


विशेषार्थ—ये जितनी मार्गणायें ऊपर कही है उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है पर इनमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात ही होते हैं अतः इन मार्गणाओंमें मोहनीय अविभक्तिवालोंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कहे हैं ।

मनुष्य पर्याप्त और योजिमती मनुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके कहना चाहिये । अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव इनसे अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार अकषायी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—अपगतवेदी आदि जीवोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंसे बारहवें गुणस्थानसे लेकर सिद्धों तक सबका ग्रहण किया है । इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मोहनीय-विभक्तिवाले जीवोंसे मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं ।

यथाख्यातसंयतोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मोहनीय अविभक्ति-वाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैं । इन उपर्युक्त मार्गणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनोंमेंसे एक पद ही पाया जाता है ।

इस प्रकार मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई ।



* तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविहा, एगेगउत्तरपयडिविहत्ती चैव पयडिद्वान्ण उत्तरपयडिविहत्ती चैव ।

§ ६७. अट्टावीस मोहपयडीणं जत्थ पुध पुध परूवणा कीरदि सा एगेगउत्तरपयडिविहत्ती णाम । जत्थ अट्टावीस-सत्तावीम-ळुव्वीसादिपयडिसंतट्टाणाणं परूवणा कीरदि सा पयडिद्वान्ण-उत्तरपयडिविहत्ती णाम । एवमुत्तरपयडिविहत्ती दुविहा चैव होदि अण्णिस्से असंभवादो ।

* तत्थ एगेग-उत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अणियोगद्वाराणि । तं जहा एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचयाणु-गमो परिमाणानुगमो खेत्तानुगमो पोसणानुगमो कालानुगमो अन्तरा-णुगमो सण्णियासो, अप्पाबहुणं त्ति ।

§ ६८. एवमेत्थ एक्कारस अणियोगद्वाराणि भवंति । संपहि समुक्कित्थणा सव्वविहत्ती णोसव्वविहत्ती उक्कस्सविहत्ती अणुक्कस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादिय-विहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्दुवविहत्ती, एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं सण्णियासो, णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागानुगमो परिमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं भावो अप्पाबहुणं चेदि एवं चउवीस अणियोगद्वाराणि एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए

* उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है, 'एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति और प्रकृति-स्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति ।

§ ६७. जिसमें मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंका अलग अलग कथन किया जाता है उसे एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं । तथा जिसमें मोहनीय कर्मके अट्टाईसप्रकृतिक, सत्ताईस प्रकृतिक और लुव्वीस प्रकृतिक आदि सत्त्वस्थानोंका कथन किया जाता है उसे प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं । इसप्रकार उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी ही होती है, क्योंकि इनके अतिरिक्त और किसी तीसरी विभक्तिका पाया जाना संभव नहीं है ।

* उन दोनों भेदोंमेंसे एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार हैं । वे इसप्रकार हैं—एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, सन्निकर्ष और अल्पबहुत्व ।

§ ६८. इसप्रकार एकैकप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं ।

शंका—उच्चारणाचार्यने एकैकप्रकृतिविभक्तिके समुत्कीर्तना, सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादि-विभक्ति, ध्रुवविभक्ति, अध्रुवविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, और सन्निकर्ष तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाण, क्षेत्र,

उच्चारणाहरिण्हि परूविदाणि । जइवसहाइरिण पुण एकारस चैव परूविदाणि, दोण्हं वक्खाणाणमेदेसिं कथं ण विरोहो ? णत्थि विरोहो, दच्चद्विय-पज्जवद्वियणए अवलंबिय पयट्टाणं विरोहाभावादो । जइवमहाइरियो जेण संगहणओ तेण तस्स अहिप्पाएण एकारस अण्णयोगदाराणि होंति ।

§ ६६. कमणियोगद्वारं कम्मि संगहियं? वुच्चदे, समुक्कित्तणा ताव पुथ ण वत्तच्चा सामित्तादिअण्णियोगदारेहि चैव एगेगपयडीणमत्थित्तसिद्धीदो अवगयत्थपरूवणाए फलाभावादो । सच्चविहती णोसच्चविहती उक्कस्सविहती अणुक्कस्सविहती जहण्णविहती अजहण्णविहतीओ च ण वत्तच्चाओ, सामित्त-सण्णियासादिअण्णियोगदारेसु भण्णमाणेसु अवगयपयडिसंखस्स सिस्सस्स उक्कस्साणुक्कस्स-जहण्णाजहण्णपयडिसंखोविसयपडिबोहुप्पत्तीदो । सादि-अणादि-धुव-अद्दुवअहियारा वि ण वत्तच्चा कालंतरेसु परूविज्ज-स्पर्शन, काल, अन्तर, भावानुगम और अल्पबहुत्व इमप्रकार ये चौबीस अनुयोगद्वार कहे हैं, पर यतिवृषभ आचार्यने ग्यारह ही अनुयोगद्वार कहे हैं, अतः इन दोनों व्याख्यानोंका परस्परमें विरोध क्यों नहीं है ?

समाधान—यद्यपि यतिवृषभ आचार्यने ग्यारह और उच्चारणाचार्यने चौबीस अनुयोगद्वार कहे हैं तो भी इनमें परस्परमें विरोध नहीं है, क्योंकि, यतिवृषभ आचार्यका कथन द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है और उच्चारणाचार्यका कथन पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है, अतः उक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है । चूँकि यतिवृषभ आचार्यने संग्रहनयका आश्रय लिया है इसलिये उनके अभिप्रायानुसार ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं ।

§ ६६. अब किस अनुयोगद्वारका किम अनुयोगद्वारमें संग्रह किया है इसका कथन करते हैं—यद्यपि समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका अस्तित्व बतलाया जाता है तो भी उसे अलग नहीं कहना चाहिये, क्योंकि स्वामित्व आदि अनुयोगोंके कथनके द्वारा ही प्रत्येक प्रकृतिका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । अतः जाने हुए अर्थका कथन करनेमें कोई फल नहीं है । तथा सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, और अजघन्यविभक्तिका भी अलगसे कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, स्वामित्व, सन्निकर्ष आदि अनुयोगद्वारोंके कथनसे जिम शिष्यने प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान कर लिया है उसे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, तथा जघन्य और अजघन्य प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान ही जाता है । तथा सादि, अनादि, शुव और अशुव अधिकारोंका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि काल अनुयोगद्वार और अन्तर अनुयोगद्वारके कथन करने पर उनका ज्ञान हो जाता

माणेसु तदवगमुप्पत्तीदो । भागाभागो ण वत्तव्वो; अवगयअप्पाबहुंग [स्स] संख-
विसयपडिबोहुप्पत्तीदो । भावो वि ण वत्तव्वो; उवदेसेण विणा वि मोहोदएण मोहपय-
डिविहत्तीए संभवो होदि त्ति अवगमुप्पत्तीदो । एवं संगहियसेसत्तेरसअत्थाहियारत्तादो
एकारसअणिओगहारपरूवणा चउवीसअणियोगहारपरूवणाए सह ण विरुज्झदे ।

* एदेसु अणियोगहारेसु परूविदेसु तदो एगेग-उत्तरपयडिविहत्ती
समत्ता ।

§ १००. संपहि एत्थ उं [चारणाहरियवक्खा]णं जडजणाणुगहटं परूविदामिह
वण्णइस्सामो; संपहि मेहाविजणाभावादो । तं जहा, तत्थ इमाणि चउवीस अणुओ-
गहाराणि णादव्वाणि भवंति-समुक्कित्तणा सव्वविहत्ती णोसव्वविहत्ती उक्कस्सविहत्ती
अणुक्कस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुव-
विहत्ती अद्भवविहत्ती एगजीवेणै [मामित्तं कालो अंतरं सण्णियासो] णाणाजीवेहि भंग-
विचओ भागाभागानुगमो परिमाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं भावो अप्पाबहुंगं चेदि ।

है । तथा भागाभाग अनुयोगद्वारका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि जिसे
अल्पबहुत्वका ज्ञान हो गया है उसे भागाभागका ज्ञान ही जाता है । उसी प्रकार भाव
अनुयोगद्वारका भी पृथक् कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, मोहके उदयसे मोहप्रकृति-
विभक्ति होती है यह बान उपदेशके बिना भी जानी जाती है । इस प्रकार शेष तेरह
अनुयोगद्वार ग्यारह अनुयोगद्वारोंमें ही संग्रहीत हो जाते हैं, अतः ग्यारह अनुयोगद्वारोंका
कथन चौबीस अनुयोगद्वारोंके कथनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता ।

* इन ग्यारह अनुयोगद्वारोंके कथन करने पर एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति नामक
अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है ।

§ १००. अब मन्दबुद्धिजनों पर अनुग्रह करनेके लिये उच्चारणाचार्यके द्वारा किये गये
व्याख्यानको यहां कहते हैं, क्योंकि, इस कालमें बुद्धिमान मनुष्य नहीं पाये जाते हैं । वह
इस प्रकार है—उस एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके कथनमें ये चौबीस अनुयोगद्वार जानने चाहिये ।
समुत्कीर्तना, सर्वविभक्ति, नोसर्वविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति,
अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, भ्रुवविभक्ति, अभ्रुवविभक्ति तथा एक
जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, मन्त्रिकर्ष, और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय,
भागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावा

(१) ग०... (बु० ७) हुप्प-स० । -गसखविसयपडिबोहुप्प-अ०, आ० । (२) उ०... (बु० ११)
णं-स० । उत्तरपयडिविहत्तीणं-अ०, आ० । (३)-ण०... (बु० १४) णाणाजी-स० । -णसमुक्कित्तणा
सव्वविहत्ती णाणाजी-अ०, आ०, ।

§ १०१. समुक्कितणा दुविहा ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सम्मत्त-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिकोहमाणमायालोह-अपच्चवखाणावरणकोहमाणमायालोह-पच्चवखाणावरणकोहमाणमायालोह-संजलणकोहमाणमायालोह-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछा चेदि एदासिमहावीसणहं मोहपयडीणमत्थि विहत्तिया च अविहत्तिया च । एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्त-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-आभिणिबोहिय०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-संजद०-चक्खु०-अचक्खु०-ओहिदंसर्ण-[सुक्खोस्सिय-भवसिद्धिय-सम्मादिट्ठि-सण्णि]-आहारि०-अणाहारि ति वत्तव्वं ।

§ १०२. आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्क० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सेसाणं पयडीणं अत्थि विहत्ति० । एवं नुगम और अल्पबहुत्वानुगम ।

§ १०१. ओघसमुत्कीर्तना और आदेशसमुत्कीर्तना इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार दो प्रकारका है । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अपत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ; स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा मोहकी इन अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक अर्थात् सामान्य पर्याप्त और मनुष्यिणी ये तीन प्रकारके मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रसकायिक, त्रसकायिक पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सामान्य काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मनिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेड्यावाले, भय, सम्यग्दर्ष्टि, भंजी, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-मार्गणास्थानोंकी विवक्षा न करके सामान्यसे जीवोंके मोहनीयकी सभी प्रकृतियोंका पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है अतः इस प्ररूपणाको ओघप्ररूपणा कहा है । तथा ओघप्ररूपणाके अनन्तर मनुष्यत्रिकसे लेकर अनाहारक जीवों तक जो मार्गणास्थान बतलाये हैं उनके भी मोहकी समस्त प्रकृतियोंका सङ्गाव और अभाव संभव है । अतः उनकी प्ररूपणाको ओघके समान कहा है ।

§ १०२. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा इन सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं । इसी प्रकार

पढमपुढवि०-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्ज०-देव-सोहम्मीमाणप्पहुडि जाव सव्वदुदेव०-वेउव्विय०-वेउव्वियमिस्स०-परिहार०-संजदासंजदं-[अमंजद-पंचले-स्सिया]त्ति । विदियप्पहुडि जाव मत्तमेत्ति एवं चेव । णवरि मिच्छत्तम्म अविहत्तिया णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-वाणवेंतर-जोदिमिया त्ति वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सेसाणं अत्थि विहत्ति० । एवं मणुसअपज्ज०-मव्वएइंदिय-सव्वविगलेंदिय-पज्जत्त-अपज्ज० पहली पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, बैक्रियिककाययोगी, बैक्रियिकमिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिमंयत, संयतामंयत, अमंयत और कृष्णादि पांच लेख्यावाले जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ-ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें कमसे कम इक्कीस और अधिकसे अधिक अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव होते हैं ।

दूसरी पृथिवीसे लेकर मातरी पृथिवीतक छह पृथिवियोंके नारकियोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये । पर इनकी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव नहीं होते हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यचयोगिनमनी, भवनवामी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मार्गणाओमें सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छह प्रकृतियोंका अभाव हो सकता है पर एक जीवके छह प्रकृतियोंका अभाव नहीं होता । जिसने सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियोंका अभाव होता है । तथा जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विमंयोजना कर दी है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव होता है । क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिकालमें ही उक्त छह प्रकृतियोंका एकमात्र अभाव पाया जाता है । पर इन मार्गणाओमें क्षायिक-सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं, और न क्षायिकसम्यग्दृष्टि ही इनमें उत्पन्न होता है अतः इनमें उक्त छह प्रकृतियोंका अभाव नाना जीवोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओमें अधिकसे अधिक अट्ठाईस और कमसे कम चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तकोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं । इसी प्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपर्याप्त, पंचेन्द्रियलब्धपर्याप्तक पांचों

पंचिदियअपज्ज०-पंचकाय०-बादर-सुहुम-पज्ज०-अपज्ज०-त्तंस०-[अपज्जत्त-मदि-सुदअण्णा-
णि-विभंग०-मिच्छाइट्ठि-असण्णि] ति वत्तच्चं । आहार०-आहारमिस्स० पढमपुढविभंगो ।
इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकमाय-णवुंसयवेद० अत्थि विहत्ति०
अविहत्ति० । चत्तारिसंजलण-छण्णोकसाय-पुरिसित्थिवेदाणं अत्थि विहत्ति० । पुरिस-
वेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकमाय-अट्टणोकसाय० अत्थि विहत्ति०
अविहत्ति०, पुरिस० चदुसंजलण० अत्थि विहत्ति० । णवुंसं [मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मा-
मिच्छत्त-बारसकसाय]-इत्थि० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, चत्तारिसंजलण-दोवेद-छण्णो-
कसाय० अत्थि विहत्ति० । अवगदवेद० चदुवीसणं अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । अणंता-
स्थावरकाय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रस लब्धपर्याप्तक,
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें सादि मिथ्यादृष्टि होते हुए जिन जीवोंने सम्यक्त्व-
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना कर दी है उनके इन दो प्रकृतियोंका अभाव होता
है तथा जिन जीवोंने इन दो प्रकृतियोंकी उद्वेलना नहीं की है उनके इनका सत्त्व होता
है । इस प्रकार उपर्युक्त मार्गणाओंमें लुब्धीस और अट्टाईस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया
जाता है ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके प्रकृतियोंका सत्त्व पहली
पृथिवीके समान कहना चाहिये । अर्थात् जिस प्रकार पहले नरकमें दर्शनमोहनीयकी तीन
और अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है, तथा शेष
इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व ही है उन्नी प्रकार उक्त दोनों काययोगी जीवोंके जानना चाहिये ।

स्त्रीवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, संज्वलन चारके बिना
शेष बारह कषाय और नपुंसक वेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्ति-
वाले जीव हैं । तथा चार संज्वलन, छह नोकषाय, पुरुषवेद और स्त्रीवेद इन बारह
प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही हैं । पुरुषवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व,
संज्वलन चारके बिना शेष बारह कषाय और पुरुषवेदके बिना आठ नो कषाय इन तेईस
प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा पुरुषवेद और चार संज्वलन
इन पांच प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं । नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति
सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलनके बिना बारह कषाय और स्त्रीवेद इन सोलह प्रकृतियोंके
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । तथा चार संज्वलन, पुरुष और नपुंसक ये
दो वेद और हास्यादि छह नो कषाय इन बारह प्रकृतियोंके नियमसे विभक्तिवाले जीव
हैं । अपगतवेदियोंमें चौबीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । पर

(१) तस०.....(त्रु० १९) ति-स० । (२) णवुस०.....(त्रु० १४) इत्थि०-स० ।

पुबंघिचउकस्स विहत्तिया णियमा अत्थि [णत्थि] । एवमकसायि० जहाक्खाद० ।

§ १०३. कमायाणुवादेण कोधकसाईणं पुरिसभंगो । णवरि पुरिस० अत्थि विहात्ति० अविहत्ति० । एवं माणकसाईणं । णवरि कोह० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । एवं मायाकसाईणं [णवरि माण०] अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । एवं लोभकसायी० । णवरि माय० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । एवं सामाइय-छेदो० वत्तच्चं ।

अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नियमसे नहीं हैं । अपगतवेदियोंके समान अकपायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके स्त्रीवेदकी उदयन्युच्छित्तिके पहले चार संज्वलन, हास्यादि छह नोकषाय, पुरुपवेद और स्त्रीवेद इन बारह प्रकृतियोंको छोड़कर शेष मोलह प्रकृतियोंका क्षय हो जाता है, अतः स्त्रीवेदके उक्त बारह प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है तथा शेषका सत्त्व है और नहीं है । इसी प्रकार नपुंसकवेदीके जानना चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदीके स्त्रीवेदके स्थानमें नपुंसकवेदका सत्त्व कहना चाहिये । पुरुपवेदीके पुरुपवेदका उदय रहते हुए चार संज्वलन और पुरुपवेदका क्षय नहीं होता । शेषका हो जाता है । अतः पुरुप वेदीके उक्त पांच प्रकृतियोंको छोड़कर शेष तेईस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है पर उक्त पांच प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है । द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके साथ उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर जो जीव अपगतवेदी हो जाता है उसके चार अनन्तानुबन्धीको छोड़ कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है, अतः अपगतवेदी जीवके अनन्तानुबन्धी चारको छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है । पर चाग अनन्तानुबन्धीका सत्त्व नियमसे नहीं है । अकपायी और यथाख्यातसंयतोंके अपगतवेदियोंके समान जानना चाहिये ।

§ १०३. कपायानुवादकी अपेक्षा क्रोध कपायवाले जीवोंके पुरुपवेदियोंके समान कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ये पुरुपवेदकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं । इसी प्रकार मानकपायवाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकपायवाले जीव क्रोध कपायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं । इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि माया कपायवाले जीव मानकपायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं । इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लोभकपायवाले जीव मायाकपायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं । इसी प्रकार मामाधिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके अवेदभागमें क्रमसे क्रोध, मान और मायाका और सूक्ष्म सांपराय गुणस्थानमें लोभका क्षय होता है अतः क्रोधवेदके परुषवेदका, मानवेदके

§ १०४. सुहुम० मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्मामि०-एकारसकसाय०-णवणोक-
साय० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । लोभ० अत्थि विहत्ति०, अणंताणुबंधिचउक्क-
विहत्तिया णियमा णत्थि । अभवसिद्धि० छव्वीसपयडीणं अत्थि विहत्ति० । खइय०
एक्कवीस० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति० । वेदगं० [मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-] अणंताणुबंधि-
चउक्क० अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०, सम्मत्त०-बारसकसाय-णवणोकसाय० अत्थि
विहत्ति० । उवसमसम्माइड्डीसु अणंताणुबंधिचउक्कस्स अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०,
सेसचउवीसण्हं पयडीणं अत्थि विहत्ति० । एवं सम्मामि० । सासण० सव्वासिं पय-
डीणं विहत्ती णियमा अत्थि ।

एवं समुक्कित्तणा समत्ता ।

क्रोधका, मायावेदकके मानका और लोभवेदकके मायाका सत्त्व है भी नहीं भी है । शेष
कथन पुरुषवेदीके ममान जानना चाहिये । मामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवें गुण-
स्थान तक होते हैं, अतः इनके लोभकपायवाले जीवोंके ममान लोभकषायको छोड़कर शेष
प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है, पर लोभकपायका सत्त्व नियमसे है ।

§ १०४. सूक्ष्म सांपरायिक संयनोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रत्या-
ख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कपाय और नौ नोकपाय इन तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले
और अविभक्तिवाले हैं । लोभकी नियमसे विभक्तिवाले हैं और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी
नियमसे अविभक्ति वाले हैं ।

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपराय संयम दसवें गुणस्थानमें होता है । इसलिये यहां अनन्ता-
नुबन्धी चारका सत्त्व तो है ही नहीं । शेष चौबीस प्रकृतियोंमेंसे तेईस प्रकृतियोंका क्षपक
श्रेणीवालेके अभाव होता है और उपशमश्रेणीवालेके उनका सत्त्व पाया जाता है । पर
इसके सूक्ष्म लोभका सत्त्व नियमसे है ।

अभव्य जीवोंमें सभी जीव मोहनीयकी छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैं । क्षायिक-
सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें
मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले
और अविभक्तिवाले हैं । तथा सम्यक्प्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषाय इन बाईस
प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चारकी
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं । तथा शेष चौबीस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले
हैं । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें
नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव हैं ।

(१)-मा अत्थि-स०, प्रा० । (२) वेदग०... (३) अणं-स० ।

§ १०५. सव्वविहत्ति-णोसव्वविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सव्वाओ पयडीओ सव्वविहत्ती । तदूणं णोसव्वविहत्ती । एवं णेदव्वं जाव अणाहारएत्ति ।

§ १०६. उक्कस्सविहत्ति-अणुक्कस्सविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदे-सेण य । तत्थ ओघेण सव्वुकस्साओ पयडीओ उक्कस्सविहत्ती । तदूणमणुक्कस्स-विहत्ती । उक्कस्सविहत्ती ण वत्तव्वा; सव्वविहत्तीए विसेसाभावादो । अत्थि विसेसो

विशेषार्थ—अभव्य जीवोंके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिश्रयात्वको छोड़कर शेष छव्वीस प्रकृतियोंका सत्त्व है । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुबन्धी इन सात प्रकृतियोंको छोड़कर शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है । पर उक्त मात प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे नहीं है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें जिसने चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है तथा जिम्ने क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करते समय मिश्रयात्व और सम्यग्मिश्रयात्वका क्षय कर दिया है, उसके उक्त छह प्रकृतियोंको छोड़कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है । पर जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उसके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है । द्वितीयो-पशम सम्यक्त्व चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है और प्रथमोपशम-सम्यक्त्व 'दर्शनमोहनीयके उपशमसे प्राप्त होता है । अतः उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व है भी और नहीं भी है । पर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है । जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव मिश्र-गुणस्थानमें भी जाता है, अतः इसके भी चार अनन्तानुबन्धीका सत्त्व है भी और नहीं भी है । पर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है । मासादनगुणस्थान अनन्तानुबन्धी चारमेंसे किसी एकके उदयसे होता है, अतः यहां सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ १०५. सर्वविभक्ति और नोसर्वविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी प्रकृतियोंको सर्वविभक्ति और इससे कमको नोसर्वविभक्ति कहते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये ।

§ १०६. उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट प्रकृतियोंको उत्कृष्ट-विभक्ति और इनसे कमको अनुत्कृष्टविभक्ति कहते हैं ।

शंका—उत्कृष्टविभक्तिका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि सर्वविभक्तिसे इसमें कोई भेद नहीं है ?

पादेकं सव्वपयडीपरूवणा सव्वविहत्ती, पयडीणं सव्वासिं समूहस्स पयडीहितो कधंचि पुधभूदस्स परूवणा उक्कस्मविहत्ती, तदो ण पुणरुत्तदोसो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारएत्ति ।

§ १०७. जहण्णविहत्ति-अजहण्णविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सव्वजहण्णपयडीओ जहण्णविहत्ती, तदुवरि अजहण्णविहत्ती । एवं णेदव्वं जाव अणाहारएत्ति ।

§ १०८. सादि-अणादि-धुव-अद्दुवाणुगमेण दुविहो णिहेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बागसकमाय-णवणोकसाय-विहत्ति० किं सादिया किमणादिया किं धुवा किमद्दुवा ? अणादिया धुवा अद्दुवा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० किं सादिया४ ? सादि-अद्दुवा । अणादि-धुवं णत्थि ।

समाधान—इन दोनोंमें परस्पर भेद है, क्योंकि अलग अलग सर्वप्रकृतियोंकी प्ररूपणाको सर्वविभक्ति कहते हैं और प्रकृतियोंसे कथंचिन् भिन्नभूत समस्त प्रकृतियोंके समूहकी प्ररूपणाको उत्कृष्टविभक्ति कहते हैं, अतः सर्वविभक्ति और उत्कृष्टविभक्तिका पृथक् पृथक् कथन करने पर पुनरुक्त दोष नहीं आता है ।

गतिसार्गणासे लेकर अनाहारकमार्गणा तक उत्कृष्टविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्तिका कथन इसी प्रकार करना चाहिये ।

§ १०७. जघन्यविभक्ति और अजघन्यविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सबसे जघन्य प्रकृतिया जघन्यविभक्ति है और इसके ऊपर अजघन्यविभक्ति है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये ।

§ १०८. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिश्रयात्व, अप्रत्याख्यानावरण आदि बारह कपाय और नौ नोकपाय ये विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या ध्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं ? अनादि, ध्रुव और अध्रुव हैं । सत्त्व व्युच्छित्ति होने तक निरन्तर रहती हैं, इसलिये अनादि हैं । तथा अभव्योंकी अपेक्षा ध्रुव और भव्योंकी अपेक्षा अध्रुव हैं । इन प्रकृतियोंमें सादिभेद नहीं होता है, क्योंकि सत्त्व व्युच्छित्तिके बाद इनका पुनः सत्त्व नहीं होता ।

सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिश्रयात्व विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या ध्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं ? सादि और अध्रुव हैं । इनमें अनादि और ध्रुवपद नहीं है । प्रथमोपशमसम्यक्त्व होनेके अनन्तर ही इन दो विभक्तियोंका सत्त्व होता है, अतः ये सादि और अध्रुव हैं

§ १०६. अणंताणुबंधिचउक्क० किं सादिया४ ? सादि-अणादि-ध्रुव-अद्भुव० । एवमचक्खुदंसण०- भवसिद्धि० । णवरि भव० ध्रुवं णत्थि । अभवियसमाणेसु भविणसु वि ण ध्रुवमत्थि विणासणसत्तिसम्भावादो । अभवसिद्धि० सच्चपयडि० किं सादि०४ ? अणादि० ध्रुव० । सेसासु मग्गणासु सच्चपयडी० सादि० अद्भुव०; तथावट्ठिदजीवा-भावादो । णवरि मदि०-सुद०-असंजदमिच्छाइट्ठीसु छब्बीसपयडीणं विहात्ति० सादि० अणादि० ध्रुवा० अद्भुवा वा, सम्म०-सम्मामिच्छत्त० सादि०अद्भुवा । एवं सादि-अणादि-ध्रुव-अद्भुवाणुगमो समत्तो ।

§ १०६. अनन्तानुबन्धी चतुष्क क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है ? अनन्तानुबन्धी चतुष्क सादि है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है । विसंयोजनाके पहले अनादि है । विसंयोजनाके अनन्तर पुनः सत्त्व होनेसे सादि है । अभव्योंकी अपेक्षा ध्रुव और भव्योंकी अपेक्षा अध्रुव है ।

इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्यजीवोंके जानना चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि भव्यजीवोंके ध्रुवपद नहीं है । तथा अभव्योंके समान जो भव्य हैं उनके भी ध्रुवपद नहीं है, क्योंकि उनके विभक्तियोंके विनाश करनेकी शक्ति पाई जाती है ।

विशेषार्थ—अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक निरन्तर रहता है और वह भव्य और अभव्य दोनोंके पाया जाता है । अतः इनके ओघप्ररूपणाके समान विवक्षित प्रकृतियोंके यथासंभव पद बन जाते हैं । भव्य जीवोंके भी ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, पर इनके ध्रुवपद नहीं होता है; क्योंकि यह पद अभव्योंकी अपेक्षा कहा है ।

अभव्य जीवोंमें सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, क्या ध्रुव हैं, क्या अध्रुव हैं ? अनादि और ध्रुव हैं । अभव्योंके इन छब्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व अनादि कालसे है अतः वे अनादि हैं और अनन्त काल तक रहेगा इसलिये वे ध्रुव हैं ।

इन उपर्युक्त मार्गणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें सभी प्रकृतियां सादि और अध्रुव हैं, क्योंकि उनमें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि इन चार मार्गणाओंमें छब्बीस प्रकृतियां सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव हैं । तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व सादि और अध्रुव हैं ।

विशेषार्थ—भव्य जीवोंके सम्यग्दर्शन होनेके पहले तक मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ये तीन मार्गणाएँ तथा संयम होनेके पहले तक असंयम मार्गणा निरन्तर पाई जाती हैं । तथा ये चारों मार्गणाएँ अभव्यके भी होती हैं । अतः इन मार्गणाओंमें उक्त छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों पद बन जाते

§ ११०. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिद्देशो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त० विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिट्ठिस्स मिच्छादिट्ठिस्स वा । अविहत्ती कस्स ? सम्मादिट्ठिस्स खविदमिच्छत्तस्स । सम्मत्त-सम्माभि० विहत्ती कस्स ? अण्ण० मिच्छादिट्ठिस्स सम्मादिट्ठिस्स वा । अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स मिच्छादि० सम्मादिट्ठिस्स वा उव्वेल्लिद-खविदसम्मत्तसम्माभिच्छत्तस्स । अणंताणुबंधिचउकस्स विहत्ती कस्स ? अण्ण० मिच्छादि० सम्मादिट्ठिस्स वा अविसंजोयिदअणंताणुबंधिचउकस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० सम्मादिट्ठिस्स विसंजोयिद-अणंताणुबंधिचउकस्स । बारस-कसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ? सम्मादिट्ठिस्स मिच्छादिट्ठिस्स वा । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० सम्मादिट्ठिस्स णिस्संतकम्भियस्स । एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचि० हैं । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा सादि और अध्रुव पद स्पष्ट है । तथा शेष मार्गणाएँ सादि हैं, अतः उनकी अपेक्षा सादि और अध्रुव पद ही होते हैं ।

इस प्रकार सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगम समाप्त हुए ।

§ ११०. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिध्यात्वविभक्ति किमके है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके मिध्यात्वविभक्ति है । अर्थात् मिध्यादृष्टि जीवके और जिस सम्यग्दृष्टि जीवने मिध्यात्वका क्षय नहीं किया है उसके मिध्यात्व विभक्ति होती है । मिध्यात्व अविभक्ति किसके है ? जिसने मिध्यात्व विभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके मिध्यात्व अविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वविभक्ति किसके है ? किसी भी मिध्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके है । सम्यक्त्वअविभक्ति और सम्यग्मिध्यात्वअविभक्ति किसके है ? जिसने सम्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिध्यात्वविभक्तिकी उद्वेलना कर दी है ऐसे किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके या जिसने सम्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिध्यात्वविभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्वअविभक्ति और सम्यग्मिध्यात्वअविभक्ति है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्ति किसके है ? किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके या जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्ति है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कअविभक्ति किमके है ? जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर दी है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्क अविभक्ति है । (अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके जो सम्यग्दृष्टि जीव तीसरे गुण स्थानमें आ जाता है उसके भी अनन्तानुबन्धीकी अविभक्ति रहती है । किन्तु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की है ।) बारह कपाय और नौ नोकपाय विभक्ति किसके है ? सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके है । बारह कपाय और नौ नोकपायअविभक्ति किसके हैं ? जिसने बारह कपाय और नौ नोकपायोंका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके है ।

पञ्ज-तस-तसपञ्ज-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-चवखु०-अचक्खु०
सुक्कलेस्सिय-भवसिद्धिय-सण्णि-आहारि त्ति ।

§ १११. आदेसेण णिरयमदीए णेरइएसु मिच्छन्न-सम्मत्त-सम्मामिच्छन्न-अणं-
ताणुबंधिचउक्काणं ओघभंगो । बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ? अण्णद० ।
एवं पढमाए पुढवीए तिरिक्खगइ-पांचिदियतिरिक्ख-पांचि० ति०पञ्ज०-देवा-सोहम्मी-
साणप्पहुडि जाव उवरिमगेवज्जेत्ति वेउच्चिय-वेउच्चियमिस्स-असंजद-पंचलेस्सिया त्ति
वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं च्चेव । णवरि मिच्छन्ना-अविहत्ती णत्थि ।
एवं पांचिदियतिरिक्खजोणणी-भवण०-वाण०-जोदिसिया त्ति वत्तव्वं ।

इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम, त्रमपर्याप्त, पांचों मनोयोगी,
पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्लेश्यावाले,
भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । अर्थान् उपर्युक्त मनुष्यत्रिक आदि मार्गणा-
ओंमें प्रारंभके बारह गुणस्थान संभव हैं, अतः इनमें ओघके समान प्ररूपणा बन जाती है ।

§ १११. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्-
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन ओघके समान है । तथा बारह कपाय और नौ
नोकपायविभक्ति किम्के है ? किसी भी नारकीके है । इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारकी,
सामान्यतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव, मौधर्म और पेशान
स्वर्गसे लेकर उपरिमत्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, असंयत
और कृष्ण आदि पांच लेउयावाले जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ-इन मार्गणास्थानवाले जीवोंके क्षायिक सम्यग्दर्शन हो सकता है, अतः इनके
तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुबन्धीका सत्त्व है भी और नहीं भी है । पर इनमेंसे
किसीके भी क्षपकश्रेणी संभव नहीं है, अतः उक्त मात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस
प्रकृतियोंका इनके सत्त्व ही है ।

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंके इभी प्रकार जानना चाहिये ।
इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व अविभक्ति नहीं है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्थच-
योनिमती, भवनवाभी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-उपर्युक्त मार्गणाओंमें सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-
चतुष्क इन छह प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है । पर उक्त छह प्रकृ-
तियोंमेंसे जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना कर देता है
उसके उक्त दो प्रकृतियोंका असत्त्व होता है और शेषके सत्त्व होता है । तथा जिस सम्यग्-
दृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका असत्त्व
होता है और शेषके सत्त्व होता है ।

§ ११२. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त० सम्मत्त० सम्मामि० विहत्ती अविहत्ती च कस्स ? अण्णदरस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवं मणुस्स-अपज्जत्त-सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिदिय-पंचिदियअपज्जत्त-तसअपज्ज०-पंचकाय०-बादर सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मदि-सुदअण्णाणि-विभंग०-मिच्छाइट्ठि-असण्णि त्ति वत्तव्वं । अणु-दिसादि जाव सव्वट्ठसिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहत्ती कस्स ? अण्ण० । अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स खविददंसणमोहणीयस्स । एवमणंताणुबंधिचउक्कस्स । णवरि अविहत्ती कस्स, अण्णदरस्स विसंयोजिदाणंताणुबंधिचउक्कस्स । सेसाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स । एवमाहार०-आहारमिस्स०-परिहार० संजदासंजदा त्ति ।

§ ११२. पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति तथा अविभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति होती है । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है । इसी प्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक, त्रसलब्धपर्याप्तक, पांचों स्थावरकाय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उक्त मार्गणावाले जीवोंके छब्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है । तथा जिसने सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना की है उसके उक्त दो प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, शेषके है ।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति किसके है ? किसी भी देवके मिथ्यात्व आदिकी विभक्ति है । इन प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके है ? जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी देवके इनकी अविभक्ति है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विषयमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है ऐसे किसी भी देवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति है । इन सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी देवके शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है । इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिमंत और मंयतामंयत जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणाओंमें सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं । अतः जिनके चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय हो गया है उनके इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है, शेषके है । पर इन मार्गणाओंमें इनके अतिरिक्त शेष इक्कीस

§ ११३. ओरालियमिम्म० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त अणंताणुबंधिचउक्क० ओघभंगो । बारसकभाय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादि० मिच्छादिट्ठिस्स वा । अविहत्ती कस्स ? अण्णद० सजोगिकेवलिस्स । एवं कम्मइय० अणाहारि त्ति वचच्चं । णवरि, बारसकसाय-णवणोक० अविहत्तीए [प्दर] लोगपूरणगदो सजोगी अजोगी च सामिणो ।

§ ११४. इन्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्क० ओघभंगो । अट्टक०-णवुंमयविहत्ती कस्स ? अण्णद० सम्मादिट्ठि० मिच्छादिट्ठिस्स वा । अविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स खवयस्स । चत्तारिसंजलण०-दोवेद०-लुण्णोक० विहत्ती प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है ।

§ ११३. औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्करी अपेक्षा कथन ओघके समान है । तथा बारह कपाय और नौ नोकपायविभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि औदारिक मिश्रकाययोगीके बारह कपाय और नौ नोकपाय की विभक्ति है । बारह कपाय और नौ नोकपायकी अविभक्ति किसके है ? किसी भी मयोगकेवली औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके बारह कपाय और नौ नोकपायकी अविभक्ति है । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कर्मणकाययोगियोंमें बारह कपाय और नौ नोकपाय की अविभक्तिके स्वामी प्रतर और लोकपूरण ममुद्धानको प्राप्त मयोगकेवली जीव हैं । तथा अनाहारकोंमें बारह कपाय और नौ नोकपायकी अविभक्तिके स्वामी प्रतर और लोकपूरण ममुद्धानको प्राप्त मयोगकेवली और अयोगकेवली हैं ।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग पहल, दूसरे चौथे और तेरहवें गुणस्थानमें होता है । तथा अनाहारक अवस्था पूर्वोक्त चार गुणस्थानोंमें और चौदहवें गुणस्थानमें होती है । तथा मोहनीयका सत्त्व बारहवें गुणस्थानसे नहीं है, क्योंकि दसवेंके अन्तमें उसका समूल नाश हो जाता है, अतः उक्त मार्गणाओंमें संभव तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानकी अपेक्षा इक्षीम मोहप्रकृतियोंका असत्त्व कहा है । तथा शेषके इनका सत्त्व कहा है । शेष मात प्रकृतियोंकी अपेक्षा सत्त्वामत्त्व जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी प्रकार वहां भी जान लेना चाहिये ।

§ ११४. स्त्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन ओघके समान है । तथा आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति है । आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति किसके है ? किसी भी क्षपक स्त्रीवेदी जीवके आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति है । तथा चार संज्वलन, दो वेद और छह

कस्स ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छादि० वा । पुरिसवेदएसु इत्थिवेदभंगो । णवरि इत्थिवेद-छण्णोक० अविहत्ती कस्स ? खवयस्स । णवुंस० इत्थिवेदभंगो । णवरि णवुंसयवेदस्स अविहाचिया णत्थि । इत्थिवेद० पुरिसवेदभंगो । अवगद० मिच्छत्त-सम्मत्त०-सम्मामि०-अट्टक०-दोवेदविहत्ती कस्स० ? अण्ण० उवमामयस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० खवयस्स । णवरि दंसणातियअविहत्ती उवसामगस्स वि । चत्तारि-संजलण-पुरिस-छण्णोकसाय० विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स वा खवयस्स वा । अविहत्ती कस्स ? अण्णद० खवयस्स ।

नोकपायकी विभक्ति किमके हैं? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीवके है । पुरुषवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदियोंमें स्त्रीवेद और लूह नोकपायकी अविभक्ति किसके है ? क्षपक पुरुषवेदी जीवके है । नपुंसकवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके नपुंसकवेदकी अविभक्ति नहीं है । तथा स्त्रीवेदका कथन पुरुषवेदके समान है । अपगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अपत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और दो वेदोंकी विभक्ति किमके है ? किसी भी उपशामक जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति है । तथा उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके है ? किसी एक क्षपक जीवके उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति है । इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्ति उपशामकके भी है । तथा चार मंज्वलन, पुरुषवेद और छह नोकपायोंकी विभक्ति किमके है ? किसी भी उपशामक या क्षपक अपगतवेदी जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति है । तथा इनकी अविभक्ति किमके है ? किसी एक क्षपक जीवके इनकी अविभक्ति है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदियोंके चार मंज्वलन, लूह नोकपाय, पुरुषवेद और स्त्रीवेद इन बारह प्रकृतियोंका नियमसे सत्त्व है । तथा शेष सोलह प्रकृतियोंका किन्हींके सत्त्व है और किन्हींके नहीं । पुरुषवेदियोंके चार मंज्वलन और पुरुषवेदका सत्त्व नियमसे है । शेषका सत्त्व किन्हींके है और किन्हींके नहीं । नपुंसकवेदियोंके स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदके सत्त्वके स्थानमें नपुंसकवेदका सत्त्व कहना चाहिये । इन तीनों वेदवाले जीवोंके जिन प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है उन्हें छोड़कर शेष प्रकृतियोंका सत्त्व किसके है और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण ऊपर किया ही है, तथा अपगतवेदियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व नियमसे नहीं है, अतः ऊपर इनका उल्लेख नहीं किया है । तथा इनके अतिरिक्त शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है । उपशामक अपगतवेदीके तीन दर्शनमोहनीयको छोड़कर शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है । तथा तीन दर्शनमोहनीयका सत्त्व है भी और नहीं भी है । जो क्षायिक सम्यक्त्वके साथ उपशामश्रेणी पर चढ़ा है उसके नहीं है ।

§ ११५. क्रोधक० पुरिसभंगो । णवरि पुरिस० अविहत्ती अत्थि । एवं माणकसाय०, णवरि क्रोध० अविहत्ती अत्थि । एवं मायाकसाय०, णवरि माण० अविहत्ती अत्थि । एवं लोभकमाय०, णवरि माय० अविहत्ती अत्थि । अकमाय० चउवीसपयडीणं विहत्ती कम्म ? अण्ण० उवमामयस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० खवयवस्स । एवं जहाकखाद० वत्तव्वं ।

तथा जो उपशम सम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके है । तथा जो जीव क्षपकश्रेणी पर चढ़कर अपगतवेदी हुए हैं उनके मध्यकी आठ कपाय नपुंसकवंद और स्त्रीवेदका सत्त्व नियमसे नहीं है । शेष ग्यारह प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है । जिम अपगतवेदीने इनका क्षय कर दिया है उसके इनका सत्त्व नहीं है और जिसने क्षय नहीं किया है उसके इनका सत्त्व है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके साथ क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक जीवके छह नोकपायोंका क्षय संवदभागमें ही हो जाता है ।

§ ११५. क्रोधकपायवाले जीवके पुरुषवेदी जीवके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके पुरुषवेदकी अविभक्ति भी है । इसी प्रकार मानकपायवाले जीवके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके क्रोधकपायकी अविभक्ति भी है । इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके मानकपायकी अविभक्ति भी है । इसी प्रकार लोभकपायवाले जीवके जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि इसके मायाकपायकी अविभक्ति भी है । कपायरहित जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके हैं ? किसी भी उपशामक जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना शेष चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है । चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी एक क्षपक जीवके चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति है । इसी प्रकार यथाख्यातसंयत जीवके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदी जीवकी अपेक्षा क्रोधादिकपायवाले जीवोंके जो विशेषता होती है वह ऊपर बतलाई ही है । कपाय रहित अवस्था उपशमश्रेणीके ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षपकश्रेणीके बारहवें गुणस्थानसे होती है । ग्यारहवें गुणस्थानमें चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है । इसलिये कपायरहित उपशामकके चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व कहा है । इतनी विशेषता है कि यदि क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दर्शन-मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं होता है । तथा बारहवें गुणस्थानमें मोहनीयकी एक भी प्रकृतिका सत्त्व नहीं है, अतः कपायरहित क्षपक जीवके सभी प्रकृतियोंका असत्त्व कहा है । यथाख्यातसंयम भी ग्यारहवें गुणस्थानसे होता है, अतः इसका कथन भी कषाय रहित जीवोंके समान ही है ।

§ ११६. आभिणि०-सुद०-ओहि० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधि-
चउक्क० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण०
खीणदंसणमोहस्स । सेसाणं पयडीणं ओघमंगो । णवरि विहत्ती अण्ण० । एवं मण-
पज्ज०-संजद-सामाइय-छेदो०-ओहिदंसण-सम्मदिट्ठि त्ति वत्तव्वं । णवरि सामाइय०-
[छेदो०] लोभ० अविहत्ती णत्थि । सुहुमसांपगइयसंजदेसु मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्मामि०-
एक्कारसक०-णवणोक० विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स । अविहत्ती कस्स० ?
अण्ण० खवयस्स । णवरि दंसणतियस्स अविहत्ती अत्थि उवसामगस्स वि । लोभ०
विहत्ती कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स वा खवयस्स वा । अभवसिद्धि० छुब्बीसण्हं
पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० ।

§ ११७. खइयसम्माइट्ठीसु बारगक०-णवणोक० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अक्ख-

§ ११६. मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति,
सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने दर्शनमोह-
नीयका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है । अविभक्ति किसके
है ? जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है । तथा
इनके शेष प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष इक्कीस प्रकृ-
तियोंकी विभक्ति किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत,
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कथन करना
चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवके लोभकषायकी
अविभक्ति नहीं है ।

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, संज्वलन लोभके
बिना ग्यारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशामकके है ।
अविभक्ति किसके है ? किसी भी क्षपकके है । इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोह-
नीयकी अविभक्ति उपशामकके भी है । लोभकी विभक्ति किसके है ? किसी एक उप-
शामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके लोभकी विभक्ति है ।

विशेषार्थ-क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके एक सूक्ष्म लोभका ही सत्त्व है शेष
सबका असत्त्व है । तथा उपशामक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके
बिना चौबीस प्रकृतियोंका और क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवके
अनन्तानुबन्धी चार और तीन दर्शनमोहनीयके बिना इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है ।

अभव्य जीवोंमें छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी अभव्यके है ।

§ ११७. क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके है ?
जिसने इन इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टिके बारह

वयस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० खवयस्स । वेदगमम्मादिट्ठीसु मिच्छत्त-सम्मामि० विहत्ती कस्स ? अण्णदग्गस्स । अविहत्ती कस्स ? दंसणमोहसवयस्स । अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अविंसजोजिदअणंताणुबंधिचउक्कस्स । अविहत्ती कस्स ? अण्ण० विसंजोद्दअणंताणु०चउक्कस्स । सेमाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । उवसममम्मादिट्ठीसु अणंताणु०चउक्क० विहत्ती कस्स ? अण्ण० अविंसजोयिदस्स । अविहत्ती कस्स ? विसंजोयिदअणंताणुबंधिचउक्कस्स । सेमाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सासणसम्मामिदिट्ठीसु मव्वपयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्ण० । सम्मामि० अणंताणु०चउक्क०विहत्ती अविहत्ती च कस्स ? अण्ण० । सेमाणं पयडीणं विहत्ती कस्स ? अण्णदग्गस्स ।

एवं मामित्तं समत्तं ।

कपाय और नौ नोकपाथकी विभक्ति है । अविभक्ति किसके है ? जिमने इनका क्षय कर दिया है उसके इनकी अविभक्ति है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति किसके है ? किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टिके है । अविभक्ति किसके है ? जिमने दर्शनमोहनीयकी मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय कर दिया है उसके अविभक्ति है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिमने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है । अविभक्ति किसके है ? जिमने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके अविभक्ति है । शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके है । उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है उस उपशमसम्यग्दृष्टिके विभक्ति है । अविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उस उपशमसम्यग्दृष्टिके अविभक्ति है । शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशम सम्यग्दृष्टिके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके सभी प्रकृतियोंकी विभक्ति है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके है । शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है ।

विशेषार्थ—सभी अभव्योंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़ कर शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है । क्षायिकसम्यग्दृष्टिके तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुबन्धीका मत्त्व नहीं होता । शेष इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता । वेदकसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वको

§ ११८. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-वारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? अणादिया अपज्जवसिदा, अणादिया सपज्जवसिदा । सम्मत्त०-सम्मामि०विहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जह० अंतोमुहुत्तं उक्क० बे छावट्टिमागरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागेहि सादिरेयाणि । अणंताणु०चउक्कविहत्ती केवचिरं का० ? अणादि० अपज्जवसिदा अणादि०सपज्जवसिदा, सादि० सपज्जवसिदा वा । जा सा सादिसपज्जवसिदा तिस्से इमो णिहेसो-जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० अद्धपोग्गलपरियट्ठं दंस्सणं । एवमचक्खु०-भवसिद्धि० । णवरि भवसि० अपज्जवसिदं णत्थि ।

छोड़ कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । शेष छह प्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विना चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता है । गामादनसम्यग्दृष्टियोंके अट्ठाईस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता है ।

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वारा समाम हुआ ॥

§ ११८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिध्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? अनादि-अनन्त और अनादि-मान्त काल है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके तीन अमरूयातवे भागोंमें अधिक एकमौ वत्तीस मागर है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है । उनमेंसे जो सादि-सान्त अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है आगे उसका निर्देश करते हैं—अनन्तानुबन्धीचतुष्कविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके अनन्तकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—बारह कपाय, नौ नोकपाय और मिध्यात्वका अनादि-अनन्त काल अभव्योंके होता है और भव्योंके अनादि-मान्त काल होता है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व ये दोनों प्रकृतियां नियमसे सादि-सान्त हैं, इसमें भी इन दोनोंका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि जिसके पहले इन दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है ऐसा जो उपशम सम्यग्दृष्टि अति लघु अन्तर्मुहूर्तकाल तक उपशमसम्यक्त्वके साथ रहा, अनन्तर वेदकसम्य-

गृह्णित् होकर जिम्मे क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त किया है उमके इन दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व-काल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता है । तथा उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर है । जो इम प्रकार है—कोई एक मिथ्यागृह्णित् जीव उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करके मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया और इसके बाद वह पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । वहां उसे उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलनामें सबसे अधिक काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग लगता है । पर अपने अपने उद्वेलना कालमें जब अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब उस जीवने उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ किया और जब उद्वेलनाका उपान्त्य समय प्राप्त हुआ तभी मिथ्यात्वका अभाव होकर उपसमसम्यक्त्व प्राप्त हो गया और इस प्रकार सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी धारा न टूट कर इनका नवीन सत्त्व प्राप्त हो गया । अनन्तर छयामठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । और वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंके उद्वेलना काल पल्योपमके असंख्यातवें भागके अन्तिम समयमें पुनः उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी धारा न टूटते हुए नवीन सत्ता प्राप्त कर ली । अनन्तर छयामठ सागर कालतक सम्यक्त्वके साथ रहकर अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर वह जीव पल्योपमके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना करके क्रमसे उनका अभाव कर देता है । इस प्रकार उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त हो जाता है । अनन्तानुबन्धी चारका अनादि-अनन्त काल अभव्योके होता है । तथा जिम भव्यने सम्यक्त्व प्राप्त करके सर्व प्रथम अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है उसके अनादि-सान्त काल होता है । तथा विसंयोजनाके बाद जिमके पुनः अनन्तानुबन्धीकी सत्ता प्राप्त हो जाती है उमके अनन्तानुबन्धीका सादि-सान्त काल होता है । इस सादि-सान्त कालका जघन्य प्रमाण अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट प्रमाण कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले किसी जीवके उसकी पुनः सत्ता होने पर जो अन्तर्मुहूर्त कालमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर देता है उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त होता है । और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला जो जीव मिथ्यात्वमें जाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक मिथ्यात्वके साथ ही रहता है उमके अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्राप्त होता है । अचक्षुदर्शनका अभाव बारहवें गुणस्थानमें होता है उसके पहले वह सदा रहता है और उमका सद्भाव भव्य और अभव्य दोनोंके है, अतः इसके सभी प्रकृतियोंका काल ओघके समान बन जाता है । भव्य मार्गणा भी चौदहवें गुणस्थानकी प्राप्ति होने तक निरन्तर पाई जाती है, इसलिए वह अनादि तो है पर अनन्त नहीं, अतः इसके अनन्त विकल्पको छोड़कर काल संबन्धी शेष सब प्ररूपणा ओघके समान बन जाती है ।

§ ११६. आदेशेण णिरयगदीए णेरयियेसु मिच्छत्त-वारसकसाय-णवणोकसाय० विहत्ती केव० ? जह० दस वाससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं सम्मत्त सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्काणं । णवरि जह० एगसमओ । पढमादि जाव सत्तमात्ति एवं चेव वत्तच्चं । णवरि बावीमण्हं पयडीणमप्पणो जहणुक्कस्सट्ठिदी वत्तच्चा । छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक्क० सग-सग-उक्कस्सट्ठिदी होदि । णवरि सत्तमाए पुढवीए अणंताणु०चउक्कस्स जह० अंतोमुहुत्तं । कुदो, अंतोमुहुत्तेण विणा संजुत्तविदियसमए चेव मरणाभावादो ।

§ ११६. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ नोकषाय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भी काल समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य काल एक समय है। पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक इमीप्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहते समय प्रथमादि नरकोंमें जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हो वहां उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिये। किन्तु लूह प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरकोंमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि मानवीं पृथिवीमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि, अनन्तानुबन्धीका पुनः संयोजन होनेपर अन्तर्मुहूर्त काल हुए बिना दूसरे समयमें ही मरण नहीं होता है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नरककी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है और सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी चार इनको छोड़कर शेष बाईस प्रकृतियोंका किसी भी नरक के अभाव नहीं होता है, अतः इन बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा। तथा विशेषकी अपेक्षा जिस नरक की जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति है उतना कहा। शेष उपर्युक्त छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल तो पूर्वोक्त ही है। परन्तु जघन्य कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है—सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना करनेवाला किसी जीवके उद्वेलनाके कालमें एक समय शेष रहते हुए प्रथमादि नरकमें उत्पन्न होने पर उक्त दोनों प्रकृतियोंका सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे जघन्य काल एक समय बन जाता है तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला कोई एक सम्यग्दृष्टि नारकी मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और वहां एक समय तक अनन्तानुबन्धीके साथ रहकर दूसरे समयमें मरकर यदि अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है तो उसके नरकगतिकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीका जघन्य

§ १२०. तिग्बखगईए तिग्बखेसु बाबीसण्हं पयडीणं विहत्ती केव० का० होदि ? जह० खुदाभवग्रहणं । अणंताणु०चउक्कस्स जह० एगसमओ, उक्क०दोण्हं पि अणंतकालो, असंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पलि-दोवमाणि सादिरेयाणि । पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०ति०पज्ज-पंचि०ति०जोणिणीसु बाबी सण्हं पयडीणं विहत्ती केव० का० होदि ? जह० खुदाभवग्रहणमंतोमुहुत्तं । सम्मत्त०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्कस्स जह० एगसमओ, उक्क० सव्वासिं पयडीणं तिण्णि पलि-दोवमाणि पुच्चकोट्टिपुधत्तेणव्व (ङम) हियाणि । एवं मणुमतियस्स वत्तव्वं ।

काल एक समय बन जाता है । परन्तु मातवे नरकमें ऐसा जीव अन्तर्मुहूर्त काल हुए बिना मरता नहीं अतः वहां अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ १२०. तिर्यचगतिका कथन करते समय तिर्यचोंमें वार्डस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल कितना है ? जघन्य काल खुदाभवग्रहण प्रमाण है । और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय है । तथा पूर्वोक्त वार्डस और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन दोनोंका उत्कृष्ट अनन्त काल है । जो अनन्तकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तीन पत्त्योपम है । पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यच शोनिमर्तियोंमें वार्डस प्रकृतियोंका काल कितना है ? जघन्य काल खुदाभवग्रहण और अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । तथा सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय है और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्तपृथक्त्वसे अधिक तीन पत्त्योपम है ।

जिस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच आदिके मोहकी अट्टाईस प्रकृतियोंका काल बतलाया है उसी प्रकार मनुष्यात्रिक अर्थात् सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, और मनुष्यनीके भी उक्त अट्टाईस प्रकृतियोंका काल समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—तिर्यचोंके पांच भेद हैं । उनमेंसे लब्ध्यपर्याप्त तिर्यचोंको छोड़कर शेष चार प्रकारके तिर्यचोंकी अपेक्षा यहां पर अट्टाईस प्रकृतियोंका सत्त्वकाल कहा है । सामान्यसे तिर्यच गतिमें रहनेका जघन्यकाल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भागके जितने समय हो उतने पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है, इसलिये जिन प्रकृतियोंका तिर्यचगतिमें कभी भी अभाव नहीं होता ऐसी वार्डस प्रकृतियोंका तिर्यचगति सामान्यकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टकाल क्रमसे खुदाभवग्रहणप्रमाण और असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण कहा है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट सत्त्वकाल भी असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण हो जाता है, क्योंकि इतने काल तक जीव तिर्यचगतिमें मिथ्यात्वके साथ रह सकता है और मिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं होता । परन्तु अनन्तानुबन्धीके जघन्य सत्त्वकाल और सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके जघन्य और उत्कृष्ट

§ १२१. पंचिदियतिरि०अपञ्ज० छुव्वीसं पयडीणं विहती केवचिरं कालादो होदि ? जह० खुदाभवगहणं । मम्मत्त०-मम्मामि० जह० एगममओ । उक्क० सव्वासिं सत्त्वकालमें विशेषता है । वह डम प्रकार है--उक्त छहों प्रकृतियोंका जघन्य सत्त्वकाल एक समय जिस प्रकार नरकगतिमें घटित कर आये हैं उन्ही प्रकार यहां तिर्यचगतिमें भी घटित कर लेना चाहिये । तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट सत्त्वकाल माधिक तीन पल्य है । क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्तायाला जो मिथ्यादृष्टि तिर्यच दान या दानकी अनुमोदनाके माहात्म्यसे उन्नत भोगभूमिमें उत्पन्न होकर और वहां पर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना होनेके पहले ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उमके माधिक तीन पल्य काल तक उक्त दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है । यहां माधिकसे पूर्वकोटि पृथक्त्व लेना चाहिये । विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रियतिर्यचका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य है । तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच और योनिमती तिर्यचका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमसे मेनालीस और पन्द्रह पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य है, अतः जिन प्रकृतियोंका तिर्यचगतिमें कभी भी अभाव नहीं होता उन वाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त जहा जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल संभव है उतना कहा है । तथा सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट काल जहां जितना उत्कृष्ट काल है उतना ही है, क्योंकि पूर्वोक्त काल तक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यच आदि पर्यायोंके भाथ मिथ्यात्व गुणस्थानमें रह सकता है और मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीका अभाव नहीं है, अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तीन प्रकारके तिर्यचोंमेंसे जिसका जितना उत्कृष्ट काल है उतना बन जाता है । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त ही है, क्योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना होनेके पूर्व ही सम्यक्त्व उत्पन्न करके उनकी अर्त्वास्थिति बढ़ा कर और कहीं वेदकसम्यक्त्वके साथ रह कर जिस तिर्यचका जितना उत्कृष्ट काल कहा है उतने काल तक इन दोनों प्रकृतियोंकी धारा न टूटते हुए सत्ता पाई जा सकती है । तथा पूर्वोक्त तीन प्रकारके तिर्यचोंके इन छहों प्रकृतियोंका जघन्य सत्त्व काल एक समय है जिसका उल्लेख नरक गतिमें इनका जघन्य काल कहते समय कर आये हैं, अतः उन्हीप्रकार यहां ममज लेना चाहिये । सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनीके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पंचेन्द्रिय तिर्यच आदिके समान है इसका यह अभिप्राय है कि पूर्वकोटिपृथक्त्वकी गणनाको छोड़कर शेष कालनिर्देश दोनोंका समान है । परन्तु पूर्वकोटिपृथक्त्वसे सामान्य मनुष्योंके सेंतालीस, पर्याप्त मनुष्योंके तेईस और मनुष्यनियोंके सात पूर्वकोटि लेना चाहिये ।

§ १२१. पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तोंके छुव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल कितना है ? जघन्य खुदाभवग्रहणप्रमाण है । सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका

पयडीणमंतोमुहुत्तं । एवं मणुसअपज्ज० वत्तव्वं ।

§ १२२. देवाणं णारगभंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवजा त्ति बाषीसं पयडीणं जहण्णुक्कस्सट्ठिदी वत्तव्वा । छण्णं पयडीणं जह० एगममओ, उक्क० मगट्ठिदी वत्तव्वा । अणुहिमादि जाव सव्वट्ठसिट्ठि त्ति मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-बागसकसाय-णवणोक० जह० जहण्णाट्ठिदी वत्तव्वा । मम्मत्त-अणंताणु० चउक्क० जह० एगसमओ अंतोमुहुत्तं, उक्क० मगट्ठिदी ।

जघन्य काल एक समय है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार लब्धपर्याप्त मनुष्योंके भी कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—लब्धपर्याप्तक जीव कदलीघातसे मुदाभवग्रहण तक जीवन रह कर मर जाते हैं, अतः उनकी जघन्य आयु मुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहूर्त है और इसीलिये सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिश्रयात्वके जघन्य सत्त्वकालको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रमसे मुदाभवग्रहण और अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा उद्वेलनाके कालमें एक समय शेष रहने पर अविचक्षित गतिका जीव विवक्षित पर्यायमें जब उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिश्रयात्वका जघन्य काल एक समय बन जाता है ।

§ १२२. देवगतिमें सामान्य देवोंके अष्टाईम प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाल सामान्य नारकियोंके समान कहना चाहिये । विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तक प्रत्येक स्थानमें वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका काल उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । तथा सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिश्रयात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । तथा नौ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें मिश्रयात्व, सम्यग्मिश्रयात्व बारह कपाय और नौ नोकपायका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्यकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये । और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—नौ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थमिद्धितकके देवोंके सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुबन्धीके जघन्य कालको छोड़कर शेष कथनमें कोई विशेषता नहीं है । नरकगतिका कथन करते समय जिमप्रकार उसका खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां की विशेष स्थितिको ध्यानमें रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिये । परन्तु अनुदिशसे आगेके देवोंके एक सम्यग्दृष्टि गुणस्थान ही होता है, इसलिये इनके सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुबन्धीके जघन्य कालमें विशेषता आ जाती है । जिसके सम्यक्प्रकृतिकी क्षणामें एक समय शेष है ऐसा

§ १२३. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० पालिदोवमस्स असंखे० भागो । सेसाणं पयडीणं जह० खुदाभवग्गहणं, उक्क० अणंत-कालोअसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । एवं बादरेइंदियाणं । णवरि छब्बीसपयडीणमुक्कस्स-विहत्तीकालो अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ ओसप्पिणुउस्सप्पिणीओ । बाद-रेइंदियपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जाणि वाससह-स्साणि । सेसाणं छब्बीसपयडीणमेवं चेव, णवरि जहण्णविहत्तिकालो अंतोमुहुत्तं । बादरेइंदियअपज्जत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० जह० एगसमओ, सेसल्लब्बीसपयडीणं जह० खुदा० । सव्वपयडीणं विहत्तिकालो उक्क० अंतोमुहुत्तं । सुहुमेइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे० भागो । सेसपयडीणं विहात्ति० जह० खुदा०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सुहुमेइंदियपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विहात्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । सेसपयडीणं विहात्ति० जहण्णुक्कस्सेण अंतो-कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य जब नो अनुदिश आदिमें उत्पन्न होता है तब उसके सम्यक् प्रकृतिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है । तथा कोई वेदकसम्यग्दृष्टि अनुदिश आदिमें उत्पन्न हुआ और वहां उसने अनन्तानुबन्धीकी अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर विसंयोजना कर दी तो उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है ।

§ १२३. इन्द्रिय मार्गाणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लोपमके असंख्यातवें भाग है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त-काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रियोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है । जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके शेष छब्बीस प्रकृतियोंका काल भी सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके कालके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय न होकर अन्तर्मुहूर्त है । बादर एकेन्द्रिय अप-र्याप्तकोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहण प्रमाण है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लोपमके असंख्यातवें भाग है । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त

सुहृत् । सुहुमेइंदियअपञ्जत्तएसु सम्मत्त-सम्मामिंविहत्तिं जहं एगसमओ, उक्कं अंतोसुहृत्तं । सेसाणं पयडीणं जहं खुहां, उक्कं अंतोसुं ।

§ १२४. विगलिंदिएसु सम्मत्तसम्मामिच्छत्तविहत्तिं जहं एगसमओ, सेसाणं पयडीणं विहत्तिं जहं खुहां । सन्वेसिं पयडीणं विहत्तिं उक्कं संखेजाणि वस्स-सहस्साणि । एवं विगलिंदियपञ्जत्ताणं । णवरि, लुब्बीसं पयडीणं विहत्तिं जहं है । तथा शेष लुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहां एकेन्द्रियोंमें और उनके भेद प्रभेदोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल बतलाया गया है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व ये दो प्रकृतियां एकेन्द्रियोंके पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं । जिनके इनका उद्वेलना काल पूरा नहीं हुआ है उनके पाई जाती हैं और जिनके उद्वेलना काल पूरा हो गया है उनके नहीं पाई जाती हैं । अतः इनके जघन्य और उत्कृष्ट कालको छोड़कर शेष लुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोंकी जिम पर्यायमें लगानार जघन्य और उत्कृष्टरूपसे जितने काल तक एक जीवके रहनेका नियम है उतना है, जो ऊपर बतलाया ही है । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल जो एक समय कहा है उसका कारण यह है कि जिसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनामें एक समय शेष रह गया है ऐमा कोई जीव जब मरकर विवक्षित एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता है तब उसके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तथा जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक है उनके इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग होता है । क्योंकि इतने कालके भीतर इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना हो जाती है । और जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भागके भीतर है उनके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल भी उतना ही होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना होनेके पहले ही वह पर्याय बदल जाती है ।

§ १२४. विकलेन्द्रियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । इसी प्रकार विकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके लुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभव-ग्रहणप्रमाण न होकर अन्तर्मुहूर्त है । विकलेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान विकलेन्द्रिय अपर्याप्त-

अंतोमुहुत्तं । एवं विगर्लितियअपज्जत्ताणं, णवरि छब्बीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुदा०, अट्टाबीसपयडीणं विहत्ति० उक्क० अंतोमुहुत्तं ।

§ १२५. पंचिदिय-पंचि०पज्जत्तएसु छब्बीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुदाभव-ग्गहणमंतोमुहुत्तं, उक्क० सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणम्भहियाणि सागरो-वमसदपुधत्तं । सम्भत्त-सम्मामि०विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० बे छावट्टिसा-कोंके उक्त प्रकृतियोंका काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस प्रकृ-तियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त न होकर खुदाभवग्रहणप्रमाण है । और अट्टाईस प्रकृति-योंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—द्वीन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष त्रीन्द्रियकी उनचास दिनरात और चतु-रिन्द्रियकी छह महीना है । अब यदि कोई अन्य इन्द्रियवाला जीव विकलत्रयमें उत्पन्न होकर निरन्तर इसी विकलत्रय पर्यायमें उत्पन्न होता रहे और मरता रहे तो संख्यात हजार वर्ष तक वह विकलत्रय पर्यायमें रह सकता है । इसी अपेक्षासे ऊपर सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयोंके सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है । तथा जघन्य काल कहते समय सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका एक समय और छब्बीस प्रकृतियोंका सामान्य विकलत्रयोंके खुदाभवग्रहण प्रमाण और पर्याप्त विकलत्रयोंके अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहने पर अन्य इन्द्रि-यवाला जीव यदि विवक्षित विकलत्रयमें उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तथा सामान्य विकलत्रयका जघन्य काल खुदाभवग्रहण प्रमाण है और पर्याप्त विकलत्रयका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इन दोनोंके शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल क्रमसे खुदाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्मुहूर्त घटित हो जाता है । लब्धपर्याप्तक विकलत्रयका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । रही सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य कालकी बात सो ऊपर जिसप्रकार सामान्य और पर्याप्त विकलत्रयके इनके जघन्य काल एक समयका खुलासा किया है उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकृतियोंके जघन्य कालका खुलासा कर लेना चाहिये ।

§ १२५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तक जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल क्रमसे खुदाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्मुहूर्त है । तथा दोनोंके छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल क्रमसे पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक हजार सागर और सौ सागर पृथक्त्व है । तथा दोनोंके सम्यक्-प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर है ।

गरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखे० भागेहि सादिरेयाणि । पुवं परूविदल्लव्वी-
सपयडीसु अणंताणुबंधिचउक्कस्स विहत्तीए जहण्णकालो एगसमओ ति किण्ण परू-
विदो ? ण, चउवीससंतकम्मिअ-उवसमसम्मादिट्ठिस्स एयसमयं सासणगुणेण परि-
णदस्स विदियसमए चेव कालं कादूण एइंदिएसु उप्पादासंभवादो । कुदो एदं णव्वदे ?
परमगुरूवएसादो । तदो अंतोमुहुत्तसंजुत्तस्सेव तत्थुप्पादो ति घेत्तव्वं । अथवा सव्वत्थ
उप्पजमाणसासणस्स एगसमओ वत्तव्वो । पंचिदियअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्माभि०
विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । ल्लव्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुहा०,
उक्क० अंतोमुहुत्तं ।

शंका—ऊपर जो ल्लव्वीस प्रकृतियां कहीं हैं उनमेंसे अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य काल एक समय क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव है वह एक समय तक सासादन गुणस्थानके साथ रहकर और दूसरे समयमें ही मर कर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय नहीं कहा ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है कि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव एक समय सासादन गुणस्थानमें रह कर और दूसरे समयमें मर कर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है ?

समाधान—परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है ।

अतः चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमसम्यग्दृष्टि जीव जब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके साथ अन्तर्मुहूर्त काल तक रह लेता है तभी वह मर कर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो सकता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । अथवा जिन आचार्योंके मतसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव एकेन्द्रियादि सभी पर्यायोंमें उत्पन्न होता है उनके मतसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त-जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक समय जघन्य काल कहना चाहिये ।

विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिर्यंचका जघन्य काल खुहाभवग्रहणप्रमाण और पंचेन्द्रिय-पर्याप्त तिर्यंच तथा योनिमतीतिर्यंचका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

लब्धपर्याप्तक पंचेन्द्रियोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा शेष ल्लव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुहा-भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—सामान्य पंचेन्द्रियका पंचेन्द्रिय पर्यायमें रहनेका जघन्य काल खुहाभवग्रहण-प्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक हजार सागर है । पंचेन्द्रियपर्याप्त-जीवका पंचेन्द्रियपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल

§ १२६. चत्वारिकाएसु सम्मत-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे० भागो । सेसल्लव्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुदा०, उक्क० असंखेजा लोगा । चत्वारिबादरकाएसु सम्मत-सम्मामिच्छत्त० विहत्तीए चत्वारिकायभंगो । सेसल्लव्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुदाभवग्गहणं, उक्क० कम्मट्ठिदी । चत्वारि-बादरकायपज्जत्तएसु सम्मत-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, सेसल्लव्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं । सव्वासिमुक्कस्सकालो संखेजाणि वस्ससहस्साणि । चत्ता-सौ सागर पृथत्व है । तथा लब्धपर्याप्तक पंचेन्द्रियका लब्धपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर रहनेका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिये इन जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष लब्धीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उन उन जीवोंकी उस उस पर्यायमें निरन्तर रहनेकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है । यहां यह शंका उठाई गई है कि सामान्य और पर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय भी संभव है फिर उसे यहां क्यों नहीं कहा । इस शंकाका समाधान वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है । 'पहले तो यह बतलाया है कि जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा उपशम सम्यग्दृष्टि जीव सासादन गुणस्थानमें एक समय रहकर और दूसरे समयमें मरकर एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय नहीं बनता है । तथा दूसरे उत्तर द्वारा आचार्यान्तरके अभिप्रायसे अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय स्वीकार कर लिया है जो ऊपर दिवाया ही है । तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा होता है । और पंचेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो तीन पत्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर बताया है इसका खुलासा पृष्ठ १०० पर कर आये हैं । और लब्धपर्याप्तकका उस पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे उनके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ १२६. पृथिवीकाय आदि चार कार्योंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है तथा शेष लब्धीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । बादर पृथिवीकाय आदि चार बादरकार्योंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका काल पृथिवीकाय आदि चार कार्योंके समान है । तथा शेष लब्धीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल कूर्मस्थितिप्रमाण है । बादरपृथिवीकायिकपर्याप्त आदि चार बादरकायपर्याप्त जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय तथा शेष लब्धीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल

रिबादरकायअपञ्जत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, सेसाणं पयडीणं विहत्ति० जह० खुदा०, सव्वासिसुक्क० अंतोमुहुत्तं । चत्तारिसुहुमकायिएसु सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । सेसल्लव्वीसंपयडीणं विह० जह० खुदा०, उक्क० असंखेजा लोगा । सव्वसुहुमपञ्जत्तापञ्जत्ताणमेवं चेव वत्तव्वं । णवरि पञ्जत्तएसु ल्लव्वीसंपयडीणं जह० अंतोमुहुत्तं । अट्टावीसपयडीणं उक्क० अंतोमुहुत्तं । वणप्फदि-संख्यात हजार वर्ष है । बादर पृथिवीकायिकअपर्याप्त आदि चार बादरकाय अपर्याप्तजीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्नमुहूर्त है । सूक्ष्म-पृथिवीकाय आदि चार सूक्ष्मकाय जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । तथा शेष ल्लव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यातलोकप्रमाण है । सभी सूक्ष्म-पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्मकायिक जीवोंके समान ही कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि उक्त चारप्रकारके सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंके ल्लव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल और अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्नमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—ऊपर पृथिवीकायिक आदि चार तथा उनके भेद-प्रभेदोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल बताया है । सर्वत्र सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय है यह तो स्पष्ट है । तथा जहां विवक्षितकायका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवेंभागसे अधिक है वहां सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है और जहां विवक्षित कायका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम है वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कम होता है । तथा शेष ल्लव्वीस प्रकृतियोंका काल कहते समय जिस कायका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल हो उतना उन प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये जो ऊपर बताया ही है । ऊपर बादर पृथिवीकाय आदिके ल्लव्वीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति-प्रमाण बताया है सो इससे मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका ग्रहण करना चाहिये । परिकर्ममें कर्मस्थितिसे भवस्थिति ली गई है इसलिये यहां कितने ही आचार्य कर्मस्थितिसे बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालका ग्रहण करते हैं पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्य बादर जीवका जो भवस्थितिकाल कहा है वही बादर पृथिवीकायिक आदिका नहीं हो सकता । तथा सूत्रग्रन्थोंमें सामान्य बादर जीवकी भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और असर्पिणीप्रमाण कही है और बादर पृथिवीकायिक आदिकी भवस्थिति कर्म-स्थितिप्रमाण कही है । इसप्रकार इन दोनोंकी भवस्थिति जब भिन्न भिन्न दो प्रकारसे कही

काइएसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो ।
 सेसल्लच्चीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुदा०, उक्कस्स० अणंतकालमसंखेआ पोग्गलपरि-
 यट्ठा । बादरवणप्फदिकाइयाणं बादरएइंदियभंगो । तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरेइंदिय-
 पज्जत्तापज्जत्तभंगो । सुहुमवणप्फदीणं सुहुमेइंदियभंगो । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय-
 सरीराणं बादरपुट्टविभंगो । तेसिं पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरपुट्टविपज्जत्तापज्जत्तभंगो ।
 णिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०
 भागो । सेसपयडीणं विह० जह० खुदाभवग्गहणं । उक्क० अट्ठाइअपोग्गलपरियट्ठा ।
 बादरणिगोदजीवेसु सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० जह० एगस०, उक्क० पलिदो०
 है तो एकमें दूसरी स्थितिके उपचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता । अतः यहां कर्म-
 स्थितिसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ही ग्रहण करना चाहिये ।

वनस्पतिकायिक जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय
 और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल
 खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।
 बादर वनस्पतिकायिकोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये ।
 तथा बादरवनस्पतिकायिकपर्याप्त और बादरवनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृ-
 तियोंका काल बादर एकेन्द्रियपर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान जानना
 चाहिये । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान
 होता है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादरपृथिवी-
 कायिक जीवोंके समान होता है । तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बादर
 वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर पृथिवीकायिक
 पर्याप्त और बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान होता है ।

विशेषार्थ—एक जीव वनस्पतिकायमें कमसे कम खुदाभवग्रहण कालतक और अधिकसे
 अधिक असंख्यातपुद्गल परिवर्तन कालतक रहता है । इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य
 काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । परन्तु
 सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाकी अपेक्षा उनका जघन्य काल एक समय और
 उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातवें भाग ही प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्यात्वके साथ इससे
 अधिक कालतक इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं रहता है । ऊपर कहे गये शेष बादर वनस्पति-
 कायिक आदिके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय आदिके समान जान लेना चाहिये ।

निगोदजीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और
 उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रह-
 णप्रमाण और उत्कृष्ट काल अट्ठाई पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । बादर निगोद जीवोंमें सम्यक्-

असंखे० भागो । सेसपयडीणं विहत्ति० जह० खुदा०, उक्क० कम्मट्टिदी । बादरणिगोद-
जीवपञ्जत्ताणं बादरएइंदियपञ्जत्तभंगो । बादरणिगोदजीवअपञ्जत्ताणं बादरएइंदिय
अपञ्जत्तभंगो । सुहुमणिगोदाणं सुहुमपुढविभंगो ।

§ १२७. तसकायियेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० विहात्ति० जह० एगसमओ, उक्क०
बेद्धावट्टिसागरोवमाणि तीहि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेहि सादिरेयाणि । सेसलुब्बी-
संपयडीणं विहत्ति० जह० खुदाभवग्गहणं, उक्क० बेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोट्टिपु-
धत्तेणब्भहियाणि । एवं तसकायियपञ्जत्ताणं पि वत्तव्वं । णवरि लुब्बीसंपयडीणं
विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० बेसागरोवमसहस्साणि । तसकाइयअपञ्जत्ताणं पंचि-
दियअपञ्जत्तभंगो ।

प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमका
असंख्यातवां भाग है । तथा शेष लुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और
उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । बादर निगोद पर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर
एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है । बादर निगोद अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है । तथा सूक्ष्म निगोद जीवोंके सभी प्रकृतियोंका
काल सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—निगोद जीवोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल ढाई
पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके लुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही
है । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
पल्योपमका असंख्यातवां भाग उद्वेलना की अपेक्षा कहा है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर
आये हैं । बादर निगोद जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल यहां पर अलगसे बताया है
पर बादर पृथिवीकायिकके कालसे उसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर पृथिवीका-
यिकके कालका जिसप्रकार पहले खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये ।
इसीप्रकार बादर निगोद पर्याप्त आदिके सभी प्रकृतियोंका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त
आदिके समान जान लेना चाहिये ।

§ १२७. त्रसकायिक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर
है । तथा शेष लुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल
पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागर है । इसीप्रकार त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंके भी
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके लुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त
और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर है । त्रसकायिक लब्धपर्याप्तक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका
काल पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंके समान है ।

§ १२८. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्विय०-वेउव्वियमिस्स० अट्टावी-
मंपयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । णवरि वेउव्वियमिस्स० छब्बी-
मंपयडीणं जह० अंतोमुहुत्तं । कायजोगीसु मम्मत्त-मम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ,
उक्क० पलिदो० अमंखे० भागो । सेसछब्बीमंपयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ,
उक्क० अणंतकालो असंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । कथमेत्थ एगसमयमेत्तजहण्णकालो-
वलंभो चे ? ण; विहत्तिगचरिमसमए कायजोगेण परिणदम्मि तदुवलद्वीदो । ओरालिय०
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसकमाय-णवणोकमायविहत्ति० जह० एगसमओ,
उक्क० बावीमवम्मसहम्मणि देसूणाणि । ओरालियमिस्स० अट्टावीमंपयडीणं विहत्ति०
जह० मुद्दाभवग्गहणं तिममयूणं, उक्क० अंतोमुहुत्तं । णवरि सम्मत्त-सम्मामि०

विशेषार्थ—त्रसकायिक जीवोंका जघन्य काल मुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल
पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागर है, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य
और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका
जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा है और उत्कृष्ट काल पत्न्योपमके तीन असंख्यातवें
भागोसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर उद्वेलनाके कालके भीतर पुनः पुनः सम्यक्त्वकी
प्राप्तिकी अपेक्षा है जिसका मुलामा पहले कर आये हैं । पर्याप्त त्रसकायिकका जघन्य काल
अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल दो हजार सागर है, इसलिये इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य
और उत्कृष्ट काल भी उतना ही कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ १२८. योगमार्गणाके अनुवादसे पाचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाय-
योगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके छब्बीस
प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । सामान्य काययोगी जीवोंके सम्यक्प्रकृति और
सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्न्योपमका असंख्यातवां भाग
है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल
है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

शंका—यहां सामान्य काययोगी जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय
कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान—उक्त छब्बीस प्रकृतियोंके क्षय होनेके अन्तिम समयमें काययोगसे परिणत
होने पर छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है ।

औदारिककाययोगी जीवोंके मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, मोलह कषाय
और नौ नोकषायका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष
है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल तीन समय कम

बिहत्ती० जह० एगसमओ । आहार० अट्टाबीसपयडीणं बिह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । आहारमि० अट्टाबीसपय० बिहत्ती० जहणुक्क० अंतोमु० । कम्मइय० अट्टाबीसप० बिहत्ती० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि समया ।

खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है । आहारककाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा कर्मण काययोगी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है ।

विशेषार्थ—पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, औदारिककाययोग, वैक्रियिककाययोग और आहारककाययोग इन सबका जघन्य काल एक समय और औदारिककाययोगको छोड़कर शेष सभीका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । उक्त योगोंका जघन्य काल एक समय योगपरावृत्ति, गुणपरावृत्ति, मरण और व्याघातकी अपेक्षा बताया है । पर यहां योगपरावृत्ति और गुणपरावृत्तिकी अपेक्षा एक समय सम्बन्धी प्ररूपणासे प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा योगोंकी एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा आश्रयभेद पर अवलम्बित है, वास्तवमें वहां प्रत्येक योग अन्तर्मुहूर्त काल तक ही रहता है । अब रही मरण और व्याघातकी बात सो पांचों मनोयोग और पांचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय मरण और व्याघात दोनों प्रकारसे बन जाता है पर औदारिककाययोग और वैक्रियिककाययोगका जघन्य काल एक समय केवल मरणकी अपेक्षा और आहारककाययोगका जघन्य काल मरण और अद्धाक्षयकी अपेक्षा प्राप्त होता है । औदारिकमिश्रका कपाट समुद्रातकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, पर उसकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि केवली जिनके मोहकी अट्टाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं पाया जाता, अतः यहा औदारिकमिश्रका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये । वैक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा कर्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । इसप्रकार योगोंके इन कालोंकी अपेक्षा मोहकी सभी प्रकृतियोंका काल यहां कहा है । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोग और वैक्रियिकमिश्रकाययोगवाले जीवके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है । सामान्य काययोगमें छब्बीस प्रकृतियोंकी जो एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा की है वह उन प्रकृतियोंके क्षय होनेके अंतिम समयमें काययोगके प्राप्त होनेकी अपेक्षासे की है । यद्यपि उस जीवके काययोग अन्तर्मु-

§ १२६. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु अणंताणुबंधिचउक्कं विह० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं। सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पणवण्ण-पलिदो० सादिरेयाणि । सेसबाबीसंपयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० पलि-दोवमसदपुधत्तं । पुरिसवेदएसु सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उक्क० वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसल्लब्बीसंपयडीणं विहत्ति० जह० अंतो-मुहुत्तं उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । णवरि अणंताणु० जह० एगसमओ । णवुंसयवेदेसु सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि सादि-रेयाणि । सेसाणं पयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालो असंखेज्जा पोगगलपरियट्ठा । अवगदवेदएसु चउबीसंपयडीणं विहत्ति० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमकसाय-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं ।

हूर्त काल तक रहता है पर जहां जहां इन छब्बीस प्रकृतियोंका क्षय होता है वहां वहां क्षय होनेके अन्तिम समयमें मनोयोग या वचनयोगसे काययोगके प्राप्त होने पर काययोगके सद्भावमें उन प्रकृतियोंका सत्त्व एक समय तक ही दिखाई देता है इसलिये सामान्य काय-योगमें एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा बन जाती है ।

§ १२६. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त्व है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य है । तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त्व है । पुरुषवेदियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व है । इतनी विशेषता है कि इनके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय है । नपुंक्वेदियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । तथा अपगतवेदियोंमें चौबीस प्रकृतियोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवोंके चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक स्त्रीवेदी जीव अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ और दूसरे समयमें मर कर अन्य वेदवाला हो गया उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । स्त्री वेदके साथ एक जीव निरन्तर सौ पत्यपृ-

पृथक्काल तक रहता है, अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त्व कहा है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा कैसे घटित होता है इसका उल्लेख पहले कर आये हैं । कोई एक सम्यक्प्रकृतिकी और कोई एक सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाला मिध्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीव पचपन पत्यकी आयु लेकर स्त्रीवेदी हुआ और वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना होनेके अन्तिम समयमें वे वेदक सम्यग्दृष्टि हो गये और अन्त समयतक सम्यग्दृष्टि बने रहे । अनन्तर वहांसे सम्यग्दर्शनके साथ मर कर पुरुषवेदी हुए इस प्रकार उन स्त्रीवेदी जीवोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिकपचपन पत्य प्राप्त होता है । जो स्त्रीवेदी जीव उपशम-श्रेणी पर चढ़ कर अवेदी हुआ और लौट कर पुनः एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और दूसरे समयमें मर कर पुरुषवेदी हो गया उसके शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । स्त्रीवेदीके इन्हीं बाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो सौ पत्यपृथक्त्व कहा है वह स्त्रीवेदीके माथ निरन्तर रहनेके कालकी अपेक्षासे कहा है । पुरुषवेदियोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता है । जो पुरुषवेदी जीव छ्यासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा पुनः मिध्यात्वमें आकर द्वितीय वार क्रमसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ छ्यासठ सागर काल तक रहा उसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त होता है । जिसप्रकार स्त्रीवेदी जीवोंके अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय घटित कर आये हैं उसीप्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिये । पुरुषवेदके साथ निरन्तर रहनेका काल सौ सागर पृथक्त्व है अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्क और शेष बाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व कहा है । जो पुरुषवेदी उपशम-श्रेणीसे उतर कर तत्काल पुनः उपशमश्रेणीपर चढ़ कर अपगतवेदी हो जाता है उसके पुरुषवेदका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है, इस अपेक्षासे पुरुषवेदीके शेष बाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । स्त्रीवेदी जीवोंके समान नपुंसकवेदी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिये । जो सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाला मानवे नरकमें उत्पन्न होनेसे पूर्व नपुंसकवेदी रहा और वहां उत्पन्न होने पर आदि और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्तोंको छोड़कर सम्यग्दृष्टि रहा उसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक तैतीन सागर प्राप्त होता है । तथा नपुंसकवेदके साथ निरन्तर रहनेका काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन है अतः शेष छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन कहा है । अवगतवेद आदि शेष मार्गणाओंमें चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त उस उस मार्गणास्थानके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा कहा है ।

§ १३०. कसायाणुवादेण चत्तारिकसाय० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० विह० मणभंगो । सेसाणं पयडीणं विहत्ति० जहण्णुक० अंतोमुहुत्तं ।

§ १३१. णाणाणुवादेण मदि-सुद-अण्णाणि० मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-विहत्ति० तिण्णिणं भंगा । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसूणं । सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं मिच्छादिट्ठिस्स वत्तच्चं । विभंगणाणीसु सम्मत्त०-सम्मामि० मदि-अण्णाणिभंगो । णवरि जह० एयसमओ । सेमाणं पयडीणं विह० जह० एग-

§ १३०. कषायमार्गणाके अनुवादसे चारों कषायवाले जीवोंके मिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीका काल मनोयोगियोंके समान है । तथा शेष इक्कीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—कषायोंके परिवर्तनकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है, क्योंकि जिस समय इन सात प्रकृतियोंका अभाव होता है उसके पहले समयमें एक कषायका काल पूरा होकर यदि अन्तिम समयमें दूसरी कषाय आ जाती है तो उस कषायके मझावमें ये प्रकृतियां एक ही समय दिग्वाई देती हैं । या मिथ्यात्वको छोड़कर शेष छह प्रकृतियोंकी पुनः उत्पत्ति संभव है, अतः जिस समय ये छह प्रकृतियां पुनः सत्त्वको प्राप्त होती हैं वह यदि किसी कषायके उदयका अन्तिम समय हो तो उस कषायमें वे छहों प्रकृतियां एक समय दिग्वाई देनी हैं । इस प्रकार इन सात प्रकृतियोंका चारों कषायोंमें जघन्य काल एक समय बन जाता है । पर इस प्रकार शेष इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय क्षपकश्रेणीमें होता है और क्षपकश्रेणी पर जीव जिस कषायके उदयके साथ चढ़ता है अन्त तक उसी कषायका उदय बना रहता है । इसलिए चारों कषायोंमें शेष इक्कीस प्रकृतियोंका काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रत्येक कषायके कालकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि सामान्य रूपसे किसी भी कषायका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं है ।

§ १३१. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानी जीवोंके मिथ्यात्व, मोलह कषाय और नौ नोकषायके तीन भंग होते हैं । उनमेंसे जो सादिमान्त भंग है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । तथा सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्पोपमका अमंख्यातवां भाग है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना चाहिये । विभंग ज्ञानियोंमें सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका काल मत्यज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है इनके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम

समओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि देखणाणि ।

§ १३२. आभिणि०-सुद०-ओहि०-अणंताणु०-चउक्क०-विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० छावट्टिसागरो० देखणाणि । सेसाणं पयडीणं एवं चेव । णवरि उक्क० छावट्टि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंसण-सम्मादिट्टि त्ति वत्तव्वं । मणपअ०-तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—अभव्य मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानीके सम्यग्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका काल अनादि-अनन्त है। जिस भव्यने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है उसके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका काल अनादि सान्त है। तथा इस जीवके मिध्यात्वको प्राप्त हो जाने पर इन छब्बीस प्रकृतियोंका काल सादि-सान्त हो जाता है। उनमेंसे यहां मादि-सान्तकी अपेक्षा काल कहा जा रहा है। जो सम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक मिध्यात्वमें रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाता है उसके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त होता है। तथा जो अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन काल शेष रहने पर उसके प्रारम्भमें सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, और छह आवली शेष रहने पर सासादनमें और वहांसे मिध्यात्वमें जाकर परिभ्रमण करता है। पुनः अन्तिम भवमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर सम्यक्त्व प्राप्त कर मोक्ष जाता है, उसके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण होता है। किन्तु सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल पत्योपमका असंख्यातवां भाग ही होता है इससे अधिक नहीं, क्योंकि पत्योपमके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा उद्वेलना होकर इनका अभाव हो जाता है, पुनः सम्यक्त्वके विना इनका सत्त्व नहीं होता। सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें विभंगज्ञानके प्राप्त होने पर विभंगज्ञानियोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय होता है। तथा जो सम्यग्दृष्टि सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर एक समय विभंगज्ञानके साथ रहता है और द्वितीय समयमें मरकर अन्य गतिको चला जाता है, उसके सभी प्रकृतियोंका विभंगज्ञानकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। विभंगज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा। और उत्कृष्ट उद्वेलना कालकी अपेक्षा शेष दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके समान पत्योपमका असंख्यातवां भाग कहा।

§ १३२. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंका काल भी इसीप्रकार है। इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ

संजद० अट्टावीसंपयडीणं विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देवणा । एवं परिहार०-संजदासंजद० वत्तच्चं । सामाइयच्छेदो० चउवीसण्ह पयडीणं विहत्ति० सागर है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—मतिज्ञानी आदि जीवोंके सभी प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी सम्यग्दृष्टि अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर क्षपकभेणी पर चढ़कर केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है, या मिथ्यात्वमें जा सकता है । पर उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है । अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर होता है, क्योंकि मतिज्ञानी आदि जीवोंके अनन्तानुबन्धीका अधिक से अधिक काल तक सत्त्व वेदक सम्यक्त्वके साथ ही प्राप्त होता है और वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कृतकृत्य वेदकके कालको मिलाने पर ही पूरा छयासठ सागर होता है । अब यदि इसमेंसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके क्षपण कालको कम कर दिया जाय और वेदकसम्यक्त्वके प्रारंभमें हुए षपशमसम्यक्त्वके कालको मिला दिया जाय तो यह काल छयासठ सागरसे कम होता है । अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर कहा है । और इस कालमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्षपण होने तकके कालको क्रमशः मिला देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्येकका काल क्रमशः साधिक छयासठ सागर हो जाता है । तथा शेष इकीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम चार पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागर प्राप्त होता है, क्योंकि मंसार अवस्थामें सामान्य सम्यक्त्वका काल चार पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागर है । इसमेंसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके बादके अन्तर्मुहूर्त कालको कम कर देने पर उक्त काल प्राप्त हो जाता है ।

मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है । इसीप्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और संयता-संयत जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणावाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट है । तथा उक्त सभी मार्गणावालोंका उत्कृष्ट काल सामान्यरूपसे यद्यपि देशोनपूर्वकोटि है पर देशोनसे कहां कितना काल लेना चाहिये इसमें विशेषता है । मनःपर्ययज्ञानी और संयतके देशोनसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये । परिहारविशुद्धि संयतके देशोनसे अड़तीस वर्ष लेना चाहिये । कुछ आचार्योंके मतसे बाईस या मोलह वर्ष लेना चाहिये । क्योंकि उनके मतसे बाईस या मोलह वर्षमें परिहारविशुद्धि संयम प्राप्त हो जाता है । तथा संयतासंयतके देशोनसे तीन अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये । इसप्रकार जिस मार्गणाका जितना उत्कृष्ट काल है उतना वहां अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल है ।

जह० एगसमओ, उक० पुव्वकोडी देखणा । अणंताणु०चउक०विहत्ति० जह० अंतो-
मुहुत्तं, उक० पुव्वकोडी देखणा । असंजदेसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोक० विह०
मदिअण्णाणभंगो । सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० केव० ? जह० एगसमओ, अंतो-
मुहुत्तं । उक० तेत्तीमं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । चक्खुदंमणी० तमपज्जराभंगो ।

सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके चौथीम प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—जो जीव उपशमश्रेणीसे उतरकर दमवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें आकर और वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयमके साथ एक समय तक रहकर दूसरे समयमें मर जाता है उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयत जीवके चौथीम प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयतके जघन्य कालकी अपेक्षा है । तथा इमीप्रकार सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा देशेन पूर्वकोटि जानना चाहिये । यहां देशेनसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त लेना चाहिये ।

असंयतोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायका काल मत्तज्ञानियोंके उक्त प्रकृतियोंके कहे गये कालके समान है । तथा असंयतोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका काल कितना है ? जघन्य काल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तेतीम सागर है । तथा चक्षुदर्शनी जीवोंके सब प्रकृतियोंका काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान होता है ।

विशेषार्थ—असंयतोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायके कालके अनादि-अनन्त, अनादि-मान्त और सादि-मान्त ये तीन भङ्ग होते हैं । उनमेंसे प्रकृतमें सादि-मान्त काल विवक्षित है । जो संयत जीव अन्तर्मुहूर्त कालतक असंयत रह कर पुनः संयत हो जाता है उस असंयतके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा जो अर्द्धपुद्गल परिवर्तनके आदि समयमें संयमको प्राप्त हुआ है अनन्तर उपशम सम्यक्त्वके कालमें छह आवली शेष रहने पर सामादन सम्यग्दृष्टि हो गया है और इसके बाद मिथ्यादृष्टि हो गया है । वह जब अर्द्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर संयत होता है तब असंयतके कालका प्रमाण कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन प्राप्त हो जाता है । असंयतके उक्त छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल भी यही है, क्योंकि इतने काल तक उक्त प्रकृतियोंका बराबर मन्त्र पाया जाता है । जो संयत जीव कृतकृत्यवेदकके कालमें एक समय शेष रहने पर मर कर अन्य गतिमें जाकर असंयत हो जाता है । उस असंयत सम्यग्दृष्टिके सम्यक्प्रकृतिका जघन्य काल एक समय होता है । सम्यग्मिथ्या-

० १३३. लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउलेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणो-
कमाय० विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीम सत्तारस मत्त सागरोवमाणि सादि-
रेयाणि । सम्मत्त०-मम्मामि० विहत्ति० जह० एगममओ, उक्क० मिच्छत्तभंगो । तेउ-
पम्म-लेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय० विहत्ति० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० वे
अट्टारस सागरो० सादिरियाणि । एवं मम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वसब्बं । णवरि विह०
जह० एगसमओ । सुक्कलेस्साए मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसकसाय-णवणोक०
विह० केव० ? जह० अंतोमु० एगममओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरियाणि ।

§ १३४. अभवसिद्धिय० छब्बीमण्हं पयडीणं विह०केव० ? अणादिया अपज्वसिदा ।

त्वकी मत्तावाला जो संयत जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक अमंयत रह कर पुनः संयत हो जाता है, उम असंयतके सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त होता है । कोई एक वेदक सम्यग्दृष्टि संयत जीव मर कर तेतीस मागरकी आयुवाला देव हुआ और वहांसे मर कर मनुष्य पर्यायमें आठ साल तक अमंयत रहा उसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस मागर प्राप्त होना है ।

§ १३३. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे वृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्यामें साधिक तेतीस मागर, नील लेश्यामें साधिक मत्रह मागर और कापोत लेश्यामें साधिक मात मागर है । तथा उक्त तीन लेश्याओंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट कालके समान है । पीत और पद्म लेश्यामें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पीतलेश्यामें साधिक दो मागर और पद्मलेश्यामें साधिक अठारह मागर है । उक्त दोनों लेश्याओंमें इसीप्रकार सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका काल कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनका जघन्य काल एक समय है । शुक्ललेश्यामें मिथ्यात्व सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका काल कितना है ? मिथ्यात्व सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और शेषका जघन्य काल एक समय है । तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस मागर है ।

विशेषार्थ—उक्त छहों लेश्याओंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य कालको छोड़कर शेष समस्त प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी लेश्याके जघन्य और उत्कृष्ट कालके समान जानना चाहिये । छहों लेश्याओंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल जो एक समय कहा है वह उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहने पर उस उस लेश्याके प्राप्त होनेसे बन जाता है ।

§ १३४. अभव्योंके छब्बीस प्रकृतियोंका काल कितना है ? अनादि-अनन्त है । क्षाधिक-

खइयमम्मादिट्टीसु एकवीमपय० विह० जह० अंतोमुहुत्तं उक्क० तेत्तीसंसागरो० सादिरे-
याणि । वेदयमम्मादिट्टीसु मिच्छत्त-मम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विहत्ति० केव० ?
जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० छावट्टि-सागरोवमाणि देवणाणि । सम्मत्त-बारसकमाय-
णवणोकमायविहत्ति० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० छावट्टिसागरोवमाणि । उव-
समसम्मादिट्टीसु अट्टावीसंपयडीणं विहत्ति० केव० ? जहणुक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं
सम्मामिच्छत्ते वत्तव्वं । सासणे अट्टावीमपय० विह० जह० एगसमओ, उक्क० छ
आवलियाओ । सण्णि० पुरिसवेदभंगो । णवरि, मिच्छत्तादीणं जह० खुदाभवग्गहणं ।
असण्णि० एइंदियभंगो । आहारि० मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोक० विह० केव०
सम्यग्दृष्टियोंमें इकीस प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस
सागर है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका
काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन छयासठ मागर है ।
सम्यक्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका काल कितना है ? जघन्य काल अन्त-
र्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंका
काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तर्मुहूर्त हैं । सम्यग्मिध्यात्व गुण-
स्थानमें सभी प्रकृतियोंका काल उपशमसम्यग्दृष्टियोंके समान कहना चाहिये । सासादनमें
अट्टाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है ।

विशेषार्थ—जिम सम्यक्त्वका जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उस सम्यक्त्वमें
संभव सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना जानना चाहिये । केवल वेदक-
सम्यक्त्वकी अपेक्षा प्रकृतियोंके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है । यद्यपि वेदकसम्यक्त्वका
उत्कृष्ट काल पूरा छयासठ सागर बताया है पर इसमें कृतकृत्य वेदकका काल भी सम्मिलित
है, अतः वेदकसम्यक्त्वके कालमेंसे कृतकृत्य वेदकके कालको कम कर देने पर वेदकसम्य-
क्त्वका जो शेष काल रहता है वह सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट काल है । इसमेंसे सम्यग्मि-
ध्यात्वके क्षपणकालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह मिध्यात्वका उत्कृष्ट
काल है । इसमेंसे मिध्यात्वके क्षपणकालको कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह
अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल है । सम्यक्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायका वेदक
सम्यक्त्वकी अपेक्षा जो पूरा छयासठ सागर काल बतलाया है वह सुगम है, क्योंकि कृत-
कृत्य वेदकसम्यग्दृष्टिके भी इन प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है और कृतकृत्यवेदकके
कालसहित वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छयासठ सागर है ।

संज्ञी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल पुरुषवेदीके कहे गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान
है । इतनी विशेषता है कि संज्ञी जीवोंके मिध्यात्व आदिक बाईस प्रकृतियोंका जघन्य
काल खुदाभवप्रमाण है । असंज्ञी जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके कहे

जह० खुदा० तिसमयूणं, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो । सम्मत्त-सम्मामि० ओष-
भंगो । णवरि, जह० एगसमओ । अणंताणु० चउक्कविह० मिच्छत्तभंगो । णवरि,
जह० एगसमओ । अणाहारि० कम्मइय० भंगो ।

एवं कालो समत्तो ।

§ १३५. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण मिच्छत्त-
बारसकसाय-णवणोकसायाणं णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विह० जह०
एगममओ, उक्क० अद्दपोग्गलपरियट्ठं देख्खणं । अणंताणुबुंधिचउक्क० विहत्ति० जह०
गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है । आहारक जीवोंके मिथ्यात्व, बारह कषाय और
नौ नोकषायका काल कितना है ? जघन्य काल तीन समय कम खुदाभवग्रहणप्रमाण है
और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवे भाग है । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका
काल ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय है । अनन्ता-
नुबन्धी चतुष्कका काल मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक
समय है । अनाहारक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल कर्मणकाययोगीके कहे गये सभी
प्रकृतियोंके कालके समान है ।

विशेषार्थ—संज्ञी जीवोंका जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण है, अतः इनके मिथ्यात्व,
अप्रत्याख्यानवरण क्रोध आदि बारह कषाय और नौ नोकषायोंका जघन्य काल पुरुष-
वेदियोंके समान अन्तर्मुहूर्त न होकर खुदाभवग्रहणप्रमाण कहा है । इनका शेष कथन पुरुष-
वेदियोंके समान है । उससे इसमें कोई विशेषता नहीं । असंज्ञियोंमें एकेन्द्रिय भी आ
जाते हैं । और उत्कृष्ट काल एकेन्द्रियोंका सबसे अधिक है, अतः असंज्ञियोंके सभी
प्रकृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके समान कहा है । आहारक जीवोंका जघन्य काल तीन समय
कम खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसी अपेक्षासे
इनके मिथ्यात्वादि बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना ही कहा है । तथा
इनके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्वेगनाकी अपेक्षा है ।
तथा अनन्तानुबन्धीका जघन्य काल एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आये हैं
उसी प्रकार आहारकके भी घटित कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ १३५. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओषनिर्देश और आदेशनिर्देश ।
उनमेंसे ओषनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकाल
नहीं है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट
अन्तरकाल देशोन अर्द्धपुद्गल परिवर्तन है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल
अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक सौ बत्तीस सागर है । इसीप्रकार अष-

अंतोमुहुत्तं, उक्त्वं वेधावद्विमागरोवमाणि देसूणाणि । एवमचक्खुं-भवसिद्धिं वत्तव्वं ।

§ १३६. आदेशेण णिरयगदीए षोडशसु बावीसंपयडीणं णत्थि अंतरं, छण्हं पयडीणं जहं एगसमओ अंतोमुहुत्तं, उक्त्वं तेत्तीसंमागरोवमाणि देसूणाणि । पढमादि जाव सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्काणं जहं एगसमओ अंतोमुहुत्तं क्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—सामान्यसे मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका अभाव हो जाने पर पुनः इनकी उत्पत्ति नहीं होती है । जो उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख है उसके उपशमसम्यक्त्वके प्राप्त होनेके उपान्त्य समयमें यदि सम्यग्मिथ्यात्व या सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना हो जाय अनन्तर एक समय मिथ्यात्वके साथ रहकर द्वितीय समयमें उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो तो उसके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय अन्तरकाल प्राप्त होता है । उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो देशोन अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन बताया है सो यहां देशोन पदसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग काल लेना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वके अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर इतने कालके द्वारा इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना होकर अभाव होता है । जो उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विमंयोजना करके पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली शेष रहने पर सामादनगुणस्थानको प्राप्त होता है उसके अनन्तानुबन्धीका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । जिम जीवने उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर अतिलघु अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी विमंयोजना कर ली है पुनः उपशमसम्यक्त्वके अनन्तर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है, और अन्तर्मुहूर्त कम छयासठ सागर वेदकसम्यक्त्वका काल व्यतीत होनेपर मिश्रगुणस्थानमें अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर पुनः वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तथा डम दूगरी बार प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम छयासठ सागरके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीका सत्त्व प्राप्त कर लिया है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुल कम एक सौ बत्तीस सागर होता है । डमप्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा जो अन्तरकाल कहा है अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अन्तरकाल उतना ही जानना चाहिये ।

§ १३६. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । तथा शेष छह प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा छहों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुल कम तेतीस सागर है । पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक नरकमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक

उक्० सगट्टिदी देघणा । मिच्छत्त०-बारसकसाय-णवणोक० णत्थि अंतरं ।

§ १३७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमोघअंगो । अणंताणुबं-धिचउक्क० विहत्ति० अंतरं जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । सेसाणं पयडीणं णत्थि अंतरं । पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्ज०-पंचि०तिरि०जोणिणी० मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय० विहत्ति० केव० ? णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्माभि-विहत्ति० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेण-समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा छहों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण है । तथा सातों नरकोंमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर-काल जिस प्रकार सामान्यसे घटित करके लिख आये हैं उमी प्रकार यहाँ सर्वत्र जान लेना चाहिये । जिसके सम्यक्प्रकृति या सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनामें एक समय शेष है ऐसा जीव विवक्षित किन्ती एक नरकमें अपने नरककी उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और वहाँ उसने दूसरे समयमें सम्यक्प्रकृति या सम्यग्मिध्यात्वका अभाव कर दिया अनन्तर जीवन भर वह जीव मिध्यात्वके साथ रहा किन्तु जीवनके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर उसने उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर ली उसके उस उम नरककी अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियोंका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है । अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी इसीप्रकार घटित करना चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि प्रारंभमें पर्याप्त अवस्थाके होनेपर सम्यक्त्व उत्पन्न कराके अनन्तानुबन्धीकी विनियोजना करा लेना चाहिये, तब जाकर अनन्तानुबन्धीका अन्तर्काल प्रारंभ होता है और जीवन भर वेदकसम्यक्त्वके साथ रखकर मरणके अन्तिम समयमें मिध्यात्वमें ले जाना चाहिये । सातवें नरकमें मरणसे अन्तर्मुहूर्त पहले मिध्यात्वमें ले जाना चाहिये । सातवें नरकमें जो उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही सामान्यसे नारकियोंके उक्त छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता, यह सुगम है ।

§ १३७. तिर्यचगतिमें तिर्यचोमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल ओषके समान है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है । तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तर्काल नहीं है । पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यच योनिमती जीवोंके मिध्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायका अन्तरकाल कितना है ? इन बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर-

ब्रह्मिण्याणि । अणंताणुबंधिचउक्त्वं । तिरिक्खोघभंगो । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु वत्तव्वं । पंचिंदियतिरि०अपज्ज० मव्वपयडीणं णत्थि अंतरं । एवं मणुसअपज्ज० अणुहिमादि जाव मव्वट्टेत्ति सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदियअपज्ज०-तस०-अपज्ज०-मव्वपंचकाय-ओरालियमिस्स०-वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-कम्म इय०-अवगदवेद-अकमाय०-मदिसुदअण्णाण-विभंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मण-पज्ज०-संजद०-सामाइय-छेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद०-संजदासंजद-ओहि-काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पत्योपम है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल तिर्यचमामान्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंके अन्तर काल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—ऊपर बताये गये सभी मार्गणास्थानोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व का जघन्य अन्तरकाल एक समय जिसप्रकार ओघ प्ररूपणामें घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार यहां भी उस उम मार्गणामें जान लेना चाहिये । मामान्यतिर्यचोंके उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो ओघके समान कहा है उमका इतना ही मतलब है कि ओघकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंके अन्तरकालमें जिसप्रकार पत्योपमके असंख्यातवेभागसे न्यून अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनका ग्रहण किया है उसीप्रकार यहां भी ग्रहण करना चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि यहां अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनके कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्व न ग्रहण कराकर उपान्त्य भवमें तिर्यचपर्यायमें उत्पन्न कराकर उस पर्यायके अन्तमें सम्यक्त्व ग्रहण करावे । और इसप्रकार प्रारंभमें उद्वेलनासंबन्धी पत्योपमके असंख्यातवेभाग कालको और अन्तमें दो अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्ष कालको अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनमेंसे घटा देने पर जो काल शेष रहता है वह उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । पंचेन्द्रियादि तीन प्रकारके तिर्यच और मनुष्यपर्याप्त तथा मनुष्यनियोंका जो पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन पत्योपम आदि उत्कृष्ट काल कहा है उसमें अन्तर्मुहूर्त कालके घटा देने पर शेष काल उम उम मार्गणामें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल जान लेना चाहिये । अनन्तानुबन्धीका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुगम है इसलिये यहां नहीं लिखा है ।

पंचेन्द्रियतिर्यच लब्धपर्याप्तकोंके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार लब्धपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, त्रसलब्धपर्याप्त, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यथज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत,

दंमण-अभव्व०-सम्मामि०-खइय०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि०-मिच्छादि०
अमण्णि०-अणाहारएत्ति वत्तव्वं ।

§ १३८. देवेषु मम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ति० अंतरं केव० ?
जह० एगममओ अंतोमुहुत्तं, उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । सेसाणं पयडीणं
णत्थि अंतरं । भवणवासि० जाव उवरिमगेवजेत्ति एवं चेव वत्तव्वं । णवरि, अप्प-
प्पणो द्विदीओ णादव्वाओ । पंचिदिप-पंचि० पज्ज०-तस०-तसपज्ज० मम्मत्त-सम्मामि०
विहत्ति० अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० सगद्विदी देसूणा । अणंताणुबंधिचउक्क०
परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपगयिकसंयत, यथाक्यातमंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी,
अभव्व, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन-
सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जिस मार्गणामें मिध्यात्व और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाएँ हो सकती हैं उसी
मार्गणामें ही सम्यक्प्रकृति आदि ब्रह्म प्रकृतियोंका अन्तरकाल पाया जाता है शेष मार्ग-
णाओंमें नहीं । ये ऊपर जो मार्गणाएँ गिनाई हैं ये ऐसी मार्गणाएँ हैं कि इनमें मिध्यात्व
और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं, अतः इनके उक्त छह प्रकृतियोंका अन्त-
रकाल घटित नहीं होता है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल कहीं भी नहीं है ।

§ १३८. देवोंमें सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तर-
काल कितना है ? देवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस मागार है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं
है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिमगैवेयक तकके प्रत्येक स्थानके देवोंमें इसीप्रकार कथन
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अपनी अपनी स्थिति जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—देवोंमें सर्वत्र सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तर एक
समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त जिस प्रकार ऊपर घटित
करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट अन्तर
नारकियोंके समान घटा लेना चाहिये । विशेषता इतनी है कि यहां अपनी अपनी उत्कृष्ट
स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरका कथन करना चाहिये । यहां जो उक्त छहों प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस मागार कहा है वह नवमगैवेयकों की अपेक्षा कहा है ।
क्योंकि आगेके देव नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मि-
ध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट

विहत्ति० ओघमंगो । सेमाणं पयडीणं णत्थि अंतरं ।

§ १३६. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवत्ति०-कायओगि ओरालि०-वेउध्विय० चत्तारिकमाय० मम्मत्त-मम्मामि० विहत्ति० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । सेमाणं पयडीणं णत्थि अंतरं ।

§ १४०. वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु सम्मत्त-मम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ति० जह० एगममओ अंतो, उक्क० सगट्टिदी देसूणा पणवण्णपलिदो० देसूणाणि । सेमाणं पय० णत्थि अंतरं । पुरिमवेदेसु मम्मत्त सम्मामि० विहत्ति० अंतं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० सागरोवममदपुधत्तं । अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ति० ओघ-स्थितिप्रमाण है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—सामान्य पचेन्द्रिय आदिकी पहले जो उत्कृष्ट कायस्थिति बतला आये हैं उसमेंसे कुछ कम कर देने पर सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल हो जाता है । कुछ कमका प्रमाण जैसा ऊपर घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां पर घटित करके जान लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

§ १३६. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी पांचों वचनयोगी, काययोगी औदारिककाययोगी और वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें तथा चारों कषायवाले जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—जिसको सम्यक्प्रकृति या सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना किये एक समय या अन्तर्मुहूर्त हुआ है ऐसे किसी उपर्युक्त योगवाले मिध्यादृष्टि जीवके उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ पुनः जब सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका सत्त्व हो जाता है तब उक्त योगवाले या किसी कषायवाले जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । तथा शेष प्रकृतियोंका यहां अन्तरकाल संभव नहीं है ।

§ १४०. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंमें सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । और सम्यक्त्व तथा सम्यक्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण और अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पचपन पत्य है । तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । पुरुषवेदियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ पृथक्त्व सागर है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका

भंगो । सेमाणं पयडीणं णत्थि अंतरं । णवुंमयवेदेसु सम्मत्त-मम्मामि० ओघभंगो । अणंताणुबंधिचउक्क० सत्तमपुढविभंगो । सेसाणं पय० णत्थि अंतरं । एवमसंजद० वत्तव्वं । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।

§ १४१. लेस्साणुवादेण छ-लेस्सासु सम्मत्त-मम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ति० अंतरं जह० एगसमओ अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस सचागस सत्त एकत्तीम सागरो-अन्तरकाल नहीं है । नपुंसकवेदी जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तरकाल ओघके समान है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सातवीं पृथिवीके समान है । शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । अनंयतोके नपुंसकवेदियोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये । तथा चक्षुदर्शनी जीवोंके त्रमपर्याप्तकोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जिम प्रकार ओघमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य अन्तर-काल लिख आये हैं उसी प्रकार तीनों वेदवालोंके घटित कर लेना चाहिये । स्त्रीवेदीकी उत्कृष्टकायस्थिति सौ पत्य पृथक्त्व है । तथा इतने काल तक वह मिध्यात्व गुणस्थानमें भी रह सकता है अतः इसमेंसे उद्वेलनाकालके कम कर देने पर सम्यक्त्व और सम्यग्-मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है । पर इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदका काल प्रारम्भ होते समय मिध्यात्वमें लेजाना चाहिये और स्त्रीवेदका काल समाप्त होनेके अन्तमें उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति कराना चाहिये । कोई एक जीव पचपन पत्यकी आयुवाली देवी हुआ और वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी पुनः भवके अन्तमें मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ । उसके अनन्तानुबन्धीका कुछ कम पचपन पत्य उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । पुरुषवेदी जीवकी कार्यास्थिति सौ सागर पृथक्त्व है अतः वहां उस अपेक्षासे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिये । तथा पुरुषवेदीके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जिमप्रकार ओघमें घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां जानना । तथा सातवीं पृथिवीमें नारकीके जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाल लिख आए हैं उसीप्रकार नपुंसकवेदीके जानना और इनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान घटित कर लेना, क्योंकि कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तनकाल तक एक जीव नपुंसक रह सकता है ।

§ १४१. लेइयामार्गणाके अनुवादसे इहाँ लेइयाओंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्या-त्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्त-सुहूर्त है । तथा उक्त नभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्णलेइयामें कुछ कम तेत्तीस सागर, नीललेइयामें कुछ कम सत्रह सागर, कपोतलेइयामें कुछ कम सात सागर, शुक्ल-लेइयामें कुछ कम इक्तीस सागर, पीतलेइयामें साधिक दो सागर और पद्मलेइयामें साधिक

वमाणि देसूणाणि, वे अट्टारम मागरो० सादिरेयाणि । सेसपयडीणं णत्थि अंतरं । सण्णि० पुरिमवेदभंगो । आहारि० मम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० अंतरं जह० एग समओ, उक्क० अंगुलस्म असंखे०भागो । अणंताणुबंधिचउक्क० विहत्ति० ओघभंगो । एवमंतरं ममत्तं ।

§ १४२. मणियामो दूविहो ओघो आदेमो चेदि । तन्थ ओघेण मिच्छत्तस्म जो विहत्तिओ मो मम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्काणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । बारमकमाय-णवणोक्क० णियमा विहत्तिओ । मम्मत्तस्म जो विहत्तिओ अठारह सागर है । शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—मम्यकूप्रकृति और मम्यगुमिध्यात्वके जघन्य अन्तर एक समय तथा अनन्तानुबन्धीके जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तका कथन जिस प्रकार पहले कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये । तथा छहों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन अशुभ लेश्याओंमें नरकगतिकी अपेक्षा और तीन शुभ लेश्याओंमें देवगतिकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि इतने दीर्घकाल तक एक लेश्या वहाँ ही रहती है ।

संज्ञी मार्गणामे मम्यकूप्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है । आहारक जीवोंमें मम्यकूप्रकृति और मम्यगुमिध्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलक असंख्यातवे भाग है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—संज्ञी जीवोंमें मम्यकूप्रकृति आदि छह प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक अन्तरकाल पुरुषवेदियोंके ही पाया जाता है, अतः संज्ञीमार्गणामे पुरुषवेदके समान अन्तरकाल कहा । आहारक जीवका मर्षदा आहारक रहते हुए निरन्तर उत्पन्न होनेका काल अंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है, तथा इतने काल तक आहारकजीव निरन्तर मिध्यात्वमें भी रह सकता है इसलिए इसके मम्यकूप्रकृति और मम्यगुमिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा । तथा सामान्यसे अनंतानुबन्धी चतुष्कका जो उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है वह आहारकजीवके बन जाना है इसलिए इसके अनंतानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान कहा । उक्त छहों प्रकृतियोंके जघन्य अन्तरकालका कथन सुगम है ।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

§ १४२. मन्त्रिकर्ष अनुयोगद्वाग् ओव और आदेशके भेदसे दो प्रकारका है । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जो जीव मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मम्यकूप्रकृति, मम्यगुमिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचिन् है और कदाचिन् नहीं है । परन्तु उसके बारह कपाय और नौ नोकषायकी विभक्ति नियमसे है । जो जीव मम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवाला

सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक्काणं सिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ । सेसाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सम्मामि० । णवरि, सम्मत्तस्म दो भंगा ।

§ १४३. अणंताणुबंधिकोधस्स जो विहत्तिओ, सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सिया० विहत्ति०, सिया अविहत्ति० । सेसाणं णियमा विहत्तिओ । एवमणंताणुबंधिमाण-माया-लोहाणं । अपच्चक्खणावरणकोहस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक्क० सिया विहत्ति०, सिया अविहत्ति० । सेसाणं पय० णियमा विहत्ति० । एवं मत्तकसाय० । कोहसंजलणाए विहत्तिओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारस-कमाय-णवणोकमायाणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । तिण्हं संजलणाणं णियमा विहत्तिओ । माणसंजलणाए जो विहत्तिओ सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ । सेमाणं सिया विहत्ति०, सिया अविहत्ति० । मायासंजलण० जो विहत्ति० लोभसंज० णियमा विहत्तिओ । सेमाणं पयडीणं सिया विहत्ति० सिया अविहत्ति० । वह मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । परन्तु इसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है । सम्यक्प्रतिके समान सम्यग्मिथ्यात्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवालेके सम्यक्प्रकृतिके दो भंग होते हैं अर्थात् वह कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है और कदाचित् नहीं है ।

§ १४३. जो जीव अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । तथा उसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । जो जीव अपत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । परन्तु उसके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है । इसीप्रकार शेष सात कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।

जो जीव क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । परन्तु वह संज्वलनमान आदि शेष तीन प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो जीव मानसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया और लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । जो जीव मायासंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । परन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । जो जीव लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह अपनेसे

हत्तिओ । लोभसंज० जो विहत्तिओ सो सब्बे० हेट्टिमाणं पय० सिया विहत्ति०, सिया अविहत्ति० । इत्थिवेदस्स जो विहत्ति० सो छण्णोकसाय-पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ । सेमाणं पयडीणं मिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ । णवुंसय-वेदस्स जो विहत्तिओ सो छण्णोक०-पुरिस-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ, सेमाणं पदाणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । पुरिसवेदस्स जो विहत्तिओ सो चदु-संजलणाणं णियमा विहत्तिओ । सेमाणं पय० सिया विहत्ति० सिया अविहत्ति० । हस्सस्स जो विहत्तिओ सो पंचणोकसायाणं पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा विहत्तिओ । सेमाणं पयडीणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ । एवं पंचणोकसायाणं । एवं मणुसतियस्स । णवरि, मणुसिणीसु णवंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो इत्थिवेदस्स णियमा विहत्तिओ । पुरिसवेदस्स छण्णोकसायभंगो । पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तस०-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-लोभकसायी-चक्खु०-अचक्खु० सुक्कले०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारीणमोघभंगो ।

पहलेकी सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । जो जीव स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह छह नोकपाय, पुरुषवेद और चारसंज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । परन्तु शेष सोलह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचिन् है और कदाचित् नहीं है । जो जीव नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है वह छह नोकपाय, पुरुषवेद और चार संज्वलनकषायकी विभक्तिवाला नियमसे है । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है, कदाचित् नहीं है । जो जीव पुरुषवेदकी विभक्तिवाला है वह चार संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । परन्तु वह शेष तेईम प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । जो जीव हास्य नोकपायकी विभक्तिवाला है वह पांच नोकपाय, पुरुषवेद और चार संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला वह कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । इसीप्रकार पांच नोकपायोंकी अपेक्षा कहना चाहिये । यह जो ऊपर ओघप्ररूपणा की है इसीप्रकार समान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनीके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें जो नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है वह स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला नियमसे है । पुरुषवेदका छह नोकपायके समान कथन करना चाहिये । तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रम, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके सन्निकर्षका कथन ओघके समान है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानमें जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना नहीं की उसके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है । तथा सम्यक्त्वकी उद्वेलना करनेपर सत्ताईस और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेपर छब्बीस प्रकृतियां सत्तामें रहती हैं । उपशम-

§ १४४. आदेशेण गिरयगईए गेरईएसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ तस्स सन्वप-
यडीणमोघभंगो। एवं सम्मत्तस्स। सम्मामिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-वाग्म-
क्रमाय-णवणोकसाय० गियमा विहत्तिओ। सम्मत्त-अणंताणुबंधिचउक्काणं सिया
विहत्तिओ, सिया अविहत्तिओ। अणंताणुबंधिचउक्कस्स ओघभंगो। अपञ्चखाण-
कोधस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं सिया
श्रेणीसे उतरे हुए द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि जीवके चौथसे सातवें तक अनन्तानुबन्धी चतुष्कके
बिना चौबीस प्रकृतियां सत्तामें हैं। तथा जिस वेदकसम्यग्दृष्टिने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी
विमंयोजना कर दी है उसके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा क्षायिक सम्यक्त्वके
सन्मुख हुए वेदगसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेपर चौबीसकी,
मिध्यात्वकी क्षपणा करनेपर तेईसकी, सम्यग्मिध्यात्वकी क्षपणा करनेपर वाईसकी और
मम्यक्त्वकी क्षपणा करनेपर इक्कीसकी सत्ता होती है। अनन्तर क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए
पुरुषवेदी जीवके क्रमसे अपत्याख्यान और प्रत्याख्यान आवरण आठ, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद,
हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद, संजलनक्रोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और
संज्वलनलोभकी क्षपणा करनेपर १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, और १ प्रकृतियोंकी
सत्ता होती है। इतनी विशेषता है कि जो स्त्रीवेदके साथ क्षपकश्रेणी चढ़ता है वह पुरुष-
वेद और छह नोकषायोंका एक साथ क्षय करता है, अतः उसके पांच प्रकृतिक स्थान नहीं
होता। इस प्रकार इन नियमोंको ध्यानमें रख कर ओष और आदेशसे कहे गये सन्न-
कर्षका विचार करना चाहिये। इससे यह जानने में देरी न लगेगी कि किन प्रकृतियोंके
रहते हुए किन प्रकृतियोंकी सत्ता है ही और किन प्रकृतियोंकी सत्ता है भी और नहीं
भी है। उदाहरणार्थ लोभ संज्वलनकी विभक्तिवालेके शेष सत्ताईस प्रकृतियां होंगी और
नहीं भी होगी, क्योंकि लोभसंज्वलनका सत्त्वक्षय सबके अन्तमें होता है। पर मानसंज्व-
लनकी विभक्तिवालेके लोभसंज्वलन अवश्य होगा, क्योंकि मानसंज्वलनका मत्त्वक्षय लोभ-
संज्वलनके पहले हो जाता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना।

§ १४४. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें जो जीव मिध्यात्वकी विभक्ति
वाला है उसके सब प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सम्यक्प्रकृतिकी अपेक्षा
ओघके समान कथन करना चाहिये। जो जीव सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह
मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति वाला नियमसे है। किन्तु सम्यक्
प्रकृति और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। अनन्तानुबन्धी
चतुष्ककी अपेक्षा ओघके समान कथन है। जो नारकी अपत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्ति
वाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्ति
वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति वाला नियमसे

विहत्तिओ, मिया अविहत्ति० । सेमाणं पय० णियमा विहत्तिओ । एवमेकारस-
कमाय-णवणोकमायाणं । एवं पढमपुढवि-तिरिक्खग्ई-पंचिंदियतिरिक्ख पंचि० तिरि०-
पञ्ज०-देव०-मोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्जदेव०-ओगलियमिम्म०-वेउट्टियमिम्म०-कम्म
इय०-अमंजद०-तिण्ण लेस्सा-अणाहारि त्ति वत्तव्वं । विद्यादि जाव सत्तामि त्ति मिच्छ-
त्तम्म जो विहत्तिओ मो मम्मत्त-मम्मामि०-अणंताणुबंधिचउक्काणं मिया विहत्तिओ,
मिया अविहत्तिओ । सेमाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं बाग्मकमाय-णवणोक-
है । अपत्याख्यानावरण क्रोधके समान शेष ग्याग्ह कपाय और नो कपायोंकी अपेक्षा
कथन करना चाहिये । इसी प्रकार पहली पृथिवी, तिर्यचगति, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय
तिर्यच पर्याप्त, सामान्य देव, मौधर्म स्वर्गसे लेकर उगरिम भवेयक तकके देव, औदारिक-
मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, असंयत, दृष्ट्य आदि तीन लेख्या-
वाले और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-नारकियोंमें मिथ्यात्व विभक्तिवालेके अनन्तानुबन्धी चतुष्क सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्व ये छह प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं भी होती हैं । विसंयोजकके
अनन्तानुबन्धी चतुष्क नहीं होती तथा जिनने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना
कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं होती । किन्तु इसके शेष सभी प्रकृतियोंकी सत्ता
है । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्ता-
नुबन्धी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती हैं और नहीं भी होती हैं । जो कृतकृत्यवेदक-
सम्यग्दृष्टि नरकमें उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छहका सत्त्व नहीं होता । तथा जिनने वेदक
सम्यग्दृष्टिने चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है उनके उक्त चारका सत्त्व नहीं होता
शेषके छहोंका सत्त्व होता है । किन्तु इसके शेषका सत्त्व नियमसे होता है । सम्यग्मि-
थ्यात्वकी विभक्ति वाले जीवके अनन्तानुबन्धी चार और सम्यक्त्व ये पांच प्रकृतियां हैं
भी और नहीं भी हैं । जिनने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्ता-
नुबन्धी चार नहीं हैं । तथा जिनने सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर दी है उसके सम्यक्त्व
नहीं है शेषके ये पांचों प्रकृतियां हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओघ कथनसे कोई
विशेषता नहीं है । तथा अपत्याख्यानावरण क्रोध आदिकी विभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व,
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चार ये मान प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं
भी होती हैं । क्षायिक सम्यग्दृष्टिके नहीं होती, शेषके यथा संभव विकल्प जानना । ऊपर
जो प्रथम नरकके नारकी आदि अन्य मार्गणाणं गिनाई हैं वहां भी इसी प्रकार समझना ।

दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक स्थानके नारकी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी
विभक्ति वाला है वह सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी

साय० । णवरि मिच्छत्तम्म णियमा विहत्तिओ । जो सम्मत्तस्स विहत्तिओ सो अणंताणुबंधिचउक्कम्म मिया विहत्ति० सिया अविहत्ति० । सेमाणं पयडीणं णियमा विह० । मम्मामि० जो विहत्तिओ गो मम्मत्त-अणंताणु० चउक्क० मिया विह० सिया अविह० । सेमाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । अणंताणुबंधिकोध० जो विहत्तिओ सो मम्मत्त-मम्मामि० मिया विह० मिया अविह० । सेमाणं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं निणहं कसायाणं । एवं पंचि० तिरि० जोण्णी०-भवण०-वाणबैतर० जोदिसि० वत्तव्वं । पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो मम्मत्त-मम्मामि० मिया विह० सिया अविह० । सेमाणं पय० णियमा अविहत्तिओ (विहत्तिओ) । एवं मोल्लमक०-णवणोक्क० । णवर्ग मिच्छत्तस्स णियमा विहत्तिओ । जो मम्मत्तस्स विहत्तिओ सो गव्व० पय० णियमा विहत्तिओ । जो मम्मामि० विहत्तिओ सो सम्मत्त० मिया विह० सिया अविह० । सेमाणं पय० णियमा विह० । एवं मणुसअपज्जत्त-सव्व प्रकार बारह कपाय आर नौ नोक्कपायकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यह जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्पकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्पकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । अनन्तानुबन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कथायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्यच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और उपोनिषी देवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणाओमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना और अनन्तानुबन्धी चार की विसंयोजना संभव है । अतः ऊपर प्रकृतियोंके सत्त्व और असत्त्व सम्बन्धी सभी विकल्प इसी अपेक्षासे कहे हैं जो उपर्युक्त प्रकारसे घटित कर लेना चाहिये ।

पंचेन्द्रियतिर्यच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार मोल्लहकपाय और नौ नोक्कपायकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वकी विभक्ति नियमसे है । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्ति वाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है भी और

एइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदियअपज्ज०-सव्वपंचकाय-तसअपज्ज०-मदि-सुदअण्णा-
णि-विभंग-मिच्छादि०-असणीणं वत्तव्वं ।

§ १४५. अणुदिमादि जाव सव्वहसिद्धिविमाणे त्ति जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओ
अणंताणु०चउक्क० सिया विह०, सिया अविह० । सेसाणं पय० णियमा विह० । एवं
सम्मामिच्छत्तम्म । सम्मत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०
मिया विह० सिया अविहत्तिओ । सेसाणं णियमा विह० । अणंताणु०कोध० जो
विहत्तिओ मो सव्वपय० णियमा विह० । एवं तिण्णं कसायाणं । अपच्चखाणकोध०
जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया
अविह० । सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओ । एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं ।

§ १४६. वेउव्विय० जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओ मो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०
नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्या-
प्रक मनुष्य, मभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, मभी प्रकारके
पांचों स्थावरकाय, त्रम लब्ध्यपर्याप्तक, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिध्यादृष्टि
और असंज्ञी जीवों के कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना
संभव है । अतः ऊपर जितने विकल्प कहे हैं वे इस अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये ।

§ १४५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थमिद्धि विमान तक प्रत्येक स्थानमें जो जीव मिध्यात्वकी
विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है ।
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षासे
कथन करना चाहिये । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्या-
त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह
नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । अनन्तानुबन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी
मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी
विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी
विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे
है । इसी प्रकार ग्याग्ह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—नौ अनुदिशसे लेकर ऊपर सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं । अतः
यहां २८, २४, २२ और २१ ये चार विभक्तिस्थान संभव हैं । इसी अपेक्षासे ऊपरके
सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये ।

§ १४६. वैक्रियिककाययोगियोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति,

चउक्क० सिया विहत्ति० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । सम्मामि० जो विह० सो मम्मत्त-अणंताणु०चउक्क० मिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पज्ज० णियमा विह० । सम्मत्तम्म जो विहत्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओ । अणंताणु०कोध० जो विहत्तिओ सो मम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्णि कमाय० । अपच्चन्खाण-कोध० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा विह० । एवमेकारसकमाय-णवणोक्सायाणं । आहार०-आहारमिस्स० मिच्छत्तम्म जो विहत्तिओ, सो अणंताणु०चउक्क० मिया विह० सिया अविह०;

सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । अनन्तानुबन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी अपेक्षा जिम प्रकार सन्निकर्षके विकल्प कहे हैं, उसीप्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा सन्निकर्षके विकल्पोंका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ-वैक्रियिककाययोगमें मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीव होते हैं । किन्तु कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि नहीं होते, क्योंकि जो कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य मरकर देव या नारकियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपर्याप्त अवस्थामें ही सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय होकर क्षायिक सम्यग्दर्शन हो जाता है । अतः वैक्रियिककाययोगवाले जीव २८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतिक स्थान वाले होते हैं, अतः इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये ।

आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष

सेसाणं णियमा विह० । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । अणंताणु०कोध० जो विहत्तिओ मो मच्चपय० णियमा विह० । एवं तिण्हं कसायाणं । अपच्च०कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं सिया विह० सिया अविह०; सेमाणं पय० णियमा विह० । एवमेक्कागसकमाय-णवणोकसायाणं ।

§ १४७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसायाणमोघ-भंगो । कोधसंजलणस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकमाय-णवुंम० मिया विहत्ति० मिया अविहत्ति०; तिण्णि संजलण-अट्टणोकमाय० णियमा विह० । एवं तिण्हं संजलण०-अट्टणोकमायाणं । णवुंमयवेदस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकमाय० सिया विह० सिया अविह०; चत्तारिसंजलण-अट्टणोकमाय० णियमा विहत्तिओ । एवं णवुंस०, णवरि इत्थिवेद० णवुंमभंगो । प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । अनन्तानुबन्धी क्रोधके समान अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । जो अपत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । अपत्याख्यानावरण क्रोधके समान शेष ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये दोनों योग प्रमत्तसंयतके होते हैं । पर ऐसा जीव क्षायिकसम्यग्दर्शनका प्रस्थापक नहीं होता, अतः इमके २८, २४ और २१ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये ।

§ १४७. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और बारह कषायोंकी अपेक्षा कथन ओषके समान है । जो क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारहकषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष तीन संज्वलन कषाय और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार तीन संज्वलन और आठ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और बारह कषायोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह चारों संज्वलन और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । नपुंसकवेदी जीवोंके स्त्रीवेदी जीवोंके समान कथन करना चाहिये । इवनी

पुरिसवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसाय०-णवणोकसाय० ओघभंगो । चदुसंजलण० ओघं । णवरि, पुरिसवेद०-चदुसंजलण० णियमा अत्थि ।

§ १४८. अगदवेदएसु मिच्छत्तस्म जो विहत्तिओ सो तेवीमण्हं पयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सम्मत्त-मम्मामिच्छत्ताणं । अपच्च० क्रोध० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; एकारसकसाय-णवणोकसायाणं णियमा विह० । एवं सत्त-कसायाणं । क्रोधसंजलणस जो विहत्तिओ सो तिण्हं संजलणाणं णियमा विहत्तिओ: सेमाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह० । माणसं-जलण० जो विहत्तिओ सो दोण्हं मंजलणाणं णियमा विहत्तिओ; सेमाणं पय० सिया विह० सिया अविह० । मायासंजल० जो विहत्ति० सो लोभमंजलण० णियमा विह०; सेमाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह० । लोभसंजल० जो विहत्तिओ सो तेवीमण्हं पय० सिया विह० सिया अविह० । णत्थि (इत्थि) वेदस्स जो विहत्तिओ विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवके नपुंसकवेदकी अपेक्षा सन्निकर्षका जैसा कथन किया है उमी प्रकार नपुंसकवेदी जीवके स्त्रीवेदकी अपेक्षा सन्निकर्षका कथन करना चाहिये । पुरुषवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । चार संज्वलन कषायोंका भी कथन ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उनमें पुरुषवेद और चार संज्वलन कषायोंकी विभक्ति नियमसे है ।

§ १४८. अपगतवेदी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कको छोड़कर शेष तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अपत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व सम्यक्प्रकृति और सम्यक्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु अपत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । अपत्याख्यानावरण क्रोधके समान अपत्याख्यानावरण मान आदि सात कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । जो क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मान आदि तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो मान संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया आदि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो माया संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाला है वह तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । जो स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व सम्यक्प्रकृति

सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० [अट्टकसा०-णवुंस०] सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । एवं णवुंस० । पुरिमवेदस्स जो विहत्तिओ मो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अट्टक०-अट्टणोक० सिया विह० अविह०; चत्तारिसंजलण० णियमा विह० । हस्स० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अट्टकसाय-दोवेद० मिया विह० सिया अविह०; चत्तारिसंजल०-पुरिस०-पंचणोकमाय० णियमा विहत्तिओ । एवं रदीए । एवमग्दि-सोग-भय-दुगुंछणं ।

§ १४६. कसायाणुवादेण कोधकमाईसु पुरिमभंगो । णवरि, पुरिमवेदस्स सिया विहत्तिओ सिया अविहत्तिओ । एवं माणक०, णवरि कोधक० सिया विह० सिया अविह० । एवं माय०, णवरि माण० सिया विह० सिया अविह० [एवं लोभ० । णवग्गि माय० सिया विह० सिया अविह० ।] अकसाईसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो सव्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । अपञ्च०कोध० जो विहत्तिओ सम्यग्मिध्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो पुरुषवेदकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु चार संज्वलनोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो हास्यकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय, और स्त्री तथा नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है किन्तु चार संज्वलन, पुरुषवेद और रति आदि पांच नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार रतिकी अपेक्षा तथा अरति, शोक, भय और जुगुप्सा की अपेक्षा कथन करना चाहिये ।

§ १४६. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके पुरुषवेदी जीवोंके समान कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी जीव पुरुषवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकषायी जीव क्रोधकषायकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीव मानकषायकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीव मायाकषायकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । अकषायी जीवों में जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे अनन्तानुबन्धीके सिवा सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसी प्रकार सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है

सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० मिया विह० सिया अविह०, एकारसक०-णवणोक०
णियमा विहत्तिओ । एवमेकारसक०-णवणोकसायाणं । एवं जहाक्खादमंजदाणं ।

§ १५०. आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जवणाणेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो
अणंताणु०-चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । सम्मत्तस्स
जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउक्क० मिया विह० सिया अविह०;
बारमकसाय-णवणोकसाय० णियमा विहत्तिओ । सम्मामिच्छत्त० जो विहत्तिओ सो
मिच्छत्त-अणंताणु० चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सम्मत्त-बारमक०-णवणोक०
णियमा विहत्तिओ । अणंताणु० को० जो विहत्तिओ सो सब्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ ।
एवं तिण्हं कसायाणं । बारमक०-णवणोकसाय० ओघमंगो । एवं मंजद०-सामाइय-
च्छेदो० ओहिदंस-सम्मादिट्ठीणं वत्तच्चं ।

§ १५१. परिहार० संजदेसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु० मिया विह०
वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी
है । किन्तु वह अपत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति-
वाला नियमसे है । इमीप्रकार अपत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कपाय और नौ
नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । अकपायी जीवों के समान यथाख्यातसंयतोंके भी
जानना चाहिये ।

§ १५०. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें जो मिध्यात्वकी
विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है ।
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है
वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और
नहीं भी है । किन्तु बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो
सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति-
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह सम्यक्प्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषा-
योंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इमीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी
अपेक्षा जानना चाहिये । बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान
है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि
जीवोंके कहना चाहिये ।

§ १५१. परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी
चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला
नियमसे है । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और

मिया अविह०; सेमाणं णियमा विहत्तिओ । सम्मत्त० जो विहत्तिओ मो मिच्छत्त-
सम्मामि०-अणंताणु० चउक्क० मिया विह० मिया अविह०; सेमाणं णियमा विह० ।
सम्मामि० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त०-अणंताणु० चउक्क० मिया विह० सिया
अविह०; सेमाणं णियमा विह० । अणंताणु० कोध० जो विहत्तिओ सो सव्वपय-
डीणं णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्हं कमायाणं । अपच्च० कोध० जो विहत्तिओ सो
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउक्क० मिया विह० सिया अविह०; एकारस
कसाय-णवणोःकमाय० णियमा विह० । एवमेकारसकमाय-णवणोःकसायाणं । एवं
मंजदामंजदाणं । सुद्धमसांपराय० मिच्छत्तस्म जो विहत्तिओ सो सव्वपयडीणं णियमा
विहत्ति० । एवं सम्मामिच्छत्ताणं । अपच्च० कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-
सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेमाणं णियमा विह० । एवं दसक०-
णवणोःकमायाणं । लोभसंज० जो विहत्तिओ सो सेमाणं मिया विह० सिया अविह० ।
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व और
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा
जानना चाहिये । जो अपत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व सम्यक्प्र-
कृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी
है । किन्तु शेष ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी
प्रकार ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । इसीप्रकार संयता-
सयतोंके कथन करना चाहिये । सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवोंमें जो मिध्यात्वकी विभक्ति-
वाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सिवाय शेष सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे
है । इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो अपत्याख्यानावरण
क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति-
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है ।
इसीप्रकार लोभसंज्वलनको छोड़कर अपत्याख्यानावरण मान आदि दस कपाय और नौ
कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह शेष प्रकृ-
तियोंकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके २४, २१ और १ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं ।
यहांभी अनन्तानुबन्धी चारको छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा विचार किया
गया है । ऊपरके सभी विकल्प इसी अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये ।

किण्ह-णील० वेडवियकायजोगिभंगो । अभवसिद्धि० मिच्छत्त० जो विहत्तिओ सो पणुवीसंपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं पणुवीसंपयडीणं ।

§ १५२. खइयसम्मादिट्ठीसु अपच्च० क्रोध० जो विहत्तिओ सो बीसण्हं पयडीणं णियमा विह० । एवं मत्तक० । सेसाणमोघभंगो । वेदगसम्मादिट्ठीसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० मिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । सम्मत्त० जो विहत्तिओ मो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेमाणं णियमा विह० । एवं बारसक०-णवणोकसाय० । मम्मामि० जो विहत्तिओ मो मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० मिया विह० सिया अविह० । सेमाणं णियमा विह० । अणंताणु० क्रोध० जो विहत्तिओ सो सच्चपयडीणं णियमा विह० । एवं तिण्हं कसायाणं । उवसमसम्माइट्ठीसु मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० मिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त बारसकसाय-णवणोकसाय० । अणंताणु०क्रोध० जो विहत्तिओ

कृष्ण और नीललेख्यावालोके वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान समझना चाहिये । अभव्य जीवोंमे जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष पक्षीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी प्रकार पक्षीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये ।

§ १५२. क्षायिकमस्यगृष्टि जीवोंमे जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि सात कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । वेदक सम्यग्गृष्टियोंमे जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी प्रकार बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । उपशम सम्यग्गृष्टि जीवोंमे जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार सम्यक्प्रकृति, सम्यक्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना

मो सव्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं । सासणसम्माइट्ठीसु जो मिच्छत्तम्म विहत्तिओ मो सव्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं सव्वासि पयडीणं । मम्मामिच्छादिट्ठीसु मिच्छत्त० जो विहत्तिओ सो अणंताणु० चउक० सिया विह० मिया अविह०; सेमाणं णियमा विह० । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसक०-णवणोकमाय० । अणंताणु० कोध० जो विह० मो मिच्छत्त-मम्मत्त-सम्मामि०-पण्णारसक०-णवणोक० णियमा विहत्तिओ । एवं तिण्हं कसायाणं ।

एवं मणियासो समत्तो ।

११५३. णाणाजीवेहि भंगविचयानुगमेण दुविहो णिदेमो, ओघेण ओदेसेण य । तन्थ ओघेण अट्टावीमंपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अन्थि । एवं मणुम-तियस्स पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तम-तमपज्जत्त-तिण्णिमण०-तिण्णि वत्ति०-कायजोगि०-ओरालिय०-संजदा (संजद)-सुक्कले०-भवमिद्धि०-मम्मादिट्ठि०-आहागए त्ति वत्तच्चं । चाहिये । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी जानना चाहिये । सामान्यमन्यगृष्टि जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । सम्यग्मिथ्यागृष्टि जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवालाभी है और नहीं भी है । किन्तु जोष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी प्रकार सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये ।

इसप्रकार सन्निकर्ष अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

११५३. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेगनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । इसीप्रकार सामान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यिणी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रम पर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्कलेरयावाले मन्य, सम्यग्गृष्टि और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहां ऐसी मार्गणाओंका ही ग्रहण किया है जिनमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले नाना जीव सभव हैं ।

§ १५४. आदेसेण गिरयगदीए गेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्काणं अत्थि णियमा विहत्तिया च अविहत्तिया च; सेसाणं पयडीणं अत्थि विहत्तिया चेव । एवं पढमाए पुढवीए तिरिक्ख०-पंचिं०तिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पञ्जत्त-देवा-मोहम्मीसाण जाव सव्वहसिद्धि त्ति वेउव्विय०-परिहार०-संजदासंजद-असंजद-पंचलेस्सेत्ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणु०-चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं पय० विहत्तिया णियमा अत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसि० वत्तव्वं । पंचिंदिय-तिरिक्खअपञ्जत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं विहत्तिया णियमा अत्थि । एवं सव्वएइंदिय-सव्वविगलंदिद्य-पंचिंदियअपञ्ज०-तसअपञ्ज०-सव्वपंचकाय-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग०-मिच्छादिट्ठि-असण्णि त्ति वत्तव्वं ।

§ १५४. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्-मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं । इमीप्रकार पहली पृथ्वीमें और सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म-ऐशान स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीवोंके कथन करना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोंसे लेकर पद्मलेश्यावाले जीवों तक सभी जीव इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं । पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं । तथा दूसरी पृथिवीसे लेकर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें सभी जीव बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं । पर सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति-वाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही हैं । इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक, त्रस लब्धपर्याप्तक, सब प्रकारके पांचों स्थावरकाय, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये ।

६ १५५. मणुस्स-अपज्ज० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि तो छुब्बीसं पयड्डीणं णियमा विहत्तिया, अविहत्तिया णत्थि । सम्मत्तस्स अट्ठ भंगा ८ । तं जहा, सिया विहत्तियो १, सिया अविहत्तियो २, सिया विहत्तिया ३, सिया अविहत्तिया ४, सिया विहत्तियो च सिया अविहत्तियो च ५, सिया विहत्तियो च सिया अविहत्तिया च ६, सिया विहत्तिया च अविहत्तियो च ७, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ८ । एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि वत्तव्वं । वेमण०-वेवच्चि० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अर्ण-ताणु०-चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । बारमक०-णवणोकसाय० सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तियो च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिण्णि भंगा । एवमाभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव०-

विशेषार्थ—ये ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें २६ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो सभी जीव हैं पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं ।

६ १५५. लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य कदाचित् होते हैं और कदाचित् नहीं होते । यदि होते हैं तो नियमसे सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वसे अतिरिक्त शेष छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले होते हैं । उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले नहीं होते हैं । तथा सम्यक्प्रकृतिकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं । वे इसप्रकार हैं—कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव होता है १ । कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाला एक जीव होता है २ । कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ३ । कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ४ । कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव और अविभक्तिवाला एक जीव होता है ५ । कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाला एक जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ६ । कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव और अविभक्तिवाला एक जीव होता है ७ । कदाचित् सम्यक्प्रकृतिकी विभक्ति और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं ८ । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा भी आठ भंग कहना चाहिये ।

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । तथा बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले कदाचित् सभी जीव हैं १ । कदाचित् अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २ । 'कदाचित् अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षु-

चक्खु०-अचक्खु०-ओहिदंसण-सणि ति वत्तव्वं ।

§ १५६. ओरालियमिस्स० जोगीसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय० सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तियो च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्त० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । एवं कम्मइय० वत्तव्वं । णवरि, सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया भयणिज्जा । वेउठ्वियमिस्स० जोगीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउक्काणं अट्ट भंगा । तं जहा, सिया विहत्तियो १, सिया अविहत्तियो २, सिया विहत्तिया ३, सिया अविहत्तिया ४, सिया विहत्तियो च अविहत्तियो च ५, सिया विहत्तियो च अविहत्तिया च ६, सिया विहत्तिया च अविहत्तियो च ७, सिया विहत्तिया च अविदर्शनी, अवधिदर्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें क्षीणकषाय गुणस्थान भी होता है और क्षीणकषायमें कदाचित् एक भी जीव नहीं रहता । यदि होते हैं तो कदाचित् एक और कदाचित् नाना जीव होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपर तीन भंग घटित करना चाहिये । शेष कथन सरल है ।

§ १५६. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें कदाचित् मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले सब जीव हैं । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं । इस प्रकार उक्त छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन भंग होते हैं । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले अनेक जीव नियमसे हैं । इसीप्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं ।

विशेषार्थ—ऊपर मिथ्यात्व आदि छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंके जो तीन भंग कहे हैं वे केवलीके कषाट समुद्घातपदकी अपेक्षासे कहे हैं, क्योंकि कदाचित् एक भी जीव केवलिसमुद्घात नहीं करता, कदाचित् अनेक जीव और कदाचित् एक जीव केवलिसमुद्घात करते हैं अतः उक्त तीन भंग बन जाते हैं । कार्मणकाययोगियोंमें ये तीन भंग प्रतर और लोकपूरण समुद्घातकी अपेक्षा घटित करना चाहिये । शेष कथन सरल है ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा आठ भंग होते हैं । वे इसप्रकार हैं—कदाचित् एक जीव उक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है १ । कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला है २ । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३ । कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ४ । कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और एक जीव अविभक्तिवाला है ५ । कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ६ । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले

हत्तिया चेदि ८ । बारसकसाय-णवणोकसायाणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया । एवमाहार०-आहारमिस्स०जोगीणं ।

§ १५७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । अट्टकसाय-णवुंसयवेदाणं सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । चत्तारिसंजलण-अट्टणोकसायाणं णियमा अत्थि विहत्तिया, अविहत्तिया णत्थि । एवं णवुंस०, णवरि इत्थिवेदे णवुंस०भंगो । पुरिसवेदे मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । अट्टक०-अट्टणोकसाय० सिया सव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । चत्तारिसंजलण-पुरिस-वेदाणं विहत्तिया णियमा अत्थि । अवगदवेदेसु चउवीसण्हं पयडीणं सिया सव्वे जीवा और एक जीव अविभक्तिवाला है ७ । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले है ८ । तथा बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं । इसीप्रकार आहारक काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके कथन करना चाहिये ।

§ १५७. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अपेक्षा कदाचित् सभी जीव विभक्तिवाले हैं । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं । इस प्रकार तीन भंग होते हैं । चार संज्वलन और आठ नोकषायोंकी अपेक्षा सभी स्त्रीवेदी जीव नियमसे विभक्तिवाले हैं, अविभक्तिवाले नहीं हैं । नपुंसकवेदी जीवोंके इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदके स्थानमें नपुंसकवेद कहना चाहिये । पुरुषवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्ति जीव नियमसे हैं । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और आठ नोकषायोंकी अपेक्षा कदाचित् सभी पुरुषवेदी जीव विभक्तिवाले हैं १ । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २ । कदाचित् अनेक पुरुषवेदी जीव विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन भंग होते हैं । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा सभी पुरुषवेदी नियमसे विभक्तिवाले हैं । अपगतवेदियोंमें कदाचित् सभी अपगतवेदी जीव चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं १ । कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है २ । कदाचित् अनेक जीव

अविहत्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तियो च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च एवं तिण्ण भंगा ।

§ १५८. कसायाणुवादेण कोधस्स पुरिसभंगो । णवरि, पुरिस० बेमणभंगो । एवं माणक० । णवरि कोध० बेमणभंगो । एवं मायक० । णवरि माण० बेमणभंगो । एवं लोभ० । णवरि माया० बेमणभंगो । एवं सामाइयच्छेदो० । अकसाय० अवगदवेद-भंगो । एवं जहाक्खाद० वत्तच्चं । सुहुमसांपराय० एक्कारसक०-णवणोकसाय-मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अट्टभंगा । तं जहा, सिया अविहत्तियो, सिया विहत्तियो, सिया अविहत्तिया, सिया विहत्तिया, सिया अविहत्तियो च विहत्तियो च, सिया अविहत्तियो च विहत्तिया च, सिया अविहत्तिया च विहत्तियो च, सिया अविहत्तिया च विहत्तियो च, सिया अविहत्तिया च विहत्तियो च, सिया अविहत्तिया च विहत्तियो च । लोभसंजलण० सिया विहत्तियो, सिया विहत्तिया ।

अविभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन भंग होते हैं ।

§ १५८. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भंग पुरुषवेदी जीवोंके समान होते हैं । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायीके पुरुषवेदकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकषायीके क्रोधकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीवोंके मानकषायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीवोंके मायाकषायकी अपेक्षा असत्य और उभय मनोयोगीके समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके कथन करना चाहिये । अकषायिक जीवोंके अपगतपेदियोंके समान कथन करना चाहिये । तथा इसीप्रकार यथाख्यात संयत जीवोंके कहना चाहिये ।

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय, नौ नोकषाय, मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं । वे इसप्रकार हैं—कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला है १ । कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है २ । कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३ । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ४ । कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला और एक जीव विभक्तिवाला है ५ । कदाचित् एक जीव अविभक्तिवाला और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ६ । कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है ७ । कदाचित् अनेक जीव अविभक्तिवाले और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ८ । लोभसंज्वलनकी अपेक्षा कदाचित् एक जीव विभक्तिवाला है और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ।

९ १५६. अमवसिद्विय० सव्वपयडीओ णियमा अत्थि । खइयसम्माइद्दीसु एकवीसपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । वेदगमम्मादिद्दीसु मिच्छत्त-सम्मामि० मिया मव्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तियो च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि भंगो । अणंताणु० चउकस्स विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । सम्मत्त-बारमक०-णवणोकसाय० विहत्तिया णियमा अत्थि । उवमममम्माइद्दीसु अणंताणुबंधिचउकस्स विह० अविह० अट्ट भंगो । सेसाणं पयडीणं मिया विहत्तियो, मिया विहत्तिया । एवं मम्मामि० । मासणेसु सव्वपय-डीणं सिया विहत्तियो सिया विहत्तिया । अणाहारएसु ओघभंगो । णवरि, सम्मत्त-मम्मामि० विह० भयणिज्जा ।

एवं णाणाजीवेहि भंग-विचओ समत्तो ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें कदाचित् एक जीव क्षपक ही होता है । कदाचित् एक जीव उपशमक ही होता है । कदाचित् अनेक जीव क्षपक ही होते हैं । कदाचित् अनेक जीव उपशमक ही होते हैं । कदाचित् एक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होता है । कदाचित् एक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं । कदाचित् अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक होता है तथा कदाचित् अनेक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपर २३ प्रकृतियोंकी अपेक्षा आठ भंग कहे हैं । पर वहा दोनों श्रेणीवालोंके लोभमंज्वलनका मत्त्व ही पाया जाता है । अतः इसकी अपेक्षा उपर्युक्त दो ही भंग होते हैं ।

९ १५६. अभव्योके ममी प्रकृतियां नियमसे हैं । क्षायिक, सम्यग्दृष्टियोंमें इक्षीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित् ममी जीव जीव मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले हैं १ । कदाचित् अनेक विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाला है २ । कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन भंग होते हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । किन्तु सभी वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्प्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं । शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा कदाचित् एक और कदाचित् अनेक जीव विभक्तिवाले हैं । इसीप्रकार सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कदाचित् एक जीव और कदाचित् अनेक जीव होते हैं । अनाहारक जीवोंमें ओघके समान समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं ।

§ १६०. भागाभागानुगमेण दुविहो णिद्दसो, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण छब्बीसं पयडीणं विहत्तिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंता भागा । अविहत्तिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । एवं सम्मत्त-सम्मामिं वत्तव्वं । णवरि, विवरीयं कायव्वं । एवं काययोगि-ओरालियमिस्सं-कम्मइयं-अचक्खुं-भव-सिद्धिं-आहारिं-अणाहारिं त्ति वत्तव्वं ।

विशेषार्थ—अभव्यों और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें कदाचित् दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक एक भी जीव नहीं पाया जाता, और कदाचित् एक जीव तथा कदाचित् अनेक जीव पाये जाते हैं । इसी दृष्टिसे ऊपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंके तीन भंग कहे हैं । उपशमसम्यक्त्व सान्तर मार्गणा है । इसमें कदाचित् एक जीव और कदाचित् अनेक जीव प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं । अतः इनके परस्पर संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं । मिश्रगुणस्थान भी सान्तर मार्गणा है । इसमें अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले कदाचित् एक और अनेक जीव प्रवेश करते हैं । अतः यहां भी परस्परके संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं । शेष कथन सुगम है ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ १६०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओषनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओषनिर्देशकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । अविभक्तिवाले सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां प्रमाणको बदल देना चाहिये । अर्थात् इन दोनों प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग हैं और अविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग हैं । इसीप्रकार काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मण-काययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—क्षीणकषाय गुणस्थानवाले आदि जीव ही छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं । शेष सब संसारी जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले होते हैं जो अनन्त बहुभाग हैं । इसी विवक्षासे ऊपर छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका भागाभाग कहा है । पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव थोड़े हैं क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवोंके ही इन दो प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता है जिनका प्रमाण इनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे स्वल्प है । अतः यहां अविभक्तिवालोंका प्रमाण अनन्तबहुभाग और विभक्तिवालोंका प्रमाण अनन्त एकभाग कहा है । ऊपर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना ।

§ १६१. आदेसेण गिरयगईए गेरईएसु मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विहत्तिया सव्वेजीवा० केव० ? असंखेज्जा भागा । अविहत्ति० सव्वजीवा० केव० भागो ? असंखेज्जदिभागो । मम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० सव्वजीवा० केवडिओ भागो ? असंखेज्जदिभागो । अविहत्तिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जा भागा । सेसाणं पयडीणं णत्थि भागाभागो । एवं पढमाए पुढवीए । पंचिदियतिक्खि-पंचित्तिरि० पज्ज०-देवा-सोहम्मामीणप्पहुडि जाव महस्सारेत्ति-वेउच्चिय०-वेउच्चियमिस्स०-तेउ०-पम्म० वत्तव्वं । विदियादि जाव मत्तमि ति एवं चेव वत्तव्वं । णवरि, मिच्छत्त-भागाभागो णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-वाण०-जोदिसि०वत्तव्वं ।

§ १६२. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-मम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०

§ १६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नरकियोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव सब नरकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । उक्त सात प्रकृतियोंके सिवाय शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा नारकियोंमें भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार पहली पृथिवी, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर सहस्रार स्वर्ग तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वहां मिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्त्यंच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—नरकमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असंख्यात होते हुए भी बहुभाग हैं और इनकी अविभक्तिवाले जीव एक भाग हैं । पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले एक भाग और अविभक्तिवाले बहुभाग हैं । इसी बातको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त भागाभाग कहा है । तथा पहली पृथिवीसे लेकर पद्मलेश्यावाले जीवोंके इसीप्रकार भागाभाग संभव है । अतः इनके भागाभागको सामान्य नारकियोंके भागाभागके समान कहा । किन्तु दूसरी पृथिवीसे लेकर और जितनी मार्गणाएँ ऊपर गिनाई हैं उनमें मिथ्यात्वका अभाव नहीं होता । अतः इसके भागाभागको छोड़कर शेष कथन सामान्य नारकियोंके समान जाननेका निर्देश किया है ।

§ १६२. तिर्त्यंचगतिमें तिर्त्यंचोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्ता-

विह० अविह० ओषभंगो । सेसणं णत्थि भागाभागो । एवमसंजद०-तिण्णिलेस्साणं वत्तव्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णेरइयभंगो । सेसाणं णत्थि भागाभागो । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदियअपज्ज०-तसअपज्ज०-चत्तारिकायवादर०सुहुम०-पज्जत्तापज्जत्त०-विहंग० वत्तव्वं ।

§ १६३. मणुसंगईए मणुस्सेसु मिच्छत्त-मोलसक०-णवणोकसाय० विहसिया सव्वजीवा० केवडिओ भागो? असंखेज्जा भागा । अविहत्ति० सव्वजीवा० केव० भागो? असंखेज्जादिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० सव्वजी० केव०? असंखेज्जादिभागो । अविह० सव्वजी० केव०? असंखेज्जा भागा । एवं पंचिंदिय-पंचिंदि०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-चक्खु०-ओहिदंस०-सुक०-सण्णि त्ति नुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले तिर्यचोका भागाभाग ओषके समान है । तिर्यचोमें शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन लेदयावाले जीवोंके कहना चाहिये । पंचेन्द्रियतिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्-प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नारकियोंके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवी कायिक आदि चार स्थावर काय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक बादर और सूक्ष्मके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—सामान्य तिर्यचोका प्रमाण अनन्त है, अतः वहां मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंकी अपेक्षा ओषके समान भागाभाग बन जाता है । शेष इक्कीस प्रकृतियाँ इनके सर्वदा पाई जाती हैं । ऊपर जो असंयत आदि चार मार्गणाँ गिनाई हैं वहा भी इसीप्रकार समझना । तथा पंचेन्द्रियतिर्यच लब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाँ ऊपर बतलाई हैं उनमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा इनका प्रमाण असंख्यात है अतः इनका भागाभाग सामान्य नारकियोंके समान कहा है ।

§ १६३. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षु-दर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेइयावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता

वत्तवं । णवरि, आभिणि०-सुद०-ओहिणाणि-ओहिदंसणीसु सम्म०-सम्मामि० मिच्छ-
त्तभंगो । सुक्कलेस्मि० दंमणतिय-अणंताणु० विह० संखेज्जा भागा । अवि० सखेज्ज-
दिभागो । मणुमपज्ज०-मणुसिणीणमेवं चैव । णवरि संखेज्जं कायव्वं । एवं मणपज्जव०-
संजद०-सामाइयच्छेदो० वत्तवं । णवरि, सामाइयच्छेदो० लोभ० भागाभागो णत्थि
एगपदत्तादो । आणद-पाणद० जाव मव्वट्टुसिद्धि ति मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणं-
ताणु० चउक्क० विह० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अविह० सव्वजी० केव० ?
संखेज्जदिभागो । सेसाणं णत्थि भागाभागो । एवमाहार०-आहारमिस्स०-परिहार०
वत्तवं ।

§ १६४. इंदियाणुवादेण एइंदिय० सम्मत्त-सम्मामि० ओघभंगो । सेसाणं णत्थि
भागाभागो । एवं बादरसुहुम-एइंदिय०-पज्ज०-अपज्ज०-वणप्फदि०-णिगोद०-बादर-
है कि मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अबधिज्ञानी और अबधिदर्शनी जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और
सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग मिथ्यात्वके समान है । तथा शुक्ललेइयावाले जीवोंमें
तीन दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सभी शुक्ललेइयावाले
जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । और अविभक्तिवाले जीव सभी शुक्ललेइयावाले जीवोंके
संख्यातवे भागप्रमाण हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोमें इमीप्रकार भागाभाग है ।
इतनी विशेषता है कि पूर्वमें जहां जहां अमंख्यात कहा है वहां वहां यहां संख्यात कर
लेना चाहिये । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-
संयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-
संयत जीवोंके लोभकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है क्योंकि वहा लोभ नियमसे है । आनत
और प्राणत स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धितक प्रत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्य-
ग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव उक्त स्थानोंके सभी जीवोंके
कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव उक्त
स्थानोंके सभी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवे भागप्रमाण हैं । यहां शेष प्रकृ-
तियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इमीप्रकार अहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी
और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

§ १६४. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी
अपेक्षा भागाभाग ओघके समान है । यहां शेष छन्वीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है ।
इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अप-
र्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगोदियाजीव,
बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वन-
स्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त,

सुहुम०-पञ्ज०-अपञ्ज०-मदि-सुद०-मिच्छादिष्टि-असण्णि त्ति वत्तव्वं ।

§ १६५. वेदाणुवादेण इत्थिवेदे पंचिदियभंगो । णवरि, चत्तारिसंजलण-अट्टणोक० भागाभागो णत्थि । एवं णउंस० वत्तव्वं । णवरि इत्थिवे० अत्थि भागाभागो । सव्वत्थ अणंतभागालावो कायव्वो । पुरिसवेदे पंचिदि०भंगो । णवरि, चत्तारिसंजलण-पुरिस० भागाभागो णत्थि । अवगदवेद० चउवीस० विह० सव्वजी० केव० ? अणं-तिमभागो । अविह० सव्वजी० केव० ? अणंता भागा । एवमकसाय०-सम्मादिष्टि-खइय० वत्तव्वं ।

§ १६६. कसायाणुवादेण कोध० ओघभंगो । णवरि, चत्तारिसंजलण० भागाभागो बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, बादर निगोद पर्याप्त जीव, बादर निगोद अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्या-दृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणावाले जीव अनन्त हैं और यहां सम्यक्त्व और सम्य-गिमध्यात्व इन दोनोंका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं तथा शेषका सत्त्व ही है । अतः इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त मार्गणाओंमें भागाभाग ओघके समान कहा है ।

§ १६५. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंके चार संज्वलन और आठ नोकपायकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंके स्त्रीवेदकी अपेक्षा भी भागाभाग होता है । परन्तु नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहते समय सर्वत्र असंख्यातभागके स्थानमें अनन्तभाग कहना चाहिये । पुरुषवेदी जीवोंमें पंचेन्द्रियोंके समान भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि इनके चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । अपगतवेदी जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त अपगतवेदी जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवे भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीव समस्त अपगतवेदी जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अकषायी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें स्त्रीवेदवाले और पुरुषवेदवालोंका प्रमाण असंख्यात है । इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणावालोंका प्रमाण अनन्त है । अतः जहां जितनी प्रकृतियोंका सत्त्व और असत्त्व पाया जाय उस क्रमको ध्यानमें रखकर उपर्युक्त व्यवस्थानुसार इन मार्गणाओंमें भागाभाग जानना ।

§ १६६. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भागाभाग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी जीवोंके चार संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता ।

णत्थि । एवं माण०, णवरि तिण्णिसंजलण० भागाभागो णत्थि । एवं माय०, णवरि दोण्हं संजलण० भागाभागो णत्थि । एवं लोभ०, णवरि लोभ० भागाभागो णत्थि । सुहुमसांपराय० तेवीमपयडि० विह० मच्चजी० केव० ? संखेज्जदिभागो । अविह० सच्चजी० केव० ? संखेज्जा भागा । लोभमंजलण० भागाभागो णत्थि० । जहाक्खाद० चउवीस० विह० केव० ? संखेज्जदिभागो । अविह० मच्चजी० केव० ? संखेज्जा भागा । संजदासंजद० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० चउक्क० विह० सच्चजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । अविह० केव० ? असंखे० भागो । सेसाणं णत्थि भागाभागो ।

इसीप्रकार मानकपायी जीवोंके भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि इनके मान आदि तीन संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार मायाकपायी जीवोंके भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि इनके माया और लोभ संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार लोभकपायी जीवोंके भागाभाग होता है । इतनी विशेषता है कि इनके लोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता ।

विशेषार्थ—क्रोधादि प्रत्येक कषायवाले जीव अनन्त हैं अतः इनका भागाभाग ओघके समान बन जाता है । शेष विशेषता ऊपर बतलाई ही है ।

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंमें तेईम प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्व सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अविभक्तिवाले समस्त सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके लोभसंज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । यथाख्यात संयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । संयतासंयत जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सब संयतासंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव सब संयतासंयतोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । संयतासंयत जीवोंमें शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसांपरायिक और यथाख्यातसंयत जीवोंमें उपशमश्रेणीवालोंसे क्षपकश्रेणीवाले संख्यातगुणे होते हैं, अतः इनका भागाभाग उक्त रूपसे कहा है । यद्यपि संयतासंयतोंका प्रमाण असंख्यात है तो भी उनमें मिथ्यात्व आदिकी सत्तासे रहित जीव अल्प हैं । अतः यहां भी इनकी अविभक्तिवालोंसे इनकी विभक्तिवाले असंख्यात बहुभाग कहे हैं । वहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता ।

§ १६७. अभव्वसिद्धि० छव्वीसंपयडि० भागाभागो णत्थि । वेदगसम्माइ० मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० सव्वजी० केव० ? अमंखेज्जा भागा । अविह० सव्वजी० केव० ? अमंखेज्जदिभागो । सेसाणं णत्थि भागाभागो । उवसम० अणंताणु०चउक्क० विह० मव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । अविह० सव्वजी० के० ? असंखेज्जदिभागो । सेसाणं णत्थि भागाभागो । एवं सम्मामि० वत्तव्वं । सासण० अट्टावीसपयडीणं णत्थि भागाभागो ।

एवं भागाभागो समत्तो ।

§ १६८. परिमाणानुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छव्वीसंपय० विह० अविह० केत्तिया ? अणंता । सम्मत्त०-सम्मामि० विह० केत्ति० ?

§ १६७. अभव्य जीवोंके छव्वीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व है इसलिये भागाभाग नहीं है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अमंख्यात बहुभाग-प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति-वाले जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अमंख्यात बहुभाग-प्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये । सब मासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता है इसलिये भागाभाग नहीं है ।

विशेषार्थ—अभव्योंमें सभीके छव्वीस प्रकृतियां ही पाई जाती हैं, अतः वहां भागा-भाग नहीं है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिध्यात्व और सम्यग्मि-ध्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृ-ष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं, अतः इनके इनकी अपेक्षा भागाभाग कहा है । सब सासादनसम्यग्दृष्टियोंके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है, अतः भागाभाग नहीं होता ।

इसप्रकार भागाभाग अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ १६८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति वाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ? सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ?

असंखेजा । अविहत्तिया अणता । एवमणाहारएसु वत्तव्वं ।

§ १६६. आदेसेण णिरयगईए षोरईएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि-अणताणु-चउक्क-
विह-अविह-केत्तिया ? असंखेज्जा । बारसक्क-णवणोक-विह-केत्तिया ? असंखेज्जा ।
एवं पंचिदियतिरिक्ख-पंचि-तिरि-पज्ज-देवा सोहस्मीमाण जाव अवराइद-वेउव्विय-
तेउ-पम्म-वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णवारि मिच्छत्तस्स
अविह-णत्थि । एवं पंचिदि-तिरि-जोणिणी-भवण-वाण-जोदिसिय-वत्तव्वं ।

§ १७०. तिरिक्खेगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-अणताणु-चउक्क-विह-केत्ति-
अणता । अविह-केत्ति-असंखेजा । सम्मत्त-सम्मामि-विह-केत्ति-असंखेजा ।
असंख्यात हैं । अविभक्ति वाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार अनाहारक
जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—ओषसे छब्बीस प्रकृतिवाले जीव अनन्त हैं, क्योंकि गुणस्थानप्रतिपन्न
जीवोंको छोड़कर शेष सभी संसारी जीवोंके छब्बीस प्रकृतियां पाई जाती हैं । तथा
अविभक्तिवाले भी अनन्त हैं, क्योंकि इनमें मिद्धोका भी ग्रहण हो जाता है । पर सम्य-
क्त्व और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिवाले जीव असंख्यात ही होते हैं, क्योंकि इन दो प्रकृ-
तियोंके कालमें संचित हुए जीवोंका प्रमाण अमख्यातसे अधिक नहीं होता । शेष सभी
जीव इन दो प्रकृतियोंसे रहित हैं अतः उनका प्रमाण अनन्त बन जाता है । छब्बीस
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालेमें अनाहारकोकी मुख्यता है । अतः अनाहारकोका कथन ओषके
समान करनेका निर्देश किया है ।

§ १६६. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्य-
ग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात
हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त, सामान्य देव, मौधर्म ऐशान
स्वर्गसे लेकर अपराजित स्वर्ग तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, पीतलेइयावाले और पद्म-
लेइयावाले जीवोंके कहना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक भी इसी
प्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि द्वितीयादि पृथिवीवाले नारकी जीव
मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नहीं हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमती, भवनवासी,
व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये ।

§ १७०. तिर्यचगतिमें तिर्यचोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले
जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्-
प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले
तिर्यच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले

अविह० केत्ति० ? अणंता । बारमक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? अणंता । एवमसंजद-तिण्णिलेस्सएत्ति वत्तव्वं । णवरि, किण्ह-णील्ले० मिच्छत्त० अविह० के० ? संखेज्जा । पंचि०तिरि०अपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० विह० असंखेजा । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदियअपज्ज०-चत्तारिकाय-बादरसुहुम०-तेसिंपज्ज०-अपज्ज०-बादर-बणप्फदि० पत्तेयसरीर०-बादरणिगोदपदिट्ठिद०-तेसिंपज्ज०-अपज्ज०-तमअपज्ज०-विहंग० वत्तव्वं ।

§१७१.मणुसगईए मणुस्सेसु छव्वीसंपयडीणं विह० केत्ति० ? असंखेजा । अविह० केत्ति० ? असंखेजा (संखेजा) । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा । मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु अट्ठावीस० विह० अविह० केत्तिया ? संखेजा । एवं मणपज्जव०-संजद०-सामाइय-छेदो० वत्तव्वं । णवरि सामाइयछेदो० लोह० अविह० णत्थि । सव्वट्ठ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० अविह० केत्ति० ? संखेजा । बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? असंखेजा (संखेजा) । एवमा-तिर्यंच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार असंयत और कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कृष्णलेश्यावाले और नील-लेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धयपर्याप्तक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभ-क्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं । इसीप्रकार लब्धयपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धयपर्याप्त, पृथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, बादर निगोद प्रतिप्रित तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रसलब्धयपर्याप्त और विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये ।

§१७१.मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले मनुष्य कितने हैं ? असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले कितने हैं ? संख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मि-थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें लोभकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । सर्वार्थमिद्धिमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सन्ध-ग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?

हार०-आहारमिस्म०-परिहार० वत्तव्वं ।

§१७२. इंदियाणुवादेण इंदियबादरसुहुम-तेसिंपज्ज०-अपज्ज० छव्वीमपयडि० विह-त्तिया केत्तिया ? अणंता । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० ओघभंगो । एवं वणप्फदि-णि-गोद०-तेसिं-बादर-सुहुम-तेसिं-पज्ज०-अपज्ज०-मदि-सुदअण्णाणि-मिच्छादि०-असण्णि त्ति वत्तव्वं । पांचिदिय-पांचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क० विह० अविह० णारयभंगो, बारसक०-णवणोकसाय० मणुसभंगो । एवं पंचमण०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-चक्खु०-ओहिदंस०-सुक्क०-सण्णि त्ति ।

§१७३. कायजोगीसु मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विह० के० ? अणंता । अविह० केत्तिया ? असंखेज्जा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघभंगो । बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? अणंता । अविह० संखेज्जा । एवमोरालिय०-अचक्खु० भवसिद्धि०-आहारएत्ति वत्तव्वं । ओगालियमिस्म० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक-संख्यात हैं । तथा बारहकषाय और नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

§१७४. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें छव्वीम प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा परिमाण ओघके समान है । इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोदिया जीव तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और अमंज्जी जीवोंके कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण नारकियोंके समान है । तथा बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सामान्य मनुष्योंके समान है । इसीप्रकार पांचों मनो-योगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेड्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

§१७५. काययोगी जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले काययोगी जीवोंका परिमाण ओघके समान है । बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले काययोगी जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा अविभक्तिवाले काययोगी जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, मत्त और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । औदारिकमिश्रकाययोगी

साय० विह० केत्ति० ? अणंता । अविह० केत्ति० ? संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० ओघभंगो । एवं कम्मइय० । णवरि, अणंताणुबंधिचउक्क० अविह० केत्ति० असंखेजा । वेउब्बियमिस्स० मिच्छत्त० विह० केत्ति० असंखेजा । अविह० के० ? संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा । बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० ? असंखेजा ।

११७४. वेदानुवादेण इत्थिवेदएसु मिच्छत्त-अट्टक०-णवुंम० विह० के० ? असंखेजा । अविह० संखेजा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० विह० अविह० के० ? असंखेजा । चत्तारिसंजलण-अट्टणोक० विह० के० ? असंखेजा । पुरिसवेद० पंचि-दियभंगो । णवरि, चत्तारिसंज०-पुरिस० विह० के० ? असंखेजा । णवुंसयवेदेषु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० तिरिक्खोघभंगो । अट्टक०-इत्थिवेद० विह० के० ? अणंता । अविह० के० ? संखेजा । चत्तारिसंजलण-अट्टणोकसाय० जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण ओघके समान है ।

इसी प्रकार कर्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले कर्मणकाययोगी जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । वैक्रियि-कर्मिणकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

११७४. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । चार संज्वलन और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । पुरुषवेदी जीवोंका परिमाण पंचेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । नपुंसकवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा परिमाण तिर्यंच ओघके समान है । आठ कषाय और स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं । संख्यात हैं । चार संज्वलन और आठ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं । अपगतवेदी जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ?

विह० अणंता । अवगदवेद० चउवीमंपयडीणं विह० के० ? मंखेज्जा । अविह० के० ? अणंता । एवमकसाय० वत्तव्वं । कोधकमाय० कायजोगिमंगो । णवरि, चत्तारि-संजलण० विह० के० ? अणंता । एवं माण० । णवरि तिण्णिसंजलण० विह० अणंता । एवं माय०, णवरि दोण्हं संजलणाणं विह० अणंता । एवं लोभ०, णवरि लोभविह० के० ? अणंता । सुहुममांपराय० दंमणतिय-एक्कारमक०-णवणोकसाय० विह० अविह० केत्ति० ? संखेज्जा । लोभमंजलण० विह० के० ? संखेज्जा । जहा-क्खवाद० चउवीमंपयडीणं विह० अविह० संखेज्जा । संजदामंजदंसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विह० के० ? असंखेज्जा । अविह० के० ? मंखेज्जा । अणंताणु० चउक्क० विह० अवि० के० ? असंखेज्जा । बारमक०-णवणोक० विह० के० ? असंखेज्जा । अभव्व० छव्वीसंपय० विह० के० ? अणंता । मम्मदिट्ठि०-खइय० मव्वपय० विह० के० ? असंखेज्जा । अविह० के० ? अणंता । वेदयम्मत्त० मिच्छत्त-सम्मामि० विह० संख्यात है । तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । अपगतवेदी जीवोंके समान अकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये ।

क्रोध कषायी जीवोंका परिमाण काययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायी जीवोंमें चार संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार मानकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानादि तीन संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकषायी जीवोंमें मायादि दो संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं । इसीप्रकार लोभकषायी जीवोंमें परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीवोंमें लोभसंज्वलनवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । यथाख्यातसंयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं । संयतासंयत जीवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं ।

अभव्योंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें उनके संभव सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । वेदकसम्यग्दृष्टि

के० ? असंखेज्जा । अवि० के० ? संखेज्जा । अणंताणु०चउक्क० विह० अविह० के० ? असंखेज्जा । सम्मत्त-वारसक०-णवणोकसाय० विह० के० ? असंखेज्जा । उव-ममसम्माइ० अणंताणु०चउक्क० विह० के० ? असंखेज्जा । अविह० के० ? असंखेज्जा । सेमपग्र० विह० असंखेज्जा । एवं सम्मामि० । सासण० अट्ठावीसंपयडीणं विह० के० ? असंखेज्जा ।

एवं परिमाणं ममत्तं ।

§१७५. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तन्थ ओघेण छब्बीसंपय-डीणं विह० केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । अविह० केव० खेत्ते ? लोगम्म असंखेज्जदि-भागे असंखेज्जेसु वा भागेसु सव्वलोगे वा । मम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विह० के० खेत्ते ? लोगस्स असंखे०भागे । अविह० मव्वलोगे । एवं तिरिक्ख०-सव्वएइंदिय०-जीवोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्प्रकृति, बारह कपाय और नौ तोक-षायोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अन-न्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति-वाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । सामादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—आदेशकी अपेक्षा जो सब मार्गणाओंमें परिमाण कहा है सो किस मार्गणावाले जीवोंका कितना प्रमाण है, किस मार्गणामें किन कारणोंसे कितनी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव होते हैं, इन सब बातोंका विचार करके विवक्षित मार्गणामें विभक्तिवाले तथा विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण निकाल लेना चाहिये । विशेष वक्तव्य न होने से अलग अलग विशेषार्थ नहीं लिखा ।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§१७५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें रहते हैं । छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग या लोकके असंख्यात बहुभाग या सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं ? अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रमें

चत्तारिकाय०-बादर-तेसिमपज्ज०-सुहुम०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेय०-तेसि-
मपज्ज०-बादरणिगोदपदिद्विद०-तेसिमपज्ज०-वणप्फदि०-बादर-सुहुम०-तेसि पज्ज०
अपज्ज०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवुंस०-चत्तारिक०-मदि
सुदअण्णाणि-असंजद०-अचक्खु०-तिण्णले०-भवसिद्धि०-अभवसिद्धि०-मिच्छादि०
असण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तच्चं । णवरि, काययोगि-कम्मइय०-भवसिद्धिय-
अणाहारिमगणाओ मोत्तूण अण्णत्थ केवलिपदं णत्थि । सेसाणं मगणाणं अट्ठावीस-
पयडीणं विहत्तिया के० खेत्ते ? लोगस्स असंखे०भागे । णवरि, बादरवाउपज्जत्ता
लोगस्स संखेज्जदिभागे । सव्वत्थ समुक्कित्तावसेण सव्वपयडीणं विहत्तियाविहत्तिय-
पदविसेसो च जाणिय वत्तव्वो ।

एवं खेत्तं समत्तं ।

रहते हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यच, सभी एकेन्द्रिय, पृथिवी कायिक आदि चार स्थावरकाय,
तथा ये चारों बादर और उनके अपर्याप्त, पृथिवी कायिक आदि चार सूक्ष्म और इनके
पर्याप्त तथा अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके अपर्याप्त, बादर निगोद-
प्रतिष्ठित तथा इनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन
दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी,
कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत,
अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेट्यावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारी
और अनाहारी जीवोंके कहना चाहिये । इननी विशेषता है कि इन उपर्युक्त मार्गणास्थानों-
मेंसे काययोगी, कर्मणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मार्गणाओंको छोड़कर अन्य मार्ग-
णाओंमें केवलिसमुद्धातपद सम्बन्धी विशेषता नहीं है । शेष मार्गणाओंमें अट्ठाईस प्रकृति-
योंकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते
हैं । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव लोकके संख्यातवें भागप्रमाण
क्षेत्रमें रहते हैं । सर्वत्र समुत्कीर्तनाके अनुसार सर्व प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति
पदोंमें जहां जो विशेषता हो उसको जानकर कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान क्षेत्र सब लोक है यह
तो स्पष्ट है, क्योंकि कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सबके छब्बीस प्रकृतियां
पाई जाती हैं । किन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाले जीव असंख्यात होते
हुए भी स्वल्प हैं अतः इनका वर्तमान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होगा अधिक
नहीं । तथा छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंमें सयोगी और सिद्ध जीव मुख्य
हैं, अतः इनका वर्तमान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग, लोकके असंख्यात बहुभाग और
सब लोक प्रमाण बन जाता है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवालोंमें

§ १७६. फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघे० लुब्बीसं पय० विह० केवडियं खेतं फोसिदं ? , सव्वलोगो । अविहत्तिएहि केवडि० खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा । सम्मत्त०-सम्मामि० विह० केव० ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो अट्ट घोइसभागा वा देसुणा सव्वलोगो वा । अविहत्ति० केव० ? सव्वलोगो । एवं तिरिक्खोषं सव्वएइंदिय-चत्तारिकाय-बादर-तेसिमपज्ज-सुहुम०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेय०-तेसिमप-ज्जत्त-बादरणिगोदपदिट्ठिद०-तेसिमपज्ज०-वणप्फदि०-बादर-सुहुम-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त-काययोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवुंस०-चत्तारिकसाय-मदि-सुद-अण्णाणि-असंजद०-अचक्खु०-तिण्णिलेस्सा-भवसिद्धि०-अभवसिद्धि०-मिच्छादिट्ठि०-एकेन्द्रिय मुख्य हैं और उनका वर्तमान क्षेत्र सब लोक है अतः उक्त दो प्रकृतियोंकी अवि-भक्तिवालोंका वर्तमान क्षेत्र भी सब लोक बन जाता है । यह सामान्य कथन हुआ । इसी प्रकार मार्गणाओंकी अपेक्षा कथन करते समय उक्त सभी प्रकृतियोंके सत्त्व और असत्त्वका विचार करते हुए जहां जो विशेषता भंभव हो उसके अनुसार कथन करना चाहिये । जिम्का संक्षेपमें ऊपर निर्देश किया ही है ।

इसप्रकार क्षेत्रानुयोगद्वारा ममाम हुआ ।

§ १७६. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आवेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा लुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोकका स्पर्श किया है । अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, लोकके असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका, त्रस नाडीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यंच, सभी एकेन्द्रिय, पृथिवीकाय आदि चार स्थावर काय, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुका-यिक और इन चार बादरोंके अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदि चार स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, काययोगी, औदारिककाय-योगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य,

असण्णि०-आहारि०-अणाहारि ति वत्तव्वं । णवरि, अभवसिद्धि० सम्मत्त-सम्मामि० (वज्जाणं) अविह० णत्थि । कायजोगि०-कम्मइय०-भवसिद्धिय-अणाहारिमग्गणाओ मोत्तूण अण्णन्थ केवल्लिपदं णत्थि । तिरिक्खोघम्मि अणंताणुबंधिचउक्कअविहत्ति-याणं छ चोइसभागा । एवमोरालिय०-णवुंसयवेदाणं वत्तव्वं । एदेसु मिच्छ० अविह० लोगस्स अमंखे० भागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अट्ट चोइसभागा णत्थि । चत्तारि कसाय-अमंजद-अचक्खु० मिच्छ०-अणंताणु० अविह० अट्ट चोइसभागा । तिण्णि-लेस्सा० लोगस्स असंखे० भागा । वुत्तसेस मग्गणासु सम्मत्त-सम्मामि० वज्जाण-मविहत्तिया णत्थि, अण्णन्थ वि विसेसो अत्थि सो जाणिय वत्तव्वो ।

§१७७. आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु अट्टावीसपयडीणं विह० मम्मत्त-सम्मामि० अविह० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स अंसंखज्जदिभागो, छ चोइसभागा वा देखणा ।

मिध्याष्टि, असंखी, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अभव्य जीवोंके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्ति नहीं है । तथा काययोगी, कार्मणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मार्गणाओंको छोड़कर उपर्युक्त शेष मार्गणाओंमें केवल्लिममुद्गात पद नहीं है । मामान्य तिर्यंचोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी और नपुंसकवेदी जीवोंके कहना चाहिये । इन उक्त मार्गणाओंमें मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्श त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागप्रमाण नहीं है । क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । उपर जिन मार्गणाओंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अभावकी अपेक्षा स्पर्श कहा है उन मार्गणाओंको छोड़कर उपर कही गई शेष मार्गणाओंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व को छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । इनके अतिरिक्त औदारिक-मिश्र हाययोगी आदि मार्गणाओंमें भी विशेषता है सो जान कर उसका कथन करना चाहिये ।

§१७७. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ

मिच्छा० अणंताणु० ४ अविह० केव० ? लोगस्स असंखे० भागो । पढमपुढवीए खेत्तभंगो । एवं णवगेवज्ज० जाव सव्वट्ठ०-वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-अवगदवेद-अकसाय-मणपज्जव०-संजद-सामाहयछेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खादेत्ति वचण्वं । णवरि, अवगदवेद-अकसाय-संजद-जहाक्खादेसु अविहत्तियाणं केवलिभंगो कायव्वो । अण्णत्थ वि पदविसेसो जाणियव्वो । विदियादि जाव सत्तमि त्ति सव्वपयडीणं विहत्तिएहि सम्मत्त-सम्मामि० अविहत्तिएहि य केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे-ज्जदिभागो एक वे तिण्ण चत्तारि पंच छ चोद्दसभागा वा देसुणा । अणंताणु० अविह० लोग० असंखे० भागो ।

§१७८. पंचिंदियतिरिक्खतिएसु सव्वपयडीणं विह० सम्मत्त-सम्मामि० अविह० केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो सव्वलोगो वा । अणंताणु० ४ अविह० केव० ? लोग० असंखे० भागो छ चोद्दसभागा । पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि० कम ब्रह्म भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले सामान्य नारकियोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । पहली पृथिवीमें स्पर्श क्षेत्रके ममान होता है । इसी प्रकार नौ प्रवेयकमे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंके तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकपायिक, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धिमंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी, अकपायी, संयत और यथारुयानसंयत जीवोंमें उक्त मात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्श केवलिसमुद्दातपदके समान कहना चाहिये । तथा ऊपर कहे गये मार्गणास्थानोंमेंसे मनःपर्ययज्ञानी आदि अन्य मार्गणास्थानोंमें भी पदविशेष जान लेना चाहिये ।

दूसरी पृथिवीसे लेकर मातवीं पृथिवी तक सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रमनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, तथा ब्रह्म भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अनन्तानुबन्धीकी अविभक्तिवाले उक्त द्वितीयादि पृथिवीके नारकियोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ १७८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यचोंमें सर्व प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया

पञ्ज० मिच्छ० अविह० केत्र० ? लोग० अमंखे० भागो । एवं पंचि०तिरि०अपञ्ज०-
मन्त्रमणुम्स-मन्त्रविगलिदि य-पंचिदियअपञ्ज०-तसअपञ्ज० बादरपुढवि०-बादरआउ०-
बादरतेउ०-बादरवणफदिपत्तेय०-बादरणिगोदपदिद्विदपञ्जताणं वत्तव्वं । णवरि,
मणुस्सतिए अविहत्तियाणं केवलभिंगो कायव्वो । अणत्थ सम्म०-सम्मामि० वज्जा-
णमविह० णत्थि । बादरवाउपञ्जत्त० सच्चपयडि० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह०
के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स संखेज्जदिभागो मन्वलोगो वा । णवरि, सम्म०-
सम्मामि० विह० वट्टमाणेण लोग० असंखे० भागो ।

§१७६. देवेषु सच्चपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स
अमंखे० भागो, अह णव चोद्दमभागा वा देसुणा । मिच्छत्त-अणताणु० अविह० लोगस्सं
असंखे० भागो अह चोद्दमभागा वा देसुणा । एवं सोहम्मीसाणेषु । भवण०-वाण०-जो
है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रम नालीके चौदह भागोंमेंसे छह भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्श किया है । पंचेन्द्रिय नियंत्रण और पंचेन्द्रिय नियंत्रण पर्याप्तकोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्ति-
वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श
किया है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय नियंत्रण लब्धपर्याप्तक, सब प्रकारके मनुष्य, सभी विकले-
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक, त्रम लब्धपर्याप्तक, बादर पृथिवीकाधिक पर्याप्त, बादर जल-
काधिक पर्याप्त, बादर अग्निकाधिक पर्याप्त. बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त और बादर
निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये । इनकी विशेषता है कि मामान्य मनुष्य,
पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियोंमें उक्त सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाले मनुष्योका स्पर्श केवल-
समुद्रात पदके समान कहना चाहिये । इनके अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य पंचेन्द्रिय नियंत्रण लब्ध-
पर्याप्तक आदि मार्गणाओंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी
अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । बादर वायुकाधिक पर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले
जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका
स्पर्श किया है ? लोकके मंख्यातवें भाग क्षेत्रका और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।
इतनी विशेषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले बादर वायुका-
धिक पर्याप्त जीवोंने वर्तमान कालकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§१७६. देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यक्प्रकृति और सम्य-
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें
भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ तथा नौ भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्श किया है ? मिथ्यात्व और अनन्नानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देवोंने लोकके
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार सौधर्म और पेशान स्वर्गमें देवोंके स्पर्शका कथन करना

दिसि०सव्व-पय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखेज्जदिभागो, अद्दुट्ट अट्ट णव चोहसभागा वा देसूणा । अणंताणु०चउक्क० अविह० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागो, अद्दुट्ट अट्ट चोहसभागा वा देसूणा । सणक्कुमारदि जाव महस्सारेत्ति सव्वपय० विह० दंमणतिय-अणंताणु० ४ अविह० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्म असंखे०भागो, अट्ट चोहसभागा वा देसूणा । आणद-पाणद-आरणच्चुद० सव्वपयडि० विह० मत्तपयडि० अविह० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, छ चोहसभागा वा देसूणा ।

§ १८०. पंचिंदिय-पंचि०पज्ज०-तम-तमपज्ज० मव्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्म असंखे० भागो, अट्ट चोहसभागा वा देसूणा सव्वलोगो वा । सेस० अविह० केवल्लिभंगो, णवरि अणंताणुबंधि० अविह० अट्ट चोहसभागा वा देसूणा । एवं पंचमण०-पंचवचि० इत्थि-पुरिमवेदेसु वत्तव्वं । णवरि, चाहिये । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले भवनवासी आदि देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । मनकुमार स्वर्गमें लेकर महम्मर स्वर्ग तकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और दर्शनमोहनीयकी तीन तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ १८०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम और त्रमपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त चार प्रकारके जीवोंका स्पर्श केवल्लिगमुद्गातपत्रके समान है । इत्ती विज्ञेयत्वा है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त चार प्रकारके जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार पांचों

केवलभंगो णात्थ । चक्खुदंमणी-सण्णीणमेवं चेव वत्तव्वं । वेउच्चियकायजोगिं सव्वपयं विहं सम्मं-सम्मामिं अविहं केवं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट तेरह चोदसभागा वा देसूणा । मिञ्चलत्त-अणंताणु० ४ अविहं लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट चोदसभागा वा देसूणा ।

§ १८१. अभिणि०-सुद०-ओहिं सत्तपयं विहं सत्तपयं अविहं केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो अट्ट चोदसभागा वा देसूणा । सेसं अविहं खेत्तभंगो । एवमोहिदंसणं-सम्मदि०-खइयं-वेदयं-उवसमं-सम्मामिञ्छाइट्ठीणं वत्तव्वं । णवरि, अविहत्तियं गदि-[पद]विसेसो जाणिय वत्तव्वो । विहंगं सव्वपयं विहं सम्मत्त-सम्मामिं अविहं के० खेत्तं फोसिदं ? लोगं असंखे० भागो, अट्ट चोदसभागा वा सव्वलोगो वा ।

§ १८२. संजदासंजदं सव्वपयं विहं अणंताणुं अविहं के० खेत्तं फोसिदं ? मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें केवलिसमुद्रातपदके समान स्पर्श नहीं है । चक्षुदर्शनी और मंजू जीवोंके भी इमी प्रकार कथन करना चाहिये । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले वैक्रियिककाययोगी जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ १८१. मतिज्ञानी भुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मान प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त मतिज्ञानी आदि जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इमी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकमस्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यक्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोंके पदविशेष जानकर कहना चाहिये । विभंगज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोगके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ १८२. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अनन्तानुबन्धी

लोग० असंखे० भागो, छ चोइसभागा वा देखणा । दंसणतिय० अविह० खेचभंगो । एवं सुकलेस्सि० । णवरि अविह० केवलिपदमत्थि । तेउ० सोहम्मभंगो । पम्म० सणक्कुमारभंगो । सासण० सब्बपय० बिह० के० खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट बारह चोइसभागा वा देखणा ।

एवं फोसणं समत्तं ।

§१८३. कालानुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टावीसं-पयडीणं विहत्तिया केवचिरं कालादो होति ? मव्वद्दा । एवं जाव अणाहारएत्ति वत्तव्वं । णवरि, मणुसअपज्ज० छवीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केवचिरं कालादो होति ? जह० खुद्दामवग्गहणं एगममओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । वेउव्वियमिस्सम० छवीसं पय० सम्मत्त-सम्मामि० विह० केव० ? जह० अंतोसुहुत्तं चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्तिवाले संयतासंयत जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार शुक्ललेइयावाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले शुक्ललेइयावाले जीवोंके केवलसमुद्धातपद् है । पीत लेइयावाले जीवोंका स्पर्श सौधर्म स्वर्गके समान है । पद्मलेइयावाले जीवोंका स्पर्श सानत्कुमार स्वर्गके समान है । सासादन सम्यग्गृष्टि जीवोंमें मव प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रमनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

इसप्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार भमाप्त हुआ ।

§१८३. कालानुगमकी अपेक्षासे निर्देश दो प्रकारका है -ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? मर्व काल है । अर्थात् जिनके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसे जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लब्धयपर्याप्तक मनुष्योंमें छवीस प्रकृतियोंकी और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? छवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है और सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है । तथा दोनोंका उत्कृष्ट काल पल्लोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । वैकियिकमिधकाययोगी जीवोंमें छवीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है । तथा दोनोंका

एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । आहार० अट्टावीसं पय० विह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवमवगद०-अकसाय-सुहुमसांपराय-जहाक्खादाणं, णवरि चउवीमपय० वत्तव्वं । आहारमिस्स० अट्टावीमपय० विहत्ति० के० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० अंतोमुहुत्तं । उवममसम्मा० अट्टावीसपय० विह० के० ? जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । एवं मम्मामि० । सासण० अट्टावीसपय० विह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । कम्मइय०-अणाहार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उक्क० आवलियाए असंखेज्जदि-भागो ।

एवं णाणाजीवेहि कालो समत्तो ।

उत्कृष्ट काल पर्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आहारककाययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अपगतवेदी, अकपाथी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके उक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चौबीस प्रकृतियां कहना चाहिये । आहारकमिश्र काययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त है । उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है । जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पर्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । सामान्यसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पर्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—ओवसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं यह तो स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त सान्तर मार्गणाओंको छोड़कर तथा अपगतवेदी, अकपाथी और यथाख्यातसंयत जीवोंको छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमें भी अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा हैं यह भी स्पष्ट है । पर सान्तर मार्गणाओं और उक्त स्थानोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका सर्वदा पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व आदि आठ मार्गणाएं स्वयं सान्तर हैं, इन मार्गणाओंवाले जीव सर्वदा नहीं होते, तथा अपगतवेदी, अकपाथी और यथाख्यातसंयत जीव यद्यपि पाये तो सर्वदा जाते हैं पर इनका सर्वदा पाया जाना सयोगियों की अपेक्षासे जानना चाहिये और सयोगी

§१८४. अंतराणुगमेण दुविहो णिद्दसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टावीसण्हं पयडीणं विहत्तियाणमंतरं केव० ? णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारएत्ति वत्तव्वं । णवरि मणुस-अपज० अट्टावीसंपयडीणमंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं । वेउत्तियमिस्स० छव्वीसंपय० विहत्ति० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० बारस मुहुत्ता । सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं केव० । जह० एगसमओ, उक्क० चउवीस मुहुत्ता । आहार०-आहारमिस्स० अट्टावीसंपय० विहत्ति० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । एवम-अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिसे रहित होते हैं । इसलिये यहां ऐसे अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यातसंयत जीव विवक्षित हैं जो चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हों । ग्यारहवें गुण स्थान तकके ही जीव ऐसे हो सकते हैं । पर उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणीपर जीव सर्वदा नहीं चढ़ते । अतः इस विवक्षासे ये तीन स्थान भी सान्तर हैं । इस प्रकार इन सान्तर मार्गणाओंमें और अपगतवेदी आदि स्थानोंमें सम्भव सब प्रकृतियोंका यथासम्भव काल जानना चाहिये जो ऊपर कहा ही है । इन मार्गणाओंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जो जघन्य और उत्कृष्ट काल खुदाबन्धमें बतलाया है वही यहां पर लिया गया है । उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिये यहां उसका खुलासा नहीं किया है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

§१८४. अन्तरानुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है ? अन्तरकाल नहीं है, क्योंकि २८ प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लब्धपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पन्धोपम-के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त है । सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके

कसाय०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । णवरि चउवीमपयडिआलावो कायव्वो । अवगदवेद०
मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अट्टकसाय-दोवेद० विह० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ,
उक्क० वासपुधत्तं । सेसपय० विह० अंतरं के० ? जह० एगममओ, उक्क० छम्मासा ।

§ १८५. सुहुमसांपराइय० दंसणतिय-एक्कारमक०-णवणोकसाय० विहं० अंतरं
केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० वामपुधत्तं । लोभसंजलण० विहत्ति० अंतरं जह०
एगसमओ उक्क० छम्मासा । उवसममम्माइटी० अट्टावीमपय० विह० अंतरं के० ?
जह० एगसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ताणि । मनरादिंदियाणि त्ति क्किण्ण परूविज्जे ?
ण, पाहुडगंथाभिप्पाएण उवसमसम्माइटीणं मत्तगदिंदियंतरणियमाभावादो ।
कम्मइय०-अणाहार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतरं जह० एगममओ, उक्क० अंतो-
मुहुत्तं । सव्वत्थ अविहत्तियाणं कालंतगपरूवणा जाणिय कायव्वा, सुगमत्तादो ।

एचमंतरं ममत्तं

कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें, चौबीस प्रकृतियोंका कथन करना चाहिये । अपगतवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, आठ कपाय और दो वेदकी विभक्तिकाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एकसमय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति-वाले अपगतवेदी जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है ।

§ १८५. सूक्ष्मसांपरायिक भेद्यत जीवोंमें तीन दर्शनसोहनीय, ग्याग्ह कपाय और नौ नोकपायकी विभक्तिकाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । लोभसंजलणकी विभक्तिकाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिकाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासिक चौबीस दिन रात है ।

शंका--अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले उपशमसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन रात क्यों नहीं कहा ?

समाधान--नहीं, क्योंकि कसायपाहुः ग्रन्थके अभिप्रायानुसार उपशमसम्यग्दृष्टियोंका अन्तरकाल सात दिन रात होनेका नियम नहीं है ।

कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । सभी मार्गणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोंके काल और अन्तरका कथन जानकर करना चाहिये, क्योंकि उसका कथन सुगम है ।

१८६६ भावाणुगमेण दृविहो णिहेमो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मन्व-
 विशेषार्थ-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये ओषकी
 अपेक्षा इनका अन्तर नहीं है । गतिमार्गणा से लेकर अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार
 जानना । पर जो आठ सान्तर मार्गणां और अकपायी, यथाख्यातसंयत, अवगतवेदी, कर्म-
 षकाययोगी तथा अनाहारक जीव हैं इनमें अन्तरकाळ पाया जाता है । सान्तर मार्गणाओंमें
 लब्धयपर्याप्त मनुष्य, मासादन, मिश्र, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और
 उपशमसम्यग्दृष्टियोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाळ है वही यहाँ अट्टाईस
 प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना । वैक्रियिक
 मिश्रकाययोगियोंमें छवीम प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-
 काल वही है जो वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है । केवल
 सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल चौवीम सुहूर्त है, इतनी
 विशेषता है । उपशमश्रेणीकी अपेक्षा उपशान्तमोह और यथाख्यातसंयतोंका जघन्य अन्तर
 एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्षव होता है इसी अपेक्षासे अकपायी और यथा-
 ख्यातसंयतोंमें चौवीम प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर आहारककाय योगियोंके समान
 कहा है । तथा अपगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, आठ कपाय
 और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल उपशमश्रेणीकी अपेक्षा जानना । उपशम-
 श्रेणीका अन्तर ऊपर बतलाया ही है । तथा शेष प्रकृतियोंका अन्तर क्षपकश्रेणीकी अपेक्षासे
 जानना । क्षपकश्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होता
 है । इसीप्रकार सूक्ष्मसंप्रदायिक जीवोंके कथन करना । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसं-
 परायमें क्षपकश्रेणीवालोंके एक सूक्ष्म लोभ रहता है अतः इसका अन्तर क्षपकश्रेणीकी
 अपेक्षासे और शेष प्रकृतियोंका अन्तर उपशमश्रेणीकी अपेक्षाने कहना । कर्मणकाययोगी
 और अनाहारकोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जो
 जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त कहा है उसका मतलब यह है कि
 उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव कसरे कस एक एक समय तक और अधिकसे अधिक
 अन्तर्सुहूर्त काल तक मरकर विप्रहर्गतिमें नहीं जाते हैं । यहाँ प्राभूत ग्रन्थके अभिप्रायानुसार
 उपशमसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात न बतलाकर साधिक चौवीम
 दिन रात बतल या है मो प्रकृतमें प्राभूत ग्रन्थसे मूल कमायपाहुड, उमकी चूर्णि और
 उच्चारणावृत्ति इन सबका ग्रहण होता है । क्योंकि इसका अधिकतर खुलासा उच्चारणावृत्तिमें
 ही मिलता है ।

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

१८६६. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ निर्देश और आदेश निर्देश

पयडीणं जे विहत्तिया नेमिं को भावो ? ओदइओ भावो । कुदो ? संतेसु वि अवसे-
सभावेसु तेसु विवक्त्वाभावादो ।

एवं भावो समचो

१८७. अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्था-
णप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा, सच्चत्थोवा छव्वीसंपयडीणं अविहत्तिया, विहत्तिया
अणंतगुणा । के ते ? उवसंतकसायप्पहुडि जाव मिच्छादिट्ठि त्ति । सम्मत्त-सम्मामि-
च्छत्ताणं सच्चत्थोवा विहत्तिया । के ते ? अट्ठावीस-सत्तावीस-चउवीससंतकम्मिया
तेवीम-वावीमसंतकम्मिया च । अविहत्तिया अणंतगुणा । के ते ? छव्वीस-एक्कीस
संतकम्मियप्पहुडि जाव सिद्धा त्ति । एवं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालिमिस्स०-
उनमें से ओघकी अपेक्षा सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके कौन भाव है ? औदयिक
भाव है, यद्यपि उनके अन्य भाव भी रहते हैं किन्तु यहां उनकी विवक्षा नहीं है ।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

११८७. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ।
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हैं । वह इसप्रकार है-छव्वीस
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे छव्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव
अनन्तगुणे हैं ।

शंका-छव्वीम प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ?

समाधान-उपशान्तकपायसे लेकर मिथ्यादृष्टि तकके जीव छव्वीम प्रकृतियोंकी
विभक्तिवाले होते हैं ।

सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं ।

शंका-सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ?

समाधान-जिनके अट्ठाईस, सत्ताईस, चौबीस, तेईस और बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता
पाई जाती है वे सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव हैं ।

सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे इन दो प्रकृतियोंकी
अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं ?

शंका-जिनके सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति नहीं पाई जाती है
वे जीव कौनसे हैं ?

समाधान-छव्वीस प्रकृतिवाले जीव और इक्कीस प्रकृतिवाले जीवोंसे लेकर सिद्ध
जीवों तकके सब जीव उक्त दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं ।

इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी
और नपुंसकवेदों जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें आठ

कम्मइय०-णवुंस । णवरि णवुंमयवेदे अट्टणोकमाय-चदुमंजलणाणं अविहत्तिया णत्थि । आहारि-अणाहारीणं भवसिद्धियाणं च ओघभंगो ।

§१८८. आदेसेण णिरयगईए णेगईएसु मव्वत्थोवा सम्मत्त-मम्मामिच्छत्ताणं विहत्तिया अविहत्तिया असंखेज्जगुणा । मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्काणं मव्वत्थोवा अविहत्तिया, विहत्तिया असंखेज्जगुणा । एवं पढमपुढवि-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-देव-सोहम्मादि जाव सहस्सारेत्ति वत्तव्वं । विदियादि जाव मत्तमि त्ति सव्वत्थोवा अणंता-णुबंधिचउक्क० अविहत्तिया, विहत्तिया-[अ] संखेज्जगुणा । सम्मत्त-मम्मामिच्छत्ताणं नोकपाय और चार संज्वलनोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं । आहारक, अनाहारक और भव्य जीवोंके अल्पबहुत्वका भंग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—बारहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तकके जीव तथा सिद्ध जीव ऐसे हैं जिनके मोहनीय कर्मकी सत्ता नहीं पाई जाती । किन्तु शेष ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीवोंके मोहनीय कर्मकी सत्ता है । इसलिये प्रकृतमें मोहनीयकी लब्धीम प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालोंसे उन्हींकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे बतलाये हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे उनकी अपेक्षा अल्पबहुत्व अलगसे कहा है । उममें भी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता सब जीवोंके नहीं पाई जाती किन्तु जो उपशम सम्यग्दृष्टि हैं, या जिन्होंने वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया है, या जिन्होंने इन दो प्रकृतियोंकी क्षण अथवा उद्वेलना नहीं की है उन्हींके इन दो प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है शेष सब संसारी जीवोंके और मुक्त जीवोंके इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, इसलिये इन दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवालोंसे अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इन सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कौन जीव हैं और अविभक्तिवाले कौन जीव हैं इसका निर्देश मूलमें किया ही है ।

§१८८. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इन दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवी, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त, सामान्यदेव और सौभर्म स्वर्गसे लेकर महस्मार स्वर्ग तकके देवोंके कहना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर मातवीं पृथिवी तक प्रत्येक नरकमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । जिन मार्गणाओंमें जीवोंका प्रमाण असंख्यात है उन सभी मार्गणाओंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन नारकियोंके समान करना चाहिये । आशय यह है कि असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओंमें सम्यक्-

असंखेजरासीसु मन्वत्थ गिरयमंगो । एवं पंचिदियातिरिक्खजोणिणी०-भवण०-वाण० जोदिसिय त्ति ।

§१८६. तिरिक्खेसु सन्वत्थोवा मिच्छन्त अणंताणुबंधिचउक्काणं अविहत्तिया, विहत्तिया अणंतगुणा । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं विवरीयं वत्तव्वं । एवमेइंदिय-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-वणप्फदिकाइय-णिगोद-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मदि-सुदअण्णाण भ्रसण्णि त्ति वत्तव्वं । णवरि मिच्छत्त-अणंताणु० अप्पाबहुअं णत्थि; अविहत्तिया-णमभावादो । पंचिदियातिरिक्खअपज्जत्त-मणुमअपज्जत्त० तसअपज्जत्त०-पंचिदिय-अपज्जत्त०-सव्वविगलंदिअ-पज्जत्तापज्जत्त-पुठवि-आउ-तेउ-वाउ० तेसिं-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेयमरीर-पज्जत्तापज्जत्त-बादरणिगोदपदिट्ठिद-पज्जत्ता-प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके जानना चाहिये ।

§१८६. तिर्यचोमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । यहां सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन इस उपर्युक्त कथनसे विपरीत करना चाहिये । अर्थात् तिर्यचोमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म तथा बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा बादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, निगोद जीव, बादरनिगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव तथा बादर और सूक्ष्म निगोद जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्स्यजानी, श्रुताजानी और असंयत जीवोंके कथन करना चाहिये । इनकी विशेषता है कि इन एकेन्द्रियादि जीवोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तक, मनुष्य लब्धपर्याप्तक, त्रस लब्धपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्तक, विकलेन्द्रिय अपर्याप्तक, पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इन चारोके बादर और सूक्ष्म तथा बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, बादरनिगोदप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनकी अवि-

पज्जत्तएसु सव्वत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विहत्तिया, अविहत्तिया असंखेज्जगुणा ।

§ १६०. मणुमपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा अट्ठावीसंपयडीणं अविह०, विह० संखेज्जगुणा । आणदादि जाव सव्वट्ठेत्ति सव्वत्थोवा सत्तपयडीणं अविह०, विह० संखेज्जगुणा । वेउट्ठिवय०-वेउट्ठिवयमिस्म०-तेउ०-पम्म० देवमंगो । एवं जाणिदूण षेद्वं जाव अणाहारएत्ति ।

§ १६१. परन्थाणप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स विहत्तिया, मम्मामिच्छत्तस्स विहत्तिया विसेसाहिया । केत्तियमेत्तो विसेसो ? वात्रीसविहत्तिएणूणसत्तावीसविहत्तियमेत्तो । लोहसंजलणस्स अविहत्तिया अणंतगुणा । को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमसंखेज्जदिभागो । को पडि० ? सम्मामि० विहत्ति०पडिभागो । मायासंज० अविहत्तिया विसेसाहिया । केत्तियमेत्तो विसेसो ? लोहसंखवगमेत्तो । माणसंजल० अविह० विसेसा० । भक्तिवाले जीव अमंख्यातगुणे हैं ।

§ १६०. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । आनन स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सयसे थोड़े हैं । तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी पीतलेख्यावाले और पद्मलेख्यावाले जीवोंमें मामान्य देवोंके समान अल्पबहुत्व कहना चाहिये । इसी प्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक कहना चाहिये ।

§ १६१. परस्थान अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तियाले जीव मधसं थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तियाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण क्या है ? सत्ताईस प्रकृतियोंकी विभक्तियाले जीवोंके प्रमाणमेंसे बाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है । सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तियाले जीवोंसे लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । गुणकारका प्रमाण क्या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा या सिद्धोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है । प्रतिभागका प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तियाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना प्रतिभागका प्रमाण है । लोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण क्या है ? लोभ संज्वलनकी क्षपणा करने वाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? मायासंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण

के०मेत्तो वि० ? मायासंजलणखवगमेत्तो । कोधमंज० अवि० विसेसा० । के० मेत्तो ? माणमंजलणखवगमेत्तो । पुरिस० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? कोधमंजल० खवगमेत्तो । छण्णोक्क० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? पुरिस० णवकबंधकखवगमेत्तो । इत्थिवेद० अविह० विसे० । के० मेत्तो ? छण्णोक्कसायखवगमेत्तो । णवुंस० अविह० विसे० । के० मेत्तो ? इत्थि०खवगमेत्तो । अट्टकसायाणं अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? तेरसविहत्तियमेत्तो । मिच्छत्तस्स अविह० विसेसा । के० मेत्तो ? तेवीस-वावीस-इगवीसविहत्तियमेत्तो । अणंताणु०चउक्क० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? चउवीसविहत्तियमेत्तो । तंसिं चेव विहत्तिया अणंतगुणा । को गुणगारो ? अणंताणुबंधि० अविहत्तियविरहिदसन्वजीवरासिम्हि अणंताणुबंधि० अविहत्तिएहि

है उतना विशेषका प्रमाण है । मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? मानसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? क्रोधसंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? पुरुषवेदके नवकवन्धकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है । छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ? विशेषका प्रमाण कितना है ? छह नाकषायोंकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? स्त्रीवेदकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अ^अनन्तगुणे हैं । गुणकारका प्रमाण कितना है ? अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवालोंसे रहित सर्व जीव राशिमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाली जीवराशिका भाग देनेपर जो लब्ध

भागे हिदे जं भागलद्धं सो गुणगारो । मिच्छत्तस्स विहत्तिया विसेसाहिया । के० मेत्तेण ? चउवीसविहत्तियमेत्तेण । अट्टक० विह० विसेसा० । के०मेत्तो ? तेवीस-वावीस-इगवीसविहत्तियमेत्तो । णवुंम० विह० विसेमा । के० मेत्तो ? तेरसविहत्तियमेत्तो । इत्थिवेद० विह० विसे० । के० मेत्तो ? बारसविहत्तियमेत्तो । छण्णोकसाय० विह० विसे० । के० मेत्तो ? एक्कारसविहत्तियमेत्तो । पुरिस० विह० विसे० । के० मेत्तो ? पंचविहत्तियमेत्तो । क्रोधसंजल० विह० विसेसा० । के० मेत्तो ? चत्तारिविहात्तियमेत्तो । माणसंज० विह० विसे । के० मेत्तो ? तिण्णिविहत्तियमेत्तो । संज० विह० विसे० । के० मेत्तो ? दोण्हं विहत्तियमेत्तो । लोभसंजल० विह० विसे० । के० मेत्तो ? एगविहत्तियमेत्तो । सम्मामि० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ? सम्मामिच्छत्तविहत्तिय-आवे उतना गुणकारका प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? बारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? ग्यारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? पांच प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? तीन प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? एकविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना

विरहिलोभमंजल० अविहत्तियमेत्तो । मम्मत्तम्म अविहत्तिया विसेमाहिया । के० मेत्तो ? वावीमविहत्तिण्हि ऊणगत्तावीमविहत्तियमेत्तो ।

§ १६२. आदेभेग शदियाणुवादाण पिरयगईए णेरईएसु मव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अविहत्तिया । के ते ? श्मिन्नीम वावीमंनकम्मिया । अणंताणु० चउक्क० अविहत्तिया असंखेज्जगुणा । कां गुणगारे ? आवलियाए अमंखेज्जदिभागो । कुदो ? चउवीस-संतकम्मियग्गहणादो । समनस्स विहत्तिया अमंखेज्जगुणा । को गुण० । आवलियाए अमंखेज्जदिभागो । कुदो ? वावीम-चउवीसविहत्तियमहिद-अट्टावीससंतकम्मिय-ग्गहणादो । मम्मामि० विह० विसे० । के० मेत्तो ? वावीमविहत्तिण्हि परिहीण-हैं । लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवालोक प्रमाणसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवालोक प्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रहे उतना है । सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंके प्रमाणसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है ।

§ १६२. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा गतिमार्गणके अनुवादसे नरकगतिये नारकियोंसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव सबसे गेड़े हैं ।

शुंका—नारकियोंसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ।

समाधान—इककीय और चउवीस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले हैं ।

मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारकी असंख्यातगुणे हैं । गुणकारका प्रमाण क्या है ? गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है । इतने गुणित होनेका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीवोंमें चोवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकियोंका ग्रहण किया गया है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं । गुणकारका प्रमाण क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग है । इतने गुणित होनेका कारण यह है कि यहां बाईस और चोवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके साथ अट्टाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीवोंका ग्रहण किया है । सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके प्रमाणसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले नारकियोंका प्रमाण घटा देने

सत्तावीससंतकम्मियमेत्तो । मम्मामिच्छत्त-अविहत्तिया अमस्येज्जगुणा । को गुणगारो ? मम्मामि० विहत्तिण्हिं किंचूणणेइयविकखंभसूचीण ओवट्टिदाए जं भागलद्धं तत्तिय-मेत्तसेठीओ गुणगारो । कुदो ? छब्बीमविहत्तियाणं पाटण्णेण गहणादो । सम्मत्त अविह० विसे० । के० मेत्तो ? वावीमविहत्तियुणसत्तावीससंतकम्मियमेत्तो । अणंताणु० चउक्क० विह० विसेसा० । के० मेत्तो ? एव्वीमविहत्तिण्हिं गृणअट्टावीमविहत्तिय-मेत्तो । मिच्छत्त० विह० विसेसा० । केत्ति० ? चउवीमविहत्तियमेत्तो । बारमक०-णव-णोकसायविह० विसेसा० । के० मेत्तेण ? वावीस-इगवीमविहत्तियमेत्तेण । एवं पढमपुढवी-पांचिंदियतिरिक्ख-पांचि०तिरिक्खपज्जत्त-देव-माहम्मिभाण जाव महस्मार-वेउच्चिय० वेउच्चियमिस्स०-त्तेउ०-पम्म० उत्तव्वं ।

पर जो प्रमाण शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है । सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव अमस्येज्जगुणे हैं । गुणकारका प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले नारकियोंके प्रमाणसे नारकियोंकी कुछ कम विष्कम्भसूचीके भाजित कर देनेपर जो भाग लब्ध आवे उतनी जगद्वृणियां प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण है । इसका कारण यह है कि सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियोंमें छब्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका प्रधानरूपसे ग्रहण किया है । सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके प्रमाणमेंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके प्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है । सम्यक्प्रकृतिवाली अविभक्तिवाले नारकियोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? अट्टाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके प्रमाणमेंसे अट्टाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका प्रमाण घटा देनेपर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकियोंसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकियोंसे बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? बाईस और इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका जितना प्रमाण है उतना है । इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्यदेव, सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें लेकर सत्कार स्वर्ग तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, पीतलेइयावाले और पद्मलेइयावाले जीवोंके कहना चाहिये ।

§ १६३. विद्यादि जाव मत्तमीए सव्वन्थोवा अणंताणु० चउक्क० अविह० । सम्मत्त० विह० असंखेज्जगुणा । मम्मामि० विह० विसेसा० । तस्सेव अविह० अमंखे० गुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० विहत्ति० विसेसा० । वावीसं-पयडीपं विह० विसेसा० । एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणी भवण-वाण०-जोदिसि० वत्तव्वं ।

§ १६४. तिरिक्खेसु मव्वन्थोवा मिच्छन्न० अविह० । अणंताणु० चउक्क० अविह० असंखेज्ज-गुणा । सम्मत्तविह० असंखेज्जगुणा । मम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंत-गुणा । सम्मत्तअविह० विसे० । अणंताणुबंधीचउक्कविह० विसेसा० । मिच्छत्तविह० विसेसा० । बारसक०-णवणोकमाय० वि० विसे० । एवमसंजद०-क्किण-णील-काउ-लेस्सा० । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मव्वन्थोवा मम्मत्त० विहत्तिया । मम्मामि० विह० विसेसा० । तस्सेव अविह० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० । मिच्छत्त-सोल-

§ १६३. दूसरी पृथिवीसे लेकर मातवी पृथिवी तक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले नारकी जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यात-गुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच योनीमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये ।

§ १६४. तिर्यचोमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तिर्यच जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले तिर्यच जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले तिर्यच जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले तिर्यच जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तिर्यच जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले तिर्यच जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तिर्यच जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले तिर्यच जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले तिर्यच जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार असंयत, कृष्णलेद्यावाले, नील-लेद्यावाले और कपोतलेद्यावाले जीवोंके जानना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष

सक०-णवणोकमाय० विह० विसे० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिंदिय-पंचि-
दियअपज्ज०-तमअपज्ज०-चत्तारिकाय-बादग्-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्ते-
यसरीग्-पज्जत्तापज्जत्त-बादरणिगोदपदिट्ठिद-तेमि पज्जत्तापज्जत्त-विभंगणाणीणं
वत्तच्चं ।

§ १६५. मणुमगईण मणुमेसु सव्वन्थोवा लोभसंजल० अविहात्तिया । के ते ? स्त्रीण-
कसायप्पहुडि जाव अजोगिकेवल्लि ति । मायासंजल० अविह० विसे० । माणसंजल० अविह०
विसे० । क्रोधसंजल० अविह० विसे० । पुगिस० अविह० विसे० । छण्णोकमाय-अविह० विसे० ।
इत्थि० अविह० विसे० । णवुंम० अविह० विसे० । अट्टक० अविह० विसे० । मिच्छत्त०
अविह० संखे० गुणा । अणंताणु० चउक्क० अविह० संखेज्जगुणा । सम्मत्त० विह० असंखेज्ज-
गुणा । सम्मामि० विह० विसेमा० । तस्सेव अविह० अमंखेज्जगुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० ।

अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तियाँ जीव
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, भभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध-
पर्याप्तक, त्रम लब्धपर्याप्तक, पृथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय, तथा उनके बादर
और सूक्ष्म तथा बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक
शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर निगोदप्रतिप्रितप्रत्येकशरीर तथा इनके पर्याप्त
और अपर्याप्त तथा विभंगजानी जीवोंके कहना चाहिये ।

§ १६५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें लोभसंजलनको अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं ।

शंका—लोभसंजलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य कौनसे हैं ?

समाधान—क्षीणकपाय गुणस्थानने लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीव
लोभसंजलनकी अविभक्तिवाले हैं ।

लोभसंजलनकी अविभक्तिवाले मनुष्योंमें मायासंजलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य
विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंजलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे
क्रोधसंजलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्ति-
वाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष
अधिक हैं । इनसे श्रीवेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसक-
वेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले
मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुणे हैं ।
इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्-
प्रकृतिकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे हैं । इनमें सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले
मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुणे
हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी

अणंताणुचउक्क० विह० विसे० । मिच्छत्त० विह० विसे० । अट्टक० विह० विसे० । णवुंस० विह० विसे० । इत्थि० विहात्ति० विसे० । छण्णोकमायविह० विसे० । पुरिस० विह० विसे० । कौधसंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे० । मायासंजल० विह० विसे० । लोहसंजल० विह० विसे० । मणुमपज्जत्ताणमेवं चैव । णवग्गि, जम्हि अमंवेज्जगुणं तम्हि संखेज्जगुणं कायव्वं । मणुसिणीसु मव्वन्थोवा लोभसंजल० अविह० । मायासंज० अविह० विसे० । माणसंजल० अविह० विसेमाहिया । कौधसंजल० अविह० विसे० । मत्तणोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णवुंस० अविह० विसे० । अट्टकसाय० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० मंगेज्जगुणा । अणंताणु० चउक्क० अविह० मंगेज्जगुणा । मम्मत्त० विह० मंगेज्जगुणा । सम्मामि० विह० विसेमा० । तम्सेव अविह० मंगेज्जगुणा । सम्मत्त० अविह० विमे० । अणंताणु० चउक्क० विह० विसे० ।

चतुष्ककी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपार्योंकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे लोभ संज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । मनुष्य पर्याप्त जीवोके इसी प्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहां अमंख्यातगुणा है वहां संख्यातगुणा कहना चाहिये । मनुष्यनियों में लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनमें मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोध संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें सात नोकपार्योंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनमें सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले

मिच्छत्त० विह० विसे० । अट्टक० विह० विसे० । णवुंम० विह० विसे० । इत्थि० विह० विसे० । सत्तणोक्क० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० । माणसंजल०-विह० विसे० । मायासंजल० विह० विसे० । लोभसंजल० विह० विसे० ।

§१६६.आणद-पाणदप्पहुडि जाव उवार्मगेवज्ज त्ति मच्चथोवा मिच्छत्त०अविह० । सम्मामिच्छत्त०अविह० विसेमा० । सम्मत्त० अविह० विसेसा० । अणंताणु० चउक्क० अविह० संखेज्जगुणा । तस्सेव विह० संखेज्जगुणा । सम्मत्त० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसेसा० । मिच्छत्त० विह० विसेसा० । बारमक० णवणोक्क० विह० विसे० । अणुदिसादि जाव मच्चट्टे त्ति सच्चथोवा सम्मत्त० अविह० । मिच्छत्त-सम्मामि० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० अविह० संखेज्जगुणा । तस्सेव विह० संखेज्जगुणा । मिच्छत्त-सम्मामि० विह० विसेमा० । सम्मत्त० विह० विसेमाहिंया । बारसक०-णवणोक्क० विह० विसे० ।

जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ननुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सात नोरुपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मायामंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे लोभमंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

§१६६.आनत और प्राणत स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रवेयक तक मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपाय और नौ नोरुपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपाय और नौ नोरुपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

§ १६७. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सच्चत्थोवा सम्मत० विह० । सम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । सम्मत० अविह० विसे० । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणो-क० विह० विसे० । एवं बादर-सुहुम-गइंदिय-तेमि पज्जत्तापज्जत्त-वणप्फदि०-णिगोद०-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छाइट्ठि-अमणिण ति वत्तव्वं ।

§ १६८. पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त-तम-तमपज्जत्त० सच्चत्थोवा लोभसंजल० अविह० । मायामंजल० अविह० विसे० । माणसंज० अविह० विसे० । क्रोधमंजल० अविह० विसे० । पुरिस० अविह० विसे० । छण्णोकसाय० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णवुंस अविह० विसे० । अट्टक० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अवि० असंखेज्जगुणा । अणंताणु० चउक्क० अविह० असंखेज्जगुणा । सम्मत० विह० असंखेज्जगुणा । सम्मामि० विह० विसे० । तस्संव अविह० असंखेज्जगुणा । सम्मत० अविह० विसे० । अणंताणु०

§ १६७. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी आविर्भाक्त्वाले जीव अनन्तगुण हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पतिकार्यिक, निगोद, बादर वनस्पतिकार्यिक, सूक्ष्म वनस्पतिकार्यिक बादर वनस्पतिकार्यिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकार्यिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकार्यिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकार्यिक अपर्याप्त, बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादर्श और अभंजा जीवाक कहना चाहिये ।

§ १६८. पंचान्द्रिय, पंचान्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे माया संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मान संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोध-संज्वलनकी आविर्भाक्त्वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे स्त्री-वेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष

चउक० विह० विसे० । मिच्छत्त० विह० विसे० । अट्ठक० विह० विसेसा० । णवुंस० विह० विसेमा० । इत्थि० विह० विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिस० विह० विसे० । कोधसंजल० विह० विसे० । माणसंजलण० विह० विसे० । मायामंजल० विह० विसेसा० । लोभमंजल० विह० विसे० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु०-सण्णि चि वत्तव्वं ।

§१६६. काययोगीसु मव्वत्थोवा लोभमंजल० अविह० । मायासंजल० अविह० विसे० । माणमंजल० अविह० विसे० । कोधसंजल० अविह० विसे० । पुरिस० अविह० विसे० । छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णवुंस० अविह० विसे० । अट्ठक० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० असंखेज्जगुणा । अणंताणु० चउक० अविह० असंखेज्जगुणा । मम्मत्त० विह० असंखेज्जगुणा । मम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक० विह० विसे० । अधिक है । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधमंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानमंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है । इनसे मायामंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है । इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंक कहना चाहिये ।

§१६६. काययोगी जीवोंमें लोभमंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाल जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानमंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक है । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे सम्यकप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अन-

मिच्छत्त० विह० विसे० । अट्टक० विह० विसे० । णचुंम० विह० विसे० । इत्थि० विह० विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिम० विह० विसे० । कांधमंजल० विह० विसे० । माणसंजल० विह० विसे० । मायामंजल० विह० विसेमा० । लोभमंजल० विह० विसे० । एवमोगलिय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारगुत्ति वत्तत्वं ।

§ २००. ओगलियमिस्म० मव्वन्थोवा वारमक०-णवणोक० अविह० । मिच्छत्त० अविह० संखेज्जगुणा । अणंताणुचउक्क० अविह० संखेज्जगुणा । मम्मत्त० विह० अमंखेज्जगुणा । सम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मम्मत्त० अवि० विसे० । अणंताणु०चउक्क० विह० विसे० । मिच्छत्त० विह० विसे० । वारमक०-णवणोक० विह० विसे० । एवं कम्मइय० । णवरि, मिच्छत्त अविहत्तियाणमुवरि अणंताणु०चउक्क० अविह० असंखेज्जगुणा । आहार०-आहारमिस्म० मव्वन्थोवा मिच्छत्त-मम्मत्त-न्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ रूपोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे स्रग्वेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ब्रह्म नोकपायकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधमञ्जलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानमञ्जलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे लोभमंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसीप्रकार औदारिककाययोगी, अचतुदर्शनी, भय ओर आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

§ २००. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण है । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अनन्ता-

मम्मामि० अविहत्तिया । अणंणाणु० चउक० अवि० मंखेज्जगुणा । तस्सेव विह० संखेज्जगुणा । मिच्छन्-सम्भत्त-सम्मामि० विह० विसेया० । बारमक० णवणीकसाय० विह० विसे० ।

§२०१. वेदाणुशादण इत्थि० मन्वन्थांवा णवुंम० अविह० । अट्टक० अविह० संखेज्जगुणा । कुदा ? बा० अविहत्तिणहिंती तेरमविहत्तियाणमद्वापडिभागेण मंखेज्जगुणत्तसिद्धीए पडिबंधाभावादो । ण च ओयमणुस्मगईयादिसु वि एमो पमंगो आमंकणिज्जो; तन्थ सिद्धमजोगीणं पसुहभावेणाद्वापडिभागस्स पहाणत्ताभावादो । एमो नुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिकाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनमे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिकाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनमे मिश्रयात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिश्रयात्वकी विभक्तिकाले जीव विशेष अधिक है । इनसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिकाले जीव विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अविभक्तिकाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीव वे हैं जो कषाय और प्रतर समुद्धान अनस्थाको प्राप्त हैं । इसलिये ये सबसे थोड़े बतलाये हैं । तथा मिश्रयात्वकी अविभक्तिकाले औदारिक मिश्रकाययोगियोंमें, जो ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि देव और नारको मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं वे, और जो ज्ञायिकमस्यग्दृष्टि या कृतकृत्यवेदकमस्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर मनुष्यों और निर्यंचोमें उत्पन्न होते हैं वे लिये गये हैं, इसलिये ये प्रतीक जीवोंने संख्यातगुणे बतलाये हैं । इसी प्रकार आगेका अल्पबहुत्व भी घटित कर लेना चाहिये ! किन्तु कामंणकाययोगियोंमें जो मिश्रयात्वकी अविभक्तिकालेसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिकाले जीव अमंख्यातगुणे बतलाये हैं सो इसका कारण यह है कि यहा चारों गतिगोंके कामंणकाययोग अवस्थामें स्थित अनन्तानुवन्धीके विसंयोजक जीव लिये गये हैं । अतः इनके अमंख्यातगुणे होनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

§२०१. वेद मार्गणाके अनुवादसे श्रीवर्गी जीवोंमें नपुंसकवेदकी अविभक्तिकाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिकाले जीव संख्यातगुणे हैं । क्योंकि बारह प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीव कालमन्वन्धी प्रतिभागसे संख्यातगुणे सिद्ध होते हैं । अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिकाले जीवोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिकाले जीव संख्यातगुणे है ऐसा माननेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । पर इससे सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदि मार्गणाओंमें भी यह प्रसंग प्राप्त होता है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहा सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदिमार्गणाओंमें सिद्ध और मयोगी जीवोंका मुख्य रूपमें ग्रहण किया गया है, इसलिये वहां काल मन्वन्धी प्रतिभागकी प्रधानता नहीं है । यह अर्थ यथासंभव अन्य मार्गणाओंमें

अत्थो जहामंभवमण्णत्थ वि वत्तव्वो । तदो मिच्छत्त० अविह० संखेज्जगुणा । अणंताणु० चउक्क० अविह० असंखेज्जगुणा । मम्मत्त० विह० अमंखेज्जगुणा । मम्मामि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अमंखेज्जगुणा । मम्मत्त० अविह० विसेमा० । अणंताणु० चउक्क० विह० विसे० । मिच्छत्त० विह० विसे० । अट्ठक० विह० विसे० । णवुंस० विह० विमे० । चत्तारिमंजल० अट्ठणो०क० विह० विसे० । पुग्गिमवेदे मव्वन्थोवा छण्णोक्क० अविह० । इत्थिवेद० अविह० मंखेज्जगुणा । णवुंस० अविह० विसे० । अट्ठक० अविह० [संखेज्ज] गुणा । गत्थ कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । सेसपंचिदियभंगो जाव छण्णोक्कमाय० विह० विसेमाहियात्ति । तदुव्वरि चत्तारि मंजल० पुग्गिम० विह० विसे० । णवुंसए सव्वन्थोवा इत्थि० अविह० । अट्ठक० अविह० मंखेज्जगुणा । सेमं पंचिदियभंगो । णवुरि, मम्मामि० अविह० अणंतगुणा । उवरि वि इत्थिवेदविहत्तिभी कहना चाहिये । आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव अमंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अमंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । उनमें चार मंज्वलन और आठ नोकषायकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । पुरुषवेदी जीवोंमें छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । उनसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । यहां पर कारण पहलेके समान कहना चाहिये । अर्थात् बारह प्रकृतिक विभक्तिस्थानके कालसे तेरह प्रकृतिक विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है । इसके आगे छह नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं इस स्थानतकका अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । तथा इसके ऊपर चार मंज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । नपुंसकवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंमें सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । तथा आगे भी स्त्रीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ नोकषाय

एहिंतो अट्टणोक०- चटुमंजलणविहत्तिया विसेमाहिया ति वत्तव्वं । अवगदवेदे मव्व-
त्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विह० । अट्टक०-इत्थि०-णवुंसं० [विह० विसेमा० ।
छण्णोकसा० विह० विसे०] । पुरिम० विह० विसे० । क्रोधमंजल० विह० विसे० । माण-
मंजल० विह० विसे० । मायामंजल० विह० विसे० । लोभमंजल० विह० विसे० । तस्सेव
अविह० अणंतगुणा । मायासंजल० अविह० विसे० । माणसंजल० अविह० विसे० ।
क्रोधमंज० अविह० विसे० । पुरिम० अविह० विसे० । छण्णोकसाय० अविह० विसे० ।
अट्टक०-इत्थि०-णवुंसं० अविह० विसे० । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० विसे० ।

§ २०२. कसायाणं [(णु) वादेण कोहकसाईसु सव्वत्थोवा पुरिम०] अविह० ।
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थिवेदअविह० विसे० । णवुंसं० अवि० विसे० । अट्टक०
और चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ऐसा कहना चाहिये ।

अपगतवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले
जीव सबसे थोड़े हैं । इनमें आठ कपाय, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव
विशेष अधिक हैं । इनमें छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें
पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें क्रोधमंज्वलनकी विभक्तिवाले
जीव विशेष अधिक हैं । इनमें मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।
इनमें मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें लोभसंज्वलनकी
विभक्तिवाले विशेष अधिक हैं । इनमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे
हैं । इनमें मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें मानसंज्वलनकी
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें क्रोधमंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष
अधिक हैं । इनमें पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें छह नोक-
पायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें आठ कपाय, स्त्रीवेद और नपुंसक-
वेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्य-
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

§ २०२. कपाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायवाले जीवोंमें पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले
जीव सबसे थोड़े हैं । इनमें छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें
स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनमें नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव
विशेष अधिक हैं । इनमें आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष कथन

(१) स०००० (त्रु० १५) पु-स० ।-स० अविह० मव्वत्थोवा गण्णोक० विसे० पु-अ०, आ० ।

(२) कसायाण० (त्रु० १५) अविह०-स० । कसायाणमण्णत्थ विसेमाहिया ति लोभमज्ज०

अविह०-अ०, आ० ।

अविह० संखेजगुणा । सेसस्स ओघभंगो जाव पुरिस० विहत्तिओ त्ति । तदुवरि चत्तारि संज० विह० विसे० । एवं माण०, णवरि तिण्णिक० विह० विसे० । एवं माया०, णवरि दोण्णिक० विह० विसे० । एवं लोभ०, णवरि लोभ० विह० विसेमाहिया । अकसायीसु सव्वत्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया । [अट्टक०], णवणोक्क० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० विसे० । एवं जहाक्खाद० । णवरि जम्हि अणंतगुणा तम्हि संखेजगुणा वत्तच्चं ।

§२०३. आभिणि०-सुद०-ओहि० सव्वत्थोवा लोभसंजल० अविह० । मायासंजलण० अविह० विसे० । एवं जाव अट्टक० अविह० । सम्मत्त० अविह० असंखेजगुणा । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० विसे० । अणंताणुबंधिचउक्क० अविह० असंखेजगुणा । तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिच्छत्त० विह० विसे० । सम्मामिच्छत्त० 'पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं' इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान है । इसके आगे चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार मान कषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व कहना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि चार संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसीप्रकार मायाकषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार लोभ कषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

अकषायी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे उन्हींकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ऊपर पूर्वमें जहां अनन्तगुणा कहा है वहां यथाख्यातसंयतोंके संख्यातगुणा कहना चाहिये ।

§२०३. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । आगे आठ कषायोंकी अविभक्तिस्थान तक इसी प्रकार कथन करना चाहिये । आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीवोंसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे उन्हींकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष

विह० विसे० । सम्मत्त० विह० विसे० । अट्टक० विह० विसे० । एवं जाव लोभ० विह० विसे० । एवमोहिदंस० । मणपज्जव०-संजदाणं पि एवं चेव । णवरि, जम्हि असंखेज्जगुणं तम्हि संखेज्जगुणं कायच्चं । एवं सामाइयच्छेदो० वत्तच्चं । णवरि, अट्टक० अवि० संखेज्जगुणा । लोभसंजल० अविह० गत्थि । परिहार० सव्वत्थोवा सम्मत्त० अविह० । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० अविह० संखेज्जगुणा । तस्सेव विह० संखेज्जगुणा । मिच्छत्त० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मत्त० विह० विसे० । बारसक०-णवणोक्क० विह० विसे० । एवं संजदासंजदाणं । णवरि, जम्हि संखेज्जगुणा तम्हि असंखेज्जगुणा । सुहुमसांपराइय० सव्वत्थोवा दंसणतियस्स विह० । वीसपय० विह० विसे० । तेसिं चेव अविह० संखेज्जगुणा । दंसणतिय० अविह० विसे० । लोभसंजल० विह० विसे० ।

अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । आगे 'इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं' इस स्थान तक इसी प्रकार कहना चाहिये । इसी प्रकार अवधदर्शनी जीवोंके अल्पबहुत्व कहना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके भी इसीप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मतिज्ञानी आदि जीवोंके जहां अमंख्यातगुणा कहा है वहां इनके संख्यातगुणा कहना चाहिये । इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें आठ कपायकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तथा इन दोनों संयत जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्ति नहीं हैं । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि जहां परिहारविशुद्धिसंयतोंके संख्यातगुणा है वहां इनके असंख्यातगुणा है । सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें तीन दर्शनमोहनीयकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे उन्हीं बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तीन दर्शनमोहनीयकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

§ २०४. सुक्क० सव्वत्थोवा लोभसंजल० अविह० । मायासंज० अविह० विसे० । माणसंज० अवि० विसे० । क्रोधसंज० अविह० विसेसा० । पुरिस० अविह० विसे० । छण्णोक्क० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णडुंम० अविह० विसेसा० । अट्टक० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० असंखेज्जगुणा । सम्मामि० अविह० विसे० । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० अविह० संखेज्जगुणा । तस्सेव विह० संखेज्जगुणा । एवं विवरीदकमेण सेमाणं विसेमाहियत्तं वत्तवं । अभव-सिद्धि०-सासण० णत्थि अप्पावहुगं ।

§ २०५. सम्मादिट्टिसु सव्वत्थोवा अणंताणु० चउक्क० विह० । मिच्छत्त० विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मत्त० विह० विसे० । अट्टक० विह० विसे० । एवं जाव लोभं विहत्तिओ त्ति विसे० । तस्सेव अविह० अणंतगुणा । मायासंजल०

§ २०४. शुक्लेश्यावाले जीवोंमें लोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष-अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोक-पायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे स्त्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे उमीकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार आगे विपरीतक्रमसे शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंको उत्तरोत्तर विशेषाधिक कहना चाहिये ।

अभव्य जीव और साक्षात्त सम्यग्दिष्टि जीवोंके अल्पबहुत्व नहीं है क्योंकि वे सब जीव क्रमसे छब्बीस और अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही होते हैं ।

§ २०५. सम्यग्दिष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । आगे इसी प्रकार लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवों तक विशेष अधिक कहना चाहिये । लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे उसीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे

अविह० विसे० । माणसंजल० अविह० विसे० । क्रोधसंज० अविह० विसे० । पुरिस० अविह० विसे० । छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० । णवुंसय० अविह० विसे० । अट्ठक० अविह० विसे० । मम्मत्त अविह० विसे० । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० अविह० विसे० । एवं खइय-सम्माइटीसु । णवरि, अट्ठकसायादि कायव्वं । वेदगसम्मा० सव्वत्थोवा सम्मामि० अविह० । मिच्छत्त अविह० विसे० । अणंताणु० चउक्क० अविह० असंखेज्जगुणा । तस्सेव विह० असंखेज्जगुणा । मिच्छत्त विह० विसे० । सम्मामि० विह० विसे० । सम्मत्त-बारसक०-णवणोक० विह० विसे० । उवसममम्मा० सव्वत्थोवा अणंताणु० चउक्क० अविह० । तस्सेव विह० असंखेज्जगुणा । चउवीसंपय० विह० विसे० । एवं सम्मामि० ।

§ २०६. अणाहार० सव्वत्थोवा सम्मत्त० विह० । सम्मामि० विह० विसे० । बारसक०-णवणोक० अविह० अणंतगुणा । मिच्छत्त० अविह० विसे० । अणंताणु०-क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे भीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यकप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । इनकी विशेषता है कि इनके आठ कपायोंकी विभक्तिवालोंकी आदि लेकर कहना चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सम्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यकप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । उपशमसंयग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये ।

§ २०६. अनाहारक जीवोंमें सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपाय और नौ

चउक्क० अविह० विसे० । तस्सेव विह० अणंतगुणा । मिच्छत्त० विह० विसे० ।
 बारसक्क०-णवणोक्क० विह० विसे० । सम्मामि० अविह० विसे० । सम्मत्त० अविह०
 विसे० ।

एवमप्पाबहुगं ममत्तं ।

॥ एवमेगेग-उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ॥

नोकपायीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कपाय और नौ नोकपायीकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

इम प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार एकैक उत्तरप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई ।



*पयडिट्टाणाविहत्तीए इमाणि अणियोगद्वाराणि । तं जहा, पंगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत्तं फोमणं कालो अंतरं अप्पावहुअं भुजगारो पदणिकखेवो वडिह त्ति ।

§२०७. मिच्छतादियाओ पयडीओ त्ति घेत्तव्वाओ; क म्पयडिं मोत्तूण अणणपयडीहि अहियाराभावादो । चिट्ठंति एत्थ पयडीओ त्ति ट्ठाणं । अट्टावीम-सत्तावीस-छव्वीसादि-पयडीणं ट्ठाणाणि पयडिट्टाणाणि । ताणि च बंधट्टाणाणि उदयट्टाणाणि संतट्टाणाणि त्ति तिविहाणि होति । नत्थ केसिमेत्थ गहणं ? ण बंधट्टाणाणं; तेसिं महाबंधे बंधगेत्ति सण्णिदे उवरि वण्णिज्जमाणत्तादो । णोदयट्टाणाणं गहणं; वेदगेत्ति अणियोगद्वारे पुरदो वण्णिज्जमाणत्तादो । परिसेसादो संतपयडिट्टाणाणं अट्टावीस मत्तावीस छव्वीस चट्टुवीस तेवीस वावीम एक्कवीम तेरम बारस एक्कारम पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एकं ति एदेसिं गहणं ।

*प्रकृतिस्थानविभक्तिमें ये अनुयोगद्वार आये हैं । जो इम प्रकार हैं—एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, अल्पबहुत्व, भुजगार, 'पदनिक्षेप और वृद्धि ।

§२०७. इस कसायपाहुडमें प्रकृति शब्दसे मिश्र्यात्व आदिक कर्मप्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि प्रकृतमें मिश्र्यात्व आदिक कर्मप्रकृतियोंको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका अधिकार नहीं है । जिसमें प्रकृतियां रहती हैं उसे अर्थात् प्रकृतियोंके समुदायको स्थान कहते हैं । अट्टाईम, सत्ताईम और छव्वीम आदि प्रकृतियोंके स्थानोंको प्रकृतिस्थान कहते हैं ।

शंका—वे प्रकृतिस्थान बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं । सो उनमेंसे यहां किमका ग्रहण किया है ?

समाधान—प्रकृतमें बन्धस्थानोंका तो ग्रहण किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे 'बन्धक' नामवाले महाबन्ध अधिकारमें उनका वर्णन किया जानेवाला है । उदयस्थानोंका भी ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे वेदक अनुयोगद्वारमें उनका वर्णन किया जानेवाला है । अतः पारिशेष ग्यायसे अट्टाईम, सत्ताईस, छव्वीम, चौवीम, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप सत्त्वप्रकृतिस्थानोंका प्रकृतमें ग्रहण किया है ।

विशेषार्थ—प्रकृतमें मोहनीय कर्मके बन्धस्थानों और उदयस्थानोंका कथन न करके उक्त स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके द्वारा सत्त्वस्थानोंका कथन किया जा रहा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§२ c. पयडिद्वानाणं विहत्ती भेदो पयडिद्वानविहत्ती, तीए पयडिद्वानविहत्तीए इमाणि अणियोगद्वाराणि होंति त्ति मंचंत्रो कायच्चो । परोक्खणमणिओगद्वाराणं कथमिमाणि त्ति पच्चक्खणिदेमो ? ण, बुद्धीए पच्चक्खीकयाणं तदविरोहादो । तेगम अणियोगद्वाराणि त्ति परिमाणमकाऊग सामण्णेण इमाणि त्ति किमट्ठं णिदेसो कदो ? एदाणि तेगम चैव अणियोगद्वाराणि ण होंति अण्णाणि वि ममुक्कित्तणा मादिय अणादिय धुव अद्भुव भाव भागाभागेत्ति सत्त अणियोगद्वाराणि एदेसु तेरमसु अणिओगद्वारेसु पविद्वानि त्ति जाणावणट्ठं परिमाणं ण कदं । एदेमिं सत्तण्हमणिओगद्वाराणं जहा तेरमसु अणिओगद्वारेसु अंतःभावो होदि तहा वत्तव्वं ।

§२०c. प्रकृतिस्थानोंकी विभक्ति अर्थात् भेदको प्रकृतिस्थानविभक्ति कहते हैं । उम प्रकृतिस्थानविभक्तिके ये अनुयोगद्वार होते हैं प्रकृतमें इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये ।

शंका—जब अनुयोगद्वार परोक्ष हैं, तो उनका 'इमाणि' इस पदके द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे निर्देश कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बुद्धिसे प्रत्यक्ष करके उनका 'इमाणि' इस पदके द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—'प्रकृतिस्थानविभक्तिके विषयमें तेरह अनुयोगद्वार हैं' इस प्रकार उनका परिमाण न करके सामान्यसे 'इमाणि' इस पदके द्वारा उनका निर्देश किमलिये किया ?

समाधान—ये अनुयोगद्वार केवल तेरह ही नहीं हैं किन्तु इनमें इनके अतिरिक्त समुत्कीर्तना, मादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, भाव और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और भी सम्मिलित हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये उक्त अनुयोगद्वारोंका परिमाण नहीं कहा है ।

इन सात अनुयोगद्वारोंका तेरह अनुयोगद्वारोंमें त्रिस प्रकार अन्तर्भाव होता है उसका कथन कर लेना चाहिये ।

विशेषार्थ—चूर्णिसूत्रकारने प्रकृतिस्थानविभक्तिका कथन 'एकजीवकी अपेक्षा स्वामित्व' आदि अनुयोगोंके द्वारा करनेकी सूचना की है जिनकी संख्या तेरह होती है । पर ये अनुयोगद्वार तेरह हैं इस प्रकारका उल्लेख नहीं किया है । इसका कारण बतलाते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि चूर्णिसूत्रकारको यहां समुत्कीर्तना, मादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, भाव और भागाभाग ये सात अनुयोगद्वार और इष्ट हैं जिनका उक्त अनुयोगद्वारोंमें संग्रह कर लेने पर सबका प्रमाण बीस हो जाता है । यही सबब है कि चूर्णिसूत्रकारने 'तेरह' संख्याका निर्देश नहीं किया । उक्त तेरह अनुयोगद्वारोंमें समुत्कीर्तना सम्मिलित नहीं है पर चूर्णिसूत्रकारने चूर्णिद्वारा इसका कथन किया है । भागाभाग भी सम्मिलित नहीं हैं पर नानाजीवोंकी अपेक्षा भंग विचयके अनन्तर भागाभाग अनुयोगद्वार आता है और वहां

❀पयडिद्व्याणविहृत्तीण पुढ्यं गमणिज्जा द्वाणममुक्तिगता ।

§२०६. 'पुढ्यं' पदमं चैव 'गमणिज्जा' अवगंतव्वा 'द्वाणममुक्तिगता' द्वाणवण्णणा; ताण अणवगयाए सेमाणिओगहारणं पढणामंभवादे । तेण द्वाणममुक्तिगता मव्याणि-योगहारणमादीण वत्तव्वेत्ति भणिदं होदि ।

❀अत्थि अट्टावीमाए मत्तावीमाए वट्टीमाए चउवीमाए तेवीसाए वावीसाए एक्कीवीसाए तेरसण्ह वारसण्ह एकारसण्ह पंचण्ह बनुण्ह तिण्ह दोण्ह एहिस्से च १५ । एदे ओघेण ।

चूर्णिसूत्रकारने 'सेसाणि आषओगहारणणिणेदव्याणि' यह चूर्णिसूत्रकार है । म सूत्र होता है इस परसे वीरसेनस्वामीने यह लिख्य क्रिय है । चूर्णिसूत्रकारको उन तैरहके अतिरिक्त मान अनुयोगद्वार और इष्ट हैं । अब समुत्कीर्तना आदि मान अनुयोगद्वारोंका एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व आदि तेरह अनुयोगद्वारोंमें तीन प्रकार अन्तर्भाव होता है इसका निर्देश करते हैं । समुत्कीर्तनाका स्वामित्व अनुयोगद्वारमें अन्तर्भाव हो जाता है क्योंकि समुत्कीर्तनामें स्थानोंका और स्वामित्वमें स्थानोंका स्वामी कथन करना है, अतः अलगसे स्थान न कहने पर भी किम स्थानका कथन ही है अतः कथन करनेसे स्थानोंका कथन हो ही जाता है । मार्ग, अनाद, गुण और बभ्रुवत्ता ११ और अकार अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि काठ जैसे अन्तर्भाव जानने पर यदि आदका ज्ञान हो ही जाना है । मोहनीयके अट्टाईम अट्टाईम में तीन भूतः प्रकृतिक अति स्थान होते हैं यह बात भावानुयोगद्वारका अट्टाईम कथन न करने पर ही जानी जाती है । तथा अष्टाभाषाका अल्पबहुत्वानुयोगद्वारमें अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि अष्टाभाषाका ज्ञान अल्प है और किस स्थानवाले जीव बहुत हैं, इनका ज्ञान ही जाने पर भावानुयोगका ज्ञान हो ही जाता है । इस प्रकार समुत्कीर्तना आदि मान अनुयोगद्वारोंका अतिरिक्त अतिरिक्त अन्तर्भाव जानना चाहिये ।

❀प्रकृतिस्थानविभक्तिमें सर्वप्रथम ज्ञानममृ कीर्तनाको जान लेना चाहिये ।

§२०६. इस चूर्णिसूत्रमें 'पुढ्यं' पद 'प्रथमं' इत्यर्थमें आया है । 'गमणिज्जा' का अर्थ 'ज्ञानना चाहिये' होता है । 'द्वाणममुक्तिगता' का अर्थ 'अनुयोगद्वारोंके स्थानोंका वर्णन' है । तब तक अट्टाईम आदि स्थानोंका ज्ञान नहीं हो सकना तब तक स्वामित्व आदि जेव उक्तीम अनुयोगद्वारोंका कथन करना संभव नहीं है, इसलिये स्थानममृकीर्तना अनुयोगद्वारोंका सभी अनुयोगद्वारोंके आदिमें कहना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀मोहनीयके अट्टाईम, मत्ताईम, वट्टीम, चौवीम, तेईम, वाईम, इक्कीम, तेगह, वारह, ग्यारह, पांच, चाग, तीन, दो और एक प्रकृतिक ये पन्द्रह सूत्रस्थान होते हैं । ये सष्वस्थान ओघसे होते हैं ।

§२१०. एदे पण्णाम द्वाणवियप्पा ओषेण होंति । एदेसिं द्वाणाणं पदेमपरूवणहं जइवसहाइरियो उत्तरसुत्तं भणदि ।

❀ एक्किस्से विहत्तियो को ह्मोदि ? लोहमंजलणो ।

§२११. जस्स लोहसंजलणमेकं चेव संतकम्मं सो लोहमंजलणो एक्किस्से विहत्तिओ ।

❀ दोणहं विहत्तिओ को ह्मोदि ? लोहो माया च ।

§२१२. लोह-मायामंजलणाणि दो चेव जस्स संतकम्ममत्थि सो दोणहं विहत्तिओ ।

❀ तिण्हं विहत्ती लोहमंजलण-माणमंजलण-मायामंजलणाओ ।

§२१३. लोभ-माया-माणमंजलणाओ तिण्णि चेव जदा होंति तदा तिण्हं पयडि-
द्वाणं होदि ।

❀ चउण्हं विहत्ती चत्तारि मंजलणाओ ।

§२१४. चत्तारि मंजलणाओ सुद्धाओ जन्थ संतकम्मं होंति तन्थ चदुण्हं विहत्ती
णाम द्वाणं होदि ।

§२१०. ये पन्द्रहों सत्त्वस्थानविकल्प ओषकी अपेक्षा होते हैं । अब इन सत्त्वस्थानोंकी प्रकृतियोंका कथन करने के लिये यतिवृषभ आचार्य आगेका मंत्र कहते हैं—

* एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला कौन है ? लोभसंज्वलनवाला जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला होता है ।

§२११. जिस जीवके एक लोभसंज्वलनकी ही मत्ता होनी है वह लोभसंज्वलनका धारक जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाला होता है ।

* दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कौन है ? संज्वलन लोभ और मायाकी मत्ता-
वाला जीव दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है ।

§२१२. जिस जीवके लोभसंज्वलन और मायामंज्वलन केवल ये दो कर्म मत्तामें होते हैं वह दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है ।

* जिसके लोभसंज्वलन, मायामंज्वलन और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये जाते हैं वह तीन प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है ।

§२१३. जिस समय जीवके केवल लोभ, माया और मानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये जाते हैं उस समय उसके तीनप्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है ।

* जिसके चारों संज्वलनकषाएँ पाई जाती हैं वह चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है ।

§२१४. जहां पर केवल लोभसंज्वलन आदि चार कर्मोंकी मत्ता होती है वहां चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होता है ।

❀पंचणहं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च ।

§२१५. पुरिसवेदो चत्तारि संजलणाओ च सुद्धाओ जत्थ संतकम्मं होंति तत्थ पंचपयडिद्वणं होदि ।

❀एकारसणहं विहत्ती, एदाणि च्च पंच छण्णोकसाया च ।

§२१६. चदुसंजलण-पुरिसवेद-छण्णोकसाय केवला जत्थ संतकम्मसरूवेण चिदंति तत्थ एकारसणहं द्वाणं ।

❀बारसणहं विहत्ती एदाणि च्च इत्थिवेदो च ।

§२१७. एदाणि एकारसकम्माणं इत्थिवेदसहियाणि जत्थ संतकम्मं तत्थ बारसणहं द्वाणं होदि ।

❀तेरसणहं विहत्ती एदाणि च्च णवुंसयवेदो च ।

§२१८. बारसपयडीओ पुव्वुत्ताओ जत्थ णवुंसयवेदेण सह संतं होंति तत्थ तेरसणहं द्वाणं ।

❀एक्कवीसाए विहत्ती एदे च्च अट्ट कसाया च ।

§२१९. पुव्वुत्तरसकम्माणि अट्टकसाया च जत्थ संतं तत्थ एक्कवीसाए द्वाणं ।

*चारों संज्वलन और पुरुषवेद यह पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान है ।

§२१५. जहां पर केवल पुरुषवेद और चारो संज्वलन ये पांच कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

*पुरुषवेद और चार संज्वलन ये पूर्वोक्त पांच और छह नोकषाय यह ग्यारह प्रकृतिक विभक्तिस्थान है ।

§२१६. जहां पर चारों संज्वलन, पुरुषवेद और हास्यादि छह नोकषाय ये कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां ग्यारहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

*पूर्वोक्त ग्यारह और स्त्रीवेद यह बारहप्रकृतिक विभक्तिस्थान है ।

§२१७. जहां पर स्त्रीवेदके साथ पूर्वोक्त ग्यारह कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां बारह प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

*पूर्वोक्त बारह और नपुंसकवेद यह तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान है ।

§२१८. जहां पर नपुंसकवेदके साथ पूर्वोक्त बारह कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

* ये पूर्वोक्त तेरह और आठ कषाय यह इक्कीस प्रकृतिक विभक्तिस्थान है ।

§२१९. जहां पर पूर्वोक्त तेरह कर्म और अग्रत्याख्यानावरण चतुष्क तथा प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ये आठ कर्म सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर इक्कीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

❊सम्मत्तेण वावीसाए विहत्ती ।

§ २२०. पुचुवुनएकवीसकम्माणं सम्मत्तेण वावीसाए द्वाणं होदि ।

❊सम्मामिच्छत्तेण तेवीसाए विहत्ती ।

§ २२१. पुचुवुतवावीसकम्मेसु सम्मामिच्छत्तेण महिदेसु तेवीसाए द्वाणं होदि ।

❊मिच्छत्तेण चदुवीसाए विहत्ती ।

§ २२२. पुचुवुततेवीसकम्माणि मिच्छत्तेण मह चउवीसाए द्वाणं होदि ।

❊अट्टावीसादो सम्मत्तसम्मामिच्छत्तंसु अवणिदेसु छुव्वीसाए विहत्ती ।

§ २२३. मोहट्टावीसभंतकम्मिएण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु उव्वेल्लिदेसु छुव्वीसाए द्वाणं होदि ।

❊तन्थ सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं सत्तावीसाए विहत्ती ।

§ २२४. तन्थ छुव्वीसपयाडिट्ठागम्मि सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं सत्तावीसाए द्वाणं होदि ।

❊सच्चवाओ पयडाओ अट्टावीसाए विहत्ती ।

❊सम्यक्त्वप्रकृतिकं साथ बाइम प्रकृतिकं विभक्तिस्थानं होता है ।

§ २२०. पूर्वोक्त इकास कर्मासं सम्यक्त्वप्रकृतिकं मिला देनेसे बाइमप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

❊सम्याग्मिध्यात्वकं साथ तेइमप्रकृतिकं विभक्तिस्थानं होता है ।

§ २२१. पूर्वोक्त बाइस कर्मासं सम्याग्मिध्यात्व कर्मक मिला देने पर तेइमप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

❊मिध्यात्वके साथ चौबीसप्रकृतिकं विभक्तिस्थानं होता है ।

§ २२२. पूर्वोक्त तेइस कर्मासं मिध्यात्वक मिला देनेपर चौबीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

❊मोहनीयके अट्टाइस भेदांसंसे सम्यक्त्वप्रकृतिक और सम्यग्मिध्यात्वके निकाल देने पर छुव्वीसप्रकृतिकं विभक्तिस्थानं होता है ।

§ २२३. जिसके मोहनीयकी अट्टाइस प्रकृतियोंको सत्ता है वह जब सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना कर देता है तब उसके छुव्वीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

❊उममें सम्यग्मिध्यात्वके मिला देनेपर सत्ताइमप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

§ २२४. उममें अर्थात् छुव्वीसप्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सम्यग्मिध्यात्वके मिला देने पर सत्ताइमप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

❊मोहनीयकी संपूर्ण प्रकृतियाँ अट्टाइसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

§ २२५. मोहद्व्यावीसपयडीओ जत्थ संतं तत्थ अहावीसाए द्वाणं होदि ।

❀संपहि एसा ।

§ २२६. एदंमिमोघपण्णारमययाडिद्व्याणाणं संदिट्ठी-

❀२८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३ १२ ११ ५ ४ ३ २ १

❀एवं गदियादिसु णेदञ्चा ।

§ २२७. गदियादासु चोद्दसभग्गणट्ठाणेसु द्वाणमसुक्कित्तया जाणिदुण णेदञ्चा; सुगमत्तादो ।

§ २२८. संपहि चूर्णणसुताइरियेण सूचिदं मंदवुद्धिजणारुग्गहट्टमुच्चारणाइरियवयण- विणिग्गयविवरणं भाणिस्सामो । तं जहा मणुमतिथ पच्चिदिय-पंचि०पज्ज०-तम-तसपज्ज०- पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओगालिय०-चदमु० अचक्खु०-सुक्क०-भवमि०- सण्णि-आहारीणमोघमंगो । पवणि मणुमिणीसु पंचपयडिद्व्याणं णत्थि ।

§ २२१. जहां पर मोहनाचकी अट्टाई. प्रकृतियाकी । ता पाई जानी है वहां पर अट्टाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है ।

❀अब यह—

§ २२६. ओघकी अपेक्षा कहे गये उन पन्द्रह पंक्ति स्थानोंको संदिष्टि है—

❀ २८ २७ २६ २४ २३ २२ २१ १३ १२ ११ ५ ४ ३ २ १

❀इसी प्रकार गति आदि मार्गणाओंमें उक्त स्थानोंको जान लेना चाहिये ।

§ २२७. गति आदि चौदह मार्गणास्थानोंमें स्थानमसुक्कित्तयाको जान कर लगा लेना चाहिये, क्योंकि वह सुगम है ।

§ २२८. अब आगे मन्दवुद्धि जनोके मनुष्यके लिये, चूर्णणसुताइके द्वारा सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके मुखसे निकले हुए उच्चारणान्तो कहते है । वह इस प्रकार है— सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम, त्रम पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चक्षुदर्शनी, अक्षुदर्शनी, शुक्ललेट्याचान्, भय, संझी और आहारक इनके पन्द्रहों प्रकृतिसत्त्वस्थान ओघके समान होते है । इनकी विशेषता है कि मनुष्यनियोके- पांचप्रकृतिकसत्त्वस्थान नहीं पाया जाता ।

विशेषार्थ—पहले जो सामान्यसे पन्द्रह सत्त्वस्थानोंका कथन कर आये हैं वे सामान्य मनुष्य आदि सभी मार्गणाओं में सम्भव हैं क्योंकि इन मार्गणाओंमें प्रारम्भके बारह गुणस्थान नियमसे पाये जाते हैं । किन्तु मनुष्यनी लुह नोकपाय और पुरुषवेदका एक साथ क्षय करती है अतः उसके पांच प्रकृतिरूप स्थान नहीं पाया जाता ।

§२२६. आदेसेण णिरयगईए शेरइएसु अत्थि अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-
वावीस-एकवीसाए ट्ठाणं । एवं पढमाए पुढवीए, तिरिक्खगइ० पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदिय-
तिरिक्खपज्ज०-देव-मोहम्मीमाणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-वेउव्वियमिस्स०-ओरालिय-
मिस्स-कम्मइय-अणाहारि ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तामि ति एवं चैव वत्तव्वं ।
णवरि वावीस-एकवीसपयडिट्ठाणाणि णत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणाणि-भवण०-
वाण०-जोदिसिय० वत्तव्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० अत्थि अट्टावीस-सत्तावीस-
छब्बीसपयडिट्ठाणाणि । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वएइंदिय-सव्वविगलेंदिय-पंचिंदिय-
अपज्ज०-सव्वपंचकाय-तस०अपज्ज०-मदि-सुदअणणाणि-विहंग-मिच्छादिट्ठि-असण्णि ति
वत्तव्वं । अणुहिसादि जाव सव्वट्ठ० अत्थि अट्टावीस-चउवीस-वावीस-एकवीसपयडि-
ट्ठाणाणि । वेउव्वियकायजोगीसु अत्थि अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एकवीस-
पयडिट्ठाणाणि । एवं किण्ह०-णील०वत्तव्वं । आहारक०-आहारमिस्सकायजोगीसु अत्थि
अट्टावीस-चउवीस-एकवीसपयडिट्ठाणाणि ।

§२२६. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस,
बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप छह स्थान पाये जाते हैं । इसीप्रकार पहले नरकमें समझना
चाहिये । इसी प्रकार तिर्यचगतिमें सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच और पंचेन्द्रिय तिर्यच
पर्याप्त तथा सामान्य देव, सौधर्म स्वर्गस लकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, योग्यकामिश्र-
काययोगी औदारिकामिश्रकाययोगी कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।
दूसरे नरकसे लकर मातरे नरक तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है
कि इनके पूर्वोक्त स्थानोमस बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान नहीं पाये जाते हैं । इसी-
प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यच-योगिनती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंके कहना चाहिये ।
विशेषाथे—दूसरे नरकसे लकर उक्त सभी मार्गणाओंमें सम्यग्दृष्ट जीव मर कर नहीं
वत्पन्न होते हैं, अतः इन मार्गणाओंमें २२ और २१ प्रकृतिरूप स्थान एकही प्रकार भी
सम्भव नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

पंचेन्द्रियतिर्यच लब्धपथाप्तकांके अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिरूप
सत्त्वस्थान होते हैं । इसीप्रकार मनुष्य लब्धपथाप्त, सभी एकान्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय,
लब्धपथाप्तक पंचेन्द्रिय, बाह्य सूक्ष्म आदि सभी पांचो स्थावरकाय, त्रसलब्धपथाप्त,
मत्याज्ञानी, भ्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

अनुविशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके अट्टाईस, चौबीस, बाईस और इक्कीस
प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । वैकथिककाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस
और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसीप्रकार कृष्णलेद्यावाले और नीललेद्यावाले
जीवोंके कहना चाहिये । आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस,

१२३०. वेदाणुवादेण इत्थिवेदे अत्थि अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-तेवीस-बावीस-एक्कीम-तेरस-बारसपयडिट्टाणाणि । एवं णजुमयवेदाम्मि वत्तत्वं । पुरिसवेदे अत्थि अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-तेवीस-बावीस-एक्कीम-तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-पयडिट्टाणाणि । अवगदवेद० अत्थि चउवीस-एक्कीस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एक्कपयडिट्टाणाणि ।

१२३१. कसायाणुवादेण कोधक० अत्थि अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-तेवीस-बावीस-एक्कीम-तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-चत्तारिपयडिट्टाणाणि । एवं माणक० । णवरि तिण्णिपयडिट्टाणं पि अत्थि । एवं माया० । णवरि दोपयडिट्टाणं पि अत्थि । एवं लोभ० । णवरि एगपयडिट्टाणं पि अत्थि । अकमाईसु अत्थि चउवीस-एक्कीस-पयडिट्टाणाणि । एवं सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तत्वं । णवरि सुहुमसांपराय० एयपयडिट्टाणं पि अत्थि ।

चौबीस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं ।

विशेषार्थ—कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकियोंमें उत्पन्न तो होता है पर वह अपर्याप्त अवस्थामें ही श्रायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है, अतः वैकल्पिककाययोगी जीवके २२ प्रकृतिक स्थान नहीं कहा । नील और कृष्ण लेइयामें २१ प्रकृतिक स्थान मनुष्योंकी अपेक्षामें जानना चाहिये, क्योंकि मौधर्मादिस्वर्गमें तीन अशुभ लेइयाणं नहीं होनी । नारकियोंमें २१ प्रकृतिक स्थान पहले नरकमें ही पाया जाता है । पर वहां कपोत लेइया ही होती है ।

१२३०. वेदमार्गणाके अनुवादमें खीवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह और बारह प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदमें कहना चाहिये । पुरुषवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह और पांच प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । अपगतवेदमें चौबीस, इक्कीस, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं ।

१२३१- कषायमार्गणाके अनुवादमें क्रोधकषायी जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान होते हैं । इसीप्रकार मानकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ज्ञानकषायी जीवोंके तीन प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके दो प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है । इसी प्रकार लोभकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके एक प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है । अकषायी जीवोंके चौबीस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसीप्रकार सूक्ष्मसांपराय और यथाक्यात मयमी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंके एक प्रकृतिरूप मत्त्वस्थान भी पाया जाता है ।

§ २३२. आभिणि०-सुद०-ओहि० ओघगंगो । णवरि मत्तावीम-छुब्बीसट्टाणाणि णन्थि । एवं मणपञ्चव०-संजद० मामाहयछेदो०-ओहिदंसण-सम्मादिट्ठि ति वत्तव्वं । पारिहार० अन्थि अट्टावीम-चउवीम तेवीम-वावीम-एक्खवीमपयडिट्टाणाणि । एवं संजदा-संजद० ।

§ २३३. लेम्यागुवादेण काउलेम्या०वेउळ्वियक्क-यज्जोमिभंगो । णवरि, वावीमपयडि-ट्टाणं पि अन्थि । तेउ०-पम्म० अंभंजद० अन्थि अट्टावीम मत्तावीम छुब्बीस-चउवीम-तेवीम-वावीम-एक्खवीमपयडिट्टाणाणि । अभवग्गिः० अन्थि छुब्बीमपयडिट्टाणं ।

§ २३४. खइयमम्माइटी० अन्थि एक्खवीम-तेईम-वारम-एक्कारम-पंच-चत्तारि-तिण्ण-दोण्ण-एगपयडिट्टाणाणि । वदगमम्माइटी० अन्थि अट्टावीम-चउवीम-तेवीस-वावीसप-यडिट्टाणाणि । उवमम० अन्थि अट्टावीम-चउवीम०ट्टाणाणि । एवं सम्मामि० । सासण० अन्थि अट्टावीमाए ट्टाणं ।

एवं मगुक्कित्ताणा ममत्ता ।

§ २३२. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके श्रोत्रके समान स्थान होते हैं । इतनी विशेषता है कि इनके सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिरूप स्थान नहीं होते । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामागि, अमंगत, छे, गोपस्थापनासंयत, अर्वाच, शरणी और सम्यग्गृह्णि जीवोंके कहना चाहिये । परिवारविशुद्धिसंयतोंके अट्टाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसीप्रकार संगतसंयतोंके कहना चाहिये ।

§ २३३. लेश्यामार्गणके अनुवाग्ये कापोतलेइयावाले जीवोंके वैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान मत्त्वस्थान होते हैं । इतनी विशेषता है कि इनके बाईस प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है । तेजोलेइयावाले, पल्ललेइयावाले और असंयत जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छुब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । अभव्य जीवोंके छुब्बीस प्रकृतिरूप स्थान होता है ।

विशेषार्थ—प्रथम नरकके नारकियोंके और अविरतसम्यग्गृह्णिट्ठि निर्धर्मोंके अपर्याप्त अवस्थामें कापोत लेइया होती है । अतः कापोतलेश्यामें २२ प्रकृतिरूप स्थान बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

§ २३४. क्षायिकमस्यग्गृह्णियोंके इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । वेदकसम्यग्गृह्णियोंके अट्टाईस, चौबीस, तेईस और बाईस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । उपजम सम्यग्गृह्णियोंके अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसी प्रकार सम्यग्गृह्णियोंके भी उक्त दो स्थान जानना चाहिये । सासादनसम्यग्गृह्णियोंके एक अट्टाईस प्रकृतिरूप स्थान होता है ।

१२३५.संपहि समुक्लितं भणिय चुण्णिसुत्ताइरिएण सच्चियाणं उच्चारणाइरिएण समुक्किचया सादि० अणादि० धुव० अद्दुव० एगजीवेण सामिचं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेतं पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पाबहुअं भुजगारो पदणिकखेवो बदिदं त्ति उद्दिहाणमहियाराणं परूवणाए कीरमाणाए ताव चुण्णिसुत्त सद्दवत्थाहियाराणमुच्चारणाइरियस्स उच्चारणं भणिस्सामो । तं जहा—सादि-अणादि-धुव-अद्दुवाणुगमेण इविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छब्बीसाए द्वाणं किं सादियं किमणादियं किं धुवं किमद्दुवं वा ? सादियं वा अणादियं वा धुवं वा अद्दुवं वा । सेसाणि द्वाणाणि सादि-अद्दुवाणि । एवं मदि-सुदअण्णाण-असंजद-अचक्खु०-

विशेषार्थ—उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके २३ और २२ प्रकृतिरूप स्थानोंके नहीं कहनेका कारण यह है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते हैं । तथा उपशमसम्यग्दृष्टियोंके समान सम्यग्मिध्यादृष्टियोंके भी २८ और २४ ये दो स्थान होते हैं । ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि यद्यपि मिध्यादृष्टि जीव सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है तथापि जिसने सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना कर दी है ऐसा २७ विभक्तिस्थानवाला जीव सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता । किन्तु रवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित कर्मप्रकृतिमें बतलाया है कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें २८, २७ और २४ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं । इससे यह निश्चित होता है कि कर्मप्रकृतिके अभिप्रायानुसार २७ विभक्तिस्थानवाला जीव भी सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हो सकता है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार प्रकृतिस्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

१२२५.इस प्रकार समुत्कीर्तनाका कथन करके चूर्णिसूत्रकार यतिवृषभ आचार्यके द्वारा सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, धुव, अधुव, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंग-विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व, भुजगार, पव-निक्षेप और वृद्धि इन अधिकारोंकी प्ररूपणा करते समय पहले चूर्णिसूत्रके द्वारा सूचित किये गये अधिकारोंकी उच्चारणाचार्यके द्वारा कही गई उच्चारणावृत्तिको कहते हैं । वह इस प्रकार है—

सादि, अनादि, धुव और अधुवानुगमकी अपेक्षा ओघ और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या धुव है क्या अधुव है ? छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान सादि भी है, अनादि भी है, धुव भी है और अधुव भी है । इस स्थानको छोड़कर शेष सभी स्थान सादि और अधुव हैं । इसीप्रकार मतिअज्ञानी, मुताज्ञानी, असंबत, अचक्षुदर्शनी, मिध्या-

मिच्छा०-भवसिद्धि० वत्तव्वं । णवरि, भवसिद्धिएसु धुवं णत्थि । पदविसेसो च जाणियव्वो । अभवसिद्धिएसु अणादियं धुवं च । सेसासु मग्गणासु सादि अद्धुवं ।

एवं सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवानुगमो समन्तो ।

✽सामित्तं ति जं पदं तस्स विहासा पढमाहियारो ।

§२३६. कुदो, चोहसमग्गणट्ठाणाणुगयन्थाणमाहारत्तणेण अवट्ठाणादो । 'तस्स' अहियारस्स एसा 'विहासा' परूवणा ति एदेण मिस्ससंमालणं कयं ।

✽तं जहा—एकस्से विहत्तिओ को होदि ?

§२३७. एदं पुच्छासुत्तं किमट्ठं बुच्चदे ? सन्थस्स पमाणभावपदुप्पायणट्ठं । कधं दृष्टि और भव्यजीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषना है कि भव्य जीवोंके ध्रुवपद नहीं पाया जाता है । यहां पदविशेष अर्थात् जिस मार्गणामें जितने सत्त्वस्थान हैं वे स्थान समुत्कीर्तनासे जान लेना चाहिये । अभव्य जीवोंके अनादि और ध्रुव ये दो पद पाये जाते हैं । शेष मार्गणाओंमें जहां जितने सत्त्वस्थान होते हैं वे सादि और अध्रुव होते हैं ।

विशेषार्थ—२६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके पाया जाता है इसलिये इसमें सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं । किन्तु शेष सत्त्वस्थान अनादि मिथ्यादृष्टिके नहीं होते इसलिये उनमें सादि और अध्रुव ये दो विकल्प ही प्राप्त होते हैं । मूलमें जो मनिअज्ञान आदि मार्गणाएं गिनाई हैं वे सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव हैं अतः उनके कथनको ओषके समान कहा है । किन्तु भव्य जीवोंके जब कर्मोंके सम्बन्धकी ध्रुवता नहीं स्वीकार की गई है तब यहां ध्रुव अंग कैसे प्राप्त हो सकता है । यही सबब है कि इनके ध्रुव पदका निषेध किया है । इन मार्गणाओंके अतिरिक्त शेष सब मार्गणाएं बदलती रहती हैं इसलिये उनके सभी प्रकृतिस्थानोंकी अपेक्षा सादि और अध्रुव ये दो ही पद बतलाये हैं । किन्तु अभव्य मार्गणा सदा एकसी रहती है उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसमें एक २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही पाया जाता है इसलिये उसमें उक्त स्थानकी अपेक्षा अनादि और ध्रुव ये दो ही पद कहे हैं । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार सादि, अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगम समाप्त हुआ ।

✽स्वामित्व नामका जो पद है उसका विवरण करते हैं, यह पहला अर्थाधिकार है ।

§२३६. चूंकि यह चौदह मार्गणास्थानोंके अर्थाधिकारोंका मूल आधार है अतः यह पहला अधिकार है । उस अधिकारकी यह विभासा अर्थात् विशेष रूपसे प्ररूपणा की जाती है । इससे शिष्यको सावधान किया गया है ।

✽वह इस प्रकार है—एकप्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन होता है ?

§२३७. श्रंका—यह पृच्छासूत्र किसलिये कहा है ?

पुच्छादो पमाणभावावगमो ? एस गोदमसामिपुच्छा तिथियरविसया जेण तेण पमाणत्तमवगम्मदे, सगकत्तारत्तं वा अवणिदमेदेण सुत्तेण ।

❀णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ एक्किस्से विहस्तिए सामिओ ।

§२३८. मणुस्सो चेव, णिरय-तिरिक्ख-देवगईसु मोहक्खवणाए अभावादो । तं पि कुदो णव्वदे ? 'णियमा मणुस्सो' ति वयणादो । 'वा' सहेण ण अण्णगईणं गहणं; मणुस्सिणी-समुच्चयदं द्वियस्स अण्णगइगहणविरोहादो । विदिओ 'वा' सद्दो मणुस्सिणीसमुच्चयदो ति काऊण पढमं 'वा' सद्दो गइसमुच्चयदो ति किण्ण घेप्पदे ? ण, दोण्हं 'वा'सद्दणं

समाधान-शास्त्रकी प्रमाणताके प्रतिपादन करनेके लिये कहा है ।

शंका-पृच्छाके द्वारा शास्त्रकी प्रमाणताका ज्ञान कैसे होता है ?

समाधान-चूंकि यह पृच्छा गौतम स्वामीने तीर्थंकर महावीर भगवान से की है ।

अतः इससे शास्त्रकी प्रमाणताका ज्ञान हो जाता है ।

अथवा, चूर्णिसूत्रकारने इस सूत्रके द्वारा अपने कर्तृत्वका निवारण कर दिया है अर्थात् इससे उन्होंने यह सूचित किया है कि यह वस्तु उनकी स्वयं की उपज नहीं है, किन्तु गौतम स्वामीने भगवान महावीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है ।

*नियमसे चपक मनुष्य और मनुष्यनी ही एकप्रकृतिक स्थानविभक्तिका खाभी होता है ।

§२३८. मनुष्य ही एक प्रकृतिकस्थानविभक्तिका स्वामी है, क्योंकि नरकगति, तिर्यच-गति, और देवगतिमें मोहनीय कर्मकी क्षपणा नहीं होती है ।

शंका-नरक, तिर्यच और देवगतिमें मोहनीय कर्मकी क्षपणा नहीं होती यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-चूर्णिसूत्रमें आये हुए 'णियमा मणुस्सो' इस वचनसे जाना जाता है कि उक्त तीन गतियोंमें मोहनीय कर्मका क्षय नहीं होता है ।

यदि कहा जाय कि 'मणुस्सो वा' यहां स्थित 'वा' शब्दसे अन्य नरकादि गतियोंका ग्रहण हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर 'वा' शब्द मनुष्यनियोंके समुच्चयके लिये रखा गया है, अतः उससे अन्य गतिका ग्रहण मानने में विरोध आता है ।

शंका-'मणुस्सिणी वा' यहां पर स्थित दूसरा 'वा' शब्द मनुष्यनियोंके समुच्चयके लिये है ऐसा मानकर पहला 'वा' शब्द अन्य गतियोंके समुच्चयके लिये है ऐसा क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है ?

उत्तसमुच्चय वेय पउत्तीदो । 'मणुस्सो' चि बुत्ते पुरिस-णवुंसयवेदविसेसणोवलक्खिय-मणुस्साणं गहणमण्णहा तत्थ एक्किस्से विहृत्तीए अभावप्पसंगादो । 'खवओ' ति णिहेसो उवसामयपडिसेहफलो । कुदो ? तत्थ एक्कस्स वि कम्मस्स खवणाभावेण सयलपयडीणं घट्टकयाहलजलवि(चि)-क्खल्लो व्व उवसंतभावेण अवट्टाणादो ।

ॐ एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एक्कारसण्हं बारसण्हं तेरसण्हं विहृत्तिओ ।

§ २३६. जहा एक्किस्से विहृत्तीए सामिच्चं बुत्तं तहा एदेसिं ट्टाणाणं वत्तंवं, मणुस्सक्ख-वगं मोत्तूण अण्णत्थ खवणपरिणामाभावादो । तं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । ते परिणामा मणुस्सेसु व अण्णत्थ किण्ण होंति ? साहावियादो । णवरि, पंचण्हं विहृत्ती मणुस्सेसु चेव, ण मणुस्सिणीसु; तत्थ सत्तणोकसायाणमक्कमेण खवणुवलंभादो ।

*एक्कावीसाए विहृत्तिओ को होदि ? खीणदंसणमोहणिज्जो ।

समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त अर्थके समुच्चय करनेमें ही दोनों 'वा' शब्दोंकी प्रवृत्ति होती है, अतः प्रथम 'वा' शब्दके द्वारा अन्य गतियोंका समुच्चय नहीं किया जा सकता है ।

चूर्णिसूत्रमें 'मणुस्सो' ऐसा कहनेपर पुरुषवेद और नपुंसकवेदसे युक्त मनुष्योंका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योंमें एक प्रकृतिस्थान विभक्तिके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । चूर्णिसूत्रमें 'क्षपक' पदसे उपशामकोंका निषेध किया है, क्योंकि उपशामकोंके एक भी कर्मका क्षय न होकर जिमप्रकार जलमें निर्मलीफलको घिस कर डालने से उसका कीचड़ उपशान्त होजाता है उसी प्रकार समस्त कर्मप्रकृतियां उपशान्तरूपसे अवस्थित रहती हैं ।

*इसीप्रकार दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, बारह और तेरह प्रकृतिरूप स्थानोंके स्वामी नियमसे मनुष्य और मनुष्यनी होते हैं ।

§ २३६. जिसप्रकार एक विभक्तिका स्वामी कहा उसीप्रकार इन स्थानोंका स्वामी कहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य ही क्षपक होता है । उसे छोड़ कर अन्य देव नारक आदि जीवोंमें क्षपणाके योग्य परिणाम नहीं होते ।

शंका-अन्य गतियोंमें क्षपणारूप परिणाम नहीं होते यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

शंका-वे परिणाम मनुष्योंके समान अन्यत्र क्यों नहीं होते ?

समाधान-ऐसा स्वभाव है ।

यहां इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिरूप स्थान मनुष्योंमें ही पाया जाता है मनुष्यनियोंमें नहीं, क्योंकि मनुष्यनियोंके सात नोकषायोंका एक साथ क्षय होता है ।

*इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी कौन होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका

§२४०. दंसणमोहणीयकखवणा वि चारित्तमोहणीयकखवणं व मणुस्सेसु चेव होदि; 'णियमा मणुस्सगदीए' ति वयणादो । तम्हा णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ ति एत्थ वि सामिन् वत्तव्वं ? ण, खीणदंसणमोहणीयं चउग्गईसु उप्पज्जमाणं पेक्खिदूण षेरईओ तिरिक्खो मणुस्सो देवो खीणदंसणमोहणिज्जो एकवीसपयडिटाणस्स सामी होदि ति तद्वा वयणादो । खविय चउग्गईसुप्पणाणं पुत्तुत्तद्वाणाणि चउग्गईसु किण्ण लब्भंति ? ण, चारित्तमोहकखवयाणं णिब्बीजीकयसंतकम्माणं सेसगईसु उप्पत्तीए अभावादो ।

★बार्वासाए विहत्तीओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खविदे समत्ते सेसे ।

§२४१. एत्थ वि 'मणुस्सो' ति बुत्ते पुरिस-णवुंसयवेदजीवाणं गहणं; अण्णाहा णवुंसय-क्षय कर दिया है ऐसा जीव इक्कीस प्रकृतिकस्थानका स्वामी होता है ।

§२४०. शंका—जिसप्रकार चरित्रमोहनीयका क्षय मनुष्योंके ही होता है, उसीप्रकार दर्शनमोहनीयका क्षय भी मनुष्योंके ही होता है, क्योंकि 'णियमा मणुस्सगदीए' अर्थात् दर्शनमोहनीयका क्षय नियमसे मनुष्यगतिमें होता है ऐसा आगमका वचन है, अतएव इस सूत्रमें भी त्वामित्वको बतलाते हुए 'णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खवओ' ऐसा कहना चाहियं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिनके दर्शनमोहनीयका क्षय होगया है ऐसे जीव चारों गतियोंमें उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं, अतः जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसा नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव इक्कीस प्रकृतिकस्थानका स्वामी होता है इसलिये सूत्रमें 'खीणदंसण मोहणिज्जो' ऐसा सामान्य वचन दिया है ।

शंका—चारित्रमोहनीयका क्षय करके चारों गतियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके पूर्वोक्त एक, दो आदि प्रकृतिकस्थान क्यों नहीं पाये जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चारित्र मोहनीयका क्षय करनेवाले जीव सत्तामें स्थित कर्मोंको निर्बीज कर देते हैं अतः उनकी शेष गतियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है ।

★बार्ईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन होता है ? जिस मनुष्य या मनुष्यनीके मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व शेष है वह बार्ईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है ।

§२४१. यहां पर भी 'मणुस्सो' ऐसा कहने से पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी मनुष्योंका प्रहण करना चाहिये अन्यथा नपुंसकवेदी मनुष्योंके दर्शनमोहनीयके क्षयके अभावका प्रसंग प्राप्त हो जायगा ।

वेदेसु दंसणमोहकखवणाभावप्पसंगादो । मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तेसु खविदेसु पुणो पच्छा मम्मत्तं खवेत्तेण मंखेज्जिदिखंडयमहस्साणि पादिय पच्छा चरिमे सम्मत्तद्धिदि-खंडए पादिदे कदकरणिजो णाम होदि । तस्स वि बावीसाए द्वाणं; तत्थ सम्मत्तसंत-सम्भावादो । सो वि कालं काऊण सव्वत्थ उप्पज्जदि । तेण 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' ति वयणं ण घडदे । किंतु णेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा बावीसविहत्तीए सामि ति वत्तच्चं ? ण एस दोसो; इच्छिजमाणचादो । सुत्तविरुद्धं कयमब्भुवगंतुं सकिज्जे ? ण सुत्तविरुद्धो एमत्थो; सुत्तेणेव उवइत्तादो । तं जहा-जदि मणुस्सा चेव बावीसविहत्तिया होति तो एकस्से विहत्तियस्स सामित्ते भण्णमाणे जहा णियमा मणुस्सो णियमा खवगो सामी होदि ति भणिदं तथा एत्थ वि भणेज्ज ? ण च एवं; णियममहाभावादो । तम्हा चदुसु वि गदीसु बावीसविहत्तिएण होदच्चं । जदि एवं, तो सुत्ते सेसगइग्गहणं किण्ण कयं ? ण, तालपलंबसुत्तं च देसामासियभावेण

शंका—मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वके क्षीण हो जानेपर उसके अनन्तर सम्यक्-प्रकृतिको क्षय करने वाला जीव जब सम्यक्प्रकृतिके संख्यात हजार स्थितिखण्डोंका घात करके उसके अन्तिम स्थितिखण्डका घात करता है तब उसकी कृतकृत्य वेदक संज्ञा होती है । इस जीवके भी बाईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सम्यक्प्रकृतिकी सत्ता पाई जाती है । ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है, इसलिये मनुष्य और मनुष्यनी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं, यह वचन घटित नहीं होता अतः नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिये ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी हैं यह बात इष्ट ही है ।

शंका—चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं यह कथन उक्त सूत्रके विरुद्ध है । फिर इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

समाधान—यह अर्थ सूत्रविरुद्ध नहीं है, क्योंकि सूत्रमें ही इसका उपदेश पाया जाता है । उसका खुलासा इस प्रकार है—यदि मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करते समय जिसप्रकार 'णियमा मणुस्सो णियमा खवगो सामी होदि' यह कहा है उसी प्रकार यहां भी कहते । परन्तु यहां ऐसा नहीं कहा क्योंकि उपर्युक्त सूत्रमें 'नियम' शब्द नहीं पाया जाता है, अतः चारों ही गतियोंमें बाईस प्रकृतिक स्थान होना चाहिये यह सिद्ध होता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो सूत्रमें शेष गतियोंका ग्रहण क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस प्रकार 'तालपलंब' सूत्र देशाभर्षकभावसे अशेष बनस्प-

सेसगइपरूवयत्तादो ।

§२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' ति तईयाए विहत्तीए अत्थे पढमाविहत्ती णिहेसो दट्टव्वो । तेण मणुस्सेण वा मणुस्सिणीए वा मिच्छते सम्मामिच्छते च खविदे सम्मत्ते च सेसे बावीसविहत्तीओ होदि ति एदेण सुत्तेण बावीसविहत्तियसंभवपरूवणादुवारेण सामित्तपरूवणा कदा । तेण बावीससंतकम्मिओ अण्णदरो सामि ति सुत्तत्थो दट्टव्वो । अथवा, जइवसहाइरियस्स वे उवएसा । तन्थ कदकरणिज्जो ण मरदि ति उवदेसमस्सिदूण एदं सुत्तं कदं, तेण मणुस्सा चेव बावीसविहत्तिया ति सिद्धं । कदकरणिज्जो मरदि ति उवएमो जइवसहाइरियस्स अत्थि ति कथं णव्वे ? 'पढमममयकदकरणिज्जो जदि मरदि णियमा देवेसु उववज्जदि । जदि णेगइएसु तिरिक्खेसु मणुस्सेसु वा उववज्जदि तो णियमा अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो' ति जइवसहाइरियपरूविदत्तुण्णि-सुत्तादो । णवरि, उच्चारणाइरियउवएसेण पुण कदकरणिज्जो ण मरइ चेवेत्ति णियमो तियोका प्रतिपादक है, उसीप्रकार प्रकृत सूत्र भी देशामर्षकभावसे शेष तीन गतियोंका प्ररूपण करता है ।

§२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' यह तृतीया विभक्तिके अर्थमें प्रथमा विभक्तिका निर्देश जानना चाहिये । इसलिये उक्त सूत्रका यह अर्थ हुआ कि मनुष्य या मनुष्यनीके द्वारा मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका भय कर देनेपर और सम्यक्प्रकृतिके शेष रहने पर चारों गतियोंका जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा बाईस प्रकृतिक स्थान किसके संभव है इसकी प्ररूपणाद्वारा उनके स्वामित्वकी प्ररूपणा की । अतः बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला किसी भी गतिका जीव उक्त स्थानका स्वामी है यह सूत्रका अर्थ समझना चाहिये ।

अथवा, यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश हैं । उनमेंसे कृतकृत्यवेदक जीव मरण नहीं करता है इस उपदेशका आश्रय लेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिये मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं यह बात सिद्ध होती है ।

शंका—कृतकृत्यवेदक जीव मरता है यह उपदेश यतिवृषभ आचार्यका है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—'कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण करता है तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है । किन्तु जो कृतकृत्यवेदक जीव नारकी, तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है वह नियमसे अन्तर्मुहूर्त कालतक कृतकृत्यवेदक रह कर ही मरता है' इसप्रकार यतिवृषभ आचार्यके द्वारा कहे गये चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है कि कृतकृत्यवेदक जीव मरता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार कृतकृत्य वेदक

णत्थि; चउसु वि गईसु वावीसविहृषियसंतसमुक्किणणादो ।

सम्यग्दृष्टि जीव नहीं ही मरता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही गतियोंमें बाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका सत्त्व स्वीकार किया है ।

विशेषार्थ—यहां यतिवृषभ आचार्यने बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी मनुष्य और मनुष्यनीको बनलाया है । इसपर शंकाकारका कहना है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला मनुष्य जब मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका श्रय कर चुकता है तब बाईस विभक्ति स्थानका स्वामी होता है । इस समय सम्यक्त्वप्रकृतिकी श्रिति आठ वर्ष प्रमाण होती है । यद्यपि जब तक यह जीव कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि नहीं हो जाता है तब तक नहीं मरता है इसलिये इस अपेक्षासे बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी केवल मनुष्य और मनुष्यनीभले ही हो जाओ, पर कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि हो जाने पर इसका मरण भी देखा जाता है और ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है । अतः बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी चारों गनिका जीव होता है यतिवृषभ आचार्यको ऐसा कहना चाहिये । शंकाकारकी इस शंकाका वीरसेन स्वामीने तीन प्रकारसे समाधान किया है । पहले तो यह बनलाया है कि बाईस विभक्तिस्थानके स्वामीका कथन करनेवाले उक्त चूर्णिसूत्रमें 'णियम' पद न होनेसे यह जाना जाता है कि इस स्थानका स्वामी चारों गतियोंका जीव होता है । यद्यपि उक्त सूत्रमें चारों गतियोंका ग्रहण नहीं किया है फिर भी उक्त सूत्र तालप्रलम्ब सूत्रके समान देशामर्पक है अतः 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा' इस पदसे मनुष्यगतिके ग्रहणके समान अन्य तीन गतियोंका भी ग्रहण कर लेना चाहिये । दूसरा समाधान इसप्रकार किया है कि सूत्रमें 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी' इसप्रकार जो प्रथमाविभक्त्यन्त पद है वह तृतीया विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिये । और इसप्रकार यह तात्पर्य निकल आता है कि बाईस विभक्ति स्थानका प्रारम्भ मनुष्यगतिके ही होता है पर उसकी समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है । तीसरा समाधान इसप्रकार किया है कि इस विषयमें यतिवृषभ आचार्यके दो उपदेश जानना चाहिये । एक उपदेशके अनुसार कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव मरता नहीं है और दूसरे उपदेशके अनुसार मरता भी है । इनमेंसे पहले उपदेशका संग्रह यहां किया गया है तथा दूसरे उपदेशका संग्रह दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमें किया गया है । इसप्रकार वीरसेनस्वामीने उक्त शंकाके जो तीन उत्तर दिये हैं उनके देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पहले दो समाधानोंके द्वारा वीरसेनस्वामीने यतिवृषभ आचार्यके भिन्न दो उपदेशोंके समन्वय करनेका प्रयत्न किया है । और तीसरे उत्तरमें समन्वय करनेकी दिशा छोड़कर मतभेदको स्वीकार कर लिया है । मालूम होता है कि वीरसेनस्वामीके सामने ऐसा कोई स्पष्ट आगमबचन न था जिससे 'कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि

* तेवीसाए विहत्तिओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते ज्वविदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ते सेसे ।

§ २४३. गियमग्गहणमेत्थ कायव्वं सेसगइणिवाणहं ? ण, परद्वपडिसेहमुहेण सगडु-परुवयसद्धम्मि गियमुच्चारणम्म फलाभावादो । अत्रोपयोगी श्लोकः—

निरस्यन्तां परस्यार्थं स्वार्थं कथयति श्रुतिः ।

तमो विधुन्वती भास्यं यथा भामयति प्रभा ॥ २ ॥

§ २४४. यदि एवं तो एकिसे विहत्तीए मामित्तसुने वि गियमग्गहणं ण कायव्वं ? ण, तम्म खवगा मणुस्सा चवेत्ति अवहारफलत्तादो । मिच्छत्तं खविय मम्मामिच्छत्तं ख्वेतो ण मरदि त्ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चव सुत्तादो । कथमेकं सुत्तं दोणह-जाव नहीं मरता है' इन मनकी पुष्टि की जामके । फिर भी चूंकि यतिवृषभ आचार्यने दो स्थलोंपर दो प्रकारसे निर्देश किया है, इससे सिद्ध होता है कि यतिवृषभ आचार्यके सामने दो मान्यताएं रहीं होंगी । यहां इनकी विशेषता है कि उच्चारणाचार्यके उपदेशसे कृत-कृत्यवेदक जीव मरता ही नहीं है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही गतियोंमें बाईस प्रकृतिक स्थानके अस्मित्वका कथन किया है ।

* तेईम प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन होता है ? जिम मनुष्य या मनुष्यनीके मिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व शेष है वह तेईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है ।

§ २४३. शंका—इस सूत्रमें शेष तीन गतियोंके निवारण करनेके लिये 'नियम' पदका ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्दसे व्यक्त होनेवाले अर्थका प्रति-षेध करके अपने अर्थका प्ररूपण करता है, इसलिये सूत्रमें नियम शब्दके कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है । अब यहां उपयोगी उल्लेख देते हैं—

'जिसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाश करके प्रकाशयमान पदार्थको प्रकाशित करती है उसीप्रकार शब्द दूसरे शब्दके द्वारा कहे जानेवाले अर्थका निगकरण करके अपने अर्थको कहता है ॥ २ ॥'

§ २४४. शंका—यदि ऐसा है तो एक प्रकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रमें भी 'नियम' पदका ग्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उसके स्वामी क्षपक मनुष्य ही होते हैं यह बतलानेके लिये वहां 'नियम' पद दिया है ।

• शंका—मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करनेवाला जीव नहीं मरता, यह कैसे जाना जाता है ?

मत्थाणं परूवयं ? ण, दिवायरस्स अंधयारविणासणहुवारेण घडादिविविहत्थपया-
सयस्सुवलंभादो ।

* चउवीसाए विहत्तिओ को होदि ? अणंताणुबंधिविसंजोइदे सम्मा-
विट्ठी वा सम्मामिच्छादिट्ठी वा अण्णयरो ।

§ २४५. अट्टावीससंतकम्मिएण अणंताणुबंधीविसंजोइदे चउवीसविहत्तिओ होदि ।
को विसंजोअओ ? सम्मादिट्ठी । मिच्छाइट्ठी ण विसंजोएदि ति कुदो णव्वदे ? सम्मादिट्ठी
वा सम्मामिच्छादिट्ठी वा चउवीसविहत्तिओ होदि ति एदम्हादो सुत्तादो णव्वदे ।
अणंताणुबंधिविसंजोइदसम्मादिट्ठिमिह मिच्छत्तं पडिवण्णे चउवीसविहत्ती किण्ण होदि ?
ण, मिच्छत्तं पडिवण्णपढमसमए चेव चारित्तमोहकम्मक्खंधेसु अणंताणुबंधिमरूवेण
परिणदेसु अट्टावीसपयडिसंतुप्पत्तीदो । सम्मामिच्छाइट्ठी अणंताणुबंधिचउक्कं ण
समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

शंका—एक सूत्र दो अर्थोंका कथन कैसे कर सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूर्य अन्धकारका विनाश करके उसके द्वारा घटादि नाना
पदार्थोंका प्रकाशन करता हुआ देखा जाता है । इससे प्रतीत होता है कि एक सूत्र दो
अर्थोंका कथन कर सकता है ।

* चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन होता है ? अनन्तानुबन्धीकी
विसंयोजना करदेनेपर किसी भी गतिक्रा सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चौबीस
प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है ।

§ २४६. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर
देने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है ।

शंका—विसंयोजना कौन करता है ?

समाधान—सम्यग्दृष्टि जीव विसंयोजना करता है ।

शंका—मिध्यादृष्टि जीव विसंयोजना नहीं करता यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—‘सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी
है’ इस सूत्रसे जाना जाता है कि मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं
करता है ।

शंका—अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके मिध्यात्वको प्राप्त
होजानेपर मिध्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ऐसे जीवके मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही
चारित्रमोहनीयके कर्मस्कन्ध अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणत हो जाते हैं अतः उसके चौबीस
प्रकृतियोंकी सत्ता न रहकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता पाई जाती है ।

विसंजोएदि त्ति कुदो णव्वदे ? उवरि भण्णमाणत्तुणिसुत्तादो । अविसंजोएंतो सम्मा-
मिच्छाइट्ठी कथं चउवीसविहत्तिओ ? ण, चउवीससंतकम्मियसम्मादिहीसु सम्मा-
मिच्छत्तं पडिवण्णेसु तत्थ चउवीसपयडिसंतुवलंभादो । चारित्तमोहणीयं तत्थ अणंताणु-
बंधिसरूवेण किण्ण परिणमइ ? ण, तत्थ तप्परिणमणहेदुमिच्छत्तुदयाभावादो, सासणे
इव तिब्बसंकिंसेसाभावादो वा ।

§ २४६. का विसंजोयणा ? अणंताणुबंधिचउक्कखंधाणं परसरूवेण परिणमणं
विसंजोयणा । ण परोदयकम्मक्खवणाए वियहिचारो, तेसिं परसरूवेण परिणदाणं
पुणरुपत्तीए अभावादो । अणदरो त्ति णिदसो किंफलो ? खेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो

शंका—सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है
यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—आगे कहे जानेवाले चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है कि सम्यग्मिध्यादृष्टि
जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है ।

शंका—जबकी सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं
करता है तो वह चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चौबीस कर्मोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टि जीवोंके सम्यग्मि-
ध्यात्वको प्राप्त होनेपर उनके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता बन जाती है ।

शंका—सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें जीव चरित्रमोहनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे
क्यों नहीं परिणमा लेता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहां पर चरित्रमोहनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमानेका
कारणभूत मिध्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, अथवा सासादन गुणस्थानमें जिस-
प्रकारके तीव्र संछेशरूप परिणाम पाये जाते हैं, सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें उसप्रकारके
तीव्र संछेशरूप परिणाम नहीं पाये जाते हैं, इसलिये सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव चरित्रमो-
हनीयको अनन्तानुबन्धीरूपसे नहीं परिणमाना है ।

§ २४६. शंका—विसंयोजना किस कहते हैं ?

समाधान—अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंके परप्रकृतिरूपसे परिणमा देनेको विसं-
योजना कहते हैं ।

विसंयोजनाका इस प्रकार लक्षण करनेपर जिन कर्मोंकी परप्रकृतिके उदयरूपसे
क्षपणा होती है उनके साथ व्यभिचार (अतिव्याप्ति) आ जायगा सो भी बात नहीं है,
क्योंकि अनन्तानुबन्धीको छोड़कर पररूपसे परिणत हुए अन्यकर्मोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं
पाई जाती है । अतः विसंयोजनाका लक्षण अन्य कर्मोंकी क्षपणामें घटित न होनेसे अति-
व्याप्ति दोष नहीं आता है ।

देवो वा सम्माइष्टी सम्मामिच्छाइष्टी च मामिओ होदि त्ति जाणावणफलो ।

शंका-चूर्णिसूत्रमें जो 'अन्यतर' पदका निर्देश किया है उसका क्या फल है ?

समाधान-नारकी, तिर्थच, मनुष्य या देव इनमेंसे किसीभी गतिका सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इस बातके ज्ञान करानेके लिये चूर्णिसूत्रमें 'अन्यतर' पदका ग्रहण किया है ।

विशेषार्थ-अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विमंयोजना वेदकसम्यग्दृष्टि करता है यह तो सर्वममत् मान्यता है । पर उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है इसमें दो मत हैं । कुछ आचार्योंका मत है कि उपशमसम्यक्त्वका काल थोड़ा है और अनन्तानुबन्धीकी विमंयोजनाका काल अधिक है अतः उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विमंयोजना नहीं करता है । पर कुछ आचार्योंका मत है कि उपशमसम्यक्त्वके कालमें भी अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है । यह दृग्ग मत ब्रह्म रूपमें चला आता है, अतः मुख्य है । इसमें यह तो निश्चिन हो जाना है कि सम्यग्दृष्टि जीव ही अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है । पर ऐसा जीव यदि मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थानमें चला जाता है तो वहां भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अभाव बन जाता है अतः चौबीस विभक्तिस्थानका स्वामी सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव ही होता है । ऐसा जीव सामादन और मिथ्यात्वमें जा सकता है । पर वहां पहले समयसे ही अनन्तानुबन्धीका बन्ध होने लगता है और चारित्रमोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंका अनन्तानुबन्धिरूपमें संक्रमण भी, अतः वहां भी चौबीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । यहां वीरसेन स्वामीने विसंयोजनाका 'अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंका परप्रकृतिरूपसे परिणमन करना विसंयोजना कहलाती है' यह लक्षण किया है । यद्यपि और भी ऐसी बहुतसी कर्मप्रकृतियां हैं जिनका परोदयरूपसे क्षय होता है । अतः विसंयोजनाका लक्षण परोदयसे होने वाली अन्य प्रकृतियोंकी क्षणामें चला जाता है इसलिये अतिव्याप्ति दोष आता है । पर इसपर वीरसेन स्वामीका कहना है कि जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होनेपर उसकी पुनः संयोजना देखी जाती है उस प्रकार जिन प्रकृतियोंका अन्य प्रकृतियोंके उदयरूपसे क्षय होता है उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये विसंयोजनाका लक्षण अन्य प्रकृतियोंकी क्षणामें नहीं जाता है और इसलिये अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता है । तात्पर्य यह है कि विसंयोजनाके उपर्युक्त लक्षणमें 'पुनः उत्पत्तिकी शक्ति रहते हुए' इतना पद और जोड़ लेना चाहिये इससे विसंयोजनाके लक्षणका परोदयसे होनेवाली कर्मक्षणामें जो अतिव्याप्ति दोष आता था वह नहीं आता । पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना हो जाने पर उसकी पुनः संयोजना होती ही है । किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता है उसके अनन्तानुबन्धीकी पुनः संयोजना हो सकती है । तथा

* छब्बीसाण विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्ठी णियमा ।

§ २४७. एत्थतणमिच्छादिट्ठिणिहेसो जेण सेमगुणट्ठाणपडिसेइफलो तेण णियम-ग्गहणं ण कायव्वमिदि ? ण, मिच्छादिट्ठी छब्बीसविहत्तिओ चेवेत्ति णियमपडिसेइहं तक्का(तक्क-)रणादो ।

* सत्तावीसाण विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्ठी ।

§ २४८. अट्ठावीससंतकम्मिओ उव्वेलिदमम्मत्तो मिच्छाइट्ठी सत्तावीसविहत्तिओ होदि । एत्थ वि पुच्चिञ्जल-णियमग्गहणमणुवट्ठावेदव्वं, अण्णाहा अट्ठावीस-छब्बीस-टाणाणं मिच्छादिट्ठिमि अभावप्पसंगादो त्ति बुत्ते ण; पुच्चावरसुणेहि तेसिं तत्थ अत्थित्तमिद्धीदो ।

* अट्ठावीसाण विहत्तिओ को होदि ? मम्माइट्ठी मम्मामिच्छा-इट्ठी मिच्छाइट्ठी वा ।

जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है उसके अनन्तानुबन्धीकी उत्पत्ति नहीं ही होती ।

* छब्बीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी कौन होता है ? नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव छब्बीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है ।

§ २४७. शंका—चूंकि इस सूत्रमें आये हुए 'मिथ्यादृष्टि' पदमें ही शेष गुणस्थानोंका निषेध होजाता है, अतः सूत्रमें 'नियम' पदका ग्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला ही होता है, इसप्रकारके नियमके निषेध करनेके लिये चूर्णिसूत्रमें मिथ्यादृष्टि पदके साथ 'णियम' पदका ग्रहण किया है । जिसमें यह अभिप्राय निकल आता है कि मिथ्यादृष्टि जीव अस्य प्रकृतिक स्थानोंका भी स्वामी होता है । पर छब्बीस प्रकृतिक स्थान केवल मिथ्यादृष्टिके ही होता है अन्यके नहीं ।

* सत्ताईस विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ? मिथ्यादृष्टि जीव सत्ताईस विभक्ति स्थानका स्वामी होता है ।

§ २४८. अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्प्रकृतिकी उद्देखना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है ।

शंका—इससे पहलेके सूत्रमें कहे गये नियम पदकी अनुवृत्ति इस चूर्णिसूत्रमें भी कर लेनी चाहिये, अन्यथा मिथ्यादृष्टिमें अट्ठाईस और छब्बीस प्रकृतिक विभक्ति स्थानोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इस सूत्रसे पिछले और अगले सूत्रके द्वारा मिथ्यादृष्टि जीवमें उक्त दोनों स्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है ।

* अट्ठाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है ? सम्यग्दृष्टि, सम्यग्गमि-

§ २४६. सुगमत्तादो एत्थ ण वत्तन्वमत्थि । एवमोषेण जइवमहाइरियसामित्त-
सुसत्थं परुविय संपहि उच्चारणाइरिय-उवसेण आदेसे सामित्तं भणिस्सामो ।

§ २५०. पंचिदिय-पंचिदियपज्ज०-तस-तसपज्ज०-कायजोगि-चक्खुदं०-अचक्खु०-
भवसिद्धि०-सण्णि-आहारीणं मूलोषमंगो ।

§ २५१. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अट्टावीसविहती कस्स ? अण्णदरस्स
मिच्छाइट्ठिस्स सम्माइट्ठिस्स मम्मामिच्छाइट्ठिस्स वा । मत्तावीस-छ्वीसविहती कस्स ?
अण्णदरस्स मिच्छाइट्ठिस्स । चउवीस-वावीस-एक्कीसविहती कस्स ? अण्णदरस्स
सम्माइट्ठिस्स । एवं पढमाए पुढवीए; तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-
पज्ज०-देव-सोहम्मसीसाणादि जाव उत्ररिमगेवेजे त्ति वत्तच्चं । विदियादि जाव मत्तमी
त्ति एवं चेव । णवरि, वावीस-एक्कीमविहती णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्खजोणिणी-
भवण०-वाण-जोदिसियत्ति वत्तच्चं ।

ध्यादृष्टि या मिध्यादृष्टि जीव अट्टाईम प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी होता है ।

§ २४६. यह सूत्र सुगम है, अतः इस विषयमें अधिक कहने योग्य नहीं है । इस प्रकार ओषकी अपेक्षा यतिवृषभ आचार्यके स्वामित्व विषयक सूत्रोंका अर्थ कहकर अब उच्चारणाचार्यके उपदेशानुसार आदेशकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वाराका कथन करते हैं—

§ २५०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रमपर्याप्त, काययोगी चक्षुदर्शनी, अचक्षु-
दर्शनी, भव्य, संक्षी और आहारक जीवोंके भंग मूलोषके समान जानना चाहिये । तात्पर्य यह है कि उक्त मार्गणाओंमें सब विभक्तिस्थानोंका पाया जाना संभव है अतः इनमें स्वामित्वका कथन मूलोषके समान है ।

§ २५१. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? मिध्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिध्यादृष्टि किसी भी नारकीके अट्टाईस विभक्ति स्थान होता है । सत्ताईस और छ्वीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी मिध्यादृष्टि नारकीके होता है । चौबीस, बाईस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टिके होते हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीमें तथा तिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच और पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म-
पेशान स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंके कथन करना चाहिये । नरककी दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारकियोंके बाईस और इक्कीस विभक्तिरूप स्थान नहीं होते हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यच योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और उयोतिषी देवोंके भी कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंके २८, २७, २६, २४, २२ और २१ ये कुछ

§ २५२. पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-विहत्ती कस्स ? सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे २८ सत्त्वस्थान नारकियोंके चारों गुणस्थानोंमें सम्भव है। कारण स्पष्ट है। २७ और २६ सत्त्वस्थान मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं, क्योंकि जिसने सम्यक्त्वकी उद्वेलना की है वह २७ सत्त्वस्थानका स्वामी होता है। सो सम्यक्त्वकी उद्वेलना चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही करता है, इसलिये नारकी मिथ्यादृष्टिके २७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है। इसी प्रकार २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी चारों गतिके मिथ्यादृष्टिके ही होता है। यह सत्त्वस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो जो अनादि मिथ्यादृष्टि होता है उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता है और दूसरे जिस मिथ्यादृष्टिने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाकी है उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता है। यतः नरकमें दोनों प्रकारके जीव सम्भव हैं अतः नारकी मिथ्यादृष्टिके २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बन जाता है। अब रहे शेष तीन सत्त्वस्थान मो वे सम्यग्दृष्टि अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। उसमें भी केवल अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवालेके २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके २२ प्रकृतिक व क्षायिक सम्यग्दृष्टिके २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। सामान्यसे नारकीके ये तीनों ही अवस्थाएं सम्भव हैं अतः यहां उक्त सत्त्वस्थान भी सम्भव हैं। इस प्रकार सामान्यसे नारकियोंके उक्त सत्त्वस्थान कैसे होते हैं इमका कारण बतलाया। प्रथम नरक आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें भी उक्त सब अवस्थाएं सम्भव हैं अतः वहां भी वे सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। किन्तु दूसरे नरकसे लेकर भातवे नरक तकके जीव और पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिनी, भवन वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव इनमें कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि और क्षयिक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते; इसलिये इनके २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते हैं, शेष ४ सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। यद्यपि यहां उच्चारणावृत्तिमें सामान्यसे सौधर्म और ऐशानवामी देवोंके २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बतलाये हैं पर वे पुरुषवेदी देवोंके ही जानना चाहिये देवियोंके नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर लीविदियोंमें उत्पन्न नहीं होता ऐसा नियम है। एक बात और है और वह यह कि प्रकृतमें २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी सम्यग्दृष्टिको ही बतलाया है जब कि इमका स्वामी सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी होता है, सो यह सामान्य वचन है इसलिये कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सामादन-सम्यग्दृष्टिके भी होना है। पर उच्चारणोंमें उमका उल्लेख नहीं किया है सो यहां सामादन-सम्यग्दृष्टिका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अन्तर्भाव करके ही ऐसा विधान किया गया है ऐसा समझना चाहिये।

§ २५२. पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस

अण्णदरस्म । एवं मणुमअपञ्ज०-पंचिदियअपञ्ज०-तसअपञ्ज०-सव्वएइंदिय-सव्वविग-
लिंदिय-सव्वपंचकाय-अमण्णि-मदि-सुदअण्णाणि-विहंग-भिच्छाइट्ठी ति वत्तव्वं ।

§ २५३. मणुमगईए मणुमपञ्जत्त-मणुसिणीणं मूलोघभंगो । एवं पंचमणजं नि
पंचवचिजोगि - ओगलियकायजोगि ति वत्तव्वं । सुक्कलेस्साए वि मणुमगइभंगो ।
णवरि, बावीमविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स देवस्स मणुस्सस्स वा अक्खीणदंसण-
मोहणीयस्स । गिरय-तिरिक्खेसु णत्थि । अणुदिमादि जाव सव्वट्ठे ति अट्ठावीस-
चउवीम-एकवीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स० । वावीमविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स ।

विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यचके होते हैं । इसी
प्रकार मनुष्य लब्धपर्याप्त, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, त्रस लब्धपर्याप्त सभी एकेन्द्रिय, सभी
विकलेन्द्रिय, सभी पांचों स्थावर काय, असंज्ञी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी और
मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । आशय यह है कि उक्त मार्गणावाले जीव मिथ्या-
दृष्टि ही होते हैं और मिथ्यादृष्टियों के २८, २७ और २६ ये तीन सत्त्वस्थान पाये
जाते हैं, अतः यहाँ ये तीन सत्त्वस्थान कहे हैं ।

§ २५३. मनुष्य गतिमें सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीके मूलोघके
समान भंग कहना चाहिये । इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी और औदारिक
काययोगी जीवोंके कहना चाहिये । शुक्ल लेश्यामें भी मनुष्य गतिके समान स्थान होते
हैं । इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेश्यामें बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ?
जिसने दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी एक देव
या मनुष्यके बाईस विभक्ति स्थान होता है । नारकी और तिर्यच जीवोंके बाईस विभक्ति
स्थान नहीं होता । तात्पर्य यह है कि मनुष्य गतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें बाईस
विभक्ति स्थान निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामे ही पाया जाता है और देवोंको छोड़कर उत्तम
भोगभूमिके तिर्यच तथा पहले नरकके नारकियोंके अपर्याप्त अवस्थामें कापोत लेश्या
ही होती है, अतः यहाँ शुक्ल लेश्याके साथ तिर्यच और नारकियोंके बाईस विभक्ति
स्थानका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अट्ठाईस, चौबीस और इक्कीस
विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? किसी भी देवके होते हैं । बाईस विभक्ति स्थान किसके
होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी
भी देवके होता है । आशय यह है कि ये देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं इस लिये इनके
२८, २४, २२ और २१ ये चार सत्त्वस्थान ही पाये जाते हैं । २७ और २६ सत्त्व-
स्थान नहीं पाये जाते ।

§ २५४. ओरालियमिस्स० अट्टावीसविहती कस्स ? अण्णदरस्स तिरिक्ख-मणुस्स-मिच्छाइट्ठिस्स मणुस्सस्स सम्मादिट्ठिस्स वा । सत्तावीस-छब्बीसविहती कस्स ? अण्ण० दुगइमिच्छाइट्ठिस्स । चउवीसविहती कस्स ? अण्णदरस्स[मणुस्स] सम्माइट्ठिस्स । वावीसविहती कस्स ? अण्णदरस्स दुगइअक्खीणदंसणमोहस्स । एकवीसविहती कस्स ? दुगइसम्माइट्ठिस्स ।

§ २५५. वेउच्चिय० अट्टावीसविह० कस्स ? देव-णोरइयमिच्छा० सम्मादिट्ठिस्स

§ २५४. औदारिक मिश्र काययोगमें अट्टाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी मिध्यादृष्टि तिर्यच या मनुष्यके तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति स्थान किमके होते हैं ? तिर्यच और मनुष्य इन दोनों गतियोंके किसी भी मिध्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका ज्ञय नहीं किया है ऐसे उक्त दोनों गतियोंके किसी भी कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उक्त दोनों गतियोंके सम्यग्दृष्टि जीवके होता है ।

विशेषार्थ—औदारिक मिश्र काययोग तिर्यच और मनुष्योंके अपर्याप्त अवस्थामें होता है । अब देखना यह है कि औदारिक मिश्र काय योग अवस्थाके रहते हुए इन दो गतियोंमें से किम गतिमें कौनसा गुणस्थान रहते हुए कौन कौन सत्त्वस्थान होते हैं । यह तो सुनिश्चित है कि उपशम सम्यग्दृष्टि जीव मर कर मनुष्य और तिर्यचोंमें नहीं उत्पन्न होता । इसलिये उपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान इन दोनों गतियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें नहीं पाया जा सकता । कृतकृत्यवेदकके सिवा वेदक सम्यग्दृष्टि जीव मर कर तिर्यचोंमें नहीं उत्पन्न होता, हां मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न हो सकता है, इसी से यहाँ औदारिक मिश्रकाययोगके रहते हुए मिध्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यचको तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्यको २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बतलाया है । २७ और २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान दोनों गतियोंके मिध्यादृष्टिके होता है । यह स्पष्ट ही है । २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान मनुष्य सम्यग्दृष्टिके होनेका कारण यह है कि ऐसा वेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है, तिर्यचोंमें नहीं । शेष रहे २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान, जो ये दोनों गतियोंमें औदारिक मिश्र अवस्थाके रहते हुए उत्तम भोग भूमि अवस्थाकी अपेक्षा सम्भव हैं । इस प्रकार औदारिक मिश्र काययोगमें २८, २७, २६, २४, २२ और २१ ये छह सत्त्व स्थान किस प्रकार सम्भव हैं इसके कारणका विचार किया ।

§ २५५. नैक्रियिककाययोगमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? मिध्यादृष्टि

वा । सत्तावीस-छब्बीसवि० कस्स ? देव-गेरइयमिच्छाइद्विस्स । चउवीस-एकवीसविह० कस्स ? देव-गेरइयसम्माइद्विस्स । वावीसविहती णत्थि । एवं वेउच्चियमिस्सकायजो-गीसु वत्तव्वं । णवरि, वावीसविहती कस्स ? अण्णदरस्स देव-गेरइयसम्माइद्विस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स ।

§ २५६. आहार०-आहारमिस्स० अट्टावीस-चउवीसविहती कस्स ? अण्ण० वेद-यसम्माइद्विस्स । एकवीसविहती कस्स ? अण्ण० खइयसम्माइद्विस्स ।

§ २५७. कम्मइय० अट्टावीसविह० कस्स ? अण्णदरस्स चउगइमिच्छादिद्विस्स देव-मणुस्ससम्माइद्विस्स वा । सत्तावीस-छब्बीसविहती कस्स ? अण्ण० चउगइमिच्छा-या सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवोंके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? मिथ्यादृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं । सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हैं । यहां बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीवके होता है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके नहीं पाये जानेका कारण यह है कि यह सत्त्वस्थान मरकर अन्य गतिको प्राप्त हुए जीवके अपर्याप्त अवस्थामें ही होता है और अपर्याप्त अवस्थामें वैक्रियिककाययोग नहीं होता । यही सबब है कि वैक्रियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका निषेध करके वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें उसे बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

§ २५६. आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें अट्टाईस और चौबीस विभक्ति-स्थान किसके होते हैं ? किसी भी वेदकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त संयत जीवके होते हैं । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टि प्रमत्त संयतके होता है ।

विशेषार्थ—आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग प्रमत्तसंयतके होते हैं । यद्यपि प्रमत्तसंयतके और भी सत्त्वस्थान पाये जाते हैं पर एमा जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारम्भ नहीं करता इसलिये उसके वेदक और क्षायिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा तीन ही सत्त्वस्थान बतलाये हैं ।

§ २५७. कर्मणकाययोगमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतिके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके और सम्यग्दृष्टि देव तथा मनुष्यके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? दोनों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि

इष्टिस्स । चउवीसविह० कस्स ? अण्ण० दुगइसम्माइष्टिस्स । वावीस-एक्कीसवि० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्माइष्टिस्स ।

§ २५८. वेदानुवादेण इत्थिवेद० अट्ठावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइष्टिस्स वा । सत्तावीस-छब्बीसविह० कस्स ? तिगइमिच्छाइष्टिस्स । चउवीस-विहत्ती कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइष्टिस्स । तेवीस-वावीस-एक्कीसवि० कस्स ? अण्ण० मणुसिणीसम्माइष्टिस्स । तेरस-बारसविह० कस्स ? अण्ण० मणुसिणीखवयस्स ।

§ २५९. पुरिसवेदे अट्ठावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइष्टिस्स वा । सत्तावीस-छब्बीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छाइष्टिस्स । चउवीसविह० जीवके होता है । यहां दो गतियोंसे देव और मनुष्य गतिका ग्रहण किया है । बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होते हैं ।

विशेषार्थ—२८ प्रकृतियोंकी मत्तावाले वेदक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें और मनुष्य मरकर देवोंमें ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये कर्मणकाययोगके रहते हुए देव और मनुष्यगतिके ही सम्यग्दृष्टि जीव २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी बतलाये हैं । इमीप्रकार २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सम्बन्धमें भी जान लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

§ २५८. वेदमार्गणाके अनुवादेसे खीवेदमें अट्ठाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरकगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । नरकगतिके खीवेद नहीं होता इसलिये यहां डसका निषेध किया है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किमके होते हैं ? नरक गतिके बिना शेष तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? उपर्युक्त तीनों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यनीके होते हैं । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपक मनुष्यनीके होते हैं ।

विशेषार्थ—खीवेदी द्रव्य मनुष्य दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर सकते हैं । इसलिए यहां मनुष्यनीके २३, २२, २१, १३ और १२ सत्त्वस्थान बतलाये हैं । पर कृत्यकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर खीवेदियोंमें नहीं उत्पन्न होता इसलिये २२ और २१ प्रकृतिक स्थानका स्वामी भी मनुष्यनीको ही बतलाया है । शेषकथन सुगम है ।

§ २५९. पुरुषवेदमें अट्ठाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? तिर्यच, मनुष्य और देव इन तीन गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? उपर्युक्त तीनों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । नारकी पुरुषवेदी नहीं होते इसलिये यहां उनका ग्रहण नहीं किया है ।

कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्टिम्म । एवमेकवीस । तेवीमविह० कस्स ? अण्ण० मणुससम्माइट्टिम्म अक्खविद-मम्मामिच्छत्तम्म । वावीमविह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्टिम्म अक्खीणदंसणमोहणीयम्म । तेरस-बारस-एक्कारस-पंचविह० कस्स ? अण्ण० मणुस्सखवयम्म ।

§ २६०. णवुंम० अट्टावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छा० मम्माइट्टिम्म वा । सत्तावीस-छब्बीमविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छादिट्टिम्म । चउवीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्टिम्म । वावीसविह० कस्स ? अण्ण० दुगइसम्माइट्टिम्म अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । एक्कावीमविह० कस्स ? अण्ण० दुगइखइयसम्मादिट्टिम्म । तेवीमविह० कस्स ? अण्ण० मणुस्ससम्माइट्टिम्म अक्खविदमम्मामिच्छत्तस्स । तेरस-बारसविह० कस्स ? अण्ण० मणुम्मखवयम्म ।

चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उपर्युक्त तीनों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इसी प्रकार इक्कीस विभक्तिस्थान भी उक्त तीन गतियोंके सम्यग्दृष्टि जीवके कहना चाहिये । तेईम विभक्ति स्थान किसके होना है ? जिसने सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है । दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ और मिथ्यात्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा मनुष्य ही करता है, इस लिये २३ प्रकृतिक सत्वस्थानका स्वामी मनुष्यको ही बतलाया है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे उक्त तीनों गतियोंके किसी भी कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । तेरह, बारह, ग्यारह और पाच विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक क्षपक मनुष्यके होते हैं ।

§ २६०. नपुंसकवेदमें अट्टाईम विभक्ति स्थान किसके होता है ? देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतिके मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । देवगतिके नपुंसकवेद नहीं होता इसलिये यहाँ उसका निषेध किया है । सत्ताईम और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? उक्त तीन गतियोंके किसी भी जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उक्त तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे नरक और मनुष्यगतिके किसी भी कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरक और मनुष्य गतिके किसी भी भ्रायिक सम्यग्दृष्टिके होता है । तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यके है । तेरह और बारह विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपक मनुष्यके होते हैं ।

विशेषार्थ—कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि मरकर नरकगतिके सिवा

§ २६१. अवगद० चउवीस-एक्कीसविह० कस्स ? अण्ण० उवसंतकसायस्स । एकारम-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एक्कविहत्ती कस्स ? अण्ण० खवयस्स ।

§ २६२. कसायाणुवादेण कोधक० अट्टावीमादि जाव पंच चत्तारिविहत्ति सि मूलो-घमंगो । एवं माण०, णवरि तिविह० अत्थि । एवं माया०, णवरि दुविह० अत्थि । एवं लोभ०, णवरि एयविह० अत्थि । अकसा० चउवीस-एक्कीसविह० कस्स ? अण्ण० उवसंतकसायस्स । एवं जहाकवाद० ।

§ २६३. आभिणि०-सुद०-ओहि० अट्टावीमविह० कस्स ? अण्ण० सम्माइट्ठिस्स । सत्तावीम-छब्बीमविह० णत्थि । सेमाणमोघमंगो । एवमोहिदंमणी-सम्माइट्ठि-मण-पञ्जवणाणीणं । एवं सामाइय छेदो० ।

शेष नपुंसकमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिये २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी नपुंसकवेदी नारकी और मनुष्य बतलाये हैं । यहां मनुष्यपर्याय जिस भवमे क्षायिक सम्यग्दर्शन पैदा करना है उसी भवकी अपेक्षा लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

§ २६१. अपगतवेदियोंमे चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं । ग्यारह, पाच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपकके होते हैं । अपगतवेदियोंके उपशमश्रेणीकी अपेक्षा २४ और २१ तथा क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा ११, (५) ४, ३, २ और १ सत्त्वस्थान होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ २६२. कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी जीवोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानमें लेकर पांच और चार विभक्तिस्थान तक मूलोघके समान कथन करना चाहिये । इसीप्रकार मान-कषायियोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके तीन विभक्तिस्थान भी पाया जाता है । इसीप्रकार मायाकषायवाले जीवोंके भी कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है । मायाकषायवालोंके समान लोभकषायवालोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके एक विभक्तिस्थान भी पाया जाता है । कषायरहित जीवोंमें चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं । अकषायी जीवोंके समान यथाख्यात संयतोंके भी कहना चाहिये ।

§ २६३. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । उक्त तीन ज्ञानवाले जीवोंके सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । शेष चौवीस आदि स्थानोका ओघके समान कथन करना चाहिये । अवधिदर्शनवाले, सम्यग्दृष्टि और मनःपर्ययज्ञानवाले जीवोंके भी इसीप्रकार समझना चाहिये । इसीप्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके भी

§ २६४. परिहार० अट्टावीस-चउवीस-तेवीस-वावीस-एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० संजदस्स । सुहुममांपराइय० चउवीस-एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स । एकविह० कस्स ? अण्ण० खवयस्स । संजदासंजद० अट्टावीस-चउवीसविह० कम्म ? अण्ण० दुगईसु वड्डमाणस्स । तेवीस-वावीस-एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा । असंजद० अट्टावीसादि जाव एकवीसं ति ओघमंगो ।

§ २६५. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्साए अट्टावीसविह० कस्स ? अण्णद० चउगइमिच्छा-इट्ठिम्म, देवगईए विणा तिगइसम्माइट्ठिम्म । छव्वीस-सत्तावीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइमिच्छाइट्ठिम्म । चउवीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्ठिम्म । एकवीस-विह० कस्स ? अण्ण० मणुस्स-मणुस्सिणीखइयसम्माइट्ठिम्म । एवं णील-काउलेस्साणं । णवरि काउलेस्साए वावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइट्ठिम्म अकखीणदंसण-समझना चाहिये ।

§ २६४. परिहार विशुद्धिसंयतोंमें अट्टाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी संयतके होते हैं । सूक्ष्ममांपरायिकशुद्धि संयतोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी उपशामकके होते हैं । एक विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षपकके होता है । संयतासंयतोंमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थान किमके होते हैं ? तिर्यंच और मनुष्यगतिमें विद्यमान किसी भी जीवके होते हैं । तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी मनुष्य या मनुष्यनीके होते हैं । असंयतोंके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे लेकर इक्कीस विभक्तिस्थान तक ओघके समान समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर यदि तिर्यंच होता है तो उत्तम भोगभूमिज ही होता है पर वहां संयमासंयमकी प्राप्ति सम्भव नहीं, इसलिये संयतासंयत गुणस्थानमें २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान केवल मनुष्य गतिमें ही बतलाये हैं । शेष कथन सुगम है ।

§ २६५. लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्यामें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीवके और देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । छव्वीस और सत्ताईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य या मनुष्यनीके होता है । इसी प्रकार नील और कपोत लेश्याओंका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कपोत लेश्यामें बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीका पूरा क्षय

मोहणीयस्स । एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइस्सइयसम्माइद्विस्स ।

§२६६. तेउ-पम्मलेस्सासु अट्टावीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छा०-सम्माभि०-सम्मादिटीणं । सत्तावीस-छब्बीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइमिच्छाइद्विस्स । चउ-वीसविह० कस्स ? अण्ण० तिगइसम्माइद्विस्स । एवमेकवीम० वत्तवं । तेवीसविह० नहीं किया है ऐसे नरक, तिर्यंच और मनुष्य गतिके किसी भी कृतकृत्यवेदक सम्बन्धितके होता है । इसीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? उक्त तीन गतियोंके किमी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवके होता है ।

विशेषार्थ—देवगतिके सिवा शेष तीन गतियोंमें कृष्णलेइयाके रहते हुए सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है यह तो स्पष्ट ही है, किन्तु देवगतिके कृष्णलेइयाके रहते हुए यह स्थान मिथ्यादृष्टिके ही प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्णादि तीन अशुभ लेइयाए भवनत्रिकमें अपर्याप्त अवस्थामें ही पाई जाती हैं और इनके अपर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दर्शन नहीं होता । २७ और २६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतिके कृष्णलेइयावाले मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव है, क्योंकि ऐसे जीवोंके चारों गतियोंमें पाये जानेमें कोई बाधा नहीं । २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान कृष्णलेइयाके रहते हुए देवगतिके नहीं बतलानेका कारण यह है कि देवगतिके कृष्णलेइया अपर्याप्त अवस्थामें भवनत्रिकके पाई जाती है पर वहां सम्यग्दर्शन नहीं होता ऐसा नियम है । कृष्णलेइयामें २३ और २२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ अशुभ लेइयावाले जीवके नहीं होता । २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया तो जाता है पर यह मनुष्य या मनुष्यनीके ही सम्भव है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्यगतिके छहों लेइयाएँ सम्भव हैं । नीललेइया और कापोतलेइयामें भी इसी-प्रकार सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं । किन्तु कापोतलेइयामें २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि प्रथम नरकके नागकी, भोगभू मज तिर्यंच और मनुष्योंके अपर्याप्त अवस्थामे कापोत लेइया पाई जानेके कारण कापोत लेइयामें उक्त तीन गतिका जीव २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बन जाता है । प्रथम नरकमें कापोतलेइया ही है और क्षायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्यके भी कापोतलेइया हो सकती है इसलिये इन दो गतिके जीव पर्याप्त अवस्थामें भी २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी हो सकते हैं ।

§२६६. पीत और पद्मलेइयामें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? नरकगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? उक्त तीन गतियोंके किमी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है । उक्त तीन गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । इसीप्रकार इसीस विभक्तिस्थानका भी कथन

कस्स ? अण्ण० मणुस० मणुस्सिणीए वा । वावीसविहती कस्स ? अण्ण० दुगइअ-
बस्सीणदंसणमोहणीयस्स । अमव्वमिद्धि० छव्वीसविह० कस्स ? अण्ण० ।

§२६७. खइयस्स एकवीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्माइट्टिस्स । सेसमोघ-
मंगो । वेदगमम्माइट्टिस्स अट्टावीस-चउवीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्माइट्टिस्स ।
तेवीसविह० कस्स ? मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा । वावीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्मा-
इट्टिस्स अबस्सीणदंसणमोहणीयस्स । उवमम० अट्टावीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइ-
सम्माइट्टिस्स । चउवीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्माइट्टिस्स विसंजोइदाणं-
ताणुबंधिचउकस्स । सामण० अट्टावीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसासणसम्मा-
इट्टिस्स । सम्मामि० अट्टावीस-चउवीसविह० कस्स ? अण्ण० चउगइसम्माभिच्छाइट्टिस्स ।
अणाहारि० कम्मइयभंगो ।

एवं मामित्तं समत्तं ।

करना चाहिये । तेईम विभक्तिस्थान किमके होता है ? जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर
दिया है ऐसे किसी भी मनुष्य या मनुष्यनीके होता है । बाईम विभक्तिस्थान किसके
होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे मनुष्य और देवगतिके
किमी भी जीबके बाईम विभक्तिस्थान होता है । अभव्योंमें छव्वीम विभक्तिस्थान किसके
होता है ? किमी भी अभव्यके होता है ।

§२६७. क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें इकीस विभक्तिस्थान किमके होता है ? चारों गतियोंके
किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है । क्षायिकसम्यग्दृष्टिके शेष म्यान ओषके समान समझना
चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों
गतियोंके किमी भी सम्यग्दृष्टिके होते हैं । तेईम विभक्तिस्थान किमके होता है ? मनुष्य
या मनुष्यनीके होता है । बाईम विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने दर्शनमोहनीयका
पूरा क्षय नहीं किया ऐसे चारों गतियोंके किमी भी कृत्यकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीबके होता है ।
उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किमके होता है ? चारों गतियोंके किसी भी
सम्यग्दृष्टिजीबके होता है । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने अनन्तानु-
बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे चारों गतिके किसी भी उपशमसम्यग्दृष्टि-
जीबके होता है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों
गतिके किसी भी सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अट्टाईस और
चौबीस विभक्तिस्थान किमके होते हैं ? चारों गतिके किमी भी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबके
होते हैं । कर्मणकाययोगियोंके स्थानोंका जिसप्रकार कथन कर आये हैं उसीप्रकार अनाहारक
जीबोंके समझना चाहिये ।

इसप्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

कालो ।

§ २६८. जहियासंभालणवयणभेदं । तत्थ कालानुगमेण दुबिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण व । तत्थ ओषेण एकस्से विहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहणणुक्सेण अंतोमुहुत्तं । तं जहा—इगिवीससंतकम्मिओ चेव खवणाए अब्भुट्टेदि, सुद्धसदहणेण विष्ठा चारित्तमोहकखवणाणुववचीदो । तदो सो खवणसेदिमब्भुट्टिय अणियट्ठिअद्दाए संखेओ भाणे भंतूण तदो अट्टकसाए खवेदि । पुणो अंतोमुहुत्तमुवरि गंतूण थीणगिद्धीतिय-धिम्म्यग्ग-तिरिक्खग्ग-णिरयग्गपाओग्गाणुपुच्ची [तिरिक्खग्गपाओग्गाणुपुच्ची] एइंदिय बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-आदावुज्जोव-धावर-सुहुम-साहारणसरीराणि एदाओ सोलत्तपक्कीओ खवेदि । तदो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण मणपजवणाणावरणीय-दाणंत-राइयाणं सव्वघादिवंधं देसघादिं करेदि । तदो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण ओहिणाणा-वरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणं सव्वघादिवंधं देसघादिं करेदि । तदो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाणं सव्वघादिवंधं देसघादिं करेदि । तदो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण चक्खुदंसणावरणीयस्स सव्वघादिवंधं

अब कालानुयोगद्वारका अधिकार है ।

§ २६८. 'कालो' यह वचन अर्थाधिकारका निर्देश करनेके लिए दिया है ।

कालानुयोगद्वारकी अपेक्षा ओष और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । उनमेंसे ओषकी अपेक्षा एक विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

उसका खुलासा इसप्रकार है—जिसके चारित्रमोहनीयकी इकीस प्रकृतियोंकी सत्ता विद्यमान है वही चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, क्योंकि क्षायिकसम्यग्दर्शनके बिना चारित्रमोहकी क्षपणा नहीं बन सकती । इसप्रकार चारित्रमोहकी इकीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव क्षपकश्रेणीपर आरोहण करके अनिष्टनिर्करणके कालके संख्यातवें भागको व्यवतीत करके अनन्तर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका क्षय करता है । अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिताकर सत्यानृद्धित्रिक, नरकगति, नरकमत्स्यानुपूर्वी, तिर्यचगति, तिर्यचगत्त्वानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, आताप, उद्योत, स्वावर, सूक्ष्मशरीर और साधारणशरीर इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता है । पुनः अन्तर्मुहूर्त बिताकर मनःपर्ययज्ञानावरण और दानाम्तरावके सर्वघातिबन्धको देशघातिरूप करता है । इसके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिताकर अवधि-ज्ञानावरण; अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके सर्वघातिबन्धको देशघातीरूप करता है । इसके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिताकर श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके सर्वघातिबन्धको देशघातिरूप करता है । इसके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिताकर चक्षुदर्शना-

देसघादिं करेदि । तदो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण आमिणिबोहियणाणावरणीय-परिमो-
 गंतराइयाणं सव्वघादिवंधं देसघादिं करेदि । तदो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण विरियंत-
 राइयसव्वघादिवंधं देसघादिं करेदि । तदो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण चटुसंजलण-णवणो-
 कसायाणं तेरसण्हं कम्माणमंतरं करेदि, ण अण्णेसिं; तेसिं चारित्तमोहत्ताभावादो ।
 अंतरं करेमाणो पुरिसवेद-क्रोधसंजलणाणं पढमट्टिदिमंतोमुहुत्तपमाणं मोत्तूण अंतरं
 करेदि, सेसएकारसण्हं कम्माणमुदयावलिं मोत्तूण । तदो कदंतरविदियसमए मोहणी-
 यस्स आणुपुच्चिसंकमो लोभस्स असंकमो मोहणीयस्स एगट्टाणिओ बंधो एगट्टाणिओ
 उदओ णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणसंकामओ सव्वकम्माणं छसु आवलियासु गदासु
 उदीरणा सव्वमोहणीयस्स संखेज्जवस्सट्टिदिओ बंधो त्ति एदाणि सत्तकरणाणि जुगवं
 पारभदि । कयंतरविदियसमयप्पहुड्डि णवुंसयवेदं खवेमाणो अंतोमुहुत्तं गंतूण खवेदि ।
 से काले इत्थिवेदक्खवणं पारमिय तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण तं पि खविज्जमाणं खवेदि ।
 एदेसिं दौण्हं पि कम्माणं खवणकालो पढमट्टिदीए संखेजा भागा । तदो इत्थिवेदे खीणे
 सत्तणोकसाए अंतोमुहुत्तकालेण खवेमाणो सवेददुच्चरिमसमए पुरिसवेदच्चिराणसंतकम्मं
 वरणके सर्वघाति बन्धको देशघातिरूप करता है । इसके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिताकर
 मतिज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके सर्वघातिबन्धको देशघातिरूप करता है । इसके
 अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिताकर वीर्यान्तरायके सर्वघातिबन्धको देशघातिरूप करता है ।
 इसके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त बिताकर चार संज्वलन और नौ नोकषाय इन तेरह कर्मोंका अन्तर
 करता है और दूसरे कर्मोंका अन्तर नहीं करता, क्योंकि और दूसरे कर्म चारित्रमोहनीयके
 भेद नहीं हैं । उक्त तेरह प्रकृतियोंका अन्तर करते ममय पुरुषवेद और क्रोध संज्वलनकी
 अन्तर्मुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषेकोंका अन्तर करता है । और अनु-
 दयरूप शेष ग्यारह कर्मोंकी उदयावलि प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषेकोंका
 अन्तर करता है ।

तदनन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें क्षपक जीव मोहनीयका आनुपूर्वी क्रमसे
 संक्रम, लोभका असंक्रम, मोहनीयका एकस्थानिक बन्ध, मोहनीयका एक स्थानिक उदय, नपुं-
 सक वेदका आवृत्तकरण संक्रम, ममस्त कर्मोंकी छह आवलीके अनन्तर ही उदीरणाका
 होना और समस्त मोहनीयका संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध इन सात करणोंको एक
 साथ प्रारंभ करता है । फिर अन्तर करनेके दूसरे समयसे लेकर नपुंसकवेदका क्षय करता
 हुआ अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालमें उसका क्षय करता है । उसके अनन्तर खीवेदकी क्षपणाका
 प्रारंभ करके अन्तर्मुहूर्त कालमें उसका भी क्षय करता है । इन दोनों ही कर्मोंका क्षपणाकाल
 प्रथमस्थितिका संख्यात बहुभाग प्रमाण है । इसप्रकार खीवेदके क्षय हो जानेपर अन्त-
 र्मुहूर्त कालके द्वारा शेष सात नोकषायोंका क्षय करता हुआ सवेद भागके द्विचरम समयमें

छण्णोक्सायचरिमफालिं च सञ्चसंकमेण कोधसंजलणम्मि संकामेदि । तदो सवेदिय-
 चरिमसमयप्पहुडि समयूणदोआवलियमेत्तकालं पंचविहत्तिओ होदि । से काले अवेदओ
 होदूण अस्सकण्णकरणं करेमाणो पुरिसवेदणवक्कबंधं खवेदि । तम्मि खीणे चत्तारि
 विहत्तिओ होदि । तदो उवरिमंतोमुहुत्तं गंतूण अस्सकण्णकरणे समत्ते चहुण्हं संजल-
 णापमेक्केक्किस्से संजलणाए तिण्णि तिण्णि बादरकिट्ठीओ अंतोमुहुत्तकालेण करेदि । तदो
 किट्ठीकरणे समत्ते कोधसंजलणस्स तिण्णि किट्ठीओ जहाकमेण खवेदि । कोधसंजलणे
 खवेदे तिण्हं विहत्तिओ होदि । तदो जहाकमेण अंतोमुहुत्तकालेण माणसंजलणतिण्णि
 किट्ठीओ खवेदि । ताघे दोण्हं विहत्तिओ होदि । तदो अंतोमुहुत्तेण कालेण मायासंजलण-
 तिण्णिकिट्ठीओ खवेमाणो लोभसंजलणपढमकिट्ठीए अब्भंतरे दुममयूणदोआवलियमेत्त-
 कालं गंतूण खवेदि । तम्मि खीणे एक्किस्से विहत्तिओ होदि । तदो जहाकमेण दुसमयूण-
 दोआवलियमेत्तकालेणूणो लोभपढमविदियबादरकिट्ठीओ लोभसुहुमकिट्ठीओ च खवे-
 पुरुषवेदके मत्तामें स्थित पुराने कमांकां और छह नोकषायोकी अन्तिम फालिका सर्वसंक्रमके
 द्वारा क्रोध संज्वलनमें संक्रमण करता है । तदनन्तर वेदका अनुभव करने वाला वह
 जीव सवेदभागके चरम समयसे लेकर एक समय कम दो आवली कालतक पुरुषवेद और
 चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है । इसप्रकार सवेद अनिवृत्तिकरणके
 अनन्तर अवेद अनिवृत्तिकरणके कालमें अवेदक होकर अश्वकर्ण करणको करता हुआ
 पुरुषवेदके नवकबन्धका एक समयकम दो आवली प्रमाण कालके द्वारा क्षय करता है ।
 इसप्रकार पुरुषवेदके क्षीण हो जानेपर यह जीव चार प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है ।
 अन्तर्मुहूर्त प्रमाणकाल बिताकर अश्वकर्णकरणके समाप्त हो जानेपर अन्तर्मुहूर्त कालके
 द्वारा चारों संज्वलन कपायोंमेंसे एक एक संज्वलनकी तीन तीन बादरकृष्टियां करता है ।
 इसप्रकार कृष्टिकरणके समाप्त हो जानेपर क्रोधसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय
 करता है । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके क्षीण हो जानेपर यह जीव तीन प्रकृतियोंकी
 सत्तावाला होता है तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा मानसंज्वलनकी तीनों कृष्टियोंका यथा-
 क्रमसे क्षय करता है । इसप्रकार मानसंज्वलनके क्षीण होजानेपर उस समय यह जीव दो
 प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है । तदनन्तर अन्तर्मुहूर्तकालके द्वारा मायासंज्वलनकी तीन
 कृष्टियोंका क्षय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली कृष्टिके भीतर दो समय कम दो आवली-
 मात्र कालको व्यतीत करके उनका क्षय करता है । इसप्रकार मायासंज्वलनके क्षीण हो
 जाने पर यह जीव केवल एक लोभप्रकृतिकी सत्तावाला होता है । तदनन्तर लोभकी पहली
 और दूसरी बादर कृष्टिका तथा लोभकी सूक्ष्मकृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करते हुए इस
 जीवको लोभप्रकृतिके क्षय करनेमें जितना काल लगता है उसमेंसे दो समयकम दो आव-
 लीप्रमाण कालके कम कर देनेपर जो काल शेष रहता है वह एक प्रकृतिरूप स्थानका

माणस्स जो कालो सो एगबिहत्तियस्स जहण्णकालो होदि ।

§ २६६. उक्त्स्सकालो वि अंतोसुहुत्तं । तं जहा-पुरिसवेद-लोभसंजलणायं उदयस्य जो खवगसेटिं चडिदो सो क्रोधसंजलणोदयस्य खवगसेटिं चडिदोस्स अस्सकण्णकरण-काले क्रोधसंजलणं फहयसरूवेण खवेदि । क्रोधसंजलणोदयस्य खवगसेटिं चडिदोस्स किट्टीकरणकाले माणसंजलणं फहयसरूवेण खवेदि । क्रोधसंजलणोदयस्य खवगसेटिं चडिदो जेण कालेण क्रोधसंजलणतिण्णिकिट्टीओ वेदयमाणो खवेदि तम्मि चेव ट्ठण्णे तेणेव कालेण एसो मायासंजलणं फहयसरूवेण खवेदि । क्रोधोदयस्य चडिदो जम्मि माण्णकिट्टीओ खवेदि तम्मि लोहोदयस्य चडिदो एगबिहत्तियो होदण्ण अस्सकण्णकरणं करोदि । क्रोधोदयस्य खवगसेटिं चडिदो जम्मि मायाए तिण्णिकिट्टीओ खवेदि तम्मि उदेसे तणेव कालेण लोभस्स तिण्णिकिट्टीओ करोदि । क्रोधोदयस्य जम्मि काले लोभपटमविदियबादरकिट्टीओ सुहुमकिट्टिं च वेदेदि लोहोदयस्य खवगसेटिं चडिदो लोभकिट्टीओ तम्मि चेव उदेसे तणेव कालेण खवेदि । संपदि कोहोदयस्य जघन्य काल होता है ।

§ २६६. तथा एक प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट कालभी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है । वह इसप्रकार है—पुरुषवेद और लोभसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह जीव, क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवका जो अभ्यर्कणकरणका काल है, उस कालमें क्रोधसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । तथा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके कृष्टिकरणका जो काल है पुरुषवेद और लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें मानसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । तथा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें क्रोधसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका अनुभव करता हुआ उनका क्षय करता है, पुरुषवेद और लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और कालमें मायासंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है लोभके उदयसे चढ़ा हुआ जीव उस समय एक प्रकृतिकी सत्तावाला होकर अभ्यर्कण क्रियाको करता है । क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मायाकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा लोभकी तीन कृष्टियां करता है । क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय लोभकी पहली और दूसरी बादर कृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका वेदन करता है लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा लोभकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है । इसप्रकार क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय

खबबसेदिं चडिदस्स जो माणतिणिणिकिड्डीवेदयकालो दुसमयूणदोआवालियपरिहीओ मायासंजलणतिणिणिकिड्डीवेदयकालो लोभपढमविदियवादराकिड्डीणं सुहुमकिड्डीए च जो वेदकालो सो एकस्से विहत्तियस्स उक्कस्सकालो होदि । जहण्णकालादो उक्कस्सकालो अंतोसुहुचभावेण सारिसो होदूण संखेजगुणो ।

* एवं दोणहं तिणहं चदुणहं विहत्तियाणं ।

§ २७०. जया एकस्से विहत्तियस्स जहण्णुकस्सकालो अंतोसुहुत्तं तथा एदेत्तिपि जहण्णुकस्सकालो अंतोसुहुत्तं चैव । तं जहा-दोणहं विहत्तियस्स ताव उच्चदे, कोघोदएण खबबसेदिं चडिय माणतिणिणिकिड्डीओ खवेमाणो मायाए पढमकिड्डीवेदयकालम्भंतरे दुसमयूणदोआवालियमेसकालं गंतूण माणणवकबंधं खवेदि से काले दोणहं विहत्तिओ होदि । शुणो मायासंजलणपढमविदियतदियकिड्डीओ खवेमाणो मायासंजलणणवकबंधं लोभसंजलणपढमकिड्डीवेदयकालम्भंतरे दुसमयूणदोआवालियमेसकालं गंतूण खवेदि तेण मायासंजलणतिणिणिकिड्डीवेदयकालो सयलो दोणहं विहत्तियस्स जहण्णकालो होदि । दोणहं कम दो आवालियोसे न्यून मानकी तीन कृष्टियोका जो वेदक काल है और माया संज्वलनकी तीन कृष्टियोका जो वेदक काल है, और लोभसंज्वलनकी पहली और दूसरी वादरकृष्टियोका तथा सूक्ष्मकृष्टिका जो वेदक काल है वह सब लोभके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके एक प्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल होया है । एक प्रकृतिरूप स्थानके जघन्यकालसे उसीका उत्कृष्ट काल सामान्यकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त होता हुआ भी संख्यातगुणा है अर्थात् अन्तर्मुहूर्त सामान्यकी अपेक्षा दोनों काल समान हैं फिर भी जघन्यकालसे उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है ।

* इसीप्रकार दो, तीन और चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २७०. जिस प्रकार एक प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है उसीप्रकार इन स्थानोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त समझना चाहिये । वह इस प्रकार है । उसमें पहले दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल कहते हैं—कोधकं उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोका क्षय करता हुआ मायाकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आबलीप्रमाण कालके अतीत होनेपर संज्वलनमानके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है और इसप्रकार वह जीव दो प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । पुनः मायासंज्वलनकी पहली, दूसरी और तीसरी कृष्टिका क्षय करता हुआ लोभसंज्वलनकी पहली कृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आबली प्रमाण कालके जानेपर मायासंज्वलनके नवक समयप्रवद्धका क्षय करता है । जबः माया संज्वलनकी तीन कृष्टियोका समस्त वेदककाल दो प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल

विहत्तियाणमुक्कस्सकालो पुण मायासंजलणोदएण खवगसेटिं चडिदस्स अस्सकण्णकरण-
कालं किट्ठीकरणकालं मायातिण्णिकिट्ठीवेदयकालं च घेत्तूण होदि । कुदो ? पुरिसवेद-
माओदएण जो खवगसेटिं चाडिदो सो कोधोदएण चडिदस्स अस्सकण्णकरणकाले
कोधं फहयसरूवेण खवेदि । कोधोदएण चडिदस्स किट्ठीकरणकाले माणं फहयसरूवेण
खवेदूण दोण्हं विहत्तियो होदि । तदो कोधकिट्ठीवेदयकालम्मि मायालोभसंजलणाण-
मस्स (कण्ण) करणं करेदि । पुणो माणकिट्ठीवेदयकालम्मि मायालोभसंजलणकिट्ठीओ
करेदि । तदो मायासंजलणाए अप्पणो तिण्णिकिट्ठीओ पुव्वविघाणेण खविय एक्किस्से
विहत्तियो होदि त्ति ।

§ २७१. तिण्हं विहत्तियस्स जहणकालो अंतोमुहुत्तं । तं जहा—पुरिसवेदकोध-
संजलणाणमुदएण जो खवगसेटिं चडिदि सो कोधसंजलणतिण्णिकिट्ठीओ खवेमाणो
माणपढमकिट्ठीअब्भंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतूण कोधणवकबंधं खवेदि तिण्हं
विहत्तियो होदि । पुणो माणसंजलणतिण्णिकिट्ठीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमकिट्ठी-
होता है । दो प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल तो मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणी-
पर चढ़े हुए जीवके अश्वकर्णकरणके कालको मायासंज्वलनके कृष्टिकरणके कालको और
मायासंज्वलनके तीन कृष्टियोंके वेदकालको मिला कर होता है । इसका कारण यह है
कि जो जीव पुरुषवेद और मायाके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह, क्रोधके
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके अश्वकर्णकरणका जो काल है उस
कालमें क्रोधका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए
जीवके क्रोधसंज्वलनके कृष्टिकरणका जो काल है मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा
हुआ जीव उस कालमें मानका स्पर्धकरूपसे क्षय करके दो प्रकृतिरूप स्थानका मालिक होता
है । तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय क्रोधकी तीन
कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव
माया और लोभसंज्वलनकी अश्वकर्णक्रियाको करता है । तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणी
पर चढ़ा हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका वेदन करता है उस समय,
मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव माया और लोभसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंको
करता है । तदनन्तर मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ वह जीव मायासंज्वलन सबन्धी
अपनी तीन कृष्टियोंका पूर्वोक्त विधिके अनुसार क्षय करके एक प्रकृतिकी सत्तावाला होता है ।

§ २७१. तीन प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है । वह इसप्रकार है—पुरुषवेद
और क्रोधसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह क्रोधसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका
क्षय करके मानसंज्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके
आनेपर क्रोधसंज्वलनके नबक समयप्रबद्धका क्षय करता है और तब तीन प्रकृतिकस्थानका

अन्भंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतूण जेण खवेदि तेण माणसंजलणतिण्णिकिट्टी-
खवणकालो तिण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो होइ । तस्सेव उक्कस्सकालो वुच्चदे । तं
जहा—जो पुरिसवेद-माणोदएण खवगसेट्ठिं चाडिदो सो कोधोदएण खवगसेट्ठिं चडिदस्स
अस्सकण्णकरणकाले कोधसंजलणं फइयसरूवेण खवेदि । ताधे तिण्हं विहत्तियो होदि ।
तदो कोधोदएण चडिदस्स किट्टीकरणकाले माण-माया-लोभसंजलणाणमस्सकण्णकरणं
करेदि । कोधोदयक्खवगस्स कोधतिण्णिकिट्टीवेदयकालम्मि माण-माया-लोभसंजलणाणं
किट्टीओ करेदि । तदो माणसंजलणतिण्णिकिट्टीओ खवेमाणो मायासंजलणपटमकिट्टि-
अन्भंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतूण माणणवक्कबंधं जेण खवेदि तेण माणोद-
यक्खवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च तिण्हं विहत्तियस्स
उक्कस्सकालो होदि ।

§ २७२. चउण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो वुच्चदे । तं जहा—पुरिसवेदमाणो-
स्वामी होता है । पुनः मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ मायामंज्वलनकी
पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर चूंकि उनका
क्षय करता है इसलिये मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका जो क्षपणकाल है वह तीन
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल होता है ।

अब तीन प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं वह इस प्रकार है—जो पुरुषवेद
और मानसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह जीव क्रोधसंज्वलनके उदयसे
क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधके अश्वकर्णकरणका जो काल है उस कालमें क्रोध-
संज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । और तब वह जीव तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी
होता है । तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके तीन
कृष्टियोंके करनेका जो काल है उसकालमें, मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव
मान, माया और लोभसंज्वलनकी अश्वकर्णक्रियाका करता है । तथा क्रोधके उदयसे
क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन कृष्टियोंके वेदनका जो समय है, मानके
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उम समय मान, माया और लोभसंज्वलनकी तीन
कृष्टियां करता है । तदनन्तर मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षपण करता हुआ माया
संज्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर
मानके नवकवन्धका चूंकि क्षय करता है इसलिये मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए
जीवके अश्वकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल और कृष्टिवेदककाल यह मय मिलकर तीन
प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल होता है ।

§ २७२. अब चार प्रकृतिरूप स्थानका जघन्यकाल कहते हैं । वह इस प्रकार है—जो पुरुष
वेद और मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह जीव, क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक-

दएष जो खवगसेटि चडिदो सो कोधसंजलणोदयकखवयस्स अस्सकण्णकरणकालम्भि दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतूण पुरिसवेदणवकबंधं खवेदि, ताधे चउण्हं विहत्तिओ होदि । तदो कोधसंजलणं फइयसरूवेण खवेमाणो माणोदयकखवयस्स अस्सकण्णकरणकालम्भंतरे दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतूण कोधसंजलणणवकबंधे खवेदे जेण तिण्हं विहत्तिओ होदि, तेण कोधसंजलणस्स फइयसरूवेण खवणद्धा चउण्हं विहत्तियस्स जहण्णकालो होदि । तस्सेव उक्कस्सकालो युष्से । तं जहा—इत्थिवेदकेधोदएष जो खवगसेटि चडिदो सो तवेदियचरिमसमए पुरिसवेदबंधगो होदूण तदो अंतोसुहुचमुवरि गंतूण पुरिसवेदेण सह छण्णोकसाएसु खीणेषु जेण चत्तारि विहत्तिओ होदि तेण कोधोदयकखवगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च दुसमयूणदोआवलियम्भहिओ चउण्हं विहत्तियस्स उक्कस्सद्धा ।

श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके अश्वकर्णकरणका जो काल है उसमें दो समय-कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर पुरुषवेदके नवकबन्धका क्षय करता है । तब जाकर चार प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है । तदनन्तर क्रोधसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता हुआ वह जीव चूंकि मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अश्वकर्णकरणके कालमें दो समय कम दो आवली प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर क्रोधसंज्वलनके नवकबन्धका क्षय करके तीन प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसलिये क्रोधसंज्वलनके स्पर्धकरूपसे क्षय होनेका जो काल है वह चार प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल है ।

अब इसी चार प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं । वह इसप्रकार है—जो जीव स्त्रीवेद और क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह सवेदभागके चरम समयमें पुरुषवेदका बन्धक होकर अन्तर्मुहूर्त बिताकर पुरुषवेदके साथ लह नोकपायोंके क्षीण हो जानेपर चूंकि चार प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसलिये क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अश्वकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल और दो समयकम दो आवलियोंसे अधिकतमकृष्टिवेदककाल यह सब मिलाकर चार प्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल होता है ।

विशेषार्थ—एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल किस प्रकार प्राप्त होता है इस विषयका ठीक तरहसे ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है । इससे दो बातें जानी जाती हैं । एक तो यह कि किस कषायके उदयके साथ क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके चार कषायोंकी क्षपणा किस प्रकार होती है । और दूसरी यह कि किसी एक कषायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जिस समय अमुक क्रिया होती है उसी समय दूसरी कषायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके कौनसी क्रिया होती है ।

काल	क्रोधके उदयसे	मानके उदयसे	मायाके उदयसे	लोभके उदयसे
अन्त- मुहूर्त	चारों कषायोंका अश्वकर्णकरण	क्रोधक्षय (नवकबन्धके बिना)	क्रोधक्षय (नवकबन्धके बिना)	क्रोधक्षय (नवकबन्धके बिना)
"	क्रोध, मान, माया व लोभकी १२ कृष्टिकरण	मान, माया व लोभका अश्वकर्ण करण	मानक्षय (नवकबन्धके बिना)	मानक्षय (नवकबन्धके बिना)
"	क्रोध तीन कृष्टि क्षय (नवकबन्धके बिना)	मान, माया व लोभकी ६ कृष्टि करण	माया और लोभका अश्वकर्ण करण	मायाक्षय (नवकबन्धके बिना)
"	मान तीन कृष्टि क्षय (नवकबन्धके बिना)	मान तीन कृष्टि क्षय (नवकबन्धके बिना)	माया व लोभकी ६ कृष्टि करण	लोभका अश्वकर्ण करण
"	माया तीन कृष्टि क्षय (नवकबन्धके बिना)	माया तीन कृष्टि क्षय (नवकबन्धके बिना)	माया तीन कृष्टि क्षय (नवकबन्धके बिना)	लोभ ३ कृष्टि करण
"	लोभ तीन कृष्टि क्षय	लोभ तीन कृष्टि क्षय	लोभ तीन कृष्टि क्षय	लोभ तीन कृष्टि क्षय

स्त्रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह छह नोकषाय और पुरुषवेदका एक साथ क्षय कर देता है, अतः स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अश्वकर्णकरणके कालमें या स्पर्धकरूपसे क्रोधक्षयके कालमें पुरुषवेदके नवकबन्ध क्षयको प्राप्त न होकर पहले ही निर्जरित होजाते हैं। पर जो जीव पुरुषवेद या नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके अश्वकर्णकरणके कालमें या क्रोधक्षयके कालमें दो समय कम दो आवलि काल तक पुरुषवेदके नवकबन्ध रहते हैं। कोष्ठकके प्रथम नम्बरके चारो खानोंमें इतनी विशेषता है जो उनमें नहीं दिखाई गई है। अतः इस विशेषताको ध्यानमें रखना चाहिये; क्योंकि इतनी विशेषताको ध्यानमें रखकर कोष्ठकके ऊपरसे उक्त चारों स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके ले आनेमें सरलता होती है। अब आगे उन्हीं कालोंको कोष्ठकके ऊपरसे समझानेका प्रयत्न किया जाता है—जो जीव क्रोध, मान या मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक विभक्ति स्थानका जघन्य काल दो समय न्यून दो आवलीकम अन्तर्मुहूर्त होगा। यह बात छठे नम्बरके प्रारम्भके तीन खानोंसे भली भाँन ज्ञात हो जाती है। अन्तर्मुहूर्त कालमेंसे दो समय कम दो आवलिकाल कम करनेका कारण यह है कि लोभकी तीन कृष्टियोंके क्षय कालमें दो समय कम दो आवलिकाल तक मायाके नवकबन्ध पाये जाते हैं। इसीप्रकार इतना काल कम करनेका कारण अन्यत्र भी जानना। तथा जो जीव लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होगा। यह बात लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए

जीवके कोष्टकके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे अन्तिम तीन खानोंसे जानी जाती है। यहां लोभका अश्वकर्णकरण, लोभकी तीन कृष्टिकरण और लोभकी तीन कृष्टियोंका क्षय, इस कालमेंसे दो समय कम दो आवली कम कर देनेपर एक विभक्ति स्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है। दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोध या मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बात ऊपरसे पांचवें नम्बरके प्रारम्भके दो खानोंसे जानी जाती है। वहां मायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका जो काल बतलाया है वही दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल है। यद्यपि मायाके नवकबन्धका क्षय लोभ कृष्टिक्षयके कालमें होता है, अतः दो विभक्तिस्थानका दो समय कम दो आवलिकाल और कहना चाहिये था, पर मायाकृष्टि क्षयके कालमें दो समय कम दो आवलिकाल तक मानके नवक बन्धका क्षय होता रहता है अतः यदि अन्तमें इतना काल बढ़ाया जाता है तो प्रारम्भमें उननाही काल घटाना पड़ता है। इसलिये इस घटाने और बढ़ानेकी विधिको छोड़कर मायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका काल दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल है ऐसा कहा। तथा जो जीव मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके दो विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल होता है। यह बात मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे तीसरे, चौथे और पांचवें नम्बरके खानोंसे जानी जा सकती है। तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात ऊपरसे प्रारम्भके चौथे खानेसे जानी जानी जा सकती है। विशेष कथन जिस प्रकार दो विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां जानना। तथा तीन विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल मानसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात मानके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके दूसरे, तीसरे और चौथे खानेसे जानी जा सकती है। चार विभक्तिस्थानका जघन्यकाल ऋग्वेदके विना शेष दो वेदोंमेंसे किसी एकके साथ मान, माया व लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात प्रथम नम्बरके कोष्ठकके अन्तके तीन खानोंसे जानी जाती है। तथा चार विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल ऋग्वेद और क्रोधके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बात क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं उनमेंसे प्रारम्भके तीन खानोंसे जानी जाती है। यहां ऋग्वेदके उदयकी प्रधानतासे उत्कृष्ट काल इसलिये कहा है कि ऐसे जीवके चारों कषायोंके अश्वकर्णकरणके कालमें पुरुषवेदके नवकबन्ध नहीं रहते। अतः अन्यवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा ऋग्वेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय कम दो आवलिकाल अधिक प्राप्त होता है। इसप्रकार एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य व उत्कृष्ट काल जानना चाहिये।

*** पंचणहं विहत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुक्कस्सेण दोआवलि-
याओ समयूणाओ ।**

§ २७३. कुदो ? कोधसंजलणपुरिसवेदोदएण क्खवगसेटिं चडिदस्स सवेदियहुचरिम-
समए छण्णोकसाण्हि सह खविदपुरिसवेदचिराणसंतस्स सवेदियचरिमसमए समयूणदो-
आवलियमेत्तपुरिसवेदणवकममयपबद्धाणमुवलंभादो । चिराणसंतसमयपबद्धाणं व
णवकबंधसव्वसमयपबद्धाणमेकसराहेण विणासो किण्ण होदि ? ण, बंधावलियाए अइ-
कंताए पुणो संकमणआवलियचरिमसमए सव्वणवकबंधाणं णिस्संतभावुवलंभादो ।
ते च समयूणदोआवलियणवकसमयपबद्धा कमेणेव परसरूवेण गच्छंति बंधावलिय-
संकमणावलियचरिमसमयाणं सव्वसमयपबद्धसंबंधियाणमक्कमेण समत्तीए अभावादो ।

*** पांच प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
कम दो आवलीप्रमाण है ।**

§ २७३. शंका—पांच प्रकृतिक स्थानका एक समय कम दो आवलीप्रमाण काल क्यों है ?
समाधान—क्योंकि जो क्रोधसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा
है, अतएव जिसने सवेदभागके द्विचरम समयमें छह नोकषायोंके साथ पुरुषवेदके सत्तामें
स्थित पुराने कर्मोंका नाश कर दिया है, उसके सवेदभागके चरम समयमें एक समय कम
दो आवली प्रमाण कालतक स्थित रहनेवाले पुरुषवेदसंबन्धी नवक समयप्रबद्ध पाये जाते हैं ।
अतः पांच प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवली होता है ।

शंका—पुराने सत्कर्मोंके समान सम्पूर्ण नवक समयप्रबद्धोंका उसीसमय एकसाथ नाश
क्यों नहीं हो जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धावलिके व्यतीत हो जानेके अनन्तर संक्रमणावलिषे
अन्तिम समयमें सम्पूर्ण नवक समयप्रबद्धोंका विनाश देखा जाता है, इसलिये पुराने
सत्कर्मोंके साथ नवक समयप्रबद्धोंका नाश नहीं होता ।

तथा एक समय कम दो आवलीप्रमाण वे नवक समयप्रबद्ध क्रमसे ही परप्रकृतिरूपसे
संक्रान्त होते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण ममयप्रबद्धसम्बन्धी बन्धावलि और संक्रमणावलिके
अन्तिम समयोंकी एकसाथ समाप्ति नहीं हो सकती ।

विशेषार्थ—यह तो हम पहलं ही बतला आये हैं कि स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी-
पर चढ़े हुए जीवके छह नोकषायोंकी क्षपणाके साथ पुरुषवेदका क्षय हो जाता है अतः
ऐसे जीवके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता । पर जो पुरुषवेद या नपुंसकवेदके उदयके
साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके छह नोकषायोंके क्षपणाके कालमें पुरुषवेदका क्षयतो
होता है पर ऐसे जीवके पुरुषवेदके दो समयकम दो आवलीप्रमाण नवकबंध समयप्रबद्धोंको
छेदकर शेषका ही क्षय होता है । अतः यह जीव दो समय कम दो आवली काल तक

* एकारसण्हं बारसण्हं तेरसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादो होदि ?
जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २७४. एकारसविहत्तीए ताव उच्चदे । तं जहा-अण्णदरवेदोदएण खवगसेदिं चडिय इत्थिणवुंसयवेदेसु खविदेसु एकारसविहत्ती होदि । ताव सा होदि जाव छण्णोकसाया परसरूवेण ण गच्छंति । एसो एकारसविहत्तीए जहण्णकालो । उक्कस्सओ वि छण्णोकसायखवणकालो चेव अण्णत्थ एकारसविहत्तीए अणुवलंभादो । णवरि, छण्णोकसायखवणजहण्णकालादो उक्कस्सकालेण विसेसादिएण संखेजगुणेण वा होदच्चं, अण्णहा एकारसविहत्तिकालस्स जहण्णुकस्सविसेसणाणुववत्तीदो । अहवा जहण्णकालो उक्कस्सकालो च सरिसो छण्णोकसायखवणद्वामेत्तत्तादो । ण च छण्णोकमायखवणद्धा अणवद्विदो सव्वेसिं पि जीवाणं सरिसेत्ति भणंताणमाइरियाणमुवदेसालंबणादो । ण च पांच विभक्तिस्थान वाला रहता है । यही सबब है कि पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो समयकम दो आवलिप्रमाण बतलाया है ।

* ग्यारह, बारह और तेरह प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्गृह्यते है ।

§ २७४. पहले ग्यारह प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं । वह इसप्रकार है—तीनों वेदोंमेंसे किसी एक वेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़कर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके क्षपित हो जानेपर ग्यारह प्रकृतिक स्थान होता है । यह स्थान तबतक होता है जबतक छह नोकपाय परप्रकृतिरूपसे संक्रान्त नहीं होती हैं । ग्यारह प्रकृतिक स्थानका यह जघन्य काल है । इस स्थानका उत्कृष्ट काल भी छह नोकपार्थके क्षपणाका जितना काल है उतना ही होता है, क्योंकि छह नोकपार्थके क्षपणोन्मुख जीवको छोड़कर अन्यत्र ग्यारह प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है । इतनी विशेषता है कि छह नोकपार्थोंकी क्षपणाके जघन्य कालसे छह नोकपार्थोंकी क्षपणाका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक होना चाहिये वा संख्यातगुणा होना चाहिये । यदि ऐसा न माना जाय तो ग्यारह प्रकृतिक स्थानके कालके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दिये हैं वे नहीं बन सकते हैं । अथवा, उक्त स्थानका जघन्यकाल और उत्कृष्टकाल समान है; क्योंकि दोनों काल छह नोकपार्थोंकी क्षपणामें जितना समय लगता है तत्प्रमाण हैं । यदि कहा जाय कि छह नोकपार्थोंकी क्षपणाका काल अनवस्थित है अर्थात् भिन्न भिन्न जीवोंके भिन्न भिन्न होता है सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि सभी जीवोंके छह नोकपार्थोंकी क्षपणाका काल सदृश है, इसप्रकारका कथन करनेवालोंको आचार्योंके उपदेशका आलम्बन है, अर्थात् आचार्योंका इसप्रकारका उपदेश पाया जाता है । यदि कहा जाय कि ऐसी अवस्थामें ऊपर चूर्णिसूत्रमें कालके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दे आये हैं वे निष्फल हो जायेंगे सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों विशेषण विवक्षाभेदसे दिये गये हैं, इसलिये

जहण्णुक्कस्सविसेसणं णिप्फलत्तमल्लियइ, विवक्खवाविसयाणं दोण्हं णिप्फलत्तविरोहादो ।

§ २७५. बारसविहत्तीए उक्कस्सकालो अंतोमुहुत्तं । तं जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिसवेदेण वा खवगसेट्ठिं चडिय णवुंसयवेदं खविय जावित्थिवेदं ण खवेदि ताव बारसविहत्तियस्स उक्कस्सकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो । जहण्णकालो बारसविहत्तीए किण्ण वुत्तो ? उवरि भणिस्समाणत्तादो ।

§ २७६. तेरसविहत्तियस्स जहण्णकालो अंतोमुहुत्तं । तं जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिसवेदेण वा खवगसेट्ठिं चडिय अट्ठकसाएसु खविदेसु तेरसविहत्ती होदि । सा ताव होदि जाव णवुंसयवेदसव्वसंक्रमचरिमसमओ त्ति । एसो तेरहविहत्तीए जहण्णओ अंतोमुहुत्तकालो । संपहि उक्कस्सो वुच्चदे । तं जहा-णवुंसयवेदोदयेण खवगसेट्ठिं चट्ठिय अट्ठकसाएसु खविदेसु तेरसविहत्तीए आदी होदि । पुणो ताव तेरसविहत्ती चेष होदूण गच्छदि जावित्थिवेदखवणकालचरिमसमओ त्ति । एसो तेरहविहत्तीए उक्कस्सकालो जहण्णकालादो इत्थिवेदखवणकालमेत्तेण अब्भहियत्तादो ।

इन्हें निष्फल माननेमें विरोध आता है ।

§ २७५. बारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । वह इस प्रकार है—स्त्रीवेदके उदयके साथ या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर और नपुंसकवेदका क्षय करके क्षपकजीव जब तक स्त्रीवेदका क्षय नहीं करता है तब तक बारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है ।

शंका—बारह प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल क्यों नहीं कहा ?

समाधान—बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल आगे कहनेवाले हैं, अतः यहाँ नहीं कहा ।

§ २७६. तेरह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है । वह इस प्रकार है—स्त्रीवेदके उदयके साथ या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर अपत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान माया तथा लोभ इन आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थान होता है । यह स्थान तब तक रहता है जब तक नपुंसकवेदके सर्वसंक्रमणका अन्तिम समय प्राप्त होता है । यह इस स्थानका अन्तर्मुहूर्त जघन्यकाल है ।

अब तेरह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कहते हैं । वह इस प्रकार है—नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है । पुनः यह स्थान तब तक अस्तित्वमें रहता है जब तक स्त्रीवेदके क्षपणकालका अन्तिम समय प्राप्त होता है । यह तेरह प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल अपने जघन्य कालसे स्त्रीवेदके क्षपण करनेका जितना काल है उतना अधिक है ।

§ २७७. संपहि बारसविहत्तियस्स जहण्णकालविसेसपरूवणट्टमुत्तरसुत्तं मणदि—

* णवरि बारमण्हं विहत्ती केवच्चिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ ।

§ २७८. तं जहा—णवुंसयवेदोदएण खवगसेट्ठिं चट्ठिय अट्टकसाएसु खविदेसु तेरस-विहत्ती होदि । पुणो पच्छा णवुंसयवेदमप्पणो खवणपारंभपदेसे आठविय खवेमाणो णवुंसयवेदमप्पणो खवणकाले अकखविय इत्थिवेदकखवणामाढवेदि । पुणो इत्थिवेदेण सह णवुंसयवेदं खवेमाणो ताव गच्छदि जाव इत्थिवेदचिगणखवणकालतिचरिमसमओ चि तदो सवेदियदुचरिमसमए णवुंसयवेदपढमट्ठिदीए दोट्ठिदिमेत्ताए सेसाए इत्थिण-वुंसयवेदसव्वसंतकम्ममि पुरिसवेदमि संछुद्धे से काले बारसविहत्तिओ होदि, णवुंस-यवेदउदयट्ठिदीए तत्थ विणासाभावादो । विदियसमए एकारसविहत्ती होदि, फलं दाऊण पुच्चिवल्लट्ठिदीए अकम्मसरूवेण परिणमत्तादो । तेण जहण्णेण एगसमओ चि वुत्तं ।

२७७. अब बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालविशेषके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है ।

§ २७८. बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कषायोंका क्षयकर देनेपर तेरह प्रकृतिक स्थान प्राप्त होता है । इसके पश्चात् नपुंसकवेदकी क्षपणाके प्रारम्भस्थानसे नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ क्षपण-कालके भीतर नपुंसकवेदका क्षय न करके स्त्रीवेदकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है । अनन्तर स्त्रीवेदके साथ नपुंसकवेदका क्षय करता हुआ तब तक जाता है जब तक स्त्रीवेदके सत्तामें स्थित प्राचीन निपेकोंके क्षपणकालका त्रिचरम समय प्राप्त होता है । अनन्तर सवेद भागके द्विचरम समयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयमात्र शेष रहनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदसम्बन्धी सत्तामें स्थित समस्त निपेकोंके पुरुषवेदमें संक्रान्त हो जानेपर तद-नन्तर नपुंसकवेदी बारह प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है, क्योंकि यहांपर नपुंसकवेदकी उदयस्थितिका विनाश नहीं हुआ है । तथा यही जीव दूमरे समयमें ग्यारह प्रकृतिक स्थानका अधिकारी होता है । क्योंकि पूर्वोक्त स्थिति अपना फल देकर अकर्मरूपसे परिणत हो जाती है । अतः बारह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय कहा है ।

विशेषार्थ—यदि कोई स्त्रीवेद या पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है तो वह आठ कषायोंका क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदका क्षय करके अनन्तर अन्तर्मु-हूर्तकालके द्वारा स्त्रीवेदका क्षय करता है । पर जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणी-पर चढ़ता है वह आठ कषायोंके क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदके क्षयका प्रारम्भ करके बीचमें ही स्त्रीवेदका क्षय करने लगता है और इस प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसक-

* एकाबीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २७६. कुदो ? चउवीससंतकम्मिण तिण्णि वि करणाणि काउण खविददंसण-
मोहणीएण एक्कीसमोहपयडीणमाहारत्तमुवगएण सव्वजहणंतोमुहुत्तकालेण खवगसेदि-
मब्भुट्टिएण अट्टकसाएसु खविदेसु इगिवीसविहत्तीए जहणणेणंतोमुहुत्तकालुवलंभादो ।

* उक्खस्सेण तेतीसं मागरोवमाणि सादिरियाणि ।

§ २८०. कुदो ? देवस्स णेरइयस्स वा सम्माइट्टिम चउवीससंतकम्मियग्ग पुव्व-
कोडाउअमणुस्सेसुवर्वाजिय ग.ब्भादिअट्टवग्गसाणमुवार दंसणमोहं खविय इगिवीसविहत्तीए
आदिं कादूण पुव्वकोडिं सव्वसंजममणुपालेदूण कालं कांसय तेत्तीमसागरोवमाउणसु
देवेसुप्पजिय पुणो अवसाणे कालं कादूण पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसु उवर्वाजिय मव्वज-
वेदका एक साथ क्षय करता हुआ नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमें ही स्त्रीवेदका
क्षय कर देता है । इस प्रकार बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्यकाल एक समयको छोड़ कर
शेष तेरह और ग्यारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा बारह प्रकृतिक
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होते हैं । ग्यारह विभक्तिस्थानका जघन्य और
उत्कृष्ट काल समान होता है या जघन्यसे उत्कृष्ट काल विशेषाधिक या संख्यातगुणा होता है ।
इस सम्बन्धमें अभी अधिक लिखनेके योग्य सामग्री नहीं प्राप्त हुई अतः यहां उस विषयमें
कुछ नहीं लिखा है । इस विषयकी चर्चा करते हुए यद्यपि वीरसेन स्वामीने पहले जघन्य
कालसे उत्कृष्टकाल विशेष अधिक या संख्यातगुणा होना चाहिये ऐसा निर्देश किया है पर
अन्तमें वे स्वयं आचार्य परम्परासे प्राप्त हुए उपदेशानुसार इसी नतीजेपर पहुंचनेकी
प्रेरणा करते हैं कि दोनों काल समान होना चाहिये ।

* इक्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २७६. शंका—इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त क्यों है ?

समाधान—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक सम्यग्दृष्टि जीव तीनों करण
करके और दर्शनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस मोहप्रकृतियोंका स्वामी होता हुआ सबसे
जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर आठ कषागोंका क्षय कर देता है ।
अतः इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है ।

* इक्कीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस मागर है ।

§ २८०. शंका—इक्कीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस मागर क्यों है ?

समाधान—चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक देव या नारकी सम्यग्दृष्टि जीव
पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहां गर्भसे लेकर आठ वर्षके अनन्तर
दर्शनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी हुआ । अनन्तर शेष पूर्वकोटि
काल तक सकल संयमका पालन करके और मर कर तेनीस मागरकी आयुवाले देवोंमें

हृण्णंतोमुहुत्तसंसारे सेसे अट्टकसाए खविय तेरसविहत्तिभावमुवगयस्स अंतोमुहुत्तम्भ-
हियअट्टवग्गसेहियुण वेपुध्वकोडीहि सादिरेयतेत्तीससागरोवममेत्तुक्कस्सकालुवलंभादो ।

* वावीमाए तेवीमाए विहत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुक्कस्से-
णंनोमुहुत्तं ।

§ २८१. वावीमविहत्तियस्स ताव उच्चदे । तं जहा, तेवीसविहत्तीएण सम्मामिच्छते
खविदे वावीसविहत्तीए आदी होदि । पुणो जाव सम्मत्तअक्खीणचरिमसमओ ताव
वावीमविहत्तिओ । एसो वावीसविहत्तियस्स जहण्णकालो । उक्कस्सो वि एत्तिओ चैव,
एगसमयम्मि वट्टमाणजीवाणमणियट्टिपरिणामे पडुच्च भेदाभावादो । ण च अणि-
यट्टीअट्टाणं विमरिसत्तमत्थि एगसमयम्मि वट्टमाणजीवपरिणामाणं भेदप्पसंगादो ।

§ २८२. संपहि तेवीसविहत्तीए उच्चदे । तं जहा, चउवीससंतकम्मिण मिच्छते
खाविदे तेवीसविहत्तीए आदी होदि । पुणो जाव सम्मामिच्छत्तसंतकम्मं सव्वं सम्म-
त्तम्मि ण मंछुहादि ताव तेवीसविहत्तीए जहण्णकालो । उक्कस्सविवक्खाए वि तेवीसविह-
उत्पन्न हुआ । पुनः आयुके अन्तमें मर कर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ
वहाँ संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल शेष रह जानेपर आठ कपायोंका
क्षय करके तेरह प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करता है । इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक स्थानका
उत्कृष्टकाल आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम दो पूर्वकोटिसे अधिक तैत्तीस सागर होता है ।

* बाईस और तेईस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २८१. उनसेसे पहले वाईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं । वह इस प्रकार है—
तेईस प्रकृतिकी सत्तावाले किन्ही जीवके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका नाश कर देनेपर बाईस
प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ होता है । अनन्तर जब तक सम्यक्प्रकृतिके क्षीण होनेका अन्तिम
समय नहीं प्राप्त होता तब तक वह जीव बाईस प्रकृतिक स्थानका स्वामी रहता है ।
बाईस प्रकृतिक स्थानका यह जघन्यकाल है । इसका उत्कृष्टकाल भी इतना ही होता है,
क्योंकि एक कालमें विद्यमान अनेक जीवोंमें अनिवृत्तिरूप परिणामोकी अपेक्षा भेद नहीं
पाया जाता । यदि कहा जाय कि नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले अनिवृत्तिकरणसंबन्धी
कालोंमें विसम्यता पाई जाती है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर जो
जीव अनिवृत्तिकरणमें ममान ममयवर्ती हैं उनके परिणामोंमें भेदका प्रसंग प्राप्त होता है ।

§ २८२. अब तेईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं वह इस प्रकार है—चौबीस प्रकृति
योकी सत्तावाले जीवके द्वारा मिध्यात्वके क्षयित कर देनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका प्रारंभ
होता है । अनन्तर जब तक सत्तामें स्थित सम्यग्मिध्यात्व कर्म सम्यक्प्रकृतिमें संक्रमित
नहीं हो जाता तब तक तेईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है और यही इस स्थानका जघन्य

तिकालो एत्तिओ चेव, कारणं सुगमं ।

* चउवीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २२३. कुदो ? अट्टावीससंतकम्मियस्स सम्माइट्ठिस्स अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोइय चउवीसविहत्तीए आदिं कादूण सच्चजहण्णंतोमुहुत्तमच्छिय खविदमिच्छस्स चउवीस-विहत्तीए जहण्णकालुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण वे-जावट्टि-सागरोवमाणि मादिरेयाणि ।

§ २२४. कुदो ? छब्बीससंतकम्मियस्स लांतवकाविहामिच्छाइट्ठिदेवस्स चोइससा-गरोवमाउट्ठिदियस्स तन्थ पढमे सागरे अंतोमुहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय सच्च-लहुएण कालेण अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोइय चउवीसविहत्तीए आदिं कादूण सच्च-क्कस्समुवसमसम्मत्तद्वमच्छिय विदियसागरोवमपढमसमए वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय तेरससागरोवमाणि मादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालेदूण कालं कादूण पुच्चकोडाउअमणुस्से-सुववज्जिय पुणो एदेण मणुस्साउएणूणवावीससागरोवमाउट्ठिदिएसु देबेसुववज्जिय पुणो काल है । उत्कृष्ट कालकी विवक्षा करनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल भी इतना ही होता है । जघन्य और उत्कृष्ट दोनों कालोंके समान होनेका कारण सुगम है ।

* चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २२३. शंका—चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त क्यों है ?

समाधान—जिसके प्रारंभमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है पश्चात् जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन करके चौबीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ किया है, और उसके अनन्तर सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक वहां रहकर मिथ्यात्वका क्षय किया है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल पाया जाता है ।

* चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एकसौ बत्तीस सागर है ।

§ २२४. शंका—चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एकसौ बत्तीस सागर कैसे है ?

समाधान—जिसके प्रारंभमें छब्बीस कर्मोंकी सत्ता है और जो चौदह सागर आयु वाला है ऐसा लांतव और कापिष्ठ स्वर्गका मिथ्यादृष्टि देव जब पहले सागरमें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयुके शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके सबसे कम कालके द्वारा चार अनन्तानु-बन्धियोंकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिक स्थानको प्रारंभ करता है और उपशम सम्यक्त्वके सबसे उत्कृष्ट कालतक उपशम सम्यक्त्वके साथ रहकर दूसरे सागरके पहले समयमें वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके साधिक तेरह सागर काल तक वहां सम्यक्त्वका पालन करके और मरकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बार्डस सागर प्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे

पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववज्जिय तत्तो कालं काऊण अणंतरमणुस्साउएणूणएकतीस-
सागरोवमट्टिदिएसु देवेसुप्पज्जिय तदो अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए सम्मामिच्छत्तं गंतूण
तत्थ अंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो सम्मत्तं पडिवज्जिय कालं काऊण पुव्वकोडाउएसु मणुस्से-
सुववज्जिय तदो कालं काऊण मणुस्साउएणूणवीससागरोवमाउट्टिदिएसु देवेसुप्पज्जिय
कालं काऊण पुव्वकोडाउअमणुस्सेसुववज्जिय पुणो मणुस्साउएणूणवावीससागरोवम
ट्टिदिएसु देवेसुप्पज्जिय तदो कालं काऊण पुव्वकोडाउअमणुस्सेसुववज्जिय पुणो अंतोमुहु-
त्तम्भहियअट्टवस्साहियमणुस्साउएणूणचउवीससागरोवमट्टिदीएसु देवेसुववज्जिय कालं
कादूण पुव्वकोडाउएसु मणुस्सेसुववज्जिय गम्भादिअट्टवस्साणमंतोमुहुत्तम्भहियाणमुवरि
मिच्छत्तं खविय तेवीसविहत्तियत्तं गयस्स चउवीमविहत्तीए सादिरेयवेछावहिसागरोव-
ममेत्तुक्कस्सकालुवलंभादो ।

§ २८५. किमदिरेयपमाणं ? सम्मामिच्छत्त-सम्मत्तखवणकालं उवसमसम्मत्तेण सह
ट्टिदचउवीसविहत्तियकालम्मि सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमदिरेगपमाणं । दंसणमोहक्खवण-
कालादो उवसमसम्मत्तकालो संखेज्जगुणो त्ति कधं णव्वदे ? अप्पाबहुगवयणादो । तं
मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनु-
ष्यायुसे न्यून इकतीस सागरप्रमाण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहां आयुमें अन्त-
र्मुहूर्त शेष रह जानेपर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तथा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें
अन्तर्मुहूर्त कालतक रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और मरकर पूर्वकोटिप्रमाण आयु-
वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ तदनन्तर वहांसे मरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बीस सागर-
प्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले
मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बाईस सागरप्रमाण स्थितिवाले
देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ ।
अनन्तर आठवर्ष अन्तर्मुहूर्त अधिक पूर्वोक्त मनुष्यायुसे न्यून चौबीस सागरप्रमाण
स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें
उत्पन्न हुआ । वहां गर्भसे आठवर्ष और अन्तर्मुहूर्त कालके व्यतीत हो जानेपर मिथ्यात्वका
क्षय करके तेईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त हुआ । तब उसके चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट
काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर पाया जाता है ।

§ २८५. शंका—अधिक कालका प्रमाण क्या है ?

समाधान—उपशमसम्यक्त्वके साथ स्थित चौबीस प्रकृतिक स्थानके कालमेंसे सम्यग्-
मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्षपणाके कालको घटा देनेपर जो शुद्धकाल शेष रह जाय
वह यहां अधिक कालका प्रमाण है ।

शंका—दर्शनमोहनीयके क्षपणाकालसे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है यह

जहा—सन्वत्थोवा चारित्तमोहकखवय-अणियट्टिअद्दा, तस्सेव अपुण्वअद्दा संखेज्जगुणा, कसायउवसामयस्स अणियट्टिअद्दा संखेज्जगुणा, तस्सेव अपुण्वअद्दा संखेज्जगुणा, दंसणमोहकखवय-अणियट्टिअद्दा संखेज्जगुणा, तस्सेव अपुण्वअद्दा संखेज्जगुणा, अणं-
ताणुबंधिचउकविसंजोएंतस्स अणियट्टिअद्दा संखेज्जगुणा, अपुण्वअद्दा संखेज्जगुणा ।
दंसणमोहउवसामयस्स अणियट्टिअद्दा संखेज्जगुणा, तस्सेव अपुण्वअद्दा संखेज्जगुणा,
उवसमसम्मत्तद्दा संखेज्जगुणे त्ति ।

कैसे जाना जाता है ?

समाधान—अल्पबहुत्वके प्रतिपादक वचनोंसे जाना जाता है कि दर्शनमोहके क्षपणा-
कालसे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है । वे अल्पबहुत्वके प्रतिपादक वचन इस
प्रकार हैं—चारित्रमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल सबसे कम है । इससे चारित्रमोहके
क्षपक अपूर्व करणका काल संख्यातगुणा है । इससे कषायके उपशमक अनिवृत्तिकरणका
काल संख्यातगुणा है । इससे कषायके उपशमक अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे
दर्शनमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे इसी दर्शनमोहके क्षपक
अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करने-
वाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना
करने वाले जीवके अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे दर्शनमोहकी उपशमना
करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे उसीके अपूर्वकरणका काल
संख्यातगुणा है । इससे उपशमसम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है ।

विशेषार्थ—चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एकमौ बत्तीस सागर होता
है जिसे घटित करके उपर बतलाया ही है । यहां इतनी ही विशेष बात लिखनी है कि जो
जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके उपशमसम्य-
क्त्वके सबसे बड़े काल तक चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वी होकर रहता है
पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके कुछ कम छयासठ सागर काल तक वेदक सम्य-
क्त्वके साथ रह कर अन्तमें सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें जाकर अन्तर्मुहूर्त कालके पश्चात्
पुनः वेदकसम्यग्दृष्टि हो जाता है और दूसरी बार वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके छयासठ
सागरमें जब अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाय तब मिध्यात्वकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थान-
वाला हो जाता है उसके ही चौबीस विभक्तिस्थानका यह उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । यहां
यदि प्रारम्भमें बतलाये गये चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसम्यक्त्वके कालको
अलग करदिया जाय और कुछ कम दूमरे छयासठ सागरमें सम्यग्मिध्यात्व तथा सम्यक्
प्रकृतिके क्षपणाकालको मिला दिया जाय तो प्रारम्भमें प्राप्त हुए वेदकसम्यक्त्वके कालसे
लेकर सम्यक्प्रकृतिके क्षपणाकाल तक एकमौ बत्तीस सागर होते हैं । किन्तु सम्यग्मि-

* छब्बीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? अणादि-अपज्जवसिदो ।

§ २८६. कुदो ! अभव्वस्स अभव्वसमाणभव्वस्स वा छब्बीसविहत्तीण आदि-अंता-णमभावादो ।

* अणादि-सपज्जवसिदो ।

§ २८७. भव्वस्मिं छब्बीसविहत्तिं पडि आदिवाजियस्मिं मम्मत्ते पडिवण्णे छब्बीस-विहत्तीण विणासुवलंभादो ।

* सादि-सपज्जवसिदो ।

§ २८८. सम्मतसम्माभिच्छत्ताणि उव्वेद्धियं छब्बीसविहत्तियभावमुवगयस्सं छब्बीसविहत्तीण विणासुवलंभादो ।

ध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिकी क्षपणाके समय चौबीस विभक्तिस्थान नहीं रहता, अतः इन दोनों प्रकृतियोंके क्षपणाकालको एकसौ बत्तीस सागरमेंसे घटा देना चाहिये और प्रारम्भमें बतलाये गये उपशमसम्यक्त्वके कालमें चौबीस विभक्तिस्थान रहता है अतः इस कालको सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्षपणाकालसे रहित एकसौ बत्तीस सागरप्रमाण कालमें जोड़ देना चाहिये तो इस प्रकार चौबीस विभक्तिस्थानका साधिक एकसौ बत्तीस सागर-प्रमाण काल आ जाता है । यद्यपि एक ओर सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्षपणा-कालको घटाया है और दूसरी ओर चौबीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके कालको जोड़ा है फिर भी उक्त दो प्रकृतियोंके क्षपणाकालसे चौबीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वका काल अधिक है अतः चौबीस विभक्तिस्थानका उन्कृष्टकाल साधिक एकसौ बत्तीस सागर हो जाता है ।

* छब्बीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? अनादि-अनन्त काल है ।

§ २८६ शंका-छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अनादि-अनन्त काल कैसे है ?

समाधान-क्योंकि, जो जीव अभव्य है या अभव्योंके समान हैं उनके छब्बीस प्रकृतिक स्थानका आदि और अन्त नहीं पाया जाता है ।

* छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल अनादि सान्त भी है ।

§ २८७. अनादि मिध्यादृष्टि भव्यजीवके छब्बीस प्रकृतिक स्थान आदिरहित है, पर जब वह सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है तब उसके छब्बीस प्रकृतिक स्थानका अन्त हो जाता है, इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल अनादि-सान्त भी है ।

* तथा छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल सादि सान्त भी है ।

§ २८८. अट्टाईस प्रकृतिकी सत्तावाले जिम सादि मिध्यादृष्टिने सम्यक्त्व और सम्यग्मि-ध्यात्वकी उद्वेलना करके छब्बीस प्रकृतिरूपस्थानको प्राप्त किया है उसके छब्बीस प्रकृतिक स्थानका विनाश देखा जाता है, इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थान सादि-सान्त भी है ।

* तत्थ जो सादिओ सपज्जवसिदो जहण्णेण एगसमओ ।

§ २८६. कुदो ? सत्तावीससंतकम्मिण म्मिच्छादिट्टिणा पलिदोवमस्स असंखेज्ज-दिभागमेत्तकालेण सम्मामिच्छत्तमुच्चेल्लमाणेण उच्चेल्लणकालम्मि अंतोसुहुत्तावसेसग्गि उवसमसम्मत्ताहिमुहभावसुवगएण अंतरकरणं करिय म्मिच्छत्तपट्टमट्टिदिम्मि सव्वगोबु-च्छाओ गालिय उव्वराविददोगोबुच्छेण विदियट्टिदिम्मि ट्टिदसम्मामिच्छत्तचरिम-फालिं सव्वसंकमेण म्मिच्छत्तस्सुवरि पबिस्सविय म्मिच्छत्तपट्टमट्टिदिचरिमगोबुच्छं-वेदयमाणेण एगसमयं छव्वीसविहत्तियत्तमुवणमिय तदुवरिमसमए सम्मत्तं पडिव-ज्जिय अट्टावीससंतकम्मियत्ते समालंबिदे छव्वीसविहत्तीए एगसमयकालुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण उव्वट्ठं पोग्गलपरियट्ठं ।

§ २८७. कुदो ? अणादियम्मिच्छादिट्टिम्मि तिण्णिण वि करणाणि काउण उवसमसम्मत्तं पडिवण्णम्मि अणंतमंसारं छेत्तण ट्टिविद-अट्टपोग्गलपरियट्टिम्मि पुणो म्मिच्छत्तं गंतूण

* छव्वीस प्रकृतिक स्थानके इन तीनों भेदोंमें जो सादि-मान्त छव्वीस प्रकृतिक स्थान है उसका जघन्य काल एक समय है ।

§ २८८. शंका—सादि-सान्त छव्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय कैसे है ?

समाधान—जिसके सम्यक्प्रकृतिके विना सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, और जो पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यग्मिध्यात्व कर्मकी उद्वेलना कर रहा है, पर उद्वेलनाके कालमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर जो उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके सम्मुख हुआ है तथा अन्तरकरण करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिमें सर्व गोपुच्छोंको गला कर जिसके दो गोपुच्छ शेष रह गये हैं, तथा जो दूसरी स्थितिमें स्थित सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालिको सर्व संक्रमणके द्वारा मिध्यात्वमें प्रक्षिप्त करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम गोपुच्छका वेदन कर रहा है वह मिध्यादृष्टि जीव एक समय तक छव्वीस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त करके उसके अनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, अतः इसके छव्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है ।

* सादि-मान्त छव्वीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है ।

§ २८९. शंका—सादिसान्त छव्वीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल-परिवर्तन कैसे है ?

समाधान—जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों करणोंको करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और इस प्रकार जिसने अनन्तसंसारको छेदकर संसारमें रहनेके कालको अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण किया । पुनः मिध्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें

सव्वजहणणेण पल्लिदोमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण उव्वेज्जणकालेण सम्मत्तसम्मा-
मिच्छत्ताणि उव्वेल्लिय छव्वीसविहत्तीए आदिं कादूण अद्दपोग्गलपरियट्टं देख्खणं परि-
यट्टिदूण अद्दपोग्गलपरियट्टे सव्व-जहण्णंतोमुहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्तं घेत्तूण अट्टावीस-
विहत्तियभावमुवणमिय सिद्धिं गयम्मि छव्वीसविहत्तीए उवइट्टपोग्गलपरियट्टमेत्ते
उक्कस्सकालुवलंभादो । केत्तिण्णूणमद्दपोग्गलपरियट्टं ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागेण । सुत्तेण अवुत्तं ऊणत्तं कधं णव्वदे ? ण, ऊणमद्दपोग्गलपरियट्टं उवइट्टपोग्गल-
परियट्टमिदि णयारलोवं काऊण णिडिट्ठादो ।

* सत्तावीसविहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ ।

§ २६१. कुदो ? अट्टावीससंतकम्मियमिच्छादिट्ठिणा सम्मत्तुव्वेज्जणकाले अंतोमुहु-
त्तावसेसे तिण्णि वि करणाणि कादूण अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपट्टमट्ठिदिदुच्चरिमसमए
सम्मत्तचरिमफालिं सव्वसंकमेण मिच्छत्ताम्मि पक्खित्ते पट्टमट्ठिदिचरिमसमए सत्तावीस
विहत्ती होदि । से काले उवसमसम्मत्तं घेत्तूण जेण अट्टावीसविहत्तिओ होदि तेण
भाग प्रमाण उट्टेलन कालके द्वारा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उट्टेलना करके
और इस प्रकार छव्वीस प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ करके देशोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण
काल तक परिभ्रमण करके अर्धपुद्गल परिवर्तनरूप कालमें सबसे जघन्य अन्तर्मुहुर्त कालके
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अट्टाईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त होकर
क्रमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ उसके छव्वीस प्रकृतिक स्थानका देशोन अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण
उत्कृष्ट काल पाया जाता है ।

शंका—यहाँ अर्धपुद्गल परिवर्तनको जो देशोन कहा है सो देशोनका प्रमाण क्या है ?

समाधान—यहाँ देशोनका प्रमाण पल्लयोपमका असंख्यातवाँ भाग इष्ट है ।

शंका—सूत्रमें उनपनेका निर्देश तो नहीं किया है फिर यह कैसे जाना कि यहाँ
देशोन अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण काल इष्ट है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उन+अर्धपुद्गल परिवर्तनके स्थानमें प्राकृतके नियमानुसार
णकारका लोप करके उपार्धपुद्गल परिवर्तन शब्दका निर्देश किया है ।

* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है ।

§ २६१. शंका—सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय कैसे है ?

समाधान—जब अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्प्रकृतिके
उट्टेलनाकालमें अन्तर्मुहुर्त शेष रहनेपर तीनों करणोंको करता है और अन्तरकरण करके
मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्प्रकृतिकी अन्तिम फालिको सर्वसंक्र-
मणके द्वारा मिध्यात्वमें प्रक्षिप्त कर देता है तब वह मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम
समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है । पुनः अनन्तर समयमें उपशम सम्य-

सत्तावीसविहतीए जहणकालस्स पमाणमेगसमओ ।

* उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ २६२. कुदो ? अट्टावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विणा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-
मेत्तकालेण सम्मत्ते उव्वेज्जिदे सत्तावीसविहती होदि । तदो सव्वुक्कस्सेण पलिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तेण कालेण जाव सम्मामिच्छत्तमुव्वेज्जिदि ताव सत्तावीसविहतीए
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवुक्कस्सकालुवलंभादो ।

* अट्टावीसविहती केवचिरं कालादो होदि ? जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २६३. कुदो ? छव्वीससंतकम्मियमिच्छादिद्विम्हि उवसमसम्मत्तं घेत्तूण उप्पाइदअ-
ट्टावीससंतकम्मम्मि सव्वजहणमंतोमुहुत्तमट्टावीससंतकम्मेण सह अच्चिद्वय अणंताणु-
बांधिचउकं विसंजोइय उप्पाइदचउवीससंतकम्मम्मि अट्टावीसविहत्तियस्स अंतोमुहुत्त-
मेत्तजहणकालुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण वे-छावट्टि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । *

§ २६४. तं जहा, एक्को मिच्छाइट्ठी उवसमसम्मत्तं घेत्तूण अट्टावीसविहत्तिओ जादो ।
क्त्वको प्राप्त करके चूंकि वह अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होजाता है इसलिये सत्ताईस
प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका प्रमाण एक समय है यह मिद्ध होता है ।

* सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग है ।

§ २६२. शंका—सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग कैसे है ?

समाधान—अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिध्यादृष्टि जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण
कालके द्वारा सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना करनेपर सत्ताईस प्रकृतिक स्थानवाला होता है ।
तदनन्तर वह जीव जब तक सबसे उत्कृष्ट पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्य-
ग्मिध्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना करता है तबतक उम्के सत्ताईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता
है । अतः सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग है ।

* अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २६३. शंका—अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कैसे है ?

समाधान—छव्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक मिध्यादृष्टि जीवने उपशम सम्य-
क्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया । अनन्तर सबसे जघन्य अन्त-
र्मुहूर्त काल तक अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके पश्चात् अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी
विसंयोजना करके चौबीसप्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की । तब उसके अट्टाईस प्रकृतिक
स्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है ।

* अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है ।

§ २६४. वह इस प्रकार है—कोई एक मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण

तदो मिच्छत्तं गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तसव्वुकस्ससम्मत्तुव्वेत्थणकाले अंतोमुहुत्तावसेसे सत्तावीसविहत्तिओ होदि त्ति ण होदूण उव्वेल्लणकालमचरिमसमए मिच्छत्तपढमट्ठिदीए चरिमणिसेयं काऊण उवमममम्मत्तं पडिवण्णो । तदो पढम-
छावट्ठिं भमिय मिच्छत्तं गंतूण पुणो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागभूदसव्वुकस्स
सम्मत्तुव्वेल्लणकालचरिममए उवमममम्मत्तं धेतूण विदिथछावट्ठिं भमिय मिच्छत्तं
गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तमव्वुकस्ससम्मत्तुव्वेल्लणकालेण सत्तावीस-
विहत्तिओ जादो । तदो तीहि पलिदोवमस्स अगंखेज्जदिभागेहि सादिरेयाणि बेछावट्ठि-
सागरोवमाणि अट्ठावीम-विहत्तियस्स उक्कम्मकालो । एवं जइवसहाइरिय-चुण्णि-सुत्त-
मस्सिदूण ओबे परूवणा कदा ।

§ २६५. संपहि उच्चारणाडरियपरूविद-ओघुच्चारणं चुण्णिसुत्तभमाणं पुणरुत्तभएण
छड्डिय आदेसुच्चारणं भाणिम्मामो । अचक्खुं-भवसिद्धिं-ओयमंगो ।

§ २६६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएमु अट्ठावीसविहत्ती केवचिं कालादो ?
करके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ । तदनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्प्रकृतिके
सबसे उत्कृष्ट उद्वेलनकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर वह सत्ताईस
प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता पर ऐसा न होकर वह उम कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर
उद्वेलना कालके उपान्त्य समयमें मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम निपेकका अन्त
करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । तदनन्तर प्रथम छयासठ सागुर काल तक परिभ्रमण
करके और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पुनः सम्यक्प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्या-
तवें भागप्रमाण उद्वेलना कालके अन्तिम समयमें उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और दूसरे
छियामठ सागर काल तक भ्रमण करनेके पञ्चात पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्-
प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी
उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ । अतः पल्योपमके तीन असंख्यातवें
भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस भाग अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल होता है ।

इसप्रकार यतिवृषभके चूर्णिसूत्रोंका आश्रय लेकर ओघका कथन किया ।

§ २६५. अब यतः उच्चारणाचार्यके द्वारा उच्चारणावृत्तिमें किया गया ओघका कथन
चूर्णिसूत्रोंके समान है अतः पुनरुक्त दोषके भयसे उसका कथन न करके उच्चारणामें कहे गये
आदेश प्ररूपणाका कथन करते हैं—अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके प्रकृतिस्थानोंका काल
ओघके समान है । तात्पर्य यह है कि ये दोनों मार्गणों मोहनीयके अवस्थानकाल तक
सर्वदापाई जाती हैं । अतः इनमें ओघके समान काल बन जाता है ।

§ २६६. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें अट्ठाईस विभक्ति स्थानका कितना
काल है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट तेतीस सागर है । इसीप्रकार छब्बीस विभक्ति
स्थानके कालका कथन करना चाहिये । सत्ताईस विभक्ति स्थानका काल ओघके समान

जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं छब्बीस० वत्तब्बं । सत्तावीस० ओघमंगो । चउवीसविह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि देखणाणि । वावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्तं । एकवीसविह० जह० चउरासीदिवस्ससहस्साणि अंतोमुहुत्तणाणि । उक० सागरोवमं पल्लिदोवमस्स असंखेअदिमागेणुणं । एवं पढमाण पुढवीए । णवरि, सगाट्टिदी वत्तब्बा । विदियादि जाव सत्तमि ति अट्टावीस-छब्बीस विह० केव० ? जह० एगसमओ, उक० सगसगाट्टिदी । सत्तावीस० ओघमंगो । चउवीसविह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक० सगाट्टिदी देखणा ।

है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन तेतीस सागर है । वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । इक्कीस विभक्ति स्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भाग कम एक सागर है । सामान्य नारकियोंके विभक्तिस्थानोंके कालका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पहले नरकमें समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारकियोंके अट्टाईस और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सत्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके ममान है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है ।

विशेषार्थ—जिसके सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनामें एक समय शेष रह गया है ऐसा जीव यदि मरकर नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके नरक अवस्थामें २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है । इसीप्रकार प्रत्येक नरकमें २८ विभक्तिस्थानका एक समय काल जानना चाहिये । तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना किया हुआ जो सम्यग्दृष्टि नारकी मिध्यात्वमें जाकर और एक समय तक अनन्तानुबन्धीकी सत्ताके साथ रहकर तथा दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है उसके भी २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय बन जाता है । पर यह व्यवस्था प्रथमादि छह नरकमें ही लागू होती है सातवेंमें नहीं, क्योंकि सातवेंमें ऐसा जीव अन्तर्मुहूर्त हुए बिना नहीं मरता है ऐसा नियम है । २८ विभक्तिस्थानवाला कोई एक जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और वहां वह वेदक सम्यक्त्वके कालके भीतर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके मरण होनेमें अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहनेपर मिध्यादृष्टि हो गया उसके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर पाया जाता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ऐसे जीवके अनन्ता-

नुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होनी चाहिये । २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस मागर अन्य प्रकारसे भी प्राप्त हो सकता है सो उसका विचार कर कथन कर लेना चाहिये । इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २८ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट कालका कथन अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण घटितकर लेना चाहिये । जिसके नरकमें रहनेका काल एक ममय शेष रहनेपर सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना हो गई है उसके नरकमें २६ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । इसीप्रकार सातों नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये । तथा २६ विभक्तिस्थानवाला जो मिथ्यादृष्टि नारकी जीव नरकमें उत्पन्न होकर जीवन पर्यन्त मिथ्यादृष्टि बना रहता है उस नारकीके सामान्यसे २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल तेतीस मागर पाया जाता है । इसीप्रकार प्रथमादि नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्टकाल घटित कर लेना चाहिये । जिसके नरकमें रहनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना हो गई है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय ओषके समान बन जाता है । इसी-प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २७ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय जानना चाहिये । तथा ओषकी अपेक्षा जो सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है वह यहां सामान्यसे नारकियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जानना चाहिये । जिस सम्यग्दृष्टि नारकीने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस विभक्ति-स्थानको प्राप्त किया और अन्तर्मुहूर्त कालके पञ्चात् मिथ्यात्वमें जाकर अनन्तानुबन्धीकी सत्ता प्राप्त कर ली उस नारकीके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । इसी-प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त जान लेना चाहिये । तथा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और पर्याप्त होनेके पञ्चात् सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी पुनः जीवन भर २४ विभक्तिस्थानके साथ रहकर अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर वह मिथ्यात्वमें जाकर २८ विभक्तिस्थानवाला हो गया उसके २४ विभक्तिस्थानका कुछ कम तेतीस मागर उत्कृष्ट काल पाया जाता है । सातवें नरकमें २४ विभक्तिस्थानका यही उत्कृष्ट काल होता है । किन्तु प्रथमादि बृह नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये । उसमें जीवनके अन्तमें मिथ्यात्वमें नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि प्रारम्भके छह नरकोंमें सम्यग्दृष्टि नारकियोंका मरण होता है । अतः यहां कुछ कमसे भवके प्रारम्भमें विसंयोजना होने तकके कालका ही ग्रहण करना चाहिये । कृतकृत्य वेदकके कालमें एक समय शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है । उसके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । तथा कृतकृत्य वेदकके कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है उसके २२ विभक्तिस्थानका

§ २१७. तिरिक्खेसु तिरिक्खेसु अट्टावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ । उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जिभागेण सादिरेयाणि । सत्तावीस० ओघभंगो । छब्बीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पुग्गलपरियट्ठा । चउवीसविह० केव० जह० अंतोसु०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । पहले नरकमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल इसीप्रकार जानना चाहिये; क्योंकि अन्य नरकोंमें २२ विभक्तिस्थान नहीं होता है । नरकमें इक्कीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष प्रमाण बतलाया है उसका यह कारण प्रतीत होता है कि यदि कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीव कृतकृत्य वेदकके कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर नरकसम्बन्धी सम्यग्दृष्टिकी जघन्य आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि नरकमें उत्पन्न हुए सम्यग्दृष्टि जीवकी जघन्य आयु चौरासी हजार वर्षसे कम नहीं होती है किन्तु ऐसे जीवके २२ और २१ इन दोनों विभक्ति स्थानोंका पाया जाना भी सम्भव है । अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष कहा है । इससे यह भी निष्कर्ष निकल आता है कि जिसके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहा है ऐसी जीव यदि सम्यग्दृष्टिकी जघन्य आयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो उसके २१ विभक्तिस्थानका काल एक समय कम चौरासी हजार वर्ष होना है । इसीप्रकार उत्तरोत्तर बाईस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय तक बढ़ाते हुए अन्तर्मुहूर्त काल तक ले जाना चाहिये और इक्कीस विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय घटाते हुए अन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष तक ले जाना चाहिये । उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि कोई २१ विभक्तिस्थानवाला जीव वहां की क्षायिक सम्यग्दृष्टिकी आयुके साथ मरकर यदि नरकमें उत्पन्न हो तो उसके चौरासी हजार वर्षसे कम आयु नहीं पाई जायगी । तथा नरकमें २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग कम एक सागर प्रमाण है । इसका यह तात्पर्य है कि यद्यपि पहले नरककी उत्कृष्ट आयु परिपूर्ण एक सागर प्रमाण है फिर भी वहां उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टिके पहले नरककी उत्कृष्ट आयु नहीं प्राप्त होती है किन्तु पत्यके असंख्यातवें भाग कम एक सागर ही प्राप्त होती है ।

§ २१७. तिर्यग्गतिमें तिर्यच्चोमें अट्टाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है । सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल ओघके समान जानना चाहिये । छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है । वह अनन्तकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और

देखणाणि । चावीसविह० केव० ? जह० एगस० उक० अंतोसुहुचं । एकवीसविह० केव० ? जह० पलिदोवमस असंखेअदिभागो, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि । पंचि-दियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज० अट्टावीस-छव्वीसविह० केव० ? जह० एगसमओ उक० तिण्णि पलिदोवमाणि पुठ्वकोट्टिपुधत्तेणम्मदियाणि । सेमाणं तिरिक्खो-वमंगो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस० पंचिदिय-तिरिक्खमंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह० केव० ? जह० एगसमओ । उक० अंतोसुहुचं । एवं मणुस्सअपज-बादरेइंदियअपज०-सुहुम-पज०-अपज०-विगर्लंदियअपज०-पंचिदियअपज०-पंचकायबादरअपज०-सुहुमपज० अपज०-तसअपज० वत्तव्वं ।

उत्कृष्ट काल देशोन तीन पत्य है । बाईस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इक्कीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल पत्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्टकाल तीन पत्य है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच और पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त जीवोंके अट्टाईस और छव्वीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिपृथ-क्त्वसे अधिक तीन पत्य है । उक्त दोनों प्रकारके तिर्यचोंके शेष सम्भव प्रकृतिकस्थानोंका काल ओषके समान समझना चाहिये । पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमती जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस और चौवीस प्रकृतिकस्थानोंके कालका कथन पंचेन्द्रियतिर्यचोंमें उक्त स्थानोंके कहे गये कालके समान करना चाहिये । पंचेन्द्रियतिर्यच लब्ध्यपर्याप्तजीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, और छव्वीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मु-हूर्त है । इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, पांचों बादरकाय अप-र्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पर्याप्त, पांचों सूक्ष्मकाय अपर्याप्त और त्रसकाय अपर्याप्त इन जीवोंके भी अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस प्रकृतिक स्थानोंका काल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—२८, २७, और २६ विभक्तिस्थानके जघन्य काल एक समयका खुलासा जिस प्रकार नरकगतिके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । तथा अन्य मार्गणास्थानोंमें जहां इन विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय बत-लाया हो वहां भी इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिये । हम पुनः पुनः इसका निर्देश नहीं करेंगे । तिर्यचगतिमें परिभ्रमण करनेवाले किसी एक जीवके उपशमसम्यक्त्व होकर २८ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति हुई । पुनः मिथ्यात्वमें जाकर जिसने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दे-जनाका पारम्भ किया और अतिदीर्घकाल तक जो तिर्यचगतिमें ही उसकी उद्देखना करता हुआ तीन पत्यकी आयुवाले तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां सम्यक्त्व प्राप्तिके योग्य

कालके प्राप्त होने पर जिसने सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें पुनः उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया । तथा अनन्तर वेदक सम्यग्दृष्टि होकर जो जीवनपर्यन्त उसके साथ रहा उस तिर्यचके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पत्न्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्न्य प्राप्त होता है । जो तिर्यच सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाके प्रारम्भसे अन्त तक तिर्यच पर्यायमें ही बना रहता है उस तिर्यचके २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओषके समान पत्न्यका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है । २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण होता है वह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी एक जीवके मिध्यात्वके साथ निरन्तर तिर्यचपर्यायमें रहनेका काल उक्त प्रमाण ही है । २४ विभक्ति-स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट-काल जो कुछ कम तीन पत्न्य कहा है उसका कारण यह है कि कोई एक जीव उत्तम भोगभूमिमें तीन पत्न्यकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ और वहां पर उमने सम्यक्त्वके योग्य कालके प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी । पुनः जीवन भर जो २४ विभक्तिस्थानके साथ रहा । उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्न्य होता है । यहां कुछ कमसे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होने तकका काल लेना चाहिये । यहां २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । भोगभूमिके तिर्यचकी जघन्य आयु पत्न्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण और उत्कृष्ट आयु तीन पत्न्यप्रमाण होती है । इसी अपेक्षासे तिर्यचोंमें २१ विभक्ति-स्थानका जघन्य काल पत्न्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल तीन पत्न्यप्रमाण कहा है । यहां यह शङ्का की जा सकती है कि सर्वार्थसिद्धिमें बतलाया है कि जिसने क्षायिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके पहले तिर्यचायुका बन्ध कर लिया है ऐसा मनुष्य उत्तम भोगभूमिके तिर्यच पुरुषोंमें ही उत्पन्न होता है और उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवकी जघन्य आयु भी दो पत्न्यसे अधिक होती है । अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल पत्न्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण नहीं बन सकता है । इस शङ्काका यह समाधान है कि सर्वार्थसिद्धिको छोड़ कर हमने दिग्म्बर और श्रेताम्बर संप्रदायमें प्रचलित कार्मिक ग्रन्थ देखे पर वहां हमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि मर कर अगर तिर्यच और मनुष्य होता है तो उत्तमभोगभूमिया ही होता है । वहां तो केवल इतना ही लिखा है कि ऐसा जीव यदि मर कर तिर्यच और मनुष्य हो तो असंख्यातवर्षकी आयु-बाला भोगभूमिया ही होता है । इससे मालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धिमें जो 'उत्तम' पद आया है वह भोगभूमि पदका विशेषण न होकर पुरुष पदका विशेषण है । अथवा ये दोनों कथन मान्यताभेदसे सम्बन्ध रखते हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं । इस प्रकार उपर जो सामान्य तिर्यचोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल बतलाया है, उसमेंसे २८ और २६

§ २६८. मणुस्सेसु अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसविह० पंचिदियतिरिक्खमंगो । तेवीस-वावीस-तेग्म-वारस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तियाणमोघमंगो । एकवीसविह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि किंचू-णपुव्वकोडित्तिमागेणब्भहियाणि । एवं मणुसपञ्ज० । णवरि, बावीसविह० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं मणुस्सिणीसु । णवरि, बारस० जह० अंतोमुहुत्तं । एकवीसविह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० पुव्वकोडी देसणा ।

विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्टकालको छोड़ कर शेष सब कालविषयक कथन पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्तकोंके भी घटित हो जाता है । किन्तु इन दोनों प्रकारके तिर्यचोंके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक तीन पत्यप्रमाण होता है । यहां पूर्वकोटि पृथक्त्वसे पंचेन्द्रियतिर्यचोंके १५ पूर्वकोटियोंका और पंचेन्द्रिय-तिर्यचपर्याप्तकोंके ४७ पूर्वकोटियोंका ग्रहण करना चाहिये । तथा पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि-मत्तियोंके २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल कहते समय पूर्वकोटिपृथक्त्वसे १५ पूर्वकोटियोंका ही ग्रहण करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल १५ पूर्वकोटि अधिक तीन पत्य होना है । पंचेन्द्रियतिर्यच लब्धपर्याप्तकोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानका एक समय प्रमाण जघन्यकाल उद्वेलनाकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये । तथा अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा यहां उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल कहा है । इसी प्रकार मनुष्य लब्धपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त घटित कर लेना चाहिये ।

§ २६८. मनुष्योंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानोंके जघन्य और उत्कृष्टकालका कथन पंचेन्द्रियतिर्यचोंमें उक्त स्थानोंके कहे गये जघन्य और उत्कृष्ट-कालके समान है । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल ओषके समान है । इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना है । जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन पत्य है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्तकोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्यणोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य-काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा इनके इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशेण पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय-

तिर्यचोके समान होता है। इसका यह तात्पर्य है कि पंचेन्द्रियतिर्यचोके समान सामान्य मनुष्योंमें मी २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय, २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त तथा २८ और २६ विभक्तियोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक तीन पत्न्य, २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओघके समान पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तीन पत्न्य जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां पूर्वकोटिपृथक्त्वका खुलासा करते समय तिर्यचोकी ६५ पूर्वकोटियां न कह कर मनुष्योंकी ४७ पूर्वकोटिया ही कहना चाहिये। शेष खुलासा जिस प्रकार पंचेन्द्रियतिर्यचोके कथनके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। तथा सामान्य मनुष्योंमें केवल २१ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर शेष विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान है। अतः ओघका कथन करते समय जिस प्रकार खुलासा कर आये हैं उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। हां, ओघसे २१ विभक्तिस्थानके कालमें कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है। उमें भी सामान्य मनुष्योंके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल तो ओघके समान अन्तर्मुहूर्त ही होता है। पर उत्कृष्ट काल जो माधिक तेतीस सागर बतलाया है वह न होकर कुछ कम पूर्वकोटि त्रिभागसे अधिक तीन पत्न्य प्रमाण ही होता है। यथा—एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जिस कर्मभूमिया मनुष्यने आयुके त्रिभागप्रमाण शेष रहनेपर परभवमम्बन्धी मनुष्यायुका बन्ध किया। पुनः आयुबन्धके पश्चात् वेदक सम्यग्दृष्टि होकर अनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त किया। तदनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वके साथ शेष आयुका भोग करके और आयुके अन्तमें मरकर उत्तम भोगभूमिमें तीन पत्न्यकी आयुके साथ मनुष्य हुआ और वहांसे देवगतिमें गया। उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटिके कुछ कम एक त्रिभागसे अधिक तीन पत्न्यप्रमाण पाया जाता है। ऊपर जिस प्रकार सामान्य मनुष्योंमें २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालका खुलासा किया है उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्योंके कर लेना चाहिये। पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि पर्याप्त मनुष्योंके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्ट कालका खुलासा करते समय पूर्वकोटिपृथक्त्वसे २३ पूर्वकोटियोंका ही ग्रहण करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है। कृतकृत्य वेदक कालमें एक समय शेष रहनेपर जो मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ है उस पर्याप्त मनुष्यके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है। तथा जिस मनुष्य पर्याप्तने दर्शनमोहनीयकी क्षणका प्रारम्भ किया है और कृतकृत्यवेदक होकर जो नहीं मरा है उसके २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है। तथा सामान्य मनुष्योंके समान मनुष्यणियोंके भी २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभ-

§ २६६. देवेषु अट्टावीसविह० जह० एगसमओ । चउवीसविह० जह० अंतोसुहुतं । उक्क० दोण्हंपि तेत्तीसं सागरोवमाणि । सत्तावीसविह० ओघभंगो । छव्वीसविह० केव० ? जह० एगसमओ । उक्क० एकत्तीससागरोवमाणि । वावीसविह० जह० एगसमओ । उक्क० अंतोसुहुतं । एकवीसविह० केव० ? जह० पालिदोवमं सादिरयं, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । भवण०-वाण०-जोइमि० अट्टावीस-छव्वीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० मगट्टिदी । सत्तावीस० ओघभंगो । चउवीसविह० के० ? जह० अंतोसु०, उक्क० मगट्टिदी देसणा । सोहम्मादि जाव उवरिमगेवअदेवाणमोघभंगो ।

क्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त ही होता है, क्योंकि जो जीव स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकक्षणीपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदके क्षय हो जानेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकालके द्वारा ही स्त्रीवेदका क्षय होता है । इसी प्रकार मनुष्याणियोंके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है । इनके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त क्यों होता है, यह तो स्पष्ट ही है पर उत्कृष्टकाल जो कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण बतलाया उसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव मर कर मनुष्यणियोंमें उत्पन्न नहीं होता अतः एक भषकी अपेक्षा ही इनका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है । किन्तु क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति कर्मभूमिज मनुष्यके ही होती है और कर्मभूमिज मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण होती है । साथ ही यह भी नियम है कि कर्मभूमिज मनुष्यके आठ वर्षके पहले सम्यक्त्व उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं होती, अतः एक पूर्वकोटिकी आयुशाले जिम मनुष्यणीने आठ वर्षके उपरान्त वेदक सम्यक्त्वपूर्वक क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है उमके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण देखा जाता है ।

§ २६६. देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक मगय है और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है । सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है । छव्वीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । बाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इक्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है जघन्य काल साधिक पत्थ और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है ।

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें अट्टाईस और छव्वीस प्रकृतिकस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है ।

णवरि, उक्० सगट्टिदी वचन्वा । अणुदिसादि जाव सव्वट्टे ति अट्टावीस-चउवीस-विह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्० सगट्टिदी । बावीस० णारगभंगो । एकवीस० केव० ? जह० जहण्णट्टिदी अंतोमुहुत्तूणा, उक्० उक्कस्सट्टिदी ।

मौधर्म स्वर्गसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तक देवोंके स्थानोंके कालका कथन ओषके समान करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक देवोंके अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । बाईसप्रकृतिक स्थानका काल नारकियोंके समान समझना चाहिये । इक्कीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—जिम वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्यने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है वह मर कर जब उत्कृष्ट आयुके साथ चार विजयादिकमें या सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होता है और वहां भी यदि वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है तो उसके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर पाया जाता है । तथा जिमने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा जो वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य उक्त स्थानोंमें पैदा होता है उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३३ सागर देखा जाता है । २६ विभक्तिस्थान मिथ्यादृष्टिके ही होता है । अतः देवोंमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ३१ सागर ही कहना चाहिये, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव नौत्रैवेयक तक ही पैदा होता है और नौत्रैवेयकमें उत्कृष्ट आयु ३१ सागरप्रमाण ही है इससे अधिक नहीं । वैमानिकोंमें जघन्य आयु साधिक एक पत्य और उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल साधिक एक पत्य और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कहा है । भवनत्रिकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनमें सम्यग्दृष्टि जीव अन्य गतिसं आकर उत्पन्न नहीं होते हैं । अतः वही जिन्होंने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके ही २४ विभक्तिस्थान होता है जिसका जीवन भर पाया जाना सम्भव है, अतः भवनत्रिकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होता है । सौधर्मसे लेकर नौत्रैवेयक तक तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव पैदा होते हैं । अतः वहां २८, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन जाता है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें यद्यपि सम्यग्दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं फिर भी जो वहां उत्पन्न होनेके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालके पश्चात् अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर देते हैं उनके २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है ।

§ ३००. इंदियाणुवादेण एंइदिय० बादर० सुहुम० अट्टावीस-सत्तावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । छब्बीसवि० जह० एगसमओ, उक्क० सगट्टिदी । बादरपज्ज० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० संखेजाणि वस्ससहस्साणि । एवं विगल्लिंदिय-विगल्लिंदियपज्ज० । पांचिंदिय-पांचिदि- और जो जीवनके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं उनके चौबीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है यहां हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालके विषयमें विशेष कहना था उन्हींके कालका खुलासा किया है शेषका नहीं । अतः शेषका विचार कर लेना चाहिये ।

§ ३००. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म जीवोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भाग है । छब्बीस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है । इसीप्रकार विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—यद्यपि एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवका निरन्तर उस पर्यायमें रहनेका काल पत्यके असंख्यातवें भागसे अधिक है, फिर भी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २८ और २७ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है इससे अधिक नहीं । अतः एकेन्द्रियादि उक्त जीवोंके २८ और २७ विभक्तिस्थानोंका काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । किन्तु २६ विभक्तिस्थानके विषयमें यह बात नहीं है अतः उसका काल उक्त जीवोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण कहा है । तथा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष प्रमाण ही होता है अतः इनके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है । तथा विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके भी २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष जानना चाहिये । क्योंकि कोई एक जीव विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त पर्यायमें निरन्तर संख्यात हजार वर्ष तक ही रहता है । इसके पश्चात् उसकी विवक्षित पर्याय बदल जाती है । बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त और विकलेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है । जो सुगम होनेके कारण वीरसेनस्वामीने नहीं कहा है । विशेषार्थमें हमने जिन विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालोंका खुलासा नहीं किया है इसका कारण यह है कि उनका खुलासा नरकगति आदिके सम्बन्धमें विशेषार्थ लिखते समय कर आये हैं ।

यपञ्ज०-तस-तसपञ्जाणमोघमंगो । णवरि, अट्टावीस० जह० एगसमओ उक्क० सग-
ट्टिदी ? छब्बीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सगट्टिदी । पुढवि०-आउ०-
तेउ०-वाउ०-बादर-सुहुम० वणप्फदि०-बादर-सुहुम० णिगोद०-बादर-सुहुम० अट्टावीस-
सत्तावीस० एइंदियमंगो । छब्बीसविह० केव० ? जह० एगस० उक्क० सगट्टिदी । बादर-
पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय०-बादरणिगोदपदिट्टिदपअत्त० बादर-
एइंदियपञ्जमंगो ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ओघके समान कथन करना चाहिये ।
इतनी विशेषता है कि अट्टाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अपनी
अपनी स्थिति प्रमाण है । तथा छब्बीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक
समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । पृथिवीकायिक, अप्कायिक, अमिकायिक
और वायुकायिक तथा इनके बादर और सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक तथा इनके बादर और
सूक्ष्म, निगोदजीव तथा इनके बादर और सूक्ष्म जीवोंके अट्टाईस और सत्ताईस विभक्ति-
स्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । उक्त जीवोंके छब्बीस विभक्तिस्थानका
काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण
है । बादर पृथिवीकायिकपर्याप्त, बादर अप्कायिकपर्याप्त, बादर अमिकायिकपर्याप्त, बादर
वायुकायिकपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित
पर्याप्त जीवोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका काल बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके
समान जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—२४ विभक्तिस्थानसे लेकर शेष सब विभक्तिस्थान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय
पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके ही होते हैं अतः इनके २४ आदि विभक्तिस्थानोंका
जघन्य और उत्कृष्टकाल ओघके समान बन जाता है । अब रही २८, २७ और २६
विभक्तिस्थानोंके कालोंकी बात, सो इनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल भी
ओघके समान बन जाता है । किन्तु २८ विभक्तिस्थानके जघन्यकालमें और २६ विभक्ति-
स्थानके उत्कृष्टकालमें कुछ विशेषता है जो ऊपर बताई ही है । तथा एकेन्द्रिय जीवोंके
२८ और २७ विभक्तिस्थानोंके कालोंका तथा एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके २६ विभक्तिस्थानके
कालका जिसप्रकार सुलासा कर आये हैं उसीप्रकार पृथिवीकायिक आदि जीवोंके भी २८
आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका सुलासा कर लेना चाहिये । तथा वीरसेनस्वामीने जिसप्रकार
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि जीवोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका विवेचन नहीं
किया है उसीप्रकार यहांभी इन पृथिवी कायिक आदिके बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त
और सूक्ष्म अपर्याप्तभेदोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालोंका विवेचन नहीं किया है सो
जिसप्रकार एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्त आदिके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल ऊपर कह

§ ३०१. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्विय०-आहार० अप्पप्पणो पदानं विह० जह० एगममओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं। कायजोगि० अट्टावीस-सत्तावीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पालिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। छव्वीमविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० मगट्टिदी। सेमाणं मणजोगिभंगो। ओगालियकायजोगि० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह० के० ? जह० एगममओ, उक्क० बावीसवस्ससहस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि। सेमाणं मणजोगिभंगो। ओरालियमिस्स० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-बावीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं। चउवीस-एक्कीसवि० के० ? जहणुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं। एवं वेउव्वियमिस्स०। आहारमिस्स० सव्वपदानं विह० के० ? जहणुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं। कम्मइय० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया। चउवीस-बावीस-एक्कीसवि० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० वेसमया।

आये है उसीप्रकार यहां भी कह लेना चाहिये।

§ ३०१. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाय-योगी और आहारककाययोगी जीवोंके अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त हैं। काययोगी जीवोंके अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवे भाग है। छव्वीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी स्थिति प्रमाण है। शेष स्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान है। औदारिककाययोगी जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष प्रमाण है। शेष स्थानोंका काल मनो-योगियोंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस और बाईस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त-र्मुहूर्त है। चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। जिसप्रकार औदारिक मिश्रकाययोगियोंके अट्टाईस आदि स्थानोंका काल कह आये है उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्र काययोगियोंके उक्त स्थानोंका काल जानना चाहिये। आहारकमिश्रकाययोगियोंके संभव सभी स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। कार्माणकाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्ति स्थानोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। चौबीस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है।

विशेषार्थ—पांचों मनोयोग, पांचों वचनयोग, वैक्रियिककाययोग और आहारक काय-

योगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इन योगोंमें सम्भव अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । तथा अन्य प्रकारसेभी इन योगोंमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त बन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । काययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय जिसप्रकार नारकियोंके घटित करके लिख आये हैं उमीप्रकार घटित कर लेना चाहिये । सर्वदा काययोग एकेन्द्रियोंके ही रहता है और एकेन्द्रियोंके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः काययोगमें २८ और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक्त्व और सभ्यगमिथ्यात्वकी उद्वेलनामें इतना ही काल लगता है । काययोगका उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण होता है अतः इसमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल इतना ही प्राप्त होता है । क्योंकि इतने काल तक निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है । काययोगमें शेष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान कहनेका कारण यह है कि शेष विभक्तिस्थान संज्ञीके ही होते हैं और वहां तीनों योग बदलते रहते हैं अतः काययोगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । औदारिक काययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय पूर्ववत् घटित कर लेना चाहिये । या इसका जघन्यकाल एक समय है इसलिये भी इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम बार्डेस हजार वर्ष है अतः इसमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम २२ हजार वर्ष प्रमाण बन जाता है । तथा औदारिक काययोगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । औदारिक मिश्रकाययोगमें २८, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा औदारिक मिश्रकाययोगका काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला जीव औदारिकमिश्र काययोगको प्राप्त हुआ है उसके औदारिक मिश्रकाययोगके कालमें २४ और २१ विभक्तिस्थान ही बना रहता है । यद्यपि जो २२ विभक्तिस्थानवाला जीव औदारिकमिश्रकाययोगको प्राप्त होता है । उसके औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए ही २२ विभक्तिस्थान बदल कर २१ विभक्तिस्थान आजाता है किन्तु इसप्रकार २१ विभक्तिस्थानके प्राप्त होनेपर भी अन्तर्मुहूर्त काल तक औदारिक मिश्रकाययोग फिर भी बना रहता है अतः औदारिक मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं कहा

§ ३०२. वेदाणुवादेण इत्थि० अट्ठावीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पणवण्णपलिदोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीसवि० ओघमंगो । छब्बीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सगट्ठिदी । चउवीसविह० जह० एगसमओ । कुदो ? उवसमसेहीदो ओदरिय सवेदी होदण विदियसमए कालं कादण देवेसुप्पण्णस्स एगममयकालुवलंभादो । उक्क० पणवण्णपलिदोवमाणि देसूणाणि । तेवीस-चावीस-तेरस-बारसवि० ओघमंगो । णवरि, बारसविह० एगसमओ णत्थि । एकवीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पुण्वकोडी देसूणा । पुरिसवेदे अट्ठावीस-चउवीस-है । औदारिक मिश्रकाययोगके समान वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका काल होता है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है अतः इसमें सम्भव २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । कर्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय है अतः इसमें सम्भव २८, २७, २६, २४ २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय कहा है । यहां २८, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय अन्य प्रकारसे भी बन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । तथा निष्कुट क्षेत्रके प्रति गमन करने वाले जीवोंके ही तीन विग्रह होते हैं और ऐसे जीव मिथ्यादृष्टि ही होते हैं । तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २८, २७ और २६ ये तीन विभक्ति-स्थान ही सम्भव हैं अतः कर्मणकाययोगमें इन तीनोंका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा । तथा २४, २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव यदि मरते हैं तो अधिकसे अधिक दो विग्रह ही कर लेते हैं अतः कर्मणकाययोगमें इनका दो समय प्रमाण उत्कृष्ट काल कहा है ।

§ ३०२. वेदमार्गणाके अनुवादसे ऋग्वेदमें अट्ठाईस प्रकृतिस्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य है । सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओषके समान है । छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाणा है । चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय है ।

शंका—ऋग्वेदमें चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय क्यों है ?

समाधान—क्योंकि जो उपशमश्रेणीसे उतरकर वेद सहित हुआ और दूसरे समयमें मर कर देवोंमें उत्पन्न हुआ उस ऋग्वेदीके चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । स्त्रीवेदमें चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल देशोन पचपन पत्य है । तेईस, बाईस, तेरह और बारह प्रकृतिक स्थानका काल ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है । इक्कीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटिप्रमाण है ।

विह० के० ? जह० एगसमओ, अंतोमुहुत्तं । उक्क० ओघभंगो । सत्तावीस० ओघ-
भंगो । छब्बीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सगडिदी । तेवीस-तेरस-बारस-
एकारसविह० ओघभंगो । णवरि, बारसविह० एयसमओ णत्थि । एकवीसविह०
केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० ओघभंगो । वावीसविह० जह० एगसमओ,
उक्क० अंतोमुहुत्तं । पंचविह० के० ? जहण्णुक्क० एगसमओ । णवुंस० अट्टावीसविह०
के० ? जह० एगसमओ, उक्क० तेचीससागरोघमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीस-छब्बीस-
वि० एइंदियभंगो । चउवीस-वावीस-एक्कवीसविह० णारयभंगो । णवरि, चउवीस-
एक्कवीसवि० जह० एगसमओ । सेसं इत्थिभंगो । णवरि, बारस-वि० जहण्णुक्क०
एयसमओ । अवगदवेदे चउवीस-एक्कवीसवि० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क०
अंतोमुहुत्तं । सेसाणं जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं । णवरि, पंचविहती केव० ? बेआवलि-
याओ बिसमऊणाओ ।

पुरुषवेदमें अट्टाईम और चौबीस विभक्तिस्थानका काल कितना है ? इन दोनों स्थानोंका जघन्यकाल कमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है । तथा दोनों ही स्थानोंका उत्कृष्टकाल ओघके समान है । तथा सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है । छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है । तेईस, तेरह, बारह और ग्यारह प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है । इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल ओघके समान है । बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । पांच प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ।

नपुंसकवेदमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान है । चौबीस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानोंका जघन्यकाल एक समय है । शेष स्थानोंका काल स्त्रीवेदियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ।

अपगतवेदमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । शेष स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिकस्थान दो समय कम दो आवली प्रमाण काल तक होता है ।

विशेषार्थ—खीवेद में २८ विभक्तिस्थानका जो साधिक पचपन पल्य उत्कृष्ट काल

बतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २८ विभक्तिस्थान वाला कोई एक स्त्रीवेदी मनुष्य पचपन पत्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके पश्चात् उसने सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना होनेके अन्तिम समयमें उपसमसम्यक्त्व पूर्वक वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त किया किन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की। तथा वह जीवन भर वेदकसम्यक्त्वके साथ ही रहा तो उसके पचपन पत्यकाल तक २८ विभक्तिस्थान पाया जाता है। देवी होनेके पहले यह स्त्रीवेदी जीव और कितने काल तक २८ विभक्तिस्थानके साथ रह सकता है इसका स्पष्ट उल्लेख अन्यत्र देखनेमें नहीं आया। स्वयं वीरसेन स्वामीने भी इस कालको साधिक कहके छोड़ दिया है। किन्तु एकैक प्रकृतिविभक्ति अनुयोगद्वारमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल बतलाते हुए उनका उत्कृष्टकाल साधिक पचपन पत्य कहा है। इससे मान्दम पड़ता है कि यहां साधिक से सम्यक्प्रकृतिका उद्वेलनाकाल इष्ट है। जो कुछ भी हो तात्पर्य यह है कि स्त्रीवेदमें २८ विभक्तिस्थान साधिक पचपन पत्यकाल तक पाया जाता है। स्त्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्रीवेदके साथ निरन्तर रहनेका उत्कृष्टकाल सौ पत्यपृथक्त्वप्रमाण बतलाया है और इतने काल तक यह जीव मिथ्यादृष्टिभी रह सकता है तथा मिथ्यादृष्टिके निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है। अतः स्त्रीवेदमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रमाण बन जाता है। स्त्रीवेदमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय स्वयं वीरसेन स्वामीने बतलाया है। तथा उत्कृष्टकाल जो कुछ कम पचपन पत्य बतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि कोई एक जीव पचपन पत्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके पश्चात् वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी। अनन्तर जीवन भर ऐसा जीव २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा तो उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम पचपन पत्यप्रमाण प्राप्त होता है। २३ और १३ विभक्तिस्थानका काल ओघके समान है। इसमें ओघसे कोई विशेषता नहीं है। २२ विभक्तिस्थानवाला जीव यद्यपि मर सकता है पर अन्य पर्यायमें ऐसे जीवके नपुंसकवेद या पुरुषवेदका ही उदय होता है अतः स्त्रीवेदमें २२ विभक्तिस्थानका काल भी ओघके समान बन जाता है। अब रही बारह विभक्तिस्थानकी बात, सो स्त्रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके बारह विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त ही पाया जाता है, एक समय नहीं। तथा जो स्त्रीवेदी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और वहासे गिर कर एक समयके लिये सवेदी होकर मर गया उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो स्त्रीवेदी जीव आठ वर्षके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करलेता है और आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकीर्ति

६३०३. कमायाणुवादेण कोषक० अट्टावीम-सत्तावीस-छत्तीम-चउत्तीम-तेवीम-

काल तक उस पर्यायमें बना रहता है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण प्राप्त होता है। जिस पुरुषवेदी २८ विभक्तिस्थान वाले सम्यग्दृष्टि जीवने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया और एक अन्तर्मुहूर्त कालके पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त कर लिया उस पुरुषवेदी जीवके २४ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। बाहर विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय जिसप्रकार स्त्रीवेदमें नहीं प्राप्त होता है उसी प्रकार पुरुषवेदमें भी नहीं प्राप्त होता है। जो पुरुषवेदी जीव २१ विभक्तिस्थानको प्राप्त करके अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर अपगतवेदी होजाता है उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहते हुए जो मनुष्य, तिर्यच या देवगतिमें उत्पन्न हुआ है उसके पुरुष वेदके साथ २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा जो जीव पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है, उसके छह नोकपायोंकी क्षपणा अपगतवेदी होनेके उपान्त्य समयमें ही होती है अतः पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है। स्त्रीवेदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जिसप्रकार माधिक पंचपन पन्त्य घटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार नपुंसकवेदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल माधिक ३३ सागर घटित कर लेना चाहिये। तथा २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय भी स्त्रीवेदके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा जो नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमें स्त्रीवेदका क्षय होजाता है इसलिए इसके बाहर विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता है। जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला जीव एक समय तक अपगतवेदी होकर और दूसरे समयमें मरकर देवगतिको प्राप्त होजाता है उस अपगतवेदी जीवके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा २४ या २१ विभक्तिस्थानवाला जो जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और नौवे गुणस्थानमें अपगतवेदी हो गया। पुनः उतरते समय नौवे गुणस्थानमें संवेदी होगया उसके २४ या २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। अपगतवेदमें शेष प्यारह आठि विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है यह स्पष्ट ही है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो समय कम दो आवली प्रमाण हैं। अतः अपगतवेदीके इसका काल उक्तप्रमाण जानना चाहिये। ऊपर जिस वेदमें जिस विभक्ति स्थानके कालका ज्ञान सुगम समझा उसका खुलासा नहीं किया है।

६३०३. कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोध कपायमें अट्टाईम, सत्ताईम, छत्तीम, चौबीस, तेईस, बाईस, और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल

वावीस-एक्कीमवि० जह० एगममओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । तेरस० बारस० आदिं कादूण जाव चदुविहत्तिओ ति ओघभंगो । एवं माण०; णवरि अत्थि तिण्हं विहत्तिओ । एवं माय०; णवरि अत्थि दोण्हं विहत्तिओ । एवं लोभ०; णवरि अत्थि एकस्से विहत्तिओ । माण-माया-लोभकसायीसु चदुण्हं तिण्हं दोण्हं विह० जहण्णा दो आवलि-याओ दुसमयूणाओ । अकसाईसु चउवीस-एक्कीमविह० केव० ? जहण्ण० एग०-समओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । णवरि, सुहुमसांप-राइय० एकस्से विहत्तिओ केव० ? जहण्णुक्क० अंतोसु० ।

अन्तर्मुहूर्त है । तेरह और बारहसे लेकर चार प्रकृतिकस्थान तकका काल ओघके समान है । क्रोधकषायके समान मानकषायमें भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मान-कषायमें तीनप्रकृतिक स्थान भी है । इसीप्रकार मायाकषायमें भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि माया कषायमें दोप्रकृतिक स्थान भी है । इसीप्रकार लोभकषायमें भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें एक प्रकृतिक स्थान भी है । मान-कषायी, मायाकषायी और लोभकषायी जीवोंमें क्रमसे चार, तीन और दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल दो समयकम दो आवलीप्रमाण है ।

कषाय रहित जीवोंमें चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार सूक्ष्मसांपराय संयत और यथाक्यात संयतोंके कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतके एक प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—क्रोधादि कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इनमें २८, २७, २६, २५, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । किन्तु जिस कषायके उदयसे जीव क्षपकश्रेणी चढ़ता है उसके अपनी अपनी कृष्टि वेदनके काल तक उमीका उदय बना रहता है, अतः क्रोधमें चार विभक्तिस्थान तकका काल, मानमें तीन विभक्तिस्थान तकका काल, मायामें दो विभक्तिस्थान तकका काल और लोभमें एक विभक्तिस्थान तकका काल ओघके समान बन जाता है । किन्तु जो जीव क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके मानकषायमें चार विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है । जो मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके मायाकषायमें तीन विभक्ति-स्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है । तथा जो मायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके लोभकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकाल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है । अकषायी सूक्ष्मसांपरायिक संयत और यथा-क्यात संयत जीवोंमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणीमें

§ ३०४. णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणि० अट्टावीमवि० केव० ? जह० अंतोमु०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० मागो । मत्तावीम-छब्बीमविह० ओघभंगो । विभंग० अट्टावीस-मत्तावीमविह० के० ? जह० एगममओ, उक्क० पल्लिदो० असंखेज्जदिभागो । छब्बीसवि० के० ? जह० एगसमओ उक्क० तेतीममागरोवमाणि देसुणाणि ।

अकषायी आदि होनेके एक समय बाद मरणकी अपेक्षासे कहा है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त उक्त विभक्तिस्थानोंके साथ इन अकषायी आदिके उपशमश्रेणीमें इतने काल तक रहनेकी अपेक्षासे कहा है । किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए सूक्ष्मसांपरायिक जीवके एक विभक्तिस्थान ही होता है अतः सूक्ष्मसांपरायिक संयतके विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहना चाहिये ।

§ ३०४. ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक-स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है । मत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । विभंग-ज्ञानियोंमें अट्टाईस और मत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है । छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दशोन तेतीम मागर है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहनेका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त है । यद्यपि सासादन-का जघन्यकाल एक समय है, पर ऐसा जीव नियमसे मिथ्यात्वमें ही जाता है और मति-अज्ञान तथा श्रुताज्ञान इन दोनों गुणस्थानोंमें ही पाये जाते हैं । इस लिये इन दोनों अज्ञानियोंके २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त कहा है । तथा उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यक्प्रकृतिक उद्वेलनाके उत्कृष्टकालकी अपेक्षासे कहा है, क्योंकि जब तक कोई एक मत्यज्ञानी या श्रुताज्ञानी जीव सम्यक्प्रकृतिक उद्वेलना करता रहता है तब तक उसके २८ विभक्तिस्थान बना रहता है । तथा इनके २७ और २६ विभक्ति-स्थानका काल ओघके समान घटित कर लेना चाहिये । सुगम होनेसे नहीं लिखा है । जा अवधिज्ञानी २४ विभक्तिस्थानवाला जीव मिथ्यात्वमें आकर और एक समय रह कर मर जाता है उसके विभंगज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा जो सम्यक्प्रकृतिक उद्वेलना करनेवाला विभंगज्ञानी उद्वेलना करनेके एक समय पश्चात् उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा इनके २८ और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्वेलनाकी अपेक्षासे कहा है । जो विभंगज्ञानी जीव सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेके पश्चात् एक समय तक २६ विभक्तिस्थानके साथ रह कर पश्चात् उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है उसके २६ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय

३ ३०५. आभिणि०-सुद०-ओहि० अट्टावीस-चउवीसविह० के० ? जह० अंतोमु०, उक्क० छावट्टिसागरोवमाणि देसूणाणि । णवारि, चउवीसविह० सादिरेयाणि । सेस० ओघभंगो । एवमोहिदंम०-सम्माइट्ठि० वत्तव्वं । मणपज्जव० अट्टावीसविह० ॥ ? प्राप्त होता है । तथा अपर्याप्त अवस्थामें विभंगज्ञान नहीं होता । अतः इतने कालसे कम तेतीस सागर काल तक जो नारकी २६ विभक्तिस्थानके साथ मिथ्यादृष्टि बना रहता है उसके २६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर प्राप्त होता है ।

३ ३०५. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवाधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन छयासठ सागर है । इनकी विशेषता है कि चौबीस प्रकृतिकस्थानका काल साधिक छयासठ सागर है । शेष स्थान ओघके समान हैं । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्व या वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके और अन्तर्मुहूर्त काल तक उनके साथ रह कर अनन्तर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है उसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवाधिज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा जो मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवाधिज्ञानी जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके और २४ विभक्तिस्थानके साथ अन्तर्मुहूर्त काल तक रह कर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता है । वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छयासठ सागर प्रमाण है । अब यदि इसमें उपशमसम्यक्त्वका काल जोड़ दिया जाये और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना होनेके अनन्तरका मिथ्यात्व और सम्यागमिथ्यात्वका क्षपणाकाल घटा दिया जाय तो उक्त काल कुछ कम छयासठ सागर प्रमाण रह जाता है, जो २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल ठहरता है, अतः उक्त तीन ज्ञानोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम छयासठ सागर प्रमाण कहा है । तथा जो उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके वेदकसम्यग्दृष्टि होता है और अपने उत्कृष्ट काल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहते हुए अन्तमें मिथ्यात्वकी क्षपणा करता है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनासे लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा तकका काल छयासठ सागरसे अधिक प्राप्त होता है और यही २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल है । अतः उक्त तीन ज्ञानोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर कहा है । इन तीन ज्ञानोंमें शेष २२ आदि विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान जानना चाहिये, क्योंकि उक्त विभक्तिस्थान सम्यग्दृष्टि जीवके ही होते हैं और वहाँ इन तीनों ज्ञानोंका पाया जाना सम्भव ही है । अवधि दर्शनी और सम्यग्दृष्टिके भी विभक्तिस्थानोंके काल मतिज्ञानी आदिके समान जान लेना चाहिये ।

मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल

जहण्ण० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देसणा । एवं चउवीसविह० वत्तव्वं । तेवीस-
चावीस-तेरसादि जाव एकस्से विहत्तिओ त्ति ओघभंगो । णवरि बारमविह० एग-
समओ णत्थि । एकवीमविह० केव० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देसणा ।
एवं संजद० । णवरि बारम० जह० एगममओ । एवं मामाअयत्तेदो०, णवरि इगिवीस-
चउवीसविह० जह० एगसमओ । परिहार० अट्टावीम-चउवीम-तेवीस-चावीस-एक्कीम-
विह० मणपञ्जवभंगो । एवं संजदमंजद । अमंजद० अट्टावीम-सत्तावीम-छव्वीस०
अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन् पूर्वकोटिप्रमाण है । इसीप्रकार चौबीस प्रकृतिकस्थानके
कालका कथन करना चाहिये । तेईम, बाईस, और तेरहसे लेकर एक प्रकृतिकस्थान तकका
काल ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक
समय नहीं है । इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और
उत्कृष्ट काल देशोन् पूर्वकोटि है । इसीप्रकार संयतोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता
है कि संयतोंके बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है । इसी प्रकार सामा-
यिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन
दोनों संयतोंके इक्कीस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है । परि-
हारविशुद्धि संयतोंमें अट्टाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल
मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । इसीप्रकार संयतासंयतोंके समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञान लक्षण संयतके होता है अतः लक्षण संयतका जो जघन्य
और उत्कृष्ट काल है वही मनःपर्ययज्ञानमें २८ और २४ विभक्तिस्थानका जघन्य और
उत्कृष्टकाल जानना चाहिये जो ऊपर बतलाया ही है । तथा २१ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट
काल और १२ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर शेष २३ आदि विभक्तिस्थानोंका
जघन्य और उत्कृष्ट काल मनःपर्ययज्ञानमें भी ओघके समान बन जाता है । किन्तु २१
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है । यहां कुछ
कमसे आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त काल लिया गया है । तथा बारह विभक्तिस्थानका जघन्य
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि मनःपर्ययज्ञान पुरुषवेदी जीवके
होता है और पुरुषवेदमें १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय नहीं बनता है ।
मनःपर्ययज्ञानके समान संयतोंके भी जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि
इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय भी बन जाता है, क्योंकि संयतोंमें
नपुंसकवेदवाले जीवोंका भी समावेश है । संयतोंके समान सामायिक और छेदोपस्थापना
संयतोंके भी जानना चाहिये । किन्तु इनके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल
एक समय भी बन जाता है क्योंकि जो जीव उपशमश्रेणीसे उतर कर और एक समय
तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयत रह कर मर जाते हैं उनके २४ और २१

मदिअण्णाणिभंगो । णवरि, अट्ठावीम० उक्क० नेत्तीममागरो० पल्लिदो० असंखे० भागेण सादिरेयाणि । चउवीम-एक्कवीमविह० के० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । बावीसविह० के० ? जह० एगममओ, उक्क० अंतो-मुहुत्तं । चक्खुदंम० तमपज्जत्तभंगो ।

विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । परिहार विशुद्धि संयतोंके २८, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल यद्यपि मनःपर्ययज्ञानीके समान होता है फिर भी इनके २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल कहते समय पूर्व-कोटि वर्षमेंसे ३८ वर्ष कम करना चाहिये । तथा संयतासंयतोंके २८, २४, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल मनःपर्ययज्ञानियोंके समान कहना चाहिये ।

असंयतोंके अट्ठाईस, सत्ताईस और छत्तीस प्रकृतिकस्थानोंका काल मत्त्यज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल पत्त्योपमके असं-ख्यातवें भाग अधिक तेतीस सागर हैं । चौबीस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हैं । बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंके स्थानोंका काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान जानना चाहिये ।

विभाषार्थ—यद्यपि असंयतोंमें २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल और २७ तथा २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल मत्त्यज्ञानियोंके समान बन जाता है किन्तु असंयतोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पत्त्यके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है, क्योंकि असंयत पदसे मिध्यात्वादि चार गुणस्थानोंका ग्रहण होता है और इस अपेक्षासे असंयतोंके २८ विभक्तिस्थानका उक्त काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती है । तथा जिम अभंयतने अनन्तानुबन्धी चतुष्करी विभंयोजना की है या दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी क्षपणा की है उसके अन्तर्मुहूर्त कालके बाद ही अन्य गुणस्थानकी प्राप्ति होती है अतः असंयतोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । जो जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्करी या तीन दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करके संयत होता है, तथा मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होता है और वहांसे च्युत होकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर भवके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर संयत हो क्षपकश्रेणीपर आरोहण करता है उसके असंयत अवस्थामें २४ और २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्व-कोटि अधिक तेतीस सागर देखा जाता है । तथा जो संयत बाईस विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहनेपर अन्य गतिको प्राप्त होजाता है उसके असंयत अवस्थामें २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट

§ ३०६. लेस्साणुवादेण किण्हणील-काउ० अट्टावीम-छब्बीमवि० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सत्तावीसविह० ओघभंगो । चउवीसविह० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरो० देख्णाणि । वावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एकवीसवि० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सागरोवमं देख्णं । णवरि, किण्हणील० वावीसविहत्ती णत्थि । एकवीसविहत्ती जहण्णुक्खस्सेण अंतोमुहुत्तं । तेउ०पम्म० अट्टावीस-छब्बीसविह० जह० एगसमओ, उक्क० वे-अट्टारस सागरो० सादिरेयाणि । सत्तावीसविह० ओघभंगो । चउवीसविह० के० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० वे-अट्टारससागरो० सादिरेयाणि । तेत्तीस-वावीसवि० जह० अंतोमु० एगममओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एकवीसवि० जह० एगसमओ उक्क० वे-अट्टारससागरो० सादिरेयाणि । सुक्खे० अट्टावीसविह० ही है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंका काल त्रस पर्याप्तकोंके समान हो है उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

§ ३०६. लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कपोत लेश्यावाले जीवोंमें अट्टाईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेत्तीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक मात सागर है । सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम तेत्तीस, कुछ कम सत्रह और कुछ कम सात सागर है । बाईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक सागर है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावालोंके बाईस प्रकृतिकस्थान नहीं पाया जाता है तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

पीत और पद्मलेश्यावालोंके अट्टाईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है । उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारह सागर है । तथा सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारह सागर है । तेईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है । तथा दोनो स्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है ।

शुद्ध लेश्यावालोंके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट

जह० एगम०, उक्क० तेतीसमागरोवमाणि सादिरेयाणि । मत्तावीस-छुव्वीसविह० देवोधमंगो । णवरि छुव्वीम० एकतीसमागरो० सादिरेयाणि । चउवीमविह० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेतीसमागरो० सादिरेयाणि । एकवीसविह० जह० एगसमओ । उक्क० तेतीसमागरो० सादिरेयाणि । सेम० ओघमंगो । णवरि त्तावीम० जह० एगसमओ । अभव्वसिद्धि० छुव्वीमवि० केव० ? अणादि-अपज्जवसिदो ।

§ ३०७. खइयमम्मादिट्ठीसु एकवीमादि जाव एयविहत्तिसो ति ओघमंगो । वेदग-सम्मादि० अट्टावीम चउवीम-तेवीम-त्तावीमविह० आभिणि० मंगो । णवरि चउवीम० छावट्टिमागरो० दंसणाणि । उवसमे अट्टावीम-चउवीस० जहणुक्क० अंतोमुहुत्तं । मासणे अट्टावीमविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० छत्रावलियाओ । सम्मामि० उवमसम्माइट्टिमंगो । मिच्छाइट्टि० मदिअण्णाणिमंगो । सण्णीसु छुव्वीस० ुरिम० मंगो । सेम० ओघमंगो । अमण्णि० एइंदियमंगो । आहार० छुव्वीमविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० मगट्टिदी । सम० ओघं जाणिदूण भाणिदव्वं ।

काल साधिक तेतीस सागर है । मत्ताईस और छुव्वीस प्रकृतिकस्थानका काल सामान्य देवोंके समान जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि छुव्वीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल साधिक इक्कीस मागर है । चौवीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । शेष स्थानोंका काल ओघके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक समय है । अभव्योंके छुव्वीम प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? अनादि-अनन्त है ।

§ ३०७. क्षायिकमस्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतिक स्थानसे लेकर एक प्रकृतिक स्थान तक प्रत्येक स्थानका काल ओघके समान है । वेदक मस्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस, चौवीस, तेईस और बाईस प्रकृतिक स्थानका काल मतिज्ञानियोंके समान है । इनकी विशेषता है कि चौवीस प्रकृतिक-स्थानका उत्कृष्ट काल देशेन छयासठ सागर है । उपजामस्यक्त्वमें अट्टाईस और चौवीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मासादनमें अट्टाईस प्रकृतिक-स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है । मस्यग्मिध्यादृष्टिका काल उपशम मस्यग्दृष्टिके समान जानना चाहिये । मिध्यादृष्टिका काल कुमतिज्ञानियोंके समान जानना चाहिये ।

मंज्ञी जीवोंमें छुव्वीम प्रकृतिकस्थानका काल पुरुषवेदके समान है । शेष कथन ओघके समान है । असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान है ।

आहारक जीवोंमें छुव्वीम प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है । शेष कथन ओघके समान कहना चाहिये ।

अणाहारि० कम्मइयमंगो ।

एवं कालो समत्तो ।

* अंतराणुगमेण एक्किस्से विहत्तीए णत्थि अंतरं ।

§ ३०८. कुदो ? खवगसेदीए उप्पणत्तादो । ण च खविदकम्मंसाणं पुणरुप्पत्ती अत्थि, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं संमारकारणाणमभावादो । ण च कारणेण विणा कअमुप्पज्झइ, अणवत्थापसंगादो ।

अनाहारक जीवोंमें कर्मण काययोगियोंके समान जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—कृष्ण, नील और कापोत लेइयामें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर बतलाया है सो यहाँ उत्कृष्ट काल कापोत लेइयाकी अपेक्षासे जानना चाहिये; क्योंकि यह काल प्रथम नरककी अपेक्षासे प्राप्त होता है और प्रथम नरकमें कपोत लेइया ही होती है । किन्तु कृष्ण और नील लेइयामें २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त ही प्राप्त होगा, क्योंकि २१ विभक्तिस्थानके रहते हुए कृष्ण और नील लेइया कर्मभूमिज मनुष्योंके ही सम्भव है पर इनके प्रत्येक लेइयाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्तसे अधिक नहीं होता है । तथा कृष्ण और नील लेइयामें जो २२ विभक्तिस्थानका निषेध किया है सो इसका कारण यह है कि २२ विभक्तिस्थानके रहते हुए यदि अशुभ लेइया होती है तो एक कापोत लेइया ही होती है । लेइयाओंमें शेष कालोंका कथन सुगम है अतः यहाँ खुलासा नहीं किया है । इसी प्रकार आगेकी मार्गणाओंमें भी अपने अपने विभक्तिस्थानोंका काल सुगम होनेसे नहीं लिखा है । हाँ वेदक-सम्यक्त्वमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जो कुछ कम छयासठ सागर प्रमाण बतलाया है सो इसका कारण यह है कि वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल पूरा छयासठ सागर है जिसमें कृतकृत्यवेदक तकका काल सम्मिलित है, अतः इसमेंसे सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्षपणा कालको कम कर देनेपर २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है ।

इसप्रकार कालानुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

* अन्तराणुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है ।

§ ३०८. शंका—एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर क्यों नहीं होता है ?

समाधान—क्योंकि एक प्रकृतिक स्थान क्षपकश्रणीमें होता है, अतः उसका अन्तर नहीं पाया जाता । क्योंकि जिन कर्मोंका क्षय कर दिया जाता है उनकी पुनः उत्पत्ति होती नहीं, क्योंकि उनका क्षय कर देनेवाले जीवोंके संसारके कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग नहीं पाये जाते । और कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य-कारणभावकी व्यवस्था नहीं बन सकती ।

* एवं दोणहं तिणहं चउणहं पंचणहं एकारमणहं बारसणहं तेरसणहं एक्कवीसाए बावीसाए तेवीसाए विहत्तियाणं ।

§ ३०६. जहा एकिकस्से विहत्तियाणं णत्थि अंतरं तथा एदेमिं पि, खवणाए उप्पणत्तं पडि विसेमाभावादो ।

* चउवीसाए विहत्तियस्म केवडियमंनरं ? जह् अंतोमुहुत्तं ।

§ ३१०. कुदो ? अट्टावीससंतकम्मियसम्माइट्टिस्स अणंताणुं चउक्कं विसंजोइय चउवीसविहत्तीए आदिं कादूण अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण अट्टावीसविहत्तिओ होदूण अंतोमुहुत्तमंतरिय पुणो सम्मत्तं धेत्तूण अणंताणुं विसंजोइय चउवीसविहत्तियभावमुवगयस्स चउवीसविहत्तीए अट्टावीसविहत्तिएहि अंतोमुहुत्तमेत्तंरुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण उवडुपोग्गलपरियट्टं देसूणमद्धपोग्गलपरियट्टं ।

§ ३११. कुदो ? अद्धपोग्गलपरियट्टस्स आदिममए अणादियमिच्छादिट्ठी उवसमस-

* इसीप्रकार दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह, तेरह, इक्कीस, बाईस और तेईस प्रकृतिकस्थानोंका भी अन्तर नहीं होता है ।

§ ३०६. जिसप्रकार क्षपकश्रेणीमें उत्पन्न होनेके कारण एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं होता है उसीप्रकार ये दो आदि प्रकृतिकस्थान भी क्षपकश्रेणीमें ही उत्पन्न होते हैं, अतः एक प्रकृतिकस्थानसे इनमें कोई विशेषता नहीं है, और इसलिये इन दो आदि स्थानोंका भी अन्तर नहीं पाया जाता है ।

* चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है । जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३१०. शंका—चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त क्यों है ?

समाधान—कोई एक सम्यग्दृष्टि अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला है । उसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया । पुनः वह सम्यक्त्व दशमें अन्तर्मुहूर्त रह कर मिथ्यात्वमें गया और अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला हुआ उसके एक अन्तर्मुहूर्त तक चौबीस प्रकृतिकस्थान नहीं रहा । पुनः अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको प्राप्त हो गया । इसप्रकार पूर्वोक्त जीवके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी अपेक्षा चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर्मुहूर्त मात्र अन्तर पाया जाता है ।

* चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गल परिवर्तन अर्थात् देशोन अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ३११. शंका—चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कैसे है ?

समाधान—कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रथम समयमें

म्मत्तं घेत्तूण अट्टावीसविहत्तीओ होदूण अंतोमुहुत्तमाच्छिय पुणो अणंताणु० विसंजोएदूण चउवीसविहत्तीए आदिं कादूण मिच्छत्तं गंतूणंतरिदो। तदो उवद्वहपोग्गलपरियट्टं भमिदूण अंतोमुहुत्तावसेसे मिज्झिदव्वये ति उवसमसम्मत्तं घेत्तूण अट्टावीसविहत्तीओ होदूण जेण अणंताणुबंधिचउकं विसंजोएदूण चउवीसविहत्तियत्तमुप्पाइदंतस्स दोहि अंतोमुहुत्तेहि ऊण-अद्वहपोग्गलपरियट्टमेत्तअंतरुवलंभादो। उवरि अण्णे वि अंतोमुहुत्ता अत्थि ते किण्ण गहिदा ? गहिदा चेव, किंतु तेसु सव्वेसु मेलिदेसु वि अंतोमुहुत्तं चेव होदि ति वेहि चेव अंतोमुहुत्तेहि अद्वहपोग्गलपरियट्टमूणमिदि भणिदं।

* छव्वीसविहत्तीए केवडियमंतरं? जहण्णेण पलिदो० असंखे० भागो।

३१२. कुदो? जो मिच्छादिट्ठी छव्वीसविहत्तीओ होदूणच्छिदो, पुणो उवसमसम्मत्तं घेत्तूण अट्टावीसविहत्तीओ होदूण अंतरिदो, मिच्छत्तं गंतूण सव्वजहण्णेण पलिदोवमस्स उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाला हुआ और अन्तर्मुहूर्त वहाँ रह कर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया। अनन्तर मिध्यात्वमें जाकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थान वाला होकर उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर किया। तदनन्तर उपार्धपुद्गल परिवर्तन कालतक संसारमें परिभ्रमण करके सिद्ध होनेके लिये जब अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहा तब वह उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिक स्थानवाला हुआ। पुनः चूँकि वह इतना काल जानेपर अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको उत्पन्न करता है, इसलिये उसके चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तर्मुहूर्त कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण पाया जाता है।

शुंका-ऊपर जिन दो अन्तर्मुहूर्तोंको कम किया है उनके अतिरिक्त अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालमेंसे कम करने योग्य और भी अन्तर्मुहूर्त हैं, उन्हें यहाँ क्यों नहीं ग्रहण किया?

समाधान-कम करने योग्य शेष सभी अन्तर्मुहूर्तोंका यहाँ ग्रहण कर ही लिया है। किन्तु पुनः उपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे लेकर मोक्ष जाने तकके उन सब अन्तर्मुहूर्तोंके मिलाने पर भी एक ही अन्तर्मुहूर्त होता है इसलिये सभी अन्तर्मुहूर्तोंको अलगसे न गिना कर चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्तर्मुहूर्त कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल होता है ऐसा कहा है।

* छव्वीस प्रकृतिकस्थानका कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर पत्थोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

§ ३१२. शुंका-छव्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पत्थोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्यों है?

समाधान-छव्वीस प्रकृतिवाला जो मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके और अट्टाईस प्रकृतिवाला होकर छव्वीस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ। अनन्तर

असंखेज्जदि भागमेत्तुव्वेज्जणकालेण सम्मत-मम्मामिच्छत्ताणि उव्वेलिय छब्बीसविहत्तिओ जादो तम्म पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तज्जहणंत्तरुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण बेछावट्टि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ३१३. कुदो ? अट्ठावीस-सत्तावीसविहत्तियणं जो उक्कस्सकालो पुव्वं परूविदो सो छब्बीसविहत्तियस्स उक्कस्संतरकालो ति अब्भुवगमादो ।

* सत्तावीसविहत्तीए केवडियमंनरं ? जहणणेण पलिदो० असंखे० भागो ।

§ ३१४. कुदो ? सत्तावीसविहत्तिपमिच्छाइट्ठी उवममस्समत्तं घेत्तूण अट्ठावीसविहत्तिओ होदूण अंतरिदो । पुणो मिच्छत्तं गंतूण मव्वजहणणुव्वेज्जणकालेण सम्मतमुव्वेद्विय जो सत्तावीसविहत्तिओ जादो, तत्थ पलिदो० असंखे० भागमेत्तअंतरकालुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण उवड्डपोग्गलपरियट्टं ।

मिध्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य पर्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उद्वेलन कालके द्वारा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करके पुनः छब्बीस प्रकृतिक स्थानवाला हो गया । उसके छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है ।

* छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बत्तीस सागर है ।

§ ३१३. शंका—छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बत्तीस सागर कैसे है ?

समाधान—अट्ठाईस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानोंका जो उत्कृष्ट काल पहले कह आये हैं वह छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है ऐसा स्वीकार किया गया है, अतः छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक सौ बत्तीस सागर है ।

* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है ? जघन्य अन्तरपल्यके असंख्यातवें भाग है ।

§ ३१४. शंका—सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग क्यों है ?

समाधान—जो सत्ताईस प्रकृतिकस्थानवाला मिध्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके और अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ । पुनः मिध्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य उद्वेलन कालके द्वारा सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतिकस्थान वाला हो गया । उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर काल पल्यके असंख्यातवें भाग पाया जाता है ।

* सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधुपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है ।

§ ३१५. कुदो ? अणादियमिच्छादिष्टी अद्दुपोग्गलपरियदुस्स आदिसमए सम्मत्तं घेत्तूण जहाक्रमेण सत्तावीसविहत्तिओ जादो । तदो सम्मामिच्छत्तमुव्वेद्धिदणंतरिदो । उव्वहुपोग्गलपरियदुस्सिम्भि सम्भजहण्णपालिदोवमस्स असंखेआदिभागमेत्तकाले सेसे उवस-मसम्मत्तं घेत्तूण अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण तदो सम्मतुव्वेत्तणकाले सम्भ-जहण्णंतोमुहुत्तावसेसे सम्मत्ताहिमुहो होदण अंतरं करिय मिच्छत्तपढमट्टिदिदुचरिम-समए सम्मतमुव्वेत्तिय चरिमसमए सत्तावीसविहत्तिओ होदण कमेण जो सिद्धो जादो तस्स पढमिद्वेण पालिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण पच्छिमेण अंतोमुहुत्तकालेण च ऊण-अद्दुपोग्गलपरियदुस्सत्तंरकालुवलंभादो ।

* अट्टावीसविहत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ ।

§ ३१६. कुदो ? अट्टावीसविहत्तिओ मिच्छादिष्टी सम्मतुव्वेत्तणकाले अंतोमुहुत्तावसेसे उवसमसम्मत्ताहिमुहो होदण अंतरं करिय मिच्छत्तपढमट्टिदिदुचरिमसमए सम्मतमुव्वे-

§ ३१५. शंका—सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कैसे है ?

समाधान—जब संसारमें रहनेका काल अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र शेष रह जाय तब उसके प्रथम समयमें जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके यथाक्रमसे सत्ताईस प्रकृतिकस्थानवाला हुआ । तदनन्तर सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ । पुनः जब उपार्धपुद्गल परिवर्तनकालमें सबसे जघन्य पत्त्योपमका असंख्या-तवा भागप्रमाण काल शेष रहा तब उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके और अन्तर्मुहूर्तकाल तक उसके साथ रह कर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । तदनन्तर सम्यक्प्रकृतिके उद्वेलनाकालमें जब सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहा तब सम्यक्त्वके अभिमुख होकर और अन्तर-करण करके मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना करके मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतिवाला होकर क्रमसे जो सिद्ध हो गया, उसके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका, सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरके पहलं जो पत्त्योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाण उद्वेलनाकाल कह आये हैं और अन्तरके बाद जो सिद्ध होने तकका अन्तर्मुहूर्तकाल कह आये हैं इन दोनोंसे कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है ।

* अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ३१६. शंका—अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय कैसे है ?

समाधान—अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाला जो मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्प्रकृतिके उद्वेलनाकालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख होकर और अन्तरकरण करके मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना

द्विय चरिमसमए मत्तावीसविहत्तिओ जो जादो तेण से काले उवसमसम्मत्तं घेत्तूण अट्टावीससंते समुप्पाइदे एगसमयअंतरुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियट्टं ।

§ ३१७. कुदो, अणादियमिच्छाइटी अट्टपोग्गलपरियट्टस्सादिसमए उवसमसम्मत्तं घेत्तूण जो अट्टावीसविहत्तिओ जादो, तत्थ अट्टावीसविहत्तीए आदिं कादूण तदो सव्वजहण्ण पलिदोवमस्स असंखे० भागमेत्तकालेण सम्मत्तमुव्वेद्विय सत्तावीसविहत्तिओ जादो । अंतरिय अट्टपोग्गलपरियट्टं भमिय सव्वजहण्णंतोमुहुत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं घेत्तूण अट्टावीसविहत्तिओ होदूण तदो अंतोमुहुत्तेण सिद्धो जादो । तस्स पुव्विद्वेण पलिदो० असंखे० भागेण पच्छिद्वेण अंतोमुहुत्तेण च ऊण-अट्टपोग्गलपरियट्टमेत्तु-क्कस्संतरकालुवलंभादो । एवमचक्खु०-भवसिद्धियाणं वत्तव्वं ।

§ ३१८. संपहि उच्चारणाइरियवक्खाणमस्सिदूण भणिस्सामो । उच्चारणाए ओघो

करके मिध्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस प्रकृतिवाला हुआ । पुनः तदनन्तर कालमें उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिकी सत्ता उपार्जित की, उसके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका अन्तरकाल एक समय पाया जाता है ।

* अट्टाईम प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

§ ३१७. शंका—अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कैसे है ?

समाधान—जब संसारमें रहनेका काल अर्धपुद्गलपरिवर्तन शेष रह जाय तब जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालके प्रथम समयमें उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिस्थानकी सत्तावाला हुआ, और इसप्रकार अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ करके अनन्तर सबसे जघन्य पत्त्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालके द्वारा सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना करके सत्ताईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ और उपार्धपुद्गलपरिवर्तन कालतक संसारमें परिभ्रमण करके संसारमें भ्रमण करनेका काल सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण शेष रहनेपर उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके जो पुनः अट्टाईस प्रकृतिकस्थानवाला होकर अनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा सिद्ध हो जाता है उसके अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका, अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके अन्तर होनेके पहलेके पत्त्यके असंख्यातवेंभाग प्रमाण कालसे और पुनः अट्टाईस प्रकृतिकस्थानके प्राप्त होनेके बादके अन्तर्मुहूर्त कालसे न्यून अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र उत्कृष्ट अन्तर काल होता है । इसीप्रकार अचक्षुदक्षेनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ३१८. अब उच्चारणाचार्यके न्याख्यानका आश्रय लेकर अन्तरकालको कहते हैं ।

शंका—उच्चारणा वृत्तिके अनुसार ओघ अन्तरकालका कथन क्यों नहीं किया ?

किष्ण बुद्धे ? ण, तम्मि जुणिसुत्तसमाणे भण्णमाणे पुणरुत्तदोसप्पसंगादो ।

§ ३१६. आदेसेण गिरयगईए षोईएसु अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसवि० जह० एगममओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोसुहुत्तं । उक्क० सञ्चेसिं तेत्तीससागरो० देसूणाणि । बावीस-एक्कवीसवि० णत्थि अंतरं । षट्माए पुढवीए अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोसुहुत्तं । उक्क० सगट्ठिदी देसूणा । बावीस०-एक्कवीसविह० णत्थि अंतरं । विदियादि जाव सत्तमित्ति अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसविह० जह० एगस०, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोसु० । उक्क० सगसगट्ठिदी देसूणा ।

समाधान—नहीं, क्योंकि चूर्णिसूत्रके समान होनेसे उसका पुनः कथन करने पर पुनरुक्त दोषका प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उच्चारणाका आश्रय लेकर ओष अन्तरकालको नहीं कहा ।

§ ३१६. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकीयोंमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । उक्त तीनों प्रकृतिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन तेतीस सागर है । बाईस और इक्कीस प्रकृतिस्थानोंका अन्तर नहीं होता है । पहली पृथिवीमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी स्थितिप्रमाण है । बाईस और इक्कीस प्रकृतिस्थानका अन्तर नहीं है । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं तक प्रत्येक नरकमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—जो नारकी सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करनेके परचात् एक समय बाद उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके २८ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय पाया जाता है । जो २७ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अति लघु अन्तर्मुहूर्त कालमें मिथ्यात्वमें जाता है और वहां पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर पल्यको असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है । जो २६ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशमसम्यक्त्वको प्राप्तकरके अति लघु अन्तर्मुहूर्त कालमें मिथ्यात्वमें जाता है और वहां पल्यके

असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना कर देता है उसके २६ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है । तथा जो २४ विभक्तिस्थानवाला नारकी मिध्यात्वमें जाकर और अति लघु कालके द्वारा पुनः सम्यग्दृष्टि होकर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर देता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा इन सब विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । जो निम्न प्रकार है—कोई एक जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानके साथ तेतीस सागरकी आयुवाला नारकी हुआ । अनन्तर पर्याप्त होनेके पश्चात् वेदकसम्यग्दृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी और जीवन भर २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा । अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर वह मिध्यादृष्टि होगया और इस प्रकार २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त कर लिया तो उसके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर् काल प्रारम्भके और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालको छोड़कर तेतीस सागर प्रमाण पाया जाता है । कोई एक २७ विभक्तिस्थान वाला जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहूर्त कालके पश्चात् उसने उपशम सम्यक्त्व पूर्वक वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया और जब आयुमें पत्यका असंख्यातवें भाग-प्रमाण काल शेष रहा तब मिध्यात्वमें जाकर उसने सम्यक्त्वप्रकृतिकी उद्वेलनाका प्रारम्भ किया । तथा आयुमें एक समय शेष रहनेपर वह २७ विभक्तिस्थानवाला होगया तो उसके अन्तर्मुहूर्त कालको छोड़कर शेष ३३ सागर काल २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । इसी प्रकार २६ विभक्तिस्थानका अन्तर काल कहना चाहिये । विशेषता इतनी है कि प्रारम्भमें २६ विभक्तिस्थानसे उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करावे तथा पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके शेष रहनेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करावे । कोई एक जीव ३३ सागरकी आयुके साथ नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहूर्त कालमें वेदक सम्यग्दृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी । पश्चात् अन्तर्मुहूर्त कालके बाद वह मिध्यात्वमें गया और जीवन भर मिध्यादृष्टि बना रहा । किन्तु अन्तमें अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहनेपर पुनः वह उपशम सम्यक्त्व पूर्वक वेदक सम्यग्दृष्टि होगया और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी, तब जाकर उसके प्रारम्भके और अन्तके कुछ अन्तर्मुहूर्त कालोंका छोड़कर शेष तेतीस सागर काल २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है । किन्तु ऐसे जीवको मरते समय अन्तर्मुहूर्त पहले पुनः मिध्यात्वमें लेजाना चाहिये । तथा नरकमें २२ और २१ विभक्तिस्थान होते हैं पर उनका अन्तर काल नहीं पाया जाता । प्रथमादि नरकमें भी इसी प्रकार अन्तरका कथन करना चाहिये किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । तथा आगेकी मार्गणाओंमें भी जहां जिन

§ ३२०. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु अट्टावीम-सत्तावीम-चउवीसविह० ओषमंगो । छ्वीसविह० जह० पलिदो० अमंखे० भागो, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । वावीस-एक्खवीसविह० णत्थि अंतरं । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपञ्जत्त-पंचि० तिरि० जोगिणीसु अट्टावीस-सत्तावीस-छ्वीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पलिदो० अमंखे० भागो, अंतोमुहुत्तं । उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणभहि-याणि । वावीस-एक्खवीसविह० णत्थि अंतरं । णवरि, जोगिणी० वावीस-इगिवीसं णत्थि । पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्त० सव्वपदाणं णत्थि अंतरं । एवं मणुसअपञ्ज०-अणुदिसादि जाव सव्वट्ठ०-सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिदियअपञ्जत्त-सव्व-पंचकाय-तसअपञ्ज०-ओरालियमिम्म०-वेउच्चियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-कम्म-इय-अवगदवेद-अकसाथि०-सव्वणाणं केवलवज्ज-सव्वसंजम असंजदवज्ज-ओहिदंसण-अभवसिद्धि०-सव्वमम्मार्दिट्ठ-अमण्णि-अणाहारि त्ति वत्तव्वं ।

विभक्तिस्थानोंका अन्तर सम्भव है वहां इसी प्रकार विचार कर उसका कथन करना चाहिये । किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय उस उस मार्गणाकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा ही उसका कथन करना चाहिये ।

§ ३२०. तिर्यचगतिये तिर्यचोमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर ओषके समान है । तथा छ्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर माधिक तीन पल्य है । बाईम और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं है । पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यच योनिमती जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छ्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यका असंख्यातवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । बाइस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय-तिर्यच योनिमती जीवोंमें बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है । पंचेन्द्रियतिर्यच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें संभव मभी पदोंका अन्तरकाल नहीं होता है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके पांच स्थावरकायिक जीव, त्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, केवलज्ञानको छोड़ कर शेष समस्त ज्ञानवाले, असंयतोंको छोड़कर सभी मंथमवाले, अवधिदर्शनी, अभव्य, सभी प्रकारके सम्यग्दृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कथन करना चाहिये । अर्थात् इन जीवोंके किसी भी स्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है ।

§ ३२१. मणुस्स-मणुस्सपज्ज-मणुसिणीसु अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-विह० जह० एगसमओ, पालिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमु० । उक्क० तिण्णि पालिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । तेवीस-वावीसादि उवरि० णत्थि अंतरं ।

§ ३२२. देवेषु अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चदुवीस० जह० एगसमओ, पालिदो० असंखे० भागो, अंतोमुहुत्तं । उक्क० एकत्तीसं सागरो० देखणाणि । वावीस-इगिवीस० णत्थि अंतरं । भवण०-वाण०-जोदिसि० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पालिदो० असंखे० भागो, अंतोमु० । उक्क० सगट्ठिदी देखणा । सोहम्मादि जाव उवरिमगेवजेत्ति अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसवि० जह० एगसमओ, पालिदो० असंखे० भागो, अंतोमु० । उक्क० सगट्ठिदी देखणा । वावीस-एक्कीस-विह० णत्थि अंतरं । पंचिदिय-पंचिदियपज्ज०-तस-तसपज्ज० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पालिदो० असंखे० भागो, अंतोमुहुत्तं । उक्क०

§ ३२१. मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पत्यका असंख्या-तवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । किन्तु तेईस और बाईससे लेकर आगे एक प्रकृतिकस्थान तक किसी भी स्थानका अन्तर नहीं होता है ।

§ ३२२. देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन इकतीस सागरोपम है । बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सौधर्म स्वर्गसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्या-तवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि इन जीवोंमें छब्बीस

सगडिदी देखणा । छ्वीसविह० ओघभंगो । सेसाणं णत्थि अंतरं ।

§ ३२३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि० अट्टावीसवि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमूहुत्तं । सेसाणं द्वाणाणं णत्थि अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालिय०-वेउच्चिय०-चत्तारिकसाय० वत्तव्वं ।

§ ३२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु अट्टावीस-सत्तावीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोमू० । उक्क० पलिदोवमसदपुघत्तं, सागरोवमसदपुघत्तं, उवट्टपोग्गलपरियट्टं । छ्वीसविह० जह० पलिदो० असंखे० भागो । उक्क० पणवण्णपलिदोवमाणि, वे छावट्टिसागरोवमाणि, तेचीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसाणं द्वाणाणं णत्थि अंतरं । असंजद० णवुंस० भंगो । चक्खु० तसभंगो ।

§ ३२५. लेस्साणुवादेण किण्ण-णील-काउ० अट्टावीस-सत्तावीस-छ्वीस-चउवीसवि० प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है । शेष स्थानोंका अन्तर नहीं होता है ।

§ ३२३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष सत्ताईस आदि प्रकृतिकस्थानोंका अन्तर नहीं होता है । इसीप्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रिथिककाययोगी और चारों कपायवाले जीवोंमें अट्टाईस आदि स्थानोंका अन्तर कहना चाहिये ।

§ ३२४. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा स्त्रीवेदी जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्य पृथक्त्व है । पुरुषवेदी जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिक स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व है । तथा नपुंसकवेदी जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । तथा उक्त तीनों वेदवाले जीवोंमें छ्वीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । और उत्कृष्ट अन्तर स्त्रीवेदी जीवोंमें साधिक पचपन पल्य, पुरुषवेदी जीवोंमें साधिक एक सौ बत्तीस सागर और नपुंसकवेदी जीवोंमें साधिक तेतीस सागर है । संभव श्लेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं है । असंयतोंमें नपुंसकवेदियोंके समान जानना चाहिये । चन्द्रदर्शनी जीवोंमें त्रस जीवोंके समान जानना चाहिये ।

§ ३२५. लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील और कापोत लेख्यावाले जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छ्वीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्त-

जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोसु० । उक्क० तेतीस-सत्तारस-सत्त-
सागरोवमाणि देसुणाणि । णवरि, सत्तावीस० सादिरेय० । एगवीमन्निह० णत्थि अंतरं ।
णवरि काउ० वावीमवि० अत्थि । णवरि तिस्सेवि अंतरं णत्थि । तेउ०-पम्म०-सुक्क०
अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो,
अंतोसु० । उक्क० वे-अट्टारसमागरो० सादिरेयाणि, एक्कत्तीससागरोवमाणि देसुणाणि ।
णवरि सत्तावीस० सादिरे० । सेसाणं णत्थि अंतरं । सण्णी० पुरिममंगो । आहारि०
अट्टावीस-सत्तावीस-चउवीसवि० जहण्ण० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो,
अंतोसु० । उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो । छव्वीसविह० ओषमंगो । सेसाणं
णत्थि अंतरं ।

एवमंतरं समत्तं ।

* णाणाजीवेहि भंगविचओ । जेसिं मोहणीयपयडीओ अत्थि
सुह्वर्तं हे । तथा उत्कृष्ट अन्तर कृष्णलेइयावालोंमें देशोन तेतीस सागर, नीळ लेइयावालोंमें
देशोन सप्रह सागर और कापोत लेइयावालोंमें देशोन सात सागर होता है । इतनी
विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमकी जगह साधिक
कहना चाहिये । यद्यपि उक्त तीनों लेइयावालोंके इक्कीस प्रकृतिकस्थान संभव है पर वह
स्थान अन्तररहित है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेइयावालोंके वाईस प्रकृतिकस्थान
भी संभव है परन्तु उसका भी अन्तर नहीं होता है । पीत, पद्म और शुक्ल लेइयावाले
जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छव्वीस
प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पत्थोपमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुह्वर्तं होता है । उक्त चारों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पीतलेइयावाले
जीवोंमें साधिक दो सागर, पद्मलेइयावाले जीवोंमें साधिक अठारह सागर और शुक्ललेइयावाले
जीवोंमें कुछ कम इकतीस सागर होता है । इतनी विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक
स्थानका उत्कृष्ट अन्तर तीनों लेइयावालोंके कुछ कमके स्थानमें साधिक कहना चाहिये ।
शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं होता है ।

संज्ञी जीवोंके पुरुषबोदयोके समान कहना चाहिये । आहारक जीवोंमें अट्टाईस
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पत्थो-
पमके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुह्वर्तं होता है ।
तथा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हों उतने
समय प्रमाण होता है । परन्तु छव्वीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर ओषके समान जानना
चाहिये । शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं पाया जाता ।

इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

* अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविषय अनुयोगद्वारका कथन करते हैं । जिन

तेसु पयदं ।

§ ३२६. 'णाणाजीवेहि मंगविचओ' ति एत्थ 'कीरदे' इच्चेदेण पदेण संबंधो कायव्वो, अण्णहा अत्थावगमाभावादो । जेसु जीवेसु मोहणीयपयडी अत्थि तेसु चेव एत्थ पयदं, मोहणीए अहियारादो ।

* सव्वे जीवा अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कवीससंत-कम्मविहत्तिया णियमा अत्थि ।

§ ३२७. सव्वे जीवा अट्टावीसविहत्तिया ते णियमा अत्थि ति संबंधो ण कायव्वो, सव्वेसि जीवाणं अट्टावीसविहत्तियाभावादो । किंतु जो (जे) अट्टावीसविहत्तिया जीवा, ते सव्वे अत्थि ति संबंधो कायव्वो । एवं सव्वन्थ वत्तव्वं । तदो एदेसिं टाणाणं विहत्तिया अविहनिया च णियमा अत्थि ति सिद्धं ।

* सेस विहत्तिया भजियव्वा ।

§ ३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, १ । एदाणि भयणिजाणि पदाणि । पुणो एदेसिं भयणिजपदाणं भंगपमाणपरूवणगाहा एसा । तं जहा,

'भयणिजपदा तिगुणा अण्णोण्णगुणा पुणो वि कायव्वा ।

धुवरहिया रूवूणा धुवसहिया तत्तिया चेव ॥ ३ ॥'

जीवोंके मोहनीय कर्मकी प्रकृतियां पाई जाती है उनका यहां प्रकरण है ।

§ ३२६. 'णाणाजीवेहि मंगविचओ' इम वाक्यमें 'कीरदे' पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता । जिन जीवोंमें मोहनीयकर्म विद्यमान है इस अधिकारमें उनका ही प्रकरण है, क्योंकि प्रकृतमें मोहनीयकर्मका अधिकार है ।

* जो जीव मोहनीय कर्मप्रकृतियोंकी अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले हैं वे सब नियमसे हैं ।

§ ३२७. सभी जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले नियमसे हैं इसप्रकार संबन्ध नहीं करना चाहिये, क्योंकि सभी जीवोंके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती है । किंतु ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जो जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले हैं वे सभी हैं । इसी-प्रकार सभी स्थानोंमें कहना चाहिये । इस कथनसे इन अट्टाईस आदि स्थानोंसे युक्त जीव और इन अट्टाईस आदि स्थानोंसे रहित जीव नियमसे हैं यह सिद्ध होता है ।

* शेष तेईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीव कमी होते हैं और कमी नहीं भी होते ।

§ ३२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, और १ ये स्थान भजनीय हैं । अब इन भजनीय पदोंके अंगोंके प्रमाणको बतलानेवाली गाथा देते हैं—

"भजनीय पदोंका १ १ इसप्रकार विरलन करके तिगुना करे । पुनः उस तिगुनी विरलित राशिका परस्परमें गुणा करे । इस क्रियाके करनेसे जो लब्ध आता है उससे अशुभ

§ ३२६. एदिस्से गाहाए अत्थो बुध्दे । तं जहा, भयणिअपदाणि दस । पुणो एदाणि विरलिय तिगं कादूण अण्णोण्णेण गुणिदे सच्चभंगा उप्पजंति । तेसिं पमाण-मेदं-५६०४६ । पुणो एत्थ एगरूवे अवणिदे भयणिअपदभंगा होंति । तम्हि चैव अवाणिदरूवे पक्खित्ते ध्रुवभंगेण सह सच्चभंगा उपजंति ।

§ ३३०. संपहि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणे भण्णमाणे ताव एसा संदिट्ठी ठ्वेदत्त्वा । १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ । एत्थ उवरिमअंका एयवयणस्स हेट्ठिम-अंका वि बहुवयणस्स । एवं हविय तदो एदोसिमालावपरूवणा कीरदे । तं जहा-सिया एदे भङ्ग एक कम होते हैं और ध्रुवभङ्ग सहित अध्रुवभङ्ग उक्त संख्याप्रमाण ही होते हैं ।”

§ ३२६. अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है- प्रकृतमें २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ इसप्रकार ये दस विभक्तिस्थान भजनीय हैं। इन १० पदोंका १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ इसप्रकार विरलन करके इन्हें ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ इसप्रकार तिगुना करे और परस्परमें ३×३×३×३×३×३×३×३×३ गुणा कर दे। ऐसा करनेसे सभी ध्रुव और अध्रुव भङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं। उन सबका प्रमाण ५६०४६ होता है। इस उपर्युक्त राशिमैसे १ कम कर लेनेपर भजनीय पदोंका प्रमाण ५६०४६ होता है। तथा इस संख्यामें, जो एक घटाया था उसे मिला देने पर ध्रुवभङ्गके साथ सभी भङ्गोंका प्रमाण ५६०४६ आता है।

वदाहरण-भजनीयपद १०,

भजनीय पदोंका विरलन- १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

विरलितराशिका त्रिगुणीकरण }
और परस्पर गुणा } - ३×३×३×३×३×३×३×३×३×३=५६०४६ ।

५६०४६-१=५६०४६ अध्रुवभंग ।

५६०४६+१=५६०४६ ध्रुव और अध्रुव सभी भंग ।

§ ३३०. विरलित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करनेके और उसके परस्पर गुणा करनेके कारणको बतलानेके लिये निम्न लिखित संदृष्टि स्थापित करनी चाहिये-

१ १ १ १ १ १ १ १ १ १
२ २ २ २ २ २ २ २ २ २

इस संदृष्टिमै ऊपर रखा हुआ एकका अंक एकवचनका और नीचे रखा हुआ दो का अंक बहुवचनका द्योतक है। इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके अब उन भंगोंके आलापोंका कथन करते हैं। वह इसप्रकार है-

कदाचित् ये २८, २७, २६, २४ और २१ ध्रुवस्थानवाले ही जीव होते हैं।

च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च ।

§ ३३१. 'सिया एदे च' एवं भणिदे ध्रुवपदाणं गहणं, तेसिं बहुवयणणिदेसो चैव जीवेसु बहुवेसु चैव ध्रुवपदाणमवद्वाणादो । 'तेवीसविहत्तिओ च' एवं भणिदे एगवयणग्गहणं । कुदो ? दंसणमोहक्खवगस्स तेवीसविहत्तियस्स कयाइ एकस्सेव उवलंभादो । 'सिया तेवीसविहत्तिया च' एवं भणिदे हेट्टिमबहुवयणस्स गहणं । कुदो ? तेवीसविहत्तियाणं दंसणमोहक्खवयाणं कयाइ अट्टोत्तरसयमेत्ताणमुवलंभादो । एवमुप्पण्णदोभंगसंदिही एसा २ । पुणो एदेसिं करणकिरियाए आगमणे इच्छिज्जमाणे एगरूवं हविय दोहि रूवेहि गुणिदे ध्रुवभंगेण विणा तेवीसविहत्तियस्स एयबहुवयणभंगा चैव आगच्छंति । पुणो ध्रुवभंगेण सह आगमणमिच्छामो त्ति दोरूवेसु रूवं पक्खिविय गुणिदे ध्रुवभंगेण सह तिण्णिभंगा आगच्छन्ति ३ । एदेण कारणेण भयणिज्जपदं तीहि रूोहि गुणिज्जदि । कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिस्थान-वाला एक जीव होता है । कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं ।

§ ३३१. 'सिया एदे च' ऐसा कहनेपर ध्रुवपदोंका ग्रहण करना चाहिये । उन ध्रुवपदोंका बहुवचनके द्वारा निर्देश किया है, क्योंकि ध्रुव पद बहुत जीवोंमें ही पाये जाते हैं । अर्थात् उपर्युक्त अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानोंके धारक सर्वदा अनेक जीव रहते हैं, अतः ध्रुवपदोंका निर्देश बहुवचनके द्वारा किया गया है । 'तेवीसविहत्तिओ च' इसप्रकार कहनेपर एक वचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जो मिथ्यात्व नामक दर्शनमोहनीयकी क्षयण करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुआ है ऐसा जीव कदाचित् एक ही पाया जाता है । 'सिया तेवीसविहत्तिया च' ऐसा कहनेपर जो संदृष्टि पीछे दे आये हैं उसमें नीचे रखे हुए दो अंकसे सूचित होनेवाले बहुवचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि कदाचित् मिथ्यात्व नामक दर्शनमोहनीयका क्षय करके तेईस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए एक मौ आठ जीव पाये जाते हैं । इसप्रकार ध्रुवभंगके विना तेईस विभक्तिस्थानके निमित्तसे उत्पन्न हुए दो भंगोंकी संदृष्टि यह है २ । गणितकी विधिके अनुसार यदि इन दो भंगोंको लाना इष्ट हो तो एक अंकको स्थापित करके उसे दो अंकसे गुणितकर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके ध्रुवभंगके बिना एकवचन और बहुवचनके द्वारा कहे गये दो भंग ही आते हैं । और यदि ध्रुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग लाना इष्ट हो तो दोके अंकमें एकको जोड़ देनेपर ध्रुवभंगके साथ तीन भंग उत्पन्न होते हैं ३ । इसी कारणसे भजनीयपदको तीनसे गुणित करे ऐसा कहा है ।

उदाहरण— $१ \times २ = २$ तेईस विभक्तिस्थानके भंग ।

$२ + १ = ३$; $१ \times ३ = ३$ ध्रुवभंगके साथ तेईस विभक्तिस्थानके भंग ।

एवं सेमवावीसविहात्तियप्पहुडि जाव एमविहत्तिओ त्ति ताव पादेकं तिहि गुणो कारणं वत्तव्वं ।

§ ३३२. मंपहि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणं वुच्चदे । तं जहा-सिया एदे च वावीमविहत्तिओ च, सिया एदे च वावीमविहात्तिया च । एवं वावीमविहत्तियस्स एग-संजोगेण एगबहुवयणाणि अस्सिदूण दो भंगा २ । पुणो वावीम-तेवीसविहत्तियाणं दुसंजोगो वुच्चदे । तं जहा-मिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च वावीमविहत्तिओ च १ । मिया एदे च तेवीसविहात्तिओ च वावीसविहत्तिया च २ । सिया एदे च तेवीस-विहत्तिया च वावीमविहत्तिया (ओ) च ३ । सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च वावीस-विहात्तिया च ४ । एवं वावीमविहत्तियस्म दुसंजोगभंगा चत्तारि हवन्ति । पुणो एदेसु पुव्वुत्तेगसंजोगभंगेसु पबिखत्तेसु छम्भवन्ति ।

§ ३३३. पुणो एदेसिं करणकिरियाए आणयणं वुच्चदे । तं जहा-पुव्वुत्तनेवीमविह-इसीप्रकार शेष बाईम विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक प्रत्येक स्थानको तीनसे गुणा करनेका कारण कहना चाहिये ।

§ ३३२. अब विरलित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्परमें गुणा करे यह कह आये हैं उसका कारण कहते हैं । वह इसप्रकार है-

कदाचित् ये २८ आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईम विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । इसप्रकार एकवचन और बहुवचनका आश्रय लेकर बाईस विभक्तिस्थानके एकसंयोगी भङ्ग दो होते हैं । अब बाईम और तेईस विभक्ति-स्थानोंके दोसंयोगी भङ्ग कहते हैं । वे इसप्रकार हैं- कदाचित् ये अट्टाईम आदि ध्रुव स्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और बाईम विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । यह पहला भङ्ग है । कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । यह दूसरा भंग है । कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईम विभक्ति-स्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । यह तीसरा भंग है । कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । यह चौथा भङ्ग है । इस प्रकार बाईस विभक्तिस्थानके तेईस विभक्तिस्थानके संयोगसे द्विसंयोगी भंग चार होते हैं, इन चार भंगोंमें पहले कहे गये बाईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी दो भङ्गोंके मिला देनेपर कुल भङ्ग छह होते हैं ।

§ ३३३. अब ये छहों भङ्ग गणितकी विधिके अनुसार कैसे निकलते हैं यह बतलाते हैं ।

यतिष्णिभंगेसु दोहि रूवेहि गुणिदेसु तेवीसविहत्तियस्स तिहि भंगेहि विणा वावीस-
विहत्तियस्स एगदुसंजोगभंगा चेव आगच्छति । पुणो तेसिं णडुभंगाणं षि आगमण-
मिच्छामो षि पुव्विल्लगुणगारम्मि रूवं पक्खिविय गुणिदे वावीसविहत्तियस्स एग-
दुसंजोगभंगा तेवीसविहत्तियस्स एगसंजोगभंगा च सव्वे एगवारेण आगच्छंति । तेसिं
पमाणमेदं ६। एवं तेवीस-वावीसविहत्तियाणमेगदुसंजोगपरूवणा कदा ।

§ ३३४. संपहि तिगुणणोणगुणस्स णिणयत्थं पुणो वि परूवणा कीरदे । तं जहा-
तेरसविहत्तियस्स एगसंजोगेण एग-बहुवयणाणि अस्सिदूण दो भंगा उप्पजंति २ ।
पुणो तस्सेव दुसंजोगालां भणमाणे पुव्वं व तेरस-तेवीसविहत्तियाणं संजोषण
चत्तारि ४ । तेरस-वावीसविहत्तियाणं संजोगेण वि चत्तारि चेव ४ । पुणो तेरसविहत्ति-
यस्स तिसंजोगे भणमाणे तेवीम-वावीस-तेरसविहत्तियाणं द्विदसंदिटीए एग-बहु-
वयणाणि अस्सिदूण अक्खपरावत्ते कदे अट्ट तिसंजोगभंगा उप्पजंति । संपहि तेरस-
विहत्तियस्स एगदोतिसंजोगाणं सव्वभंगसमासो अट्टारस १८ । एदेमिं करण-
किरियाए आणयणं बुच्चदे । तं जहा-तेवीम-वावीमविहत्तियाणं णवभंगेसु दुगुणिदेसु
वह विधि इसप्रकार है— तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी पूर्वोक्त तीन भङ्गोंको दोसे गुणित
कर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके तीन भंगोंके बिना केवल बाईस विभक्तिस्थानके एक
संयोगी और द्विसंयोगी भंग ही आते हैं । अब यदि इन बाईस विभक्तिस्थानके भंगोंके
साथ तेईस विभक्तिस्थानके घटाए हुए भंगोंको लाना भी इष्ट है तो पूर्वोक्त दो संख्यारूप
गुणकारमें एक संख्या मिला कर पूर्वोक्त गुण्यराशिसे गुणित करने पर बाईस विभक्तिस्थानके
एक-द्विसंयोगी और तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी सभी भंग एक साथ आ जाते हैं ।
उन सभी भङ्गोंका प्रमाण २ होता है । इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानके एक
संयोगी और द्विसंयोगी भंगोंकी प्ररूपणा की ।

§ ३३४. अब विरलित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्पर गुणा करनेकी विधिके
निर्णय करनेके लिये और भी कहते हैं । उमका स्पष्टीकरण इसप्रकार है— एकवचन और
बहुवचनका आश्रय लेकर तेरह विभक्तिस्थानके एकसंयोगी दो भंग उत्पन्न होते हैं । पुनः
वसी तेरह विभक्तिस्थानके द्विसंयोगी भंगोंका कथन करनेपर पूर्ववत् तेरह और तेईस
विभक्तिस्थानोंके संयोगसे चार भंग तथा तेरह और बाईस विभक्तिस्थानोंके संयोगसे भी
चार भंग होते हैं । तथा तेरह विभक्तिस्थानके त्रिसंयोगी भंगोंका कथन करनेपर तेईस
बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंकी जो संदृष्टि स्थापित है उसमें एकवचन और बहुवचनका
आश्रय लेकर अक्षसंचार करनेपर त्रिसंयोगी भंग आठ उत्पन्न होते हैं । इसप्रकार तेरह
विभक्तिस्थानके एकसंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी सभी भंगोंका जोड़ अठारह होता
है । अब इनकी गणितके अनुसार विधि कहते हैं । वह इसप्रकार है— तेईस और बाईस

तेवीस-वावीमविहत्तियाणं भंगेहि त्रिणा तेरसविहत्तियम्म भंगा चेव आगच्छंति । संपहि तेवीस-वावीम-तेरसविहत्तियम्मव्वभंगाणमागमणभिच्छामो त्ति पुव्वुत्तणवभंगेसु तीहि रूवेहि गुणिदेसु तेवीम-वावीम-तेरमविहत्तियाणं एग-बहुवयणाणि अस्मि-दूण एग-दु-तिसंजोगसव्वभंगा सत्तावीम २७ । एवं सेमबाग्मदिविहत्तियाणं पि एग-बहुवयणमस्सिदूण एग-दुमंजोगादिभंगा जाणिदूणुप्पाएदव्वा । एवमुप्पाइदे सव्वभंग-समामो एत्थिओ होदि ५६०४६ । एवं भयणिज्जपदाणं तिगुणे दव्वस्म अण्णोणगुण-णाए च कारणं वुत्तं ।

विभक्तिस्थानोंके नौ भंगोंको दूना कर देनेपर तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके भंगोंके बिना तेरह विभक्तिस्थानके समी भंग आते हैं । अब यदि तेईस, बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंके समी भंगोंके लानेकी इच्छा हो तो पूर्वोक्त नौ भङ्गोंको तीनसे गुणित करनेपर एकवचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेईस, बाईस और तेरह विभक्तिस्थानोंके एक संयोगी, द्विसंयोगी और तीन संयोगी सब भङ्ग सत्ताईस होते हैं । इसी प्रकार एकवचन और बहु वचनकी अपेक्षा शेष बारह विभक्तिस्थानोंके भी एकसंयोगी और द्विसंयोगी आदि भङ्ग उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार उत्पन्न हुए सब भङ्गोंका जोड़ ५६०४६ होता है । इस प्रकार भजनीय पदोंको विरलित करके तिगुना कथों करना चाहिये और तिगुणित द्रव्यको परस्परमें गुणित कथों करना चाहिये इसका कारण कहा ।

उदाहरण—

१ ध्रुवभङ्ग

२ तेईस विभक्तिस्थानके भङ्ग

३ ध्रुवभङ्ग सहित तेईस विभक्तिस्थानके भङ्ग

३×२=६ बाईस विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग

३×३=९ ध्रुवभंग सहित २३ व २२ स्थानके सब भंग

६×२=१२ तेरह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग

६×३=१८ ध्रुवभंग सहित २३, २२ व १३ विभक्तिस्थानोंके सब भंग

२७×२=५४ बारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग

२७×३=८१ ध्रुवभंग सहित २३, २२, १३ व १२ विभक्तिस्थानके सब भंग

८१×२=१६२ ग्यारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग

८१×३=२४३ ध्रुवभंग सहित २३ से ११ तकके स्थानोंके सब भंग

२४३×२=४८६ पांच विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग

२४३×३=७२९ ध्रुवभंग सहित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब भंग

७२९×२=१४५८ चार विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग

$७२६ \times ३ = २१ = ७$ ध्रुवभंग सहित १, ३ से ४ तकके स्थानोंके भंग
 $२१ = ७ \times २ = ४३७४$ तीन विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग
 $२१ = ७ \times ३ = ६५६१$ ध्रुवभंग सहित २३ से ३ तकके स्थानोंके भंग
 $६५६१ \times १ = १३१२२$ दो विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग
 $६५६१ \times ३ = १९६८३$ ध्रुवभंग सहित २२ से २ तकके स्थानोंके भंग
 $१९६८३ \times २ = ३९३६६$ एक विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग
 $१९६८३ \times ३ = ५९०४९$ ध्रुवभंग सहित २२ से १ तकके स्थानोंके सब भंग

नोट—तेईम विभक्तिस्थानको प्रथम मान कर ये उत्तरोत्तर भंग लाये गये हैं । ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको २ से गुणा करने पर उत्पन्न होते हैं । अतः आगे जो बार्धग आदि एक एक स्थानके भंग बतलाये गये हैं उनमें उस उस स्थानके प्रत्येक भंग और उस स्थान तकके स्थानोंके द्विसंयोगी आदि भंग सम्मिलित हैं । ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको दो से गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं तथा इन भंगोंमें पीछे पीछेके स्थानोंके भंग भिला देनेपर वहां तकके सब भंग होते हैं । ये भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको तीनसे गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं ।

विशेषार्थ—मोहनीय कर्मके २८ भेद हैं । उनमेंसे किसीके २८ किसीके २७ और किसीके २६, २४, २३, २२, ११, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ या १ प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है । इस प्रकार इसके प-द्रव्य विभक्तिस्थान होते हैं । इनमें से २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले बहुतसे जीव संसारमें सर्वदा पाये जाते हैं ऐसा समय नहीं है जब इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अभाव होवे । अर्थात् इनका कमी अभाव नहीं होता, अतः ये पावो ध्रुव स्थान हैं । तथा शेष स्थानवाले कभी एक और कभी अनेक जीव होते हैं अतः शेष अध्रुवस्थान हैं, यहां ध्रुवस्थानोंकी अपेक्षा २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले नाना जीव हैं यही एक भंग होगा पर अध्रुवस्थानोंकी अपेक्षा एक संयोगी, द्विसंयोगी आदि प्रस्तारविकल्प और उनमें एक जीव तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा अनेक भंग प्राप्त होते हैं । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्थानके या अन्य दूसरे स्थानोंके संयोगसे द्विसंयोगी आदि जितने विकल्प प्राप्त होते हैं उतने प्रस्तार होते हैं । यहां आलापोंके स्थापित करनेको प्रस्तार कहते हैं । और इन प्रस्तारोंमें उनके जितने आलाप होते हैं उतने भंग होते हैं । यहां पहले जो 'भयणिज्जपदा' आदि करण गाथा दी है उससे प्रस्तार विकल्प उत्पन्न न होकर आलाप विकल्प ही उत्पन्न होते हैं । जो ध्रुव-भंगके साथ उत्तरोत्तर तिगुने तिगुने होते हैं । ये आलापविकल्प या भंग उत्तरोत्तर तिगुने क्यों होते हैं इसका कारण मूलमें ही दिया है ।

§ ३३५. मंपहि एदेसिं चैव मंगाणमण्णेण पयारेण आणयणं बुच्चदे । तं जहा-

‘एकोत्तरपदवृद्धो रूपाद्यैर्भाजितश्च पदवृद्धैः ।

गच्छस्संपातफलं समैहृतस्सन्निपातफलम् ॥ ४ ॥’

§ ३३६. एदीए अजाए एसा संदिट्ठी १०, ६, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, १, ठवेयव्वा ।
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ठवेयव्वा ।

एवं ठविय तदो एग-दु-तिसंजोगादिपत्थारसलागाओ आणिजंति । तत्थ तेवीसविहत्ति-
यस्स एगसंजोगपत्थारो एसो १ २ । एत्थ उवरिमसुण्णाओ धुवं ति ठविदाओ ।

§ ३३५. अब अन्य प्रकारसे इन भंगोंके लानेकी विधि कहते हैं । वह इसप्रकार है-

“आदिमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यासे, अन्तमें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यामें भाग देना चाहिये । इस क्रियाके करनेसे संपात फल अर्थात् एकसंयोगी (प्रत्येक) भंग गच्छ प्रमाण होते हैं और सम्पात फलको नौ बटे दो आदिसे गुणित कर देनेपर सन्निपातफल प्राप्त होता है ॥ ४ ॥”

§ ३३६. इम आर्याकी यह संदृष्टि लिखना चाहिये-

१०	६	८	७	६	५	४	३	२	१
१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०

उदाहरण संपातफलका-

१० ÷ १ = १० सम्पातफल या प्रत्येक भंग ।

उदाहरण सन्निपातफलका-१० × २ = ४५ द्विसंयोगी

१० × २ × ३ = १२० त्रिसंयोगी

१० × २ × ३ × ४ = २१० चतुःसंयोगी

पांच संयोगी आदि भंगोंको इसी क्रमसे ले आना चाहिये ।

इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके इससे एकसंयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी आदि प्रस्तार संबन्धी शलाकाएं ले आना चाहिये । उनमेंसे तेईस विभक्तिस्थानका एकसंयोगी प्रस्तार १ २ यह है । इस प्रस्तारमें ध्रुव विभक्तिस्थानोंके द्योतन करनेके लिये अङ्कोंके ऊपर शून्य रखे हैं । उन शून्योंके नीचे जो १ और २ के अङ्क रखे हैं उनसे क्रमसे

(१) ‘एकाद्येकात्तरा अंका अस्ता भाज्याः क्रमस्थितः । परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ।’
-कीला ०पू० १०७ । (२) सम्माहृतं-स० । सभाहृतं-आ० । समाहितः-अ० । (३) एदं द्रविय अतिम-
चउसट्ठाए एगरुवण भाजिदाए चउसट्ठो संपातफल लब्धिदि ६४ । कि संपादफलं नाम ? संपादो एगसंजोगो
तस्स फल संपादफलं नाम । पुणो तिसंदिट्ठुभागेण संपादफले गुणिते चउसट्ठुअक्खराणं दुसजोगभंगा
एत्तिया हाति २०१६ । × × संपाह चउसट्ठुअक्खराणं तिसंजोगभंगे भण्णमाणे दुसजोगभगे उप्पण-
सोलमुत्तरवेसहस्सेसु तिसंजोगभंगा एत्तिया होति ४१६६४ ।’-ब० भा० ८७३ ।

हेट्टिमएक-बेअंका वि तेवीसविहत्तियस्स एग-बहुवयणाणि सि गेण्हिदब्बाणि ।

§ ३३७.संपहि तेवीसविहत्तियस्स एगसंजोगपत्थारालावो बुच्चदे । तं जहा-सिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च १ । सिया एदे च तेवीसविहत्तिया च २ । एदाहि उच्चारणा-तेईस विभक्तिस्थानके एकवचन और बहुवचनका ग्रहण करना चाहिये ।

विशेषार्थ-वीरसेन स्वामीने 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आर्याकी १° १ ३ इत्यादि संदृष्टि बतलाई है । अतः हमने आर्याके पूर्वार्धका इसीके अनुसार अर्थ किया है । पर प्रकृति अनुयोगद्वारमें श्रुतके संयोगी अक्षरोंके भंग लाते समय उन्होंने उक्त आर्याकी १° १ ३ इत्यादि रूपसे भी संदृष्टि स्थापित की है । लेखकने प्रमादसे इसे उलट कर लिख दिया होगा सो भी बात नहीं है; क्योंकि 'एदं ठविय अंतिमचउसट्टाए एगरूवेण भाजिदाए चउसठी संपातफलं लब्भदि' (इम संदृष्टिको स्थापित करके अन्तमें आये हुए चौसठमें एकका भाग देनेपर संपातफल चौसठ प्राप्त होता है) । इससे जाना जाता है कि उक्त प्रकारसे इस संदृष्टिको स्वयं वीरसेन स्वामीने स्थापित किया है । इसके अनुसार आर्याका अर्थ निम्न प्रकार होगा- 'एकसे लेकर एक एक बढ़ाते हुए पदप्रमाण संख्या स्थापित करो । पुनः उसमें अन्तमें स्थापित एकसे लेकर पदप्रमाण बढ़ी हुई संख्याका भाग दो । इस क्रियाके करनेसे संपातफल गच्छप्रमाण प्राप्त होता है और संपातफलको नौ बटे दो आदिसे गुणित कर देने पर सन्निपातफल प्राप्त होता है' । इन दोनों अर्थोंमेंसे किसी भी अर्थके ग्रहण करनेसे तात्पर्यमें अन्तर नहीं पड़ता । और आर्याके पूर्वार्धके दो अर्थ सम्भव हैं । मालूम होता है इसीसे वीरसेन स्वामीने एक अर्थका यहां और एकका प्रकृति अनुयोगद्वारमें भंगलन कर दिया है । यहां संपातफलसे एकसंयोगी भंगोंका ग्रहण किया है इसीलिये उक्त गच्छप्रमाण कहा है । तथा सन्निपातफलसे द्विसंयोगी आदि भंगोंका ग्रहण किया है । दस भजनीय पदोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगोंका ग्रहण करना है अतः भजनीय पदोंके संयोगसे जितने विकल्प आते हैं उतने प्रस्तार विकल्प जानना चाहिये । यहां ये प्रस्तार विकल्प ही उक्त आर्याके अनुसार निकाल कर बतलाये गये हैं । तात्पर्य यह है कि यहां स्थानोंके संयोगी भंग और उनमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा अवान्तर भंग इसप्रकार दो दो बातें हैं । अतः यहां स्थानोंके संयोगी भंग प्रस्तारविकल्प हो जाते हैं । जो आर्याके द्वारा निकाल कर बतलाये गये हैं । पर अन्यत्र जहां अवान्तर भंग नहीं होते हैं वहां इस आर्याके द्वारा केवल भंग ही उत्पन्न किये जाते हैं ।

§ ३३७. अब तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी प्रस्तारका आलाप कहते हैं । वह इसप्रकार है-कदाचित् अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस प्रकृतिस्थानवाला एक जीव होता है । कदाचित् अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्ति स्थानवाले

१३३८. संपहि एदम्मालाओ वुच्चदे । तं जहा-मिया एदे च तेवीमविहत्तिओ च वावीसविहत्तिओ च १ । मिया एदे च तेवीमविहत्तिओ च वावीमविहत्तिया च २ । मिया एदे च तेवीमविहत्तिया च वावीमविहत्तिओ च ३ । मिया एदे च तेवीमविहत्तिया च वावीमविहत्तिया च ४ । एवं तेवीस वावीमविहत्तियाणं दुमंजोगस्म एक्का चेव पत्थारमलागा होदि १ । उच्चारणमलागाओ पुण ताव पुध द्दवेदव्वा । संपहि तेवीम-नेग्मविहत्तियाणं पत्थारे द्दविय एवं चेव आलावा वत्तव्वा । एवं वे दुमंजोग-पत्थारमलागा २ । तेवीमबारमण्हं संजोगेण तिणिण पत्थारमलागा ३ । तेवीमाए मह एक्कारमण्हं संजोगेण चचारि पत्थारमलागा ४ । तेवीमाए पंचण्हं संजोगेण पंच पत्थारमलागा ५ । तेवीमाए च्चदुण्हं संजोगेण छ पत्थारमलागा ६ । तेवीपाए

१३३८. अब इस प्रस्नारका आलाप कहते हैं । यह उमप्रकार है -

कदाचित् ये अट्टाईम आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और वार्डिस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । कदाचिन् ये अट्टाईम आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिवाला एक जीव तथा वार्डिस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । कदाचिन् ये अट्टाईम आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वार्डिस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । कदाचिन् ये अट्टाईम आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वार्डिस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । इसप्रकार तेईस और वार्डिस विभक्तिस्थानोंके द्विमंथो योगकी एक ही प्रस्तारशलाका होती है । पर उमकी जो चार उच्चारणशलाकाएं अर्थात् आलाप कह आये हैं उन्हे अलग स्थापित करना चाहिये । तेईस और तेरह विभक्तिस्थानोंके प्रस्तारको स्थापित करके इसीप्रकार आलाप कहना चाहिये । इसप्रकार तेईस और वार्डिस विभक्तिस्थानोंकी द्विमंथोगी एक प्रस्तार शलाका तथा तेईस और तेरह विभक्तिस्थानोंकी द्विमंथोगी एक प्रस्तारशलाका ये द्विमंथोगी दो प्रस्तारशलाकाएं होती हैं । तेईस और बारह विभक्तिस्थानोंके संयोगसे एक प्रस्तारशलाका होती है । इस प्रकार उमकी दो और एक यह सब मिलकर तीन प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्थानको ग्यारह विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देने पर चार प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्थानको पांच विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देनेपर पांच प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्थानको चार विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तार शलाकाके मिला देनेपर छह प्रस्तार शलाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्थानको तीन विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तारशलाकाके मिला देनेपर सात प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्थानको दो

तिण्हं मंजोगेण मत्त पन्थारमलागा ७ । तेवीमाए दोण्हं मंजोगेण अट्ट पन्थारमलागा ८ । तेवीमाए णक्किस्से मंजोगे णव पन्थारमलागा ९ ।

§ ३३६. मंपहि वावीमतेरसण्हं दुमंजोगपन्थागे एमो ः ः ः ः । उवरिमचदु-
सुण्णाओ धुवस्म, मज्झिमअंका वावीमविहत्तियस्स, हेट्ठिमअंका तेरमविहत्तियस्म । मंपहि
एदस्म आलावो वुच्चदे । मिया एदे च वावीमविहत्तिओ च तेरमविहत्तिओ च ।
एवं सेमालावा जाणिदूण वत्तव्वा । एवं वावीमाए मह बारमादि जाव एगविहत्तिओ
पत्तेयं पत्तेयं दुसंजोगं कादूण अट्टा पन्थारसलागाओ उप्पाएयव्वाओ ८ ।

§ ३४०. संपहि तेरमण्हं बारसेहि मह दुमंजोगालावा वत्तव्वा । तत्थ एगा पन्थार-
सलागा लब्भदि १ । एवं तेरस धुवं कादूण णेयव्वं जाव एगविहत्तिओ त्ति । एवं
णीदे तेरसविहत्तियस्म दुमंजोगेण सत्त पन्थार उप्पज्जंति ७ । बारमविहत्तियस्स एक्का-
रसादीहि सह दुमंजोगे भण्णमाणे छप्पन्थारमलागाओ लब्भंति ६ । एक्कारमविह-
त्तियस्स उवरिमेहि सह दुसंजोगे भण्णमाणे पंच पन्थारमलागाओ लब्भंति ५ । पंच-
विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक प्रस्तारशलाकाके मिला देनेपर आठ प्रस्तार
शलाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्थानको एक विभक्तिस्थानके साथ मिला देनेसे
उत्पन्न हुई एक शलाकाके मिला देनेपर नौ प्रस्तारशलाकाएं हो जाती हैं ।

§ ३४१. अब बाईस और तेरह विभक्तिस्थानका द्विसंयोगी प्रस्तार कहते हैं । वह यह है—
१ १ १ १ ऊपरके चार शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं । मध्यके अङ्क बाईस विभक्तिस्थानके
सूचक हैं । नीचेके अंक तेरह विभक्तिस्थानके सूचक हैं । अब इम प्रस्तारके आलाप
कहते हैं । कदाचिन् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव बाईस विभक्तिस्थानवाला
एक जीव और तेरह विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । इसीप्रकार शेष तीन आलाप
भी जानकर कहना चाहिये । इसीप्रकार बाईस विभक्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईस बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोग
करके प्रत्येककी आठ प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये ।

§ ३४०. अब तेरह विभक्तिस्थानका बारहविभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी आलाप कहना
चाहिये । यहां एक प्रस्तारशलाका प्राप्त होती है । इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानको ध्रुव
करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये । इसप्रकार ले जानेपर तेरह विभक्तिस्थानके
द्विसंयोगी सात प्रस्तार उत्पन्न होते हैं । बारह विभक्तिस्थानके ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंके
साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छह प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं । ग्यारह
विभक्तिस्थानके ऊपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करने
पर पांच प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं । पांच विभक्तिस्थानके ऊपरके चार आदि विभक्ति-

विहत्तियस्स उवरिमेहि सह दुसंजोगे भण्णमाणे चत्तारि पत्थारसलागाओ लब्भंति ४ ।
 चत्तारिविहत्तियस्स उवरिमेहि सह दुसंजोगे कीरमाणे तिण्णि पत्थारसलागाओ ३ ।
 तिण्णिविहत्तियस्स उवरिमेहि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओ २ ।
 दोण्हं विहत्तियस्स एक्किंस्सेहि विहत्तीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एका पत्थारसलागा १ ।
 एवं दुसंजोगसव्वपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४५ होंति । अहवा पुव्व-
 द्दविदसंदिद्धिम्हि उवरिमदस-णवण्हं अण्णोण्णगुणेदाणं हेट्ठिमअण्णोण्णगुणिदएक्क-वै-अंकेहि
 ओवड्ढणम्मि कदे पुव्वुत्तपत्थारसलागा आगच्छंति । एवं दुसंजोगपरूवणा गदा ।

०' ०' ०' ०' ०' ०' ०' ०'

§ ३४१. तिसंजोगपत्थारो १ १ १ १ २ २ २ २ एसो । एत्थ उवरिम-
 १ १ २ २ १ १ २ २
 १ २ १ २ १ २ १ २

अद्दसुण्णाओ धुवस्स । ततो अणंतरहेट्ठिमअंकपंती तेवीसविहत्तियस्स । उवरीदो तदिय-
 स्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर चार प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती
 हैं । चार विभक्तिस्थानके ऊपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका
 विचार करनेपर तीन प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं । तीन विभक्तिस्थानके ऊपरके दो
 आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर दो प्रस्तारशलाकाएं
 उत्पन्न होती हैं । दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारके लाने
 पर एक प्रस्तारशलाका उत्पन्न होती है । इमप्रकार द्विसंयोगी सभी प्रस्तारशलाकाओंको
 एकत्रित करनेपर कुल जोड़ पैंतालीस होता है । अथवा, 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आर्याकी
 जो ऊपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १० और ६ का
 अलग गुणा करे । तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अलग गुणा करे । अनन्तर
 १० और ६ के गुणनफलको १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे । इस प्रकारकी
 विधि करनेपर भी पूर्वोक्त पैंतालीस प्रस्तारशलाकाएं आ जाती हैं । इसप्रकार द्विसंयोगी
 प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ३४१. त्रिसंयोगी प्रस्तार यह है— ० ० ० ० ० ० ० ०

१ १ १ १ २ २ २ २

१ १ २ २ १ १ २ २

१ २ १ २ १ २ १ २

इस प्रस्तारमें ऊपरके आठ शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं । उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें
 स्थित अंक तेईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । इसके अनन्तर ऊपरसे तीसरी पंक्तिमें स्थित

विहत्तियस्स उवरिमेहि सह दुसंजोगे भण्णामाणे चत्तारि पत्थारसलागाओ लब्भंति ४ ।
 चत्तारिविहत्तियस्स उवरिमेहि सह दुसंजोगे कीरमाणे तिण्णि पत्थारसलागाओ ३ ।
 तिण्णिविहत्तियस्स उवरिमेहि सह दुसंजोगे कीरमाणे दोण्णि पत्थारसलागाओ २ ।
 दोण्हं विहत्तियस्स एक्किंसेहि विहत्तीए सह दुसंजोगे कीरमाणे एक्का पत्थारसलागा १ ।
 एवं दुसंजोगसव्वपत्थारसलागाओ एकदो मेलिदे पंचेतालीस ४५ होंति । अहवा पुव्व-
 द्दविदसंदिट्ठिभिह उवरिमदस-गवण्हं अण्णोण्णगुणेदाणं हेट्ठिमअण्णोण्णगुणिदएक-वै-अंकेहि
 ओबट्टणम्मि कदे पुव्वुत्तपत्थारसलागा आगच्छंति । एवं दुसंजोगपरूवणा गदा ।

०' ०' ०' ०' ०' ०' ०' ०'

§ ३४१. तिसंजोगपत्थारो १ १ १ १ २ २ २ २ एसो । एत्थ उवरिम-
 १ १ २ २ १ १ २ २
 १ २ १ २ १ २ १ २

अट्टसुण्णाओ धुवस्म । ततो अणंतरहेट्ठिमअंकपंती तेवीमविहत्तियस्स । उवरीदो तदिय-
 स्थानोके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर चार प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती
 हैं । चार विभक्तिस्थानके ऊपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका
 विचार करनेपर तीन प्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न होती हैं । तीन विभक्तिस्थानके ऊपरके दो
 आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका विचार करनेपर दो प्रस्तारशलाकाएं
 उत्पन्न होती हैं । दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ द्विमंयोगी प्रस्तारके लाने
 पर एक प्रस्तारशलाका उत्पन्न होती है । इसप्रकार द्विमंयोगी सभी प्रस्तारशलाकाओंको
 एकत्रित करनेपर कुल जोड़ पैतालीस होता है । अथवा, 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आर्याकी
 जो ऊपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उममें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १० और ९ का
 अलग गुणा करे । तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अलग गुणा करे । अनन्तर
 १० और ९ के गुणनफलको १ और २ के गुणनफलसे भाजित कर दे । इस प्रकारकी
 विधि करनेपर भी पूर्वोक्त पैतालीस प्रस्तारशलाकाएं आ जाती हैं । इसप्रकार द्विसंयोगी
 प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ३४१. त्रिसंयोगी प्रस्तार यह है— ० ० ० ० ० ० ० ०
 १ १ १ १ २ २ २ २
 १ १ २ २ १ १ २ २
 १ २ १ २ १ २ १ २

इस प्रस्तारमें ऊपरके आठ शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं । उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें
 स्थित अंक तेईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । इसके अनन्तर ऊपरसे तीसरी पंक्तिमें स्थित

(१) —स्ते वि०-स० ।

अकंपती बावीसविहत्तियस्स । मव्वहेट्ठिमअंकंपती तेरसविहत्तियस्स । संपहि एदस्सालावो वुव्वदे । मिया एदे च तेवीमविहत्तियो च बावीसविहत्तियो च तेरमविहत्तियो च । एवं सेमालावा जाणिदूण वत्तव्वा । एत्थ एगा पत्थारसलागा लब्भदि १ । उच्चारणाओ पुण अह होंति ८ । ताओ पुण ताव द्ढवणिज्जाओ । संपहि तेवीमबावीसदिदअक्खे धुवे काऊण बारमविहत्तिएण सह तिसंजोगपत्थारो होदि ति विदियपत्थारसलागा २ । एवमेकारसविहत्तियप्पहुडि जाणिदूण णेदव्वं जाव एगविहत्तियो ति । एवं णीदे अट्टतिसंजोगपत्थारसलागाओ उप्पजंति ८ । संपहि तेवीसविहत्तियक्खं धुवं कादूण तेरस-बारमविहत्तिएहि सह विदियो तिसंजोगपत्थारो २ । पुणो तेवीम-तेरसक्खे धुवे कादूण एकारसादीसु णेदव्व जाव एगविहत्तियो ति । एवं णीदे सत्तपत्थारसलागाओ उपजंति ७ । एवं तिसंजोगसेमपत्थारविही जाणिदूण णेदव्वो । एवं णीदे अट्टण्हं संकलणासंकलणमेत्तपत्थारमलागाओ वीसुत्तरमयमेत्तीओ उपजंति १२० । अंक बाईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । तदनन्तर सबसे नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेरह-विभक्तिस्थानके सूचक हैं । अब इसका आलाप कहते हैं— कदाचित् ये अट्टाईस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव तेईसविभक्तिस्थानवाला एक जीव, बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव और तेरह विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । इसीप्रकार शेष सात आलाप भी जानकर कहना चाहिये । इन सभी आलापोंकी एक प्रस्तारशलाका प्राप्त होती है । परन्तु आलाप आठ होते हैं अभी उन आठों आलापोंको स्थापित कर देना चाहिये । इसीप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंके अक्षोंको ध्रुव करके वागह विभक्तिस्थानके माथ त्रिसंयोगी एक प्रस्तार होता है । इसप्रकार यह दूसरी प्रस्तारशलाका हुई । इसीप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानोंको ध्रुवकरके ग्यारह विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक जान कर प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार प्रस्तारशलाकाओंके लानेपर त्रिसंयोगी आठ प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षको ध्रुव करके तेरह और बारह विभक्तिस्थानोंके साथ अन्य त्रिसंयोगी प्रस्तार ले आना चाहिये । अनन्तर तेईस और तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षोंको ध्रुव करके एक विभक्तिस्थानतक ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंमें इसीप्रकार ले जाना चाहिये । इसप्रकार प्रस्तारोंके उत्पन्न करनेपर त्रिसंयोगी सात प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार त्रिसंयोगी शेष प्रस्तारविधिको जानकर शेष प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार त्रिसंयोगी प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न करनेपर आठ गच्छके संकलनाके जोड़प्रमाण कुल एकसौ बीस प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती । अथवा, 'एकोत्तरपदवृद्धो' इत्यादि आर्याकी

(१) 'गच्छकदी म्लजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा । छहि भजिदे जं लद्धं सकलणाए हवे कलणा'—बब० प० अ० प० ८४७ ।

अहवा पुव्वुत्तसंदिट्ठिभि उवरिमदस-णव-अट्टण्हमण्णोणगुणिदाणं हेट्ठिमएक-वे-तीहि अण्णोणगुणिदेहि ओवट्टणम्मि कदे अट्टण्हं संकलणासंकलणमेत्तपत्थारसलागाओ लब्भंति । एदेण बीजपदेण चदुसंजोगादीणं सव्वपत्थारा जाणिदूण णेदव्वा जाव दससंजोगपत्थारो ति ।

जो ऊपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १०, ६ और ८ का गुणा करे। तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १, २ और ३ का अलग गुणा करे। अनन्तर १०, ६ और ८ के गुणनफल ७२० को १, २ और ३ के गुणनफल ६ से भाजित करनेपर आठ गच्छक संकलनाके जोड़ प्रमाण कुल प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। इसी बीजपदसे चार-संयोगी आदिसे लेकर दस संयोगी प्रस्तार तक सभी प्रस्तार जानकर निकाल लेना चाहिये।

विशेषार्थ—धवला प्रकृति अनुयोगद्वारमे मुख्यतः त्रिसंयोगी भंगोंके लानेके लिये एक करणसूत्र आया है। जिसका आशय यह है कि 'गच्छका वर्ग करके उसमें वर्गमूलको जोड़ दे। पुनः आदि उत्तरसहित गच्छसे गुणा करके छहका भाग दे दें तो संकलनाकी कलना अर्थात् जोड़ प्राप्त होता है'। इसके अनुसार प्रकृतमें भजनीय पद १० होते हुए भी उनमेंसे दो कम कर देनेपर शेष ८ प्रमाण गच्छ होता है, क्योंकि त्रिसंयोगी भंग उत्पन्न करते समय क्रमसे कोई दो पद १ व २ होते जाते हैं और शेष पदोंपर एक एक करके तीसरे अक्षका संचार होता है। अतः ८ का वर्ग ६४ हुआ, तथा इसमें ८ मिलाने पर ७२ हुए। पुनः आदि उत्तर सहित गच्छसे गुणा करनेपर ७२० हुए। तदनन्तर इसमें ६ का भाग देनेपर ८ गच्छका संकलनाकी कलना अर्थात् जोड़ १२० हुआ। यहां ये ही त्रिसंयोगी प्रस्तारविकल्प जानना चाहिये। चारसेन स्वामीने ऊपर 'अट्टण्हं संकलणा संकलणमेत्तपत्थारसलागाओ' पदसे इन्हीं १२० प्रस्तारविकल्पोंका उल्लेख किया है। पृथक् पृथक् वे १२० प्रस्तारविकल्प इस प्रकार प्राप्त होते हैं—

ध्रुव किये हुए २ पद	तीसराअक्ष	भंग	ध्रुव किये हुए २ पद	तीसराअक्ष	भङ्ग
२३, २२	१३ से १ तक कोई ८	८	१३, ११	"	५
२३, १३	१२ से १ तक "	७	१२, ११	"	५
२२, १३	"	७	२३, ५	४ से १ तक "	४
२३, १२	११ से १ तक "	६	२२, ५	"	४
२२, १२	"	६	१३, ५	"	४
१३, १२	"	६	१२, ५	"	४
२३, ११	५ से १ तक "	५	११, ५	"	४
२२, ११	"	५	२३, ४	३ से १ तक "	३

§ ३४२. तेसिं पत्थाराणमुच्चारणाए विणा द्ववणविहाणपरूवणगाहा एसा । तं जहा—
'भंगार्यामपमाणो लहुओ गरुओ ति अक्खयिक्खेओ ।

तत्तो य दुगुण-दुगुणो पत्थारो होइ कायव्वो ॥ ५ ॥'

२२, ४	"	३	४, ३	"	२
१३, ४	"	३	२३, २	१ स्थान	१
१२, ४	"	३	२२, २	"	१
११, ४	३ से १ तक कोई	३	१३, २	"	१
५, ४	"	३	१२, २	"	१
२३, ३	२ व १ कोई	२	११, २	"	१
२२, ३	"	२	५, २	"	१
१३, ३	"	२	४, २	"	१
१२, ३	"	२	३, २	"	१
११, ३	"	२			
५, ३	"	२			
				प्रस्तारविकल्प	१२०

अथवा ये १२० प्रस्तारविकल्प 'एकोत्तरपदबृद्धो' इत्यादि करणसूत्रके नियमानुसार भी प्राप्त किये जा सकते हैं जो अनुवादमें बतलाये ही हैं । तथा चारसंयोगी आदि प्रस्तारविकल्प भी इसी प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं । यथा—

$$\text{चारसंयोगी—} १२० \times \frac{१}{१} = १२० \text{ प्रस्तारविकल्प}$$

$$\text{पांचसंयोगी—} २१० \times \frac{२}{५} = २५२ \quad "$$

$$\text{छहसंयोगी—} २५२ \times \frac{३}{४} = २१० \quad "$$

$$\text{सातसंयोगी—} २१० \times \frac{४}{३} = २८० \quad "$$

$$\text{आठसंयोगी—} १२० \times \frac{५}{३} = ४५ \quad "$$

$$\text{नौसंयोगी—} ४५ \times \frac{३}{२} = ६७ \quad "$$

$$\text{दससंयोगी—} १० \times \frac{३}{२} = १५ \quad "$$

§ ३४२. आलापोंके बिना, उन प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका प्ररूपणा करनेवाली गाथा इस प्रकार है—

'पहली पंक्तिमें जहां जितने भंग हों तत्प्रमाण एक लघु उसके अनन्तर एक गुरु इस प्रकार क्रमसे अक्षका निक्षेप करना चाहिये । तथा इसके आगे द्वितीयादि पंक्तियोंमें दूना दूना करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे प्रस्तार प्राप्त होता है ॥ ५ ॥'

(१) 'पाद सवगुरावाद्याल्लघु न्यस्य गुरोरथः । यथोपरि तथा शेष भूयः कुर्यादम् विधिम् ॥२॥
ऊने दद्यात् गुरुनेव यावत्सर्वलघुर्भवेत् । प्रस्तारोऽयं समाख्यातः अन्वो विधित्वेतिभिः ॥३॥'
प्रस्तार० अ०६ इच्छो० २-३ ।

§ ३४३. संपहि करणकमेणाणिदचदुसंजोगपत्थारसलागपमाणमेदं २१० ।
पंचसंजोगपत्थासलागा एत्तिया २५२ । छसंजोगपत्थारसलागा एत्तिया २१० ।
सत्तसंजोगपत्थारसलागा १२० । अट्टसंजोगपत्थारमलागा ४५ । णवमंजोगपत्थार-
सलागा १० । दससंजोगपत्थारसलागा १ ।

विशेषार्थ—यद्यपि ऊपर प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी स्थानोंके प्रस्तारोंका निर्देश कर आये हैं किन्तु इस गाथामें सर्वत्र प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका निर्देश किया है । यहां गाथामें लघु और दीर्घ शब्द आये हैं जिनसे लघु और दीर्घ वर्णोंका बोध होता है । किन्तु यहां जीवोंके भंग लाना इष्ट है अतः लघु शब्दसे एक जीव और दीर्घ शब्दसे अनेक जीवोंका ग्रहण करना चाहिये । प्रस्तार रचनाके समय जहां एक ही स्थानके प्रस्तारकी रचना करना हो वहां जितने भंग हों उतनी बार क्रमसे ह्रस्व और दीर्घ लिख लेना चाहिये । यथा १ २ । जहां द्विसंयोगी प्रस्तार लाना हो वहां पहली पंक्तिमें द्विसंयोगी प्रस्तारके जितने भंग हों उतनी बार लघु और दीर्घ लिखे तथा द्वितीयादि पंक्तियोंमें इन्हें दूना दूना करता जाय । यथा— द्वितीयपंक्ति १ १ २ २

प्रथमपंक्ति १ २ १ २

इसी प्रकार त्रिसंयोगी, चारसंयोगी आदि प्रस्तारोंको ले आना चाहिये ।

दीनसंयोगी प्रस्तार—

वृ० पं० १ १ १ १ २ २ २ २

द्वि० पं० १ १ २ २ १ १ २ २

प्र० पं० १ २ १ २ १ २ १ २

चारसंयोगी प्रस्तार—

च० पं० १ १ १ १ १ १ १ १ २ २ २ २ २ २ २ २

वृ० पं० १ १ १ १ २ २ २ २ १ १ १ १ २ २ २ २

द्वि० पं० १ १ २ २ १ १ २ २ १ १ २ २ १ १ २ २

प्र० पं० १ २ १ २ १ २ १ २ १ २ १ २ १ २ १ २

आगे पांचसंयोगी आदि प्रस्तार इसी प्रकार दूने दूने प्राप्त होते जाते हैं ।

§ ३४३. इसप्रकार करणसूत्रके नियमानुसार लये हुए चारसंयोगी प्रस्तारोंकी शलाका-
ओंका प्रमाण २१० है । तथा पांचसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं २५२, छसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं
२१०, सातसंयोगी प्रस्तार शलाकाएं १२०, आठसंयोगी प्रस्तारशलाकाएं ४५, नौसंयोगी
प्रस्तार शलाकाएं १० और दस संयोगी प्रस्तार शलाका १ होती है ।

§ ३४४. एवं विहाणेणुप्पाइदपत्थारसलागाओ अस्सिदण तेसिं पत्थाराणमुच्चारण-
सलागाणयणट्टमेमा अजा—

‘सूत्रानीतविकल्पेष्वेकविकल्पान् द्विकेन संगुणयेत् ।

द्वयादिविकल्पान् भाज्यान् द्विगुणद्विगुणेन तेनैव ॥६॥’

§ ३४५. एदिस्से अत्थो वुच्चदे । तद्यथा—‘रूपोत्तरपददृद्ध’ इति सूत्रम् । एतेन
सूत्रेण आनीतविकल्पाः १०, ४५, १२०, २१०, २५२, २१०, १२०, ४५, १०, १,
एतेषु विकल्पेषु ‘एकविकल्पान्’ एकसंयोगविकल्पान् ‘द्विकेन’ द्वाभ्यां रूपाभ्यां
‘गुणयेत्’ ताडयेत् । कुतः ? एकसंयोगे एकबहुवचनभेदेन द्वयोरेव भंगयोस्समुत्पत्तेः ।
‘द्वयादिविकल्पान्’ द्विसंयोगादिप्रस्तारविकल्पान् ‘भाज्यान्’ भाज्यस्थानसम्बन्धिनः
‘तेनैव’ ताभ्यां द्वाभ्यामेव रूपाभ्यां गुणयेत् । कीदृचाभ्यां ‘द्विगुणद्विगुणेन’
द्विगुणद्विगुणाभ्यां । एवं गणयित्वा एकत्र कृते सति सर्वोच्चारणसङ्ख्योत्पद्यते । २,
४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, २५६, ५१२, १०२४, एते गुणकाराः । कुतः,
द्विगुणद्विगुणक्रमेणोच्चारणशलाकात्पत्तेः । एतैर्गुण्यमानराशिषु गुणितेषु समुत्पन्नोच्चा-

§ ३४४. इसप्रकार विधिपूर्वक उत्पन्नकी हुई प्रस्तार शलाकाओंका आश्रय लेकर उन
प्रस्तारोंके आलापोंकी शलाकाओंके लानेके लिये यह निम्नलिखित आर्या है—

‘रूपोत्तरपददृद्धः’ इत्यादि सूत्रके अनुसार लाये गये प्रस्तार विकल्पोंमें एकसंयोगी
प्रस्तार विकल्पोंको दोसे गुणित करे । तथा द्विसंयोगी आदि भजनीय प्रस्तार विकल्पोंको
उत्तरोत्तर दुगुने दुगुने उसी दोसे गुणा करे । ऐसा करनेसे आलापोंके सब भंग आ
जाते हैं ॥ ६ ॥’

§ ३४५. अब इस आर्याका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— पूर्वोक्त आर्यामें आये
हुए ‘सूत्र’ पदसे ‘रूपोत्तरपददृद्धः’ इत्यादि सूत्र लिया गया है । इस सूत्रसे लाये हुए एक
संयोगी आदि प्रस्तारोंकी शलाकाएँ क्रमसे १०, ४५, १२०, २१०, २५२, २१०, १२०, ४५,
१० और १ होती हैं । इन प्रस्तार शलाकाओंमेंसे एकसंयोगी शलाकाओंको दोसे गुणित
करे, क्योंकि एकसंयोगीके एक वचन और बहुवचनके भेदसे दो ही भंग होते हैं । तथा
भाज्य अर्थात् भजनीय स्थानसम्बन्धी द्विसंयोगी आदि प्रस्तार शलाकाओंको उसी दोसे
गुणित करे । पर द्विसंयोगी आदि प्रस्तार शलाकाओंको दोसे गुणा करते समय वह दो
उत्तरोत्तर दूना दूना होना चाहिये । इसप्रकार गिनती करके एकत्र करनेपर सभी
आलापोंकी संख्या उत्पन्न होती है । दोको इसप्रकार दूना दूना करनेपर एकसंयोगी आदि
प्रस्तार शलाकाओंके क्रमसे २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, २५६, ५१२ और १०२४
के गुणकार होते हैं, क्योंकि आलाप शलाकाएँ उत्तरोत्तर दूने दूनेके क्रमसे उत्पन्न होती हैं ।
इन गुणकारोंके द्वारा गुण्यमानराशि १०, ४५, १२०, २१०, २५२, २१०, १२०,

रणभंगाः पृथक् पृथगेते भवन्ति-२०, १८०, ६६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, १५३६०, ११५२०, ५१२०, १०२४। एतेषां सर्वेषां भंगानां मानः इयान् भवति ५६०४८। ध्रुवे प्रचिप्ते सति इयती सङ्ख्या ५६०४६। एवं मणुस्सतियस्स। णवरि, मणुस्सिणीसु भयणिज्जपदाणि णव होंति पंचण्हमभावादो।

§ ३४६. पंचिदिय-पंचि० पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-

४५, १० और १ को क्रमसे गुणित करनेपर सभी आलाप भंग अलग अलग २०, १८०, ६६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, १५३६०, ११५२०, ५१२० और १०२४ उत्पन्न होते हैं। इन सब भंगोंका प्रमाण ५६०४८ होता है। इसराशिमें एक ध्रुव भंगके मिला देने पर कुल जोड़ ५६०४६ होता है।

इसीप्रकार सामान्य, तथा पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यणियोंके समझना चाहिये। अर्थात् इनके ऊपर कहे गये विभक्तिस्थान सम्बन्धी सभी भंग होते हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यणियोंमें भजनीय पद नौ होते हैं। क्योंकि उनके पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता।

विशेषार्थ-ऊपर भजनीय पद दस कहे आये हैं। वे दसों पद सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यके पाये जाते हैं। अतः इन दसों भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले समग्र ५६०४८ भंग सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव हैं। तथा अट्टाईस आदि विभक्तिस्थान सम्बन्धी एक ध्रुवपद भी इन दोनों प्रकारके मनुष्योंके निरन्तर पाया जाता है, अतः ओघ प्ररूपणामें कुल भंग जो ५६०४६ कहे हैं वे सभी सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंके सम्भव हैं, इसलिये इनकी प्ररूपणा ओघ प्ररूपणाके समान है। परन्तु मनुष्यणियोंके दस भजनीय पदोंमें पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है, अतः उनके २३, २२, १३, १२, ११, ४, ३, २ और १ ये नौ भजनीय पद जानना चाहिये। जिनके एकमंयोगीमे लेकर नौभंयोगी तक प्रस्तारविकल्प क्रमशः ६, ३६, ८४, १२६, १२६, ८४, ३६, ६ और १ होंगे। तथा आलाप भंग २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, २५६ और ५१२ होंगे। इन ६ आदि प्रस्तार विकल्पोंको २ आदि आलाप भंगोंसे क्रमशः गुणित कर देनेपर एक मंयोगी आदि भंगोंका प्रमाण १८, १४४, ६७, २०१६, ४०३२, ५३७६, ४६०८, २३०४ और ५१२ होगा। जिनका कुल जोड़ १६६८२ होता है। ये अध्रुव भंग हैं। इनमें ध्रुव भंगके मिला देने पर मनुष्यणियोंमें कुल भंगोंका प्रमाण १६६८३ होगा। तेईस विभक्तिस्थानके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और एक ध्रुव भंग इसप्रकार इन तीन भंगोंको उत्तरोत्तर आठ बार तिगुना तिगुना करनेसे भी सब भंगोंका प्रमाण १६६८३ आ जाता है।

§ ३४६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी,

(१) -षां... (बु० ४) मा-स०। -षां गुण्यमा-अ०, आ०।

ओरालि०-इत्थि०-पुरिम०-णवुंस०-चत्तारिक०-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-तेउ०-पम्म०-सुक्क०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारिचि मूलोघभंगो । णवरि इत्थि०-पुरिम०-णवुंस०-संजदासंजद-असंजद-तेउ०-पम्म०-चत्तारि कसायाण भयणिजपदपमाणं णादूण भंगा उप्पादेदव्वा ।

§ ३४७. आदेसेण गिरयगईए णेरईएसु अट्टावीस-सत्तावीस-लुब्बीम-चउवीस-एक्का-योगी, औदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संझी और आहारी जीवोंके मूलोघके समान भंग जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, संयतासंयत, असंयत, तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और क्रोधादि चारों कषायवाले जीवोंके भजनीय पदोंका प्रमाण जानकर उनके भंग उत्पन्न करना चाहिये ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रम, त्रसपर्याप्त, पांचो मनायोगी, पांचों वचन-योगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ल लेश्यावाले, भव्य, संझी और आहारक जीवोंके ध्रुव अट्टाईस आदि और भजनीय तेईस आदि सभी पद पाये जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर कहे गये ५६०४६ ये सभी भंग सम्भव हैं । स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवके ध्रुवपद तो सभी पाये जाते हैं पर भजनीय पदोंमें तेईस, बाईस, तेरह और बारह ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं, अतः इन दोनों वेदवालोंके भजनीय पदसम्बन्धी ८० भंग और १ ध्रुवभंग इसप्रकार कुल ८१ भंग सम्भव हैं । पुरुषवेदीके ध्रुवपद सभी पाये जाते हैं और भजनीय पदोंमें तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, और पांच ये छह विभक्तिस्थान पाये जाते हैं । अतः पुरुषवेदी जीवोंके भजनीय पदसम्बन्धी ७२८ भंग और १ ध्रुवभंग इसप्रकार कुल ७२९ भंग सम्भव हैं । असंयत, तेजोलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके ध्रुवपद सभी पाये जाते हैं और भजनीयपदोंमें तेईस और बाईस ये दो पद ही पाये जाते हैं, अतः इनके भजनीय पदसम्बन्धी ८ भंग और १ ध्रुवभंग इसप्रकार ९ भंग सम्भव हैं । क्रोधादि चारों कषायवाले जीवोंके ध्रुवपद सभी पाये जाते हैं और अध्रुव पद क्रोधकषायवालोंके तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार ये सात पद, मानकषायवाले जीवोंके इन सात पदोंमें तीन विभक्तिस्थानके मिला देनेसे आठ पद, मायाकषायवाले जीवोंके इन आठ पदोंमें दो विभक्तिस्थानके मिला देनेपर नौ पद और लोभकषायवालोंके इन नौ पदोंमें एक विभक्तिस्थानके मिला देनेपर दस पद पाये जाते हैं, अतः इन क्रोधादि कषायवाले जीवोंके क्रमशः २१८७, ६५६१, १६६८३ और ५६०४६ भंग सम्भव हैं ।

§ ३४७. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, लुब्बीस, चौबीस, और इक्कीस विभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव

वीसविहत्तिया णियमा अत्थि । वावीसविहत्तिया भयाणिजा । सिया एदे च वावीसविहत्तियो च १, सिया एदे च वावीसविहत्तिया च २ । ध्रुवे पक्खित्ते तिण्णिभंगा ३ । एवं पढमपुढवि०-तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्ज०-काउलेस्सा-देव-सोहम्मादि जाव सव्वहसिद्धे त्ति । णवरि णवाणुदिस-पंचाणुत्तरेसु सत्तावीस-छब्बीसविहत्तिया णत्थि ।

§ ३४८. विदियादि जाव सत्तामि त्ति अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउषीस-विहत्तिया णियमा अत्थि । एवं जोणिणी-भवण०-वाण०-जोदिसि० वत्तवं । पंचि० तिरी० अपञ्जत्तएसु अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीसविहत्तिया णियमा अत्थि । एवं सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदियअपञ्ज०-पंचकाय०-तम अपञ्ज०-वेउच्चिय०-भजनीय हैं । अतः बाईस विभक्तिस्थानकी अपेक्षा दो भंग होंगे । १—कदाचित् ये अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । २—कदाचित् ये अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । इन दो भङ्गोंमें एक ध्रुव भङ्गके मिला देनेपर नारकियोंमें तीन भङ्ग होते हैं । इसी प्रकार पइली पृथिवीके जीवोंके तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और कापोतलेइयावाले जीवोंके तथा सामान्य देवोंके और सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरवासी देवोंमें सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते ।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोंके जो तीन भङ्ग बताये हैं वे ही तीनों भङ्ग उपर्युक्त सभी जीवोंके सम्भव हैं; क्योंकि सामान्य नारकियोंके ध्रुव और भजनीय जो विभक्तिस्थान पाये जाते हैं वे सभी इन उपर्युक्त जीवोंके पाये जाते हैं । यद्यपि नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरवासी देवोंके सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान नहीं बतलाये हैं फिर भी इन स्थानोंके न होनेसे भङ्गोंकी संख्यामें कोई अन्तर नहीं पडता है, क्योंकि इन देवोंके अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस इन तीन ध्रुव पदोंकी अपेक्षा एक ध्रुवभङ्ग हो जाता है ।

§ ३४८. दूसरी पृथिवीसे लेकर मातवी पृथिवी तक नारकियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे होते हैं । अतः यहाँ 'अट्टाईस आदि चार विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा नियमसे होते हैं' यही एक ध्रुवभङ्ग पाया जाता है । इसी प्रकार तिर्यंच योनिमती जीवोंमें तथा भवनवामी, व्यन्तर और उद्योतिपी देवोंमें उक्त अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक ध्रुवभङ्ग कहना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे होते हैं । अतः इनमें 'अट्टाईस आदि तीन विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा नियमसे होते हैं' यही एक ध्रुवभङ्ग पाया जाता है । इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावरकाय, त्रस लब्धपर्याप्त, वैकिक

मदिसुदअण्णाण-विहंग-किण्ह०-णील०-मिच्छा०-असण्णि चि वत्तव्वं । णवरि वेउव्विय०-किण्ह०-णील० चउवीस-एक्कीसविहत्तिया णियमा अत्थि । मणुस्सअपज्जत्तएसु सव्वपदा मयाणिजा । एवं वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-अवगद०-अकसाय०-सुद्धुमसांपराय०- जहाक्खाद०-उवसमसम्मत्त-मम्मामि० वत्तव्वं ।

काययोगी, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले. मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक ध्रुवभङ्ग कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी, कृष्णलेश्यावाले और नीललेश्यावाले जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले जीव भी नियमसे होते हैं ।

लब्धपर्याप्त मनुष्योंमें सभी पद भजनीय हैं । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यात संयत इन तीन स्थानोंको छोड़कर शेष सात मार्गणाएं सान्तर हैं । इन मार्गणाओंमें कभी एक और कभी अनेक जीव होते हैं । तथा कभी इनमें जीवोंका अभाव भी रहता है । शेष तीन अपगतवेदी आदि मार्गणाएं यद्यपि सान्तर तो नहीं हैं क्योंकि वेदरहित, कषायरहित और यथाख्यात संयत जीव लोकमें सर्वदा पाये जाते हैं । फिर भी मोहनीयकी सत्तासे युक्त इन मार्गणाओंवाले जीव कभी बिलकुल नहीं होते हैं, कभी एक होता है और कभी अनेक होते हैं, अतः इस अपेक्षा से ये तीन मार्गणाएं भी सान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये । इसप्रकार इन उपर्युक्त दस मार्गणाओंके सान्तर सिद्ध होजानेपर इनमें संभव सभी पद भजनीय ही होंगे । लब्धपर्याप्तक मनुष्योंके अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प सात और उच्चारणाविकल्प अर्थात् भंग छब्बीस होंगे । वैक्रियिक मिश्र काययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, बार्डस और इक्कीस ये छह स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प ६३ और भंग ७२८ होंगे । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प सात और भंग २८ होंगे । अपगतवेदी जीवोंके २४, २१, ११, ५, ४, ३, २ और १ ये आठ स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प २५५ और भंग ६५६० होंगे । कषायरहित जीवोंके और यथाख्यात-संयतोंके २४ और २१ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ३ और भंग ८ होंगे । सूक्ष्मसांपराय संयतोंके २४, २१ और १ ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर प्रस्तारविकल्प ७ और भंग २८ होंगे । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें २८ और २४ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तार

§ ३४६. ओरालियमिस्स० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस० गियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजा । कम्मइय० छब्बीस० गियमा अत्थि सेसपदा भयणिजा । एवमणा-हारं० । आभिणि०-सुद०-ओहि० अट्टावीस-चउवीस-एक्कीसविह० गियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजा । एवं मणपज्जव०-संजद-सामाइयच्छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंस०-सम्मादिट्ठि-वेदय० वत्तव्वं । णवरि वेदय० इग्गिवीसं गत्थि । अब्भवसिद्धि० छब्बीसविह० गियमा अत्थि । खयिगे एक्कीसविह० गियमा अत्थि । सेसपदा विकल्प ३ और भंग ८ होंगे । मासादन सम्यग्दृष्टि स्थान भी सान्तर मार्गणा है पर उसके भंग आगे चल कर स्वतन्त्र गिनाये हैं, अतः यहां उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा है ।

§ ३४६. औदारिकमिश्र काययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानके धारक जीव नियमसे हैं । शेष स्थान भजनीय हैं । कर्मण काययोगमें छब्बीस विभक्तिस्थान नियमसे है, शेष स्थान भजनीय हैं । इसीप्रकार अनाहारक काययोगियोंमें समझना चाहिये ।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्र काययोगियोंमें २८, २७, २६, २४, २२ और २१ ये छह स्थान पाये जाते हैं । इनमेंसे २८, २७ और २६ स्थानके धारक उक्त जीव सर्वदा रहते हैं, अतः इन तीन स्थानोंकी अपेक्षा एक एक ध्रुवभंग होगा । शेष २४, २२ और २१ ये तीन स्थान भजनीय हैं । अतः इनकी अपेक्षा प्रस्तार विकल्प ७ और भंग २८ होंगे इसप्रकार प्रस्तार विकल्प ७ और कुल भंग २६ होंगे ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान नियमसे हैं । शेष स्थान भजनीय हैं । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धि संयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यग्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं होता है ।

विशेषार्थ—मतिज्ञानी आदि जीवोंके सत्ताईस और छब्बीसके सिवा मोहनीयके सभी स्थान पाये जाते हैं, अतः उनके भजनीय २३ आदि दसों विभक्तिस्थानोंके प्रस्तार विकल्प १०२३ और ध्रुव तथा अध्रुव सभी भंग ४६०४६ पाये जाते हैं । परिहारविशुद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंके २८, २४, २३, २२ और २१ ये पांच स्थान तथा वेदक सम्यग्दृष्टियोंके २१ विभक्तिस्थानके विना शेष चार स्थान पाये जाते हैं । इनमेंसे २३ और २२ विभक्तिस्थान तीनों मार्गणाओंमें भजनीय हैं, अतः इन तीनोंमेंसे प्रत्येक मार्गणामें ३ प्रस्तार विकल्प और ६ भंग होते हैं । इनमें एक ध्रुवभंग भी सम्मिलित है ।

अभव्य जीवोंके नियमसे छब्बीस विभक्तिस्थान पाया जाता है । क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके इक्कीस विभक्तिस्थान नियमसे है । तथा शेष २३ आदि ८ स्थान भजनीय हैं ।

भयणिजा । सासण० सिया अट्टावीसविहत्तिया सिया अट्टावीसविहत्तिओ ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

* सेसाणिओगद्वाराणि णेदच्चाणि ।

§ ३२०. कुदो ? सुगमत्तादो । संपहि चुण्णिणसुणेण सच्चिदाणमुच्चारणामस्सिदृण सेसाहियारणं परूवणं कस्सामो ।

§ ३२१. भागाभागानुगमेण दुबिहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण छब्बीसविह० सच्चजीवाणं केवडिओ भागो । अणंता भागा । सेसपदा सच्चजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । एवं तिरिक्ख-सच्चएइंदिय-वणप्फदि-णिगोद०-कायजोगि०-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवुंस०-चत्तारिक०-मदि-सुद-अण्णाण-असंजद-अचक्खु०-तिणिलेस्सा-भवसिद्धि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारिचि वचच्वं ।

सासादन सम्यग्दृष्टिओंमें कदाचित् २८ विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं और कदाचित् अट्टाईस विभक्तिस्थान वाला एक जीव होता है ।

विशेषार्थ—अभव्योंक २६ विभक्तिस्थानको छोड़कर और दूसरा कोई स्थान नहीं पाया जाता है तथा अभव्यराशि ध्रुव है । इसलिये यहां एक ही भंग संभव है । क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान ध्रुव है शेष ८ स्थान भजनीय हैं, अतः यहां प्रस्तार विकल्प २५५ और ध्रुव तथा अध्रुव दोनों प्रकारके भंग ६५६१ होंगे । सासादन सान्तर मार्गणा है । अतः यहां २८ स्थानका अपेक्षा भी २ भंग होंगे ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

* भागाभाग, परिमाण आदि शेष अनुयोगद्वार जान लेने चाहियें ।

§ ३५०. शङ्का—यहां शेष अनुयोगद्वारोंका कथन न करके सूचनामात्र क्यों की है ?

समाधान—क्योंकि वे सुगम हैं, अतः चूर्णिसूत्रकारने उनकी सूचनामात्र की है ।

अब चूर्णिसूत्रके द्वारा सूचित किये गये भागाभाग आदि शेष अनुयोगद्वारोंका उच्चारणका आश्रय लेकर कथन करते हैं—

§ ३५१. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । चनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । इसीप्रकार सामान्य तिथंच, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोदकायिक, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, चारों कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंचत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेश्याओंमें प्रत्येक लेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक इनके भी भागाभाग

§ ३५२. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु छ्वीसविहत्तिया सव्वजीवाणं केव० ? असंखेज्जा भागा । सेसपदा सव्वजीव० केव० ? असंखे० भागो । एवं सव्वणेरइय-सव्व-पंचिदिय तिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्स अपज्ज०-देव०-भवणादि जाव सहस्सारे त्ति-सव्व-विगल्लिदिय-पंचिदिय-पंचि०-पज्ज०-पंचि० अपज्ज०-चत्तारिकाय०-तस-तसपज्ज०-तस-अपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्विय०-वेउ० मिम्म०-इत्थि०-पुरिस०-विहंग०-चक्खु०-तेउ०-पम्म०-सण्णि त्ति वत्तव्वं । मणुस्सपज्ज०-मणुस्सिणीसु छ्वीसविह० सव्वजीवाणं के० भागो ? संखेज्जा भागा । सेसपदा संखे० भागो । आणदादि जाव उवरिमगेवज्जेत्ति अट्ठावीसविह० सव्वजीवाणं के० भागो ? संखेज्जा भागा । छ्वीस-चउवीस-एक्कवीसविह० संखेज्जादि भागो । वावीस-सत्तावीसविह० असंखेज्जादि भागो । अणुदिसादि जाव अवराइद त्ति अट्ठावीसविह० सव्वजीवाणं के० भागो ? संखेज्जा भागा । सेसपदा संखेज्जादि भागो । वावीसवि० असंखे० भागो ।

ओधप्ररूपणाके समान जानत्ता चाहिये । तात्पर्य यह है इन उक्त मार्गणाओंमें छ्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं और शेष विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । अतः इनके कथनको ओघके समान कहा है ।

§ ३५२. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें छ्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सभी जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? असंख्यातवे भाग हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, सभी पंचेन्द्रियतियंघ, सामान्य मनुष्य, लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सामान्य देव तथा भवनवासी देवोंमें लेकर सहस्वार कल्प तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, त्रस, त्रसपर्याप्त, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके मनोयोगी, पांचों प्रकारके वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकभिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहियं ।

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियोंमें छ्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । तथा शेष स्थानवाले संख्यातवें भाग हैं ? आनत करूपसे लेकर उपरिम प्रैवेधिक तक अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । छ्वीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । तथा बाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । अनुदिरासे लेकर अपराजित तक प्रत्येक स्थानके अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं ।

§ ३५३. सव्वट्टे अट्ठावीस० सव्वजीवाणं के० ? संखेज्जा भागा । सेसपदा संखेज्जदि भागो । एवमाहार०-आहारमिस्स०-मणपज्ज०-संजद०-सामाह्य-छेदो०-परिहार० वत्तव्वं । अवगदवेद० चउण्हं वि०सव्वजीवाणं के० ? संखेज्जा भागा । सेसप० संखे० भागो । अकसाय० चउवीस० सव्वजीवाणं के० ? संखेज्जा भागा । सेसप० संखे० भागो । एवं जहाक्खाद० । आभिणि०-सुद-ओहि० अट्ठावीसविह० सव्वजीवाणं के० ? असंखेज्जा भागा । सेसपदा असंखे० भागो । एवं संजदासंजद० ओहिदंसण०-सम्मादि०-वेदग०-उवसम०-सम्मामिच्छाइट्ठि ति वत्तव्वं । सुहुमसांपराय० एकविह० सव्वजीवाणं के० ? संखेज्जा भागा । सेसप० संखे० भागो । सुक्क० अट्ठावीस० के० ? संखेज्जा भागा । छव्वीस-चउवीस-एक्कीस० संखे० भागो । सेसप० असंखे० भागो । अभव्वसिद्धि०-सासण० णत्थि भागाभागो । खइए एकवीसविह० सव्वजीवाणं के० ?

§ ३५३. सर्वार्थसिद्धिमें अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहु भाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । इसीप्रकार आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये ।

अपगतवेदवालोंमें चार विभक्तिस्थानवाले जीव सब अपगतवेदी जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले संख्यातवे भाग हैं । कषायरहित जीवोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब कषायरहित जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवे भाग हैं । इसीप्रकार यथाख्यात-संयतोंके जानना चाहिये ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अबधिज्ञानी जीवोंमें अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव उक्त सब जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवे भाग हैं । इसीप्रकार संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये ।

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सब सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । शुक्ललेइयावालोंमें अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । छव्वीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । अभव्य और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें विभक्तिस्थानसम्बन्धी भागाभाग नहीं पाया जाता है । ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात

असंखेज्जा भागा । सेसप० असंखेज्जदिभागो ।

एवं भागाभागो समत्तो ।

§ ३५४. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिद्दसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठावीस-सत्तावीस-चउवीस-एक्कवीसवि० केत्तिया ? असंखेज्जा । छव्वीमवि० के० ? अणंता । सेसट्ठाणविहत्तिया केत्तिया ? संखेज्जा । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरा-लिय०-णवुंसय०-चत्तारिक्क०-असंजद०-अचक्खु०-भवमि०-आहारि त्ति वत्तव्वं ।

§ ३५५. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक्क-वीसवि० केत्ति० ? असंखेज्जा । वावीसविह० के० ? संखेज्जा । एवं पढमपुढवि०-पांचिंदिय तिरिक्ख- पांचि०तिरि०पज्ज०-देव-मोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेवज्जे त्ति । विदि-बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं ।

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ३५४. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्ठाईस, सत्ताईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार तिर्यंच सामान्य, काय-योगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—ओघसे जिस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह तिर्यंच सामान्य आदि मार्गणाओंमें भी बन जाती है । यद्यपि विविध मार्गणाओंमें संख्या बट जाती है अतः ओघप्ररूपणासे आदेश प्ररूपणामें अन्तर पड़ना संभव है फिर भी अनन्तत्व सामान्य आदिको उक्त मार्गणास्थानवाले जीव उम उम विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याकी अपेक्षा उल्लंघन नहीं करते हैं अतः इनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है । किन्तु इतनी विशेषता है कि तिर्यंच सामान्य आदि मार्गणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान पाये जाते हैं यह बात स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जानकर ही कथन करना चाहिये, क्योंकि उक्त सब मार्गणाओंमें सब विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं ।

§ ३५५. आदेशकी अपेक्षा नगकगतमें नारकियोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । बाईम विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार पहली पृथ्वीके नारकी, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म स्वर्गसे लेकर नौप्रवेयक तकके देवोंकी संख्या कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है ।

यादि जाव सत्तमि ति सव्वपदा केचिया ? असंखेज्जा । एवं पंचिं०तिरि०जोणिणी-
पंचिं०तिरि० अपज्ज ० -मणुसअपज्ज ० -भवण ०-वाण ०-जोदिसि ० -सव्वविगल्लिंदिय-
पंचिंदियअपज्ज ०-चत्तारिकाय-बादर-सुहुम पज्ज ० अपज्ज ०-तस अपज्ज ०- विहंग ०
वत्तव्वं ।

§ ३५६. मणुसगईए मणुस्सेसु अट्टावीम-सत्तावीस-छुव्वीसविह केत्ति ० ? असं-
खेज्जा । सेसपद ० संखेज्जा ० । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपदा के ० ? संखे-
ज्जा । एवं सव्वट्ट ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगद ०-अकमा ०-मणपज्ज ०-संजद ०-
समाइयल्लेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ० वत्तव्वं ।

अतः इनमें २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता है । पर २२ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होंगे; क्योंकि सामान्य बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण अमंख्यात नहीं होता । अतः मार्गणाविशेषमें उनका असंख्यातप्रमाण किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है ।

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें स्थित अट्टाईस आदि संभव सभी विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त, मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त, बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त, और अपर्याप्त चारों प्रकारके पृथिवी आदि कायवाले, त्रस लब्ध्यपर्याप्त और विभङ्गज्ञानी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—ज्योतिषी देवों तक ऊपर जितनी मार्गणां गिनाई हैं उनमें २८, २७, २६ और २४ ये चार विभक्तिस्थान पाये जाते हैं किन्तु शेष विकलेन्द्रिय आदि मार्गणाओंमें २८, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । तथा इन सभी मार्गणाओंमें प्रत्येक मार्गणावाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां उक्त प्रत्येक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता है ।

§ ३५६. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छुव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव तथा आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेद्रोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म-सांपरायसंयत और यथाख्यात संयत जीवोंकी संख्या कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान होते हैं, इसका उल्लेख पहले कर आये हैं । यहां इन मार्गणास्थानवर्ती जीवोंकी संख्या पर्याप्त मनुष्य और

§ ३५७. अणुदिसादि जाव अवाइद ति वावीसविह० केत्ति० ? संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । एइंदिय-बादरेइंदिय-सुहमेइंदिय० अट्टावीस-सत्तावीसविह० केत्तिया ? असंखेज्जा । छवीमविह० के० ? अणंता । एवं वणप्फदि०-णिगोद०-पज्ज० अपज्ज-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छादि०-असण्णि ति वत्तव्वं । पांचिंदिय-पांचि-दियपज्ज०-तस-तमपज्ज० अट्टावीस-मत्तावीस-[छवीम] विह० चउवीसविह० एक-वीमविह० केत्तिया ? असंखेज्जा । सेमप० संखेज्जा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खु०-मण्णि ति वत्तव्वं ।

मनुष्यनीकी संख्याके साथ संख्यात सामान्यकी अपेक्षा समान है यह दिखानेके लिये 'एवं मब्बट्ट०' इत्यादि कहा है ।

§ ३५७. नौ अनुदिशोंसे लेकर अपराजिततक प्रत्येक स्थानमें बाईस विभक्तिस्थानवाले देव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले देव असंख्यात हैं ।

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छवीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार वनस्पतिकायिक, पर्याप्त वनस्पतिकायिक, अपर्याप्त वनस्पतिकायिक, निगोद, पर्याप्त निगोद, अपर्याप्त निगोद, भतिअज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिध्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—२८ और २७ विभक्तिस्थानवाले वे ही जीव होते हैं जिन्होंने कभी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया हो अतः इनका प्रमाण असंख्यात ही होगा । पर २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंमें सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिसे रहित सभी मिध्यादृष्टियोंका ग्रहण हो जाता है अतः इनका प्रमाण अनन्त होगा । इसी अपेक्षासे उपर्युक्त अनन्त संख्यावाली मार्गणाओंमें २८ और २७ विभक्तिस्थान वालोंका प्रमाण असंख्यात और २६ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण अनन्त कहा है ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम और त्रमपर्याप्त जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छवीस चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुष वेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंकी संख्या कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणाओंमें सभी स्थान सम्भव हैं पर जिन विभक्तिस्थानोंमें रहनेवाले उक्त जीव असंख्यात होते हैं ऐसे विभक्तिस्थान २८, २७, २६, २४, और २१ ही हो सकते हैं । अतः इन विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय आदिका प्रमाण असंख्यात कहा है । तथा इनसे अतिरिक्त शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वत्र संख्यात ही होते हैं । अतः उनका प्रमाण संख्यात ही कहा है ।

§ ३५८. ओरालियमिस्म० अट्टावीस-सत्तावीसविह० केत्ति० ? असंखेज्जा । छुब्बीसविह० के० ? अणंता । वावीस-एक्कीस-चउवीसविह०के० ? संखेज्जा । एवं कम्मइय० । णवरि चउवीस० असंखेज्जा । एवमणाहार० । एवं वेउत्विमिस्स० । णवरि छुब्बीस० असंखेज्जा । वेउत्विमिस्स० मव्वपदा० असंखेज्जा । इत्थि० पंचिदिय-भंगो । णवरि एक्कीस० केत्तिया ? संखेज्जा । आभिणि०-सुद-ओहि० अट्टावीस-चउवीस-एक्कीसविह० के० । असंखेज्जा । सेमप० संखेज्जा । एवं ओहिदंस०-सम्मा-इट्ठि०-वेदयसम्माइट्ठि ति वत्तव्वं । णवरि वेदयसम्माइट्ठिसु इगिवीसादिपदं णत्थि ।

§ ३५८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । बाईस, इक्कीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार कामेणकाययोगी जीवोंकी संख्या जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि कामेणकाययोगी चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । इमीप्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये । तथा इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये । पर यहां इनकी विशेषता है कि छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं ।

विशेषार्थ—जो कृतकृत्यवेदक मय्यग्गट्ठि या क्षायिक मय्यग्गट्ठि मनुष्य भोगभूमिके तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । जो क्षायिक मय्यग्गट्ठि देव या नागकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । तथा जो वेदक मय्यग्गट्ठि देव और नागकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके चौबीस विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । अतः औदारिकमिश्रकाययोगमें इन तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम है ।

वैक्रियिककाययोगियोंमें सभी सम्भव विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । स्त्रीवेदियोंमें सम्भव अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । इनकी विशेषता है कि स्त्रीवेदी इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदके रहते हुए मनुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं अतः इनका प्रमाण संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अवधिदर्शनी, मय्यग्गट्ठि और वेदकमय्यग्गट्ठि जीवोंमें संख्या कहना चाहिये । इनकी विशेषता है कि वेदकमय्यग्गट्ठि जीवोंके इक्कीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हैं ।

§ ३५६. मंजदामंजद० अट्टावीमविह० चउवीमविह० केव० ? असंखेज्जा । सेमप० संखेज्जा । काउ० तिग्गिखोघभंगो । किण्ह० णील० एवं चेव । णवरि एक-वीसविह० के० ? संखेज्जा । तेउ० पम्म० सुक्क० पंचिदियभंगो । अभव्वसिद्धि० छुब्बीसवि० केत्ति० ? अणंता । खइए० एकवीसविह० के० असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । उवममे अट्टावीम-चउवीमवि० के० ? असंखेज्जा । सासण० अट्टावीस-वि० अमंखेज्जा । मम्मामि० अट्टावीम-चउवीस० के० ? अमंखेज्जा ।

एवं परिमाणं ममत्तं ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणाओंमें २७ और २६ विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं क्योंकि वे मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं । शेष सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यग्दृष्टियोंके २८, २४, २३ और २२ ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । अतः उपर्युक्त मार्गणाओंमें जहां जितने स्थान पाये जाते हैं उन स्थानवाले जीवोंकी संख्या ओघके समान बन जाती है ।

§ ३५६. संयतासंयत जीवोंमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले जीव संख्यात हैं । कापोत लेश्यामें ओषतिर्चके समान जानना चाहिये । कृष्ण और नील लेश्यामें इसीप्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यामें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यामें पंचन्द्रियोंके समान जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—संयतासंयत गुणस्थानमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले तिर्च भी होते हैं अतः इन दो स्थानवाले संयतासंयतोका प्रमाण असंख्यात बन जाता है । तथा शेष स्थानवाले मनुष्य ही होते हैं अतः उनकी अपेक्षा संयतासंयतोका प्रमाण संख्यात ही होगा । छोटी लेश्यावालोंमें किसके कितने स्थान एकसं किम गतिकी अपेक्षा संभव है यह बात स्वामित्व अनुयोगद्वारासे जान लेना चाहिये । उससे किस लेश्यामें किस स्थानवाले जीव कितने सम्भव हैं इसका भी आभास मिलजाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया ही है ।

अभव्योंमें छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अपनेमें संभव शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । उपशम सम्यक्त्वमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सासादनसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यात्वमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—सभी अभव्य छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले ही होते हैं और उनका प्रमाण अनन्त है, अतः अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण अनन्त कहा है । यद्यपि छह

§ ३५८. ओरालियमिस्म० अट्टावीस-सत्तावीसविह० केत्ति० ? असंखेज्जा । छब्बीसविह० के० ? अणंता । वावीस-एक्कीस-चउवीसविह०के० ? संखेज्जा । एवं कम्मइय० । णवरि चउवीस० असंखेज्जा । एवमणाहार० । एवं वेउच्चियमिस्स० । णवरि छब्बीस० असंखेज्जा । वेउच्चिय० मव्वपदा० असंखेज्जा । इत्थि० पंचिदिय-भंगो । णवरि एक्कीम० केत्तिया ? संखेज्जा । आभिणि०-सुद-ओहि० अट्टावीस-चउवीस-एक्कीसविह० के० । असंखेज्जा । सेमप० संखेज्जा । एवं ओहिदंस०-सम्मा-इट्ठि०-वेदयसम्माइट्ठि त्ति वत्तव्वं । णवरि वेदयसम्माइट्ठिसु इग्गिवीसादिपदं णत्थि ।

§ ३५८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अट्टाईस और मत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । बाईस, इक्कीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार कामेणकाययोगी जीवोंकी संख्या जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कामेणकाययोगी चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये । तथा इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये । पर यहा इतनी विशेषता है कि छब्बीस विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं ।

विशेषार्थ—जो कृतकृत्यवंदक मम्यग्दृष्टि या क्षायिक मम्यग्दृष्टि मनुष्य भोगभूमिके तिर्यच और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । जो क्षायिक मम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । तथा जो वंदक मम्यग्दृष्टि देव और नारकी मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके चौबीस विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । अतः औदारिकमिश्रकाययोगमें इन तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम है ।

वैक्रियिककाययोगियोंमें सभी सम्भव विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । स्त्रीवेदियोंमें संभव अट्टाईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदके रहते हुए मनुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं अतः इनका प्रमाण संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अवधिदर्शनी, मम्यग्दृष्टि और वेदकमम्यग्दृष्टि जीवोंमें संख्या कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदकमम्यग्दृष्टि जीवोंके इक्कीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हैं ।

§ ३५६. मंजदामंजद० अट्टावीसविह० चउवीसविह० केव० ? असंखेज्जा । सेमप० संखेज्जा । काउ० तिरिक्खोघमंगो । किण्ह० णील० एवं चेव । णवरि एक-
वीसविह० के० ? मंखेज्जा । तेउ० पम्म० सुक्क० पंचिदियमंगो । अभव्वसिद्धि०
छव्वीसवि० केत्ति० ? अणंता । खइए० एकवीसविह० के० असंखेज्जा । सेसपदा
संखेज्जा । उवसमे अट्टावीम-चउवीमवि० के० ? असंखेज्जा । सासण० अट्टावीस-
वि० अभंखेज्जा । सम्मामि० अट्टावीम-चउवीस० के० ? असंखेज्जा ।

एवं परिमाणं ममत्तं ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणाओंमें २७ और २६ विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं क्योंकि वे मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं । शेष सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यग्दृष्टियोंके २८, २४, २३ और २२ ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । अतः उपर्युक्त मार्गणाओंमें जहां जितने स्थान पाये जाते हैं उन स्थानवाले जीवोंकी संख्या ओघके समान बन जाती है ।

§ ३५६. संयतासंयत जी०में अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले जीव संख्यात हैं । कापोत लेइयामें ओघतिर्यंचके समान जानना चाहिये । कृष्ण और नीललंश्यामें इसीप्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लंश्यामें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पीत, पद्म और शुक्ल लंश्यामें पंचन्द्रियोंके समान जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—संयतासंयत गुणस्थानमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले तिर्यंच भी होते हैं अतः इन दो स्थानवाले संयतासंयतोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता है । तथा शेष स्थानवाले मनुष्य ही होते हैं अतः उनकी अपेक्षा संयतासंयतोंका प्रमाण संख्यात ही होगा । छहो लेइयावालोंमें किसके कितने स्थान हैं किम किम गतिकी अपेक्षा संभव है यह बात स्वामित्व अनुयोगद्वारासे जान लेना चाहिये । उससे किस लेइयामें किस स्थानवाले जीव कितने सम्भव हैं इसका भी आनाम मिलजाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया ही है ।

अभव्योंमें छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अपनेमें संभव शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । उपशम सम्यक्त्वमें अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सामादनसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यात्वमें अट्टाईस और चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—सभी अभव्य छव्वीस विभक्तिस्थानवाले ही होते हैं और उनका प्रमाण अनन्त है, अतः अभव्योंमें २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण अनन्त कहा है । यद्यपि छह

§ ३६०. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण लब्बीस-विहत्तिया केवडिए खेत्ते ? सव्वलोगे । सेमप० के० खेत्ते ? लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्खव०-सव्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादर अपज्ज०-सुहुमपज्ज०-अपज्ज०-वणप्फदि०-णिगोद०-वादर सुहुम० पज्ज० अपज्ज०-कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-णवुंस०-चत्तारिक०-मदि-सुदअण्णाण-असंजद०-अचक्खु० माह और आठ समयमें संख्यात जीव ही क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं पर उनका संख्यकाल साधक तेतीस मागर होनेसे २१ विभक्तिस्थानवाले क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता है । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव क्षायिक सम्यग्दृष्टि और मनुष्य ही होते हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा । उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें २८ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात है यह तो स्पष्ट है । किन्तु उपशम सम्यक्त्वमें २४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात उसी मतके अनुसार प्राप्त होगा जो उपशम सम्यक्त्वके कालमें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कवी विसंयोजना मानते हैं । सासादनमें एक अट्टाईस विभक्तिस्थान ही होता है और उनका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां सामादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात कहा है । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण भी असंख्यात है और उनमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव पाये जाते हैं अतः सम्यग्मिध्यात्वमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात कहा है ।

इसप्रकार परिमाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ३६०. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा लब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्वलोकमें रहते हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यच, समी प्रकारके एकेन्द्रिय, पृथिवी-कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादरपृथिवीकायिक, बादरपृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादरवायुकायिक, बादरवायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, बादरवनस्पति, बादरवनस्पति पर्याप्त बादर वनस्पति अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति, सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त, बादर निगोद, बादर निगोदपर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिकमिध्यायोगी

तिणिण्ले०-भवसि०-मिच्छा०-असणिण०-आहारि० अणाहारि चि वत्तव्वं ।

§ ३६१. आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मव्वप० के० खेत्ते ? लोग० असंखे० भागे । एवं सव्वपुटवि०-सव्वपंचिदिय तिरिक्ख-सव्वमणुस्स सव्वदेव-सव्वविगलिंदिय-सव्वपंचिदिय-बादरपुटवि० -आउ० -तेउ० -बादरवणप्फदिपत्तेय-णिगोद-पदिट्ठिदपज्जत्त-तसपज्जत्तापज्जत्त-पंचमण०-पंचवच्चि०-वेउव्विय०-वेउ० मिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-इत्थि०-पुरिस०-अवगद०-अकसा०-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइयछेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद०-संजदासंजद-चक्खु०-ओहिंदंस०-तिणिणसुहलेस्सा०-सम्मादि०-खइय०-वेदग०-उवसम०-सम्माभि०-सणिण चि वत्तव्वं ।

कार्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सर्वलोक और शेष संभव विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—यह परिमाणानुयोगद्वारमें ही बतला आये हैं कि २८, २७, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं, २६ विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । अतः २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक और शेष विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण बन जाता है । ऊपर जितनी मार्गणाणं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार विभक्तिस्थानोंका विचार करके ओषके समान क्षेत्रका कथन कर लेना चाहिये ।

§ ३६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें संभव सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार द्वितीयादि शेष सभी पृथिवियोंमें रहनेवाले नारकी, सभी पंचेन्द्रियतिथंच, सभी मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, अकषायी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, मामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म-सांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अबधिदर्शनी, पीत आदि तीन शुभ लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, और संज्ञीजीवोंमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहना चाहिये । बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें छब्बीस विभक्ति-

बादरबाउ० पञ्ज० छव्वीम० लोग० संखे० भागे । सेसपदागं लोगस्स अमंखे० भागे । अभव्वसिद्धि० छव्वीमविह० के० खंत्ते ? मव्वलोगे । सामण० अट्टावीम० के० खंत्ते ? लोग० अमंखे० भागे ।

एवं खेत्तं समनं ।

§ ३६२. फोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टावीम-मत्तावीस० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोग० अमंखे० भागो, अट्ट-चोइसभागा देसुणा, सव्वलोगो वा । छव्वीस० केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । चउवीम-एक्कवीस० केव० खे० फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-चोइसभागा वा देसुणा । सेसप० खेत्तभंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिकसाय-अचक्खु०-भव्वसिद्धि०-आहारि त्ति वत्तव्वं ।

स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोककं संख्यातवें भागप्रमाण है । तथा इनमें संभव शेष विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र लोककं अमंख्यातवेंभाग प्रमाण है । अभव्योंमें छव्वीस विभक्ति-स्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ? अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले सासा-दन सम्यग्दृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोककं असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ।

विशेषार्थ—बादर वायुकायिक पर्याप्त और अभव्य जीवोंको छोड़ कर ऊपर जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें जितने पद सम्भव हो उनकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवा भागप्रमाण ही क्षेत्र प्राप्त होता है । किन्तु बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें २६ विभक्तिस्थान-वाले जीवोंका क्षेत्र लोकका संख्यातवां भाग प्रमाण होता है तथा अभव्योंमें २६ विभक्ति-स्थान ही होता है और उनका वर्तमान क्षेत्र मव्व लोक है अतः २६ विभक्तिस्थानवाले अभव्योंका वर्तमान क्षेत्र मव्व लोक जानना चाहिये ।

इस प्रकार क्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ३६२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान जानना चाहिये । इसीप्रकार काययोगी, श्रोधादि चारों कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये ।

§ ३६३. आदेशेण णिस्यग्दं णेग्दं एसु अट्टावीम-मत्तावीस-छब्बीसविह० के० खेत्तं फोमिदं ? लोग० अमंस्वे० भागो, छ-चौदहभागो वा देसूणा । सेसपदाणं खेत्त-भंगो । पट्टमाए खेत्तभंगो । विदियादि जाव मत्तमि ति अट्टावीम-मत्तावीम-छब्बीस-वि० के० खेत्तं फोमिदं ? लोग० अमंस्वे० भागो, एक-वे-तिण्ण-चचारि-पंच-छ-चोदहभागो वा देसूणा । चउवीस० खेत्तभंगो ।

विशेषार्थ—यहां ओषकी अपेक्षा २८ और २७ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अतीत कालीन स्पर्श जो त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण कहा है वह देवोंकी मुख्यतासे कहा है; क्योंकि तीन गतिके जीवोंमें देवोंका स्पर्श मुख्य है । तथा सब लोकप्रमाण स्पर्श त्रिचौकी मुख्यतासे कहा है । इसीप्रकार २४ और २१ विभक्ति-स्थानवालोंका अतीत कालीन स्पर्श भी देवोंकी मुख्यतासे कहा है । शेष गतियोंकी अपेक्षा २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श उसमें गर्भित हो जाता है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३६३. आदेशकी अपेक्षा नरकगतियोंमें नारकियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके अमंख्यातवें भाग और कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान जानना चाहिये । पहले नरकमें स्पर्श क्षेत्रके समान है । दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तक अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले नारकियोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके अमंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा दूसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम एक बटे चौदह भाग, तीसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम दो बटे चौदह भाग, चौथे नरककी अपेक्षा कुछ कम तीन बटे चौदह भाग, पांचवें नरककी अपेक्षा कुछ कम चारबटे चौदह भाग, छठे नरककी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौदह भाग और सातवें नरककी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इन द्वितीयादि नरकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंका या प्रत्येक पृथिवीके नारकियोंका जो वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श है वही वहां २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श जानना चाहिये; क्योंकि इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी नारकियोंमें गति और आगतिका प्रमाण अधिक है किन्तु २४ विभक्तिस्थानवाले नारकियोंमें यह बात नहीं है । चौबीस विभक्तिस्थानवाला अन्य गतिका जीव तो नारकियोंमें उत्पन्न होता ही नहीं । हां ऐसा नारकी जीव मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न होता है पर उनका प्रमाण अतः स्वल्प है अतः २४ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सामान्य नारकियोंका और प्रत्येक

§ ३६४. तिरिक्ख० अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० अमंखे० भागो । सव्वलोगो वा । छव्वीस० ओघमंगो । चउवीस० के० खे० फोसिदं ? लोगस्स अमंखे० भागो, छ-चोदसभागा वा देखणा । सेमप०खेत्तमंगो । पंचिदिय-तिरिक्ख-पंचि० तिरि० पज्ज०-पंचि०तिरि०जोणिणीसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस० के० खे० फोसिदं ? लोगस्स असंखेभागो, सव्वलोगो वा । सेमप०तिरिक्खमंगो । णवरि, पंचि० तिरि० जोणिणीसु वावीस-एक्खवीसविहत्तिया णत्थि । पंचि० तिरि० अपज्ज० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसवि० के खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्ज० पंचि० अपज्ज०-तमअपज्ज०-बादर पुढवि०-आउ०-तेउ०-पज्ज० वत्तव्वं । मणुम-मणुमपज्जत्त-मणुसिणीसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस०-नारकियोका वर्तमान व अतीत कालीन स्पर्श लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मनुष्यभी नरकमें उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव पहली पृथिवी तक ही जाते हैं । अतः नारकियोंमें २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका वर्तमान और अतीत कालीन स्पर्श भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है ।

§ ३६४. तिर्यचगतिये तिर्यचोमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और सर्वलोकका स्पर्श किया है । छव्वीस विभक्तिस्थानवालोंका स्पर्श ओघके समान है । चौबीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम छह बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोकक्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श सामान्यतिर्यचोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतियोंमें बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं ।

विशेषार्थ—सामान्य तिर्यचोंके स्पर्शमें शेष पदसे २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका ग्रहण करना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तकोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार लब्धपर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, त्रस लब्धपर्याप्त, बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त और बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये ।

सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें अट्टाईस, सत्ताईस और

पंचि० तिरिक्त्तभंगो, विसेमा (सेसवि०) खेत्तभंगो ।

§ ३६५. देवेषु अट्टावीम-सत्तावीस-छब्बीसवि० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-णव-चोइसभागा वा देसूणा । चउवीस-एक्कीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-चोइसभागा वा देसूणा । बावीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो । एवं सोहम्मीसाणदेवाणं । भवण० वाण०जोदिसि० अट्टावीम-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्टुट्ट-अट्ट-णव-चोइसभागा वा देसूणा । चउवीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्टुट्ट-अट्ट-चोइस० देसूणा । मणक्कुमारादि जाव सहस्मारे त्ति वावीस० खेत्तभंगो । सेसपदाणं छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । संभव शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ--२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सर्वत्र उत्पन्न होते हैं तथा उक्त विभक्तिस्थानवाले चारों गतियोंके जीव आकर इनमें उत्पन्न होते हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान बन जाता है । अब रही शेष विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा स्पर्शकी बात । सो उनमेंसे २५, २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले मनुष्य ही अन्य गतिमें जाकर उत्पन्न होते हैं या देव और नरक गतिके २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं । पर ये सम्यग्दृष्टि होते हुए अतिस्वल्प होते हैं अतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्श लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । इनसे अतिगुक्त शेष विभक्ति स्थानवाले मनुष्योंका स्पर्श लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होगा यह बात स्पष्ट है ।

§ ३६५. देवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और कुछ कम नौ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । बाईस विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार मोधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके स्पर्शका कथन करना चाहिये । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह भाग, कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और कुछ कम नौ बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह भाग और कुछ कम आठ बटे चौदह भाग

लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोइस० देखणा । एवभाणद-पाणद-आरणच्चुद० । णवरि छ-चोइस० देखणा । उवरि खेत्तभंगो । एवं वेउव्वियमिस्स०-[आहार०]-आहारमिस्स०-अवगद०-अकसाय०-मणपज्जव०-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्वसिद्धि० वत्तव्वं ।

§ ३६६. इंदियाणुवादेण एइंदिय० अट्टावीस-मत्तावीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा । छव्वीसवि० के० खेत्तं फोमिदं ? सव्वलोगो । एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्ज०-बादरेइंदियअपज्ज०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्ज०-सुहुमेइंदियअपज्ज०-पुढवि०-बादरपुढवि०-बादरपुढ० अपज्ज०-सुहुमपुढवि०-सुहुमपुढवि०-पज्ज०-सुहुमपुढ०-अपज्ज०-आउ०-बादरआउ०-बादरआउ०-अपज्जत्त-सुहुमआउ०-सुहुमआउ०-पज्जत्तापज्जत्त-तेउ०-बादरतेउ०-बादरतेउ०-अपज्जत्त-सुहुमतेउ०-सुहुमतेउ०-पज्जत्तापज्जत्त-वाउ०-बादरवाउ०-बादरवाउअपज्ज०-सुहुमवाउ०-सुहुमवाउ०-पज्जत्ता-क्षेत्रका स्पर्श किया है । सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तक बाईस विभक्तिस्थान-वाले देवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । तथा शेष पदोंका स्पर्श लोकके अमंग्यातवें भाग तथा कुछ कम आठ बटे चौदह भाग है । इसीप्रकार आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां कुछ कम आठ बटे चौदह भागके स्थानमें कुछ कम छह बटे चौदह भाग स्पर्श कहना चाहिये । मोलह कल्पोंके ऊपर नौ त्रैवेयक आदिमें स्पर्श क्षेत्रके समान है । अपने अपने क्षेत्रके समान ही वैक्रियिकमिश्र-काययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषाथी, मनःपर्य-यज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार(विशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपराय-संयत, यथाख्यातसंयत और अभव्य जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ३६६. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादमे एकेन्द्रियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके अमंग्यातवें भाग तथा सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व-लोकका स्पर्श किया है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्त, जलकायिक, बादर जलकायिक, बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, अग्नि-कायिक, बादर अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्नि-कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायु-कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त,

पञ्जत्त-वणप्फदिकाइय-बादरवणप्फदिकाइय-बादर वणप्फदि ०-पञ्जत्तापञ्जत्त-सुहुमवण-
प्फदि ०-सुहुमवणप्फदि ० पञ्जत्तापञ्जत्त-बादरवणप्फदिपत्तेयसरीर-बादरवणप्फदि पत्तेय-
सरीर अपञ्ज ०-बादराणेगोदपदिट्टिद-बादराणिगोदपदिट्टिद अपञ्ज ०-णिगोद ०-बादराणेगोद
तेसिं पञ्जत्तापञ्जत्त, सुहुमणिगोद ०-सुहुमणिगोद पञ्जत्तापञ्जत्त ० वत्तव्वं । बादरबाउ-
पञ्ज ० अट्टावीस-सत्तावीस ० के ० खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखे ० भागो, सव्वलोगो
वा । छव्वीस ० के ० खेतं फोसिदं ? लोग ० संखे ० भागो, सव्वलोगो वा । बादर
वणप्फदिपत्तेयसरीरपञ्ज ०-बादर-णिगोदपदिट्टिदपञ्ज ०-सव्वविगल्लिदियाणं तसअपञ्जत्त-
भंगो । पांचिंदिथ-पांचिं ०पञ्ज ०-तस-तसपञ्ज ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस ० के ० खेतं
फोसिदं ? लोग ० असंखे ० भागो, अट्ट-चोइसभागा वा देसूणा, सव्वलोगो वा । सेसप ०
ओघभंगो । एवं पंचमण ०-पंचवचि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-साणि त्ति वत्तव्वं ।

§ ३६७. ओरालिय ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस ० तिरिक्खोघभंगो । सेस-
पदाणं खेतभंगो । ओरालियमिस्स ० अट्टावीस-सत्तावीस ० के ० खेतं फोसिदं ? लोग ०

वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिका-
यिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक
अपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, बादर निगोद
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, निगोद, बादर निगोद
बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त और सूक्ष्म
निगोद अपर्याप्त जीवोंके कहना चाहिये । बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें अट्टाईस और सत्ता-
ईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग
और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके संख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया
है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त
और सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंका स्पर्श लब्धपर्याप्त त्रसोंके समान जानना चाहिये ।

पांचेन्द्रिय, पांचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम और त्रमपर्याप्तकोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस
विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रस
नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग तथा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।
शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श ओघके समान जानना चाहिये । इसीप्रकार पांचोमनोयोगी,
पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चन्द्रदशनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ३६७. औदारिककाययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस, और चौवीस विभक्ति-
स्थानवालोंका स्पर्श सामान्य तिर्यचोंके समान है । तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।
औदारिकभिभ्रकाययोगियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने

असंखे० भागो, सव्वलोगो वा । छव्वीस० सव्वलोगो । सेस० खेत्तभंगो । कम्मइय० अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदि भागो, सव्वलोगो वा । छव्वीस० केव० खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । चउवीस० लोगस्स असंखे० भागो, छ-चोइस० । सेसपदाणं खेत्तभंगो । एवमणाहारि० । वेउच्चिय० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो; अट्ट-तेरह-चोइस-भाग वा देघणा । चउवीस-एक्कवीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोइस० देघणा । इत्थिवेदे पंचिदियभंगो । णवरि एक्कवीस० खेत्तभंगो । णवुंस० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस० तिरिक्खोघभंगो । सेसपदाणं खेत्तभंगो । मदि-सुद-अण्णाण० अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे०-भागो, सव्वलोगो वा । छव्वीस० सव्वलोगो । एवं मिच्छादि०-असाण्णि० । विहंग० क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । छव्वीस विभक्ति स्थानवाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंने सर्व लोकका स्पर्श किया है । तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

कार्मणकाययोगियोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । छव्वीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व लोकका स्पर्श किया है । चौबीस विभक्तिस्थानवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमें से छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान जानना चाहिये । इसीप्रकार अनाहारक जीवोंके स्पर्शका कथन करना चाहिये ।

वैक्रियिक काययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवालोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

स्त्रीवेदियोंमें स्पर्श पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इक्कीस विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए स्त्रीवेदियोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । नपुंसकवेदियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छव्वीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य त्रिचोके समान जानना चाहिये । तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वलोक प्रमाण

अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोदस० देखणा, सव्वलोगो वा । आभिणि०-सुद०-ओहि० अट्टावीस-चउवीस-एक्कीवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोदस० देखणा । सेसप० खेतभंगो । एवमोहिदंस०-सम्मादिट्ठी ति वत्तव्वं । संजदासंजद० अट्टावीस-चउवीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, छ-चोदस० देखणा । सेसप० खेतभंगो । असंजद० सव्वपदाणमोघभंगो ।

§३६८. किह-णील काउ० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस० तिरिक्खोघभंगो । सेस० खेतभंगो । णवार काउलेस्साए वावीस० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो । तेउ० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कीवीस० सोहम्मभंगो । तेवीस-वावीस० खेतभंगो । पम्मलेस्सा० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कीवीस० सहस्सारभंगो । क्षेत्रका स्पर्श किया है । छब्बीस विभक्तिस्थानवाले उक्त जीवोंने सर्व लोकका स्पर्श किया है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंका स्पर्श जानना चाहिये । विभंगज्ञानियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौवीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । उक्त जीवोंके शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टियोंके स्पर्श कहना चाहिये ।

संयतासंयतोंमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । असंयतोंमें सभी पदोंका स्पर्श ओघके समान है ।

§३६८. कुष्ण, नील और कापोत लेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तिर्यचोंके समान है । तथा शेष पदोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

पीतलेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सौधर्मकल्पके देवोंके स्पर्शके समान है । तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवालों का स्पर्श क्षेत्रके समान है । पद्मलेश्यामें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस

तेवीस-बावीस० खेत्तभंगो । सुकलेस्सा० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कीस०
आणदभंगो । सेस० खेत्तभंगो ।

§ ३६८. वेदग० अट्टावीस-चउवीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो,
अट्ट-चोदस० देखणा । तेवीस-बावीस० खेत्तभंगो । खइयसम्माइट्टी० एक्कीस० के०
खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोदस० देखणा । सेस० खेत्तभंगो ।
उवसम० अट्टावीस०-चउवीस० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे भागो, अट्ट-
चोदस० देखणा । मासणे अट्टावीस० के० खेत्तं फोसिदं ? , लोग० असंखे० भागो, अट्ट-
बारह-चोदस० देखणा । सम्माभिच्छाइट्टी० अट्टावीस-चउवीस० के० खेत्तं फोसिदं ?
लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोदस० देखणा ।

एवं फोसणं समत्तं ।

§ ३७०. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टा-
विभक्तिस्थानवाल्लोका स्पर्शं सहस्रार स्वर्गके देवोके स्पर्शके समान है । तेईस और बाईस
विभक्तिस्थानवाल्लोका स्पर्श क्षेत्रके समान है । शुक्ललेखयामे अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस,
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाल्लोका स्पर्श आनत करूपके देवोके स्पर्शके समान
है । तथा शेष पदोका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

§ ३६९. वेदक सम्यग्दृष्टियोमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे
कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा तेईस और बाईस विभक्तिस्थान
वाल्लोका स्पर्श क्षेत्रके समान है । ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने
कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागों
मेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोका स्पर्श क्षेत्रके समान
है । उपशमसम्यग्दृष्टियोमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका
स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम
आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । सासादनसम्यग्दृष्टियोमें अट्टाईस विभक्तिस्थान-
वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श
किया है । सम्यग्मिध्यादृष्टियोमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे
कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

इसप्रकार स्पर्शनानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ३७०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ।

वीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एकवीस० केवचिरं कालादो ह्येति ? सच्चद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-एकारस-चदु-तिण्ण-दोण्ण-एक० के० ? जहण्णुक० अंतोमुहुत्तं । बारस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । पंच० के० ? जह० वे आबालियाओ विसमऊणाओ, उक्क० अंतोमु० । एवं पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-सण्णि० आहारि ति वत्तव्वं ।

§ ३७१. आदेशेण णेरइएसु वावीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान-वाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । तेईस, बाईस, तेरह, ग्यारह, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । बारह विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पांच विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहां नाना जीवोंकी अपेक्षा कालका निर्देश किया है । अतः ओघसे २८, २७, २६, २४, और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल सर्वदा बन जाता है, क्योंकि उक्त विभक्तिस्थानवाले जीव लोकमें सर्वदा पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त शेष विभक्तिस्थान सान्तर हैं कभी होते हैं और कभी नहीं होते । जब होते हैं तो कभी उनमें एक जीव और कभी नाना जीव पाये जाते हैं । फिर भी हर हालतमें २३, २२, १३, ११, ४, ३, २ और १ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि लगातार क्रमसे अनेक जीवोंके उक्त विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होनेपर भी प्रत्येक विभक्तिस्थानमें लगातार रहनेके कालका योग अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होता है । जो नपुंसक वेदी एक या अनेक जीव एक साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा जो स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी एक या अनेक जीव एक साथ या क्रमसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है । अतः बारह विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । एक जीवकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल दो समय कम दो आवली प्रमाण है । अब यदि क्रमसे अनेक जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तो पांच विभक्तिस्थानका काल कई आवलिप्रमाण हो जाता है, अतः पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलि और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह ओघप्र-रूपणा घटित हो जाती है अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है ।

§ ३७१. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ?

सेसपदाणं सव्वद्धा । एवं पढमाए तिरिक्ख-पंचिं०तिरिक्ख-पंचिं०तिरि० पज्ज०-देवा सोहम्मीसाणादि जाव सव्वट्ठे ति वत्तव्वं । बिदियादि जाव सत्तामि ति सव्वपदाणं सव्वद्धा । एवं पंचिं०तिरि०अपज्ज०-भवण०-वाण०-जोदिसि०-पंचिं० तिरि० जोणिणी-सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिं० अपज्ज०-पंचकाय-बादर सुहुम पज्जत्तापज्जत्त-तस-अपज्जत्त-वेउव्विय०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०-असण्णि ति वत्तव्वं ।

§ ३७२. मणुस० ओघभंगो । एवं मणुसपज्ज० । णवरि बाबीस० जह० एग समओ, उक्क० अंतोसु० । मणुस्सिणी० ओघभंगो । णवरि बारस० जहण्णुक०

जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंका सर्व काल है । इसीप्रकार पहले नरकमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, देव और सौधर्म-ऐशानसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तकके देवोंके कहना चाहिये । दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तकके नारकियोंके सभी संभव पदोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्तके भेदसे पांचो स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग-ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके भी २२ विभक्तिस्थान होता है और इनके सम्बन्धमें ऐसा नियम है कि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके कालके चार भाग करे । उनमेंसे यदि पहले भागमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मरता है तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है, दूसरे भागमें यदि मरता है तो देव और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है, तीसरे भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य और तिर्यंचोंमें उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें यदि मरता है तो चारों गतिके जीवोंमें उत्पन्न होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तिम भागमें मरा हुआ कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है । अतः सामान्य नारकियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धिके देवों तक उक्त मार्गणाओंमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । इसमें शेष २८ २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा है; क्योंकि ये विभक्तिस्थानवाले जीव उक्त मार्गणाओंमें सर्वदा पाये जाते हैं । इसी प्रकार दूसरे नरकसे लेकर असंज्ञी तक जो ऊपर मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी २८, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा जानना चाहिये । यहां शेष विभक्तिस्थान सम्भव नहीं हैं ।

§ ३७२. मनुष्योंमें ओघके समान काल कहना चाहिये । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त मनुष्योंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेदी मनुष्योंका काल ओघके समान

अंतोमु० । मणुस्सअपज्ज० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्जादि भागो

§ ३७३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कवीस० के० ? सब्बद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्ति० के० ? जह एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवं कायजोगी, ओरालि० । ओरालियमिस्स० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० ? सब्बद्धा । चउवीस-एक्कवीस० के० ? जहणुक्क० अंतोमुहुत्तं । वावीस० केवचिरं० ? जह० एगसमओ, कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्टाईस सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्न्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

विशेषार्थ-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेपर यदि कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रह जाता है, तो उन पर्याप्त मनुष्योंके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है । जो जीव स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्ति-स्थानका काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं होता है अतः स्त्रीवेदी मनुष्योंके बारह विभक्ति-स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । अट्टाईस और सत्ताईस विभक्ति-स्थानोंके कालमें एक समय शेष रहतेहुए जो नाना जीव एक साथ लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हो जाते हैं उनके २८ और २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । तथा जिन २८ विभक्तिस्थानवाले नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेष रहने पर २७ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय इस प्रकार भी प्राप्त हो जाता है । तथा २७ विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थान आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा शेष काल सुगम है । अतः उसका खुलासा नहीं किया ।

§ ३७३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचो वचनयोगी जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्वकाल है । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका काल जानना चाहिये । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अट्टाईस, मत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्वकाल है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल

उक० अंतोमु० । वेउविवयमिस्स० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस० के० ? जह० एग-समओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो । चउवीस० के० ? जह० अंतोमु०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । बावीस० जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्तं । एकवीस० जहण्णुक० अंतोमु० । आहार० मव्वपदा० के० ? जह० एगसमओ, उक० अंतो-मुहुत्तं । आहारमिस्स० जहण्णुक० अंतोमुहुत्तं । कम्मइय० अट्टावीस-सत्तावीस-चउ-वीस० के० ? जह० एगसमओ, उक० आवलि० असंखे० भागो । छब्बीस० के० ? सव्वद्धा । बावीस-एकवीस० जह० एगसमओ, उक० संखेज्जा समया ।

कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वैकियिक-मिश्रकाययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारककाययोगियोंमें संभव सर्व विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारकमिश्रकाययोगियोंमें संभव सभी स्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । कर्मणकाययोगियोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौबीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असं-ख्यातवें भागप्रमाण है । छब्बीस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ—२८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थान सर्वदा पाये जाते हैं और पांचों मनोयोगी तथा पांचों वचनयोगी जीव भी सर्वदा होते हैं । अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा कहा । तथा २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ विभक्तिस्थान सर्वदा नहीं होते और इन विभक्तिस्थान वाले जीवोंके योग बदलते रहते हैं । अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा । इसी प्रकार काययोगमें और औदारिक काययोगमें भी घटित कर लेना चाहिये । औदारिक मिश्रकाययोगमें २८, २७, और २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सर्वकाल होता है यह सुगम है । किन्तु २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होते हैं अतः इनका

§ ३७४. वेदानुवादेण इत्थिवेद० अट्ठावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कीस० के० ? सव्वद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-चारस० जहणुक्क० अंतोमु० । एवं णउंस० । जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही होगा । तथा कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मरकर औदारिकमिश्र काययोगो होनेपर यदि कृतकृत्यवेदकके कालमें एक समय शेष रह जाता है तो उनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है । जिसप्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्योंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके घटित कर लेना चाहिये । २४ विभक्तिस्थानवाले जीव कमसे कम अन्तर्मुहूर्तकाल तक और लगातार पत्यके असंख्यातवें भाग कालतक वैक्रियिक मिश्रकाययोगी हो सकते हैं, अतः वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा । तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल औदारिकमिश्रकाययोगके समान घटित कर लेना चाहिये । वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बतलानेका कारण यह है कि २१ विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका प्रमाण संख्यात है । अहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इसमें सम्भव सब पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है अतः इसमें सम्भव सब पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा । यद्यपि कर्मणकाययोगका काल सर्वदा है तो भी २८, २७ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव मरकर निरन्तर कर्मणकाययोगको नहीं प्राप्त होते हैं अतः इनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाता है । तथा २६ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कर्मणकाययोगको प्राप्त होते रहते हैं अतः उनका काल सर्वदा कहा है । तथा जो २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव एक विग्रहसे अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैं या जिनके २२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहनेपर कर्मणकाययोग प्राप्त होता है और इसके बाद व्यवधान पड़ जाता है उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । तथा जो २२ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कर्मणकाययोगी होते रहते हैं उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल संख्यात समय पाया जाता है, क्योंकि ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं ।

§ ३७४. वेद मार्गणाके अनुवादसे खीवेदमें अट्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । तेईस, बाईस, तेरह

णवरि० बावीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । बारस० के० ? जह० एग-समओ, उक्क० संखेजा समया । पुरिस० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्क-वीस० के० ? सन्वद्धा । तेवीस-तेरस-बारस-एकारस० जहण्णुक्क० अंतोमु० । बावीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । पंचवि० के० ? जह० एगसमओ उक्क० संखेजा समया । अवगद० चउवीस-एक्कवीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एयविह० के० ? जहण्णुक्क० अंतोमु० । पंचवि० जह० वे आवलियाओ विसमऊगाओ, उक्क० अंतोमु० ।

और बारह विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवाले नपुंसकवेदी जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है । तथा बारह विभक्तिस्थानवाले नपुंसकवेदियोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय होता है । पुरुषवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । तेईस, तेरह, बारह, और ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अपगतवेदमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । ग्यारह, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले अपगतवेदी जीवोंका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंके मर कर नारकी होनेपर यदि कृतकृत्यवेदके कालमें एक समय शेष रहता है तो नपुंसकवेदमें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । तथा नपुंसकवेदी नाना जीवोंके एक साथ १२ विभक्तिस्थानको प्राप्त होनेपर यादें अन्तर पड़ जाता है तो १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और यदि अन्तर नहीं पड़ता है तो १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदियोंके पांच विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय घटित कर लेना चाहिये । तथा पुरुषवेदियोंके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय भी नपुंसकवेदियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । किन्तु ऐसे जीवोंको नारकियोंमें नहीं उत्पन्न कराना चाहिये । जो एक समय तक अपगतवेदी रहकर मर जाते हैं उनके २४ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक

§ ३७५. कसायाणुवादेण कोधक० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एकवीस० के० ? सन्वद्धा । तेवीस-त्तावीस० के० ? जह० एयसमओ, उक्क० अंतोसु० । तेरस-बारस-एकारस-पंच-चदु० ओधभंगो । एवं माण०, णवरि तिण्हं विहत्तिया अत्थि । एवं माय०, णवरि दोण्हं विहत्तिया अत्थि । एवं लोभ०, णवरि एय० अत्थि । माण-माया-लोभकसाईसु जहाकमं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं विह० जह० दोआवलि० दु-समऊ-णाओ । अकसा० चउवीस-एकवीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोसु० । एवं जहाक्खाद० । सुहुमसांपराइय० एवं चेव । णवरि एयवि० जहण्णुक्क० अंतोसु० । समय प्राप्त होता है । तथा जो अपगतवेदी निरन्तर पांच विभक्तिस्थानवाले होते रहते हैं उनके पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । यहां निरन्तर होनेका तात्पर्य यह है कि नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको प्राप्त हुए और उनके पांच विभक्ति-स्थानके कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें अन्य नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको प्राप्त हो गये । इसी प्रकार तीसरी, चौथी आदि वार भी जानना । किन्तु ऐसे वार अति स्वल्प ही होते हैं अतः उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं प्राप्त होता । शेष कथन सुगम है ।

§ ३७५. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोध कषायमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवालोंका काल कितना है ? सर्व काल है । तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल ओघके समान है । इसीप्रकार मान कषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मान कषायमें तीन विभक्तिस्थानवाले जीव भी पाये जाते हैं । इसीप्रकार मायाकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि माया कषायमें दो विभक्तिस्थानवाले भी जीव पाये जाते हैं । इसी प्रकार लोभकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां एक विभक्तिस्थानवाले भी जीव पाये जाते हैं । मान, माया और लोभकषायी जीवोंमें यथा-क्रमसे चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल दो समय कम दो आवली है । अकषायी जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार यथाख्यात संयतोंमें जानना चाहिये । तथा इसीप्रकार सूक्ष्मसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है ।

विशेषार्थ—क्रोध कषायमें जो २८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा बतलाया सो इसका कारण यह है कि क्रोध कषायवाले जीव और उक्त विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, अतः क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका सर्वदा

§ ३७६. आभिणि०-सुद०-ओहि० अट्टावीस-चउवीस-एकवीस० केव० ? सव्वद्दा । सेसप० ओघभंगो । एवं मणपज्जव०-संजद०-सामाइय-छेदोव०-संजदासंजद०-ओहि-दंम०-सम्मादिट्ठी सि वत्तव्वं । णवरि मणपज्जव० बारस० जह० एगसमओ णत्थि । पाया जाना असम्भव नहीं है । २३ और २२ विभक्तिस्थानवाले जो नाना जीव एक समय तक क्रोध कषायमें रहे और दूसरे समयमें उनकी कषाय बदल गई उन क्रोध कषायवाले जीवोंके २३ और २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा क्रोध कषायमें २३ और २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है । इसी प्रकार क्रोध कषायमें १३, १२, ११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका काल जो ओघके समान बतलाया है सो इसका यह अभिप्राय है कि जो क्रोधके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल ओघके समान बन जाता है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ कषायमें विभक्तिस्थानोंका काल जानना चाहिये । किन्तु मान कषायमें तीन विभक्तिस्थान, माया कषायमें दो विभक्तिस्थान और लोभ कषायमें एक विभक्तिस्थान भी होता है जिनका उत्कृष्ट काल ओघके समान बन जाता है । किन्तु जो जीव क्रोध कषायके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं, उनके मान कषायमें चार विभक्तिस्थानका, माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और लोभ कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होगा । जो मानके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और लोभ कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है । तथा जो जीव मायाके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं उनके लोभ कषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त होता है । जो जीव एक समयतक अकषायी होकर दूसरे समयमें मर जाते हैं उनके २१ और २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है । अकषायी जीवोंके समान यथाख्यात संयत और सूक्ष्म साम्पराय संयत जीवोंके जानना । किन्तु सूक्ष्म साम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थान भी होता है जिसका काल ओघके समान जानना चाहिये ।

§ ३७६. मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अबधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । शेष पदोंका काल ओघके समान है । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानो, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, संयता-संयत, अबधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टियोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनःपर्ययज्ञानियोंमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय नहीं है ।

विशेषार्थ—जो जीव नपुंसक वेदके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं उनके बारह

परिहार०तेवीस-बावीस० के० ? जहणुक्क० अंतोसु० । सेसपदाणं सच्चद्धा । असंजद० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कीस० के० ? सच्चद्धा । तेवीस-बावीस० जहणुक्क० अंतोसु० । णवरि बावीस० जह० एगसमओ । एवं किण्ह-णील०, णवरि तेवीस-बावीस० णत्थि । काउ० असंजदमंगो । णवरि तेवीसं णत्थि । तेउ-पम्म० अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एक्कीस० के० ? सच्चद्धा । तेवीस-बावीस० जह० अंतोसु० एगसमओ, उक्क० अंतोसु० । सुक्कलेस्सा० मणुसमंगो । णवरि बावीस० जह० एगसमओ ।

विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय होता है पर मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका उदय नहीं पाया जाता। अतः मनः पर्ययज्ञानमें बारह विभक्तिस्थानके जघन्यकाल एक समयका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

परिहारविशुद्धिसंयतोंमें तेईस और बाईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा शेष पदोंका सर्वकाल है। असंयतोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबास और इक्कीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है। तथा तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य काल एक समय है। इसीप्रकार कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इन दोनों लेश्यावाले जीवोंके तेईस और बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं। कापोत लेश्यावाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा काल असंयतोंके कालके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके तेईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है। तथा तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल क्रमशः अन्तर्मुहूर्त और एक समय है। तथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शुक्ललेश्यावाले जीवोंके मनुष्योंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय है।

विशेषार्थ—बाईस विभक्तिस्थानवाले संयत या संयतासंयत जीवोंके मर कर असंयत होने पर यदि उनके बाईस विभक्तिस्थानका काल एक समय शेष रहता है तो असंयतोंके बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। शुभलेश्यावाले जीवोंके ही दर्शनमोहनीयकी क्षणता होती है। अब यदि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जानेपर लेश्यामें परिवर्तन हो तो कारण विशेषसे कापोत लेश्या तक प्राप्त हो सकती है अतः कृष्ण और नील लेश्यामें २३ और २२ विभक्तिस्थान तथा कापोत लेश्यामें २३ विभक्तिस्थान नहीं

§ ३७७. अभव्वसिद्धि० छव्वीस० के० ? सव्वद्धा । वेदय० अट्टावीस-चउवीस० के० ? सव्वद्धा । तेवीस-बावीस० ओघभंगो । स्वइय० एकवीस० के० ? सव्वद्धा । सेसप० ओघभंगो । उचसम० अट्टावीस० के० ? जह० अंतोमु० उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । चउवीस० के० ? जह० अंतोमु० उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । सामण० अट्टावीस० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । सम्मामि० अट्टावीस-चउवीस० के० ? जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । अणाहारिय० कम्मइयभंगो ।

एवं कालो समत्तो ।

§ ३७८. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टा-होता यह सिद्ध हुआ । शेष कथन सुगम है ।

§ ३७७. अभव्वयोमें छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । वेदक सम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्व काल है । तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले वेदक सम्यग्दृष्टियोंका काल ओघके समान है । द्वायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । तथा शेष पदोंका काल ओघके समान है । उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनाहारक जीवोंमें कर्म-णकाययोगियोंके समान कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि ये तीन सान्तर मार्गणाएँ हैं अतः इनमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका यथायोग्य जघन्यकाल प्राप्त हो जाता है । तथा उत्कृष्टकाल जो पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा सो इसका कारण यह है कि उक्त मार्गणास्थानवाले जीव निरन्तर इतने काल तक होते रहते हैं । अतः इनमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार कालानुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ ३७८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ निर्देश और आवेश

वीम-मत्तावीस-छब्बीस-चउवीस-एकवीस० अंतरं केवचिरं कालादो होदि ! णत्थि अंतरं । तेवीस-वावीम-तेरस-बारस-एकारम-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तिया-णमंतं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० छम्मामा । णवरि पंचवि० वासं सादिरेयं । एवं मणुम-मणुसपज्ज०-पंचिदि५-पंचि० पज्ज०-तम-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-काय-जोगि०-ओरालिय०-लोभ०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-माण्णि०-आहारि ति वत्तव्वं । मणुसिणीसु अंतरमेवं चेव । णवरि उक्क० वामपुधत्तं ।

निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्हाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है ? इनका अन्तरकाल नहीं है । ये अट्हाईस आदि उपयुक्त विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह माह है । इतनी विशेषता है कि पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष है । इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, ब्रह्म, ब्रह्मपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभ कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अक्षुदर्शनी, भव्य, संझी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है । इतनी विशेषता है कि उनमें उत्कृष्ट अन्तर छह माहके स्थानमें वर्ष पृथक्त्व होता है ।

विशेषार्थ—२८, २७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं अतः इन विभक्तिस्थानोंका ओघसे अन्तर नहीं प्राप्त होता है । जब नाना जीव २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २ और १ विभक्तिस्थानवाले हो जाते हैं और एक समय बाद दूमरे नाना जीव इन विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होते हैं तब उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा जब छह माह तक कोई जीव न तो दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते हैं और न क्षपक श्रेणीपर चढ़ते हैं तब उक्त २ आदि विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह माह प्राप्त होता है । किन्तु पांच विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है, क्योंकि पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवोंके पांच विभक्तिस्थान होता है और पुरुषवेदके उदयसे किसी जीवके क्षपक श्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है तथा नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । अतः कभी ऐसा समय आता है जब साधिक एक वर्ष तक किसीके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता है । किन्तु तब स्त्रीवेदके उदयसे ही जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं । ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है । अतः उन मार्गणाओंमें उक्त सब विभ-

§ ३७६. आदेसेण षोडशसु वावीस० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० वाम-पुत्रत्तं । सेसप० णत्थि अंतरं । एवं पढमाए पुढवीए, तिग्गिक्ख-पंचिं० तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्जत्त-देव-सोहम्मादि जाव मव्वद्द -काउलेम्मिया त्ति वत्तव्वं । णवरि सव्वद्दे वावीस० उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । विद्यादि जाव मत्तमि त्ति मव्व-पदाणं णत्थि अंतरं । एवं पंचिं० तिरि० जाणिणी-पंचिं० तिरि० अपज्ज०-भवण०-वाण०-जोदिसि०-सव्वएइंदिय-मव्वविगल्लिंदिय०-पंचि० अपज्ज०-पंचकाय०-तम-अपज्ज०-वेउव्विय०-किण्ह० णील० वत्तव्वं । मणुमअपज्ज० अट्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीम० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० पलि० असंखे० भागो ।

किस्थानोंका अन्तरकाल श्रोधके समान कहा है । किन्तु खीवेदी मनुष्योंके २२, २२, १३, १२, ११, ४, ३, २, और १ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी खीवेदी मनुष्य दर्शनमोहनीय और चारित्र्य मोहनीयकी क्षपणा न करे तो अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक नहीं करता है ऐसा नियम है ।

§ ३७६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । नारकियोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार पहली पृथिवीमें नारकियोंके तथा सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त जीवोंके, सामान्य देवोंके, सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंके और कापोत लेइयावाले जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्थोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । दृग्गी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमती, पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त, भवन-राप्ती, व्यन्तर, ज्योतिपी, समी एकेन्द्रिय, समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थारकाय, त्रय लब्ध्यपर्याप्त, त्रैक्रियिक-काययोगी, कृष्णलेइयावाले और नील लेइयावाले जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये । लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें अट्ठाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल पत्थके असंख्या-तवें भाग प्रमाण है ।

विशेषार्थ—नरकमें जो २२ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय कहा है इसका यह तात्पर्य है कि नरकमें जो पहले २२ विभक्तिस्थानवाले जीव थे उनके एक समयके पदचात् २२ विभक्ति स्थानवाले जीव वहां पुनः उत्पन्न होसकते हैं । तथा उत्कृष्ट अन्तर जो वर्षपृथक्त्व कहा है इसका यह तात्पर्य है कि यदि २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका नरकमें उत्पन्न होना बन्द हो जाय तो अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक ही ऐसा

§ ३८०. ओरोलियमिस्स० चउवीस-एक्कीस० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० मासपुधत्तं । वावीस० के० ? जह० एगममओ, उक्क० वासपुधत्तं । सेस-पदाणं णत्थि अंतरं । वेउव्वियमिस्स० अट्टावीम-सत्तावीस-छव्वीस० अंतरं केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० बारसमुहुत्ता । चदुवीस-एक्कीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० मासपुधत्तं । वावीस० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । आहार०-आहारमिस्स० अट्टावीम-चउवीस-एक्कीस० जह० एगसमओ, उक्क० वास-पुधत्तं । कम्मइय० छव्वीस० णत्थि अंतरं । अट्टावीम-सत्तावीम० जह० एगसमओ,

होगा इमके बाद २२ विभक्तिस्थान वाले जीव नियमसे नरकमें उत्पन्न होंगे । किन्तु नरकमें वहां सम्भव शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है । पहली पृथिवी से लेकर सर्वार्थनिद्धि तक ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये । किन्तु सर्वार्थनिद्धिमें २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यानमें भागप्रमाण होता है । इनका यह तात्पर्य है कि यदि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दर्ष्ट जीव मरकर सर्वार्थनिद्धिमें उत्पन्न न हो तो असंख्यात वर्ष तक नहीं होता इसके बाद अवश्य उत्पन्न होता है । दूमरी पृथिवीसे लेकर नीललेश्यातक ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें अन्तर काल नहीं है । तथा लब्धपर्याप्तक मनुष्योंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल है वही उनमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका अन्तर काल जानना चाहिये ।

§ ३८०. औदारिक मिश्रकाययोगमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मास पृथक्त्व है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । औदारिकमिश्रकाययोगमें शेष पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें अट्टाईस, सत्ताईस और छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त है । तथा चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासपृथक्त्व है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें अट्टाईस, चौबीस, और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । कर्मणकाययोगमें छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । अट्टाईस और सत्ताईस विभ-

उक्क० अंतोमुहुत्तं । चउवीस-एक्कीस० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० मास-पुघत्तं । बावीस०जह० एगसमओ, उक्क० वासपुघत्तं ।

§ ३८-१. वेदानुवादेण इत्थि० तेवीस-तेरस-बारस० जह० एगसमओ, उक्क० वास-पुघत्तं । सेसप० णत्थि अंतरं । एवं णवुंस० वत्तव्वं । पुरिस० तेवीस-बावीस० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । तेरस-वारस-एक्कारस-यंच० जह० एगसमओ, उक्क० वासं सादिरेयं । सेसप० णत्थि अंतरं । अवगद० चउवीस-एक्कीस० जह० एग-क्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल मासपृथक्त्व है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है ।

विशेषार्थ-औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोगमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय स्पष्ट ही है । कि तु उत्कृष्ट अन्तर जो मासपृथक्त्व बतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो एक मासपृथक्त्व तक नहीं होता है । तथा उक्त योगोंमें जो २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व बतलाया है उसका यह अभिप्राय है कि २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो वर्षपृथक्त्व काल तक नहीं होता है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें जो २८, २७ और २६ विभक्ति-स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतलाया है वह वैक्रियिक मिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे जानना चाहिये । इसी प्रकार आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे जानना चाहिये । तथा कर्मणकाययोगमें २८ और २७ विभक्तिस्थानोंका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बतलाया है इसका यह अभिप्राय है कि २८ और २७ विभक्तिस्थानवाले कोई भी जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक कर्मणकाययोगी नहीं होते ।

§ ३८-१. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदमें तेईस, तेरह और बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । स्त्रीवेदमें शेष पदोंका अन्तर नहीं पाया जाता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदमें कथन करना चाहिये । पुरुषवेदमें तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । तेरह, बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष है ।

समओ, उक्क० वासपुधत्तं । सेसाणं प० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । णवरि पंचवि० वासं सादिरेयं ।

§ ३८२. कसायाणुवादेण क्रोधक० तेवीस-वावीस० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । तेरयादि जाव चत्तारि विहत्ति त्ति जह० एयममओ, उक्क० वासं सादिरेयं । सेमप० णत्थि अंतरं । एवं माण०, णवरि तिविह० अत्थि । एवं माय०, णवरि पुरुषवेदमें शेष पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । अपगतवेदियोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । इतनी विशेषता है कि यहां पाच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है ।

विशेषार्थ—ऐसा नियम है कि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीव यदि दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो वर्षपृथक्त्व काल तक नहीं करते हैं अतः स्त्रीवेद और नपुंसकवेदमें २३, १३ और १२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है । यदि पुरुषवेदी जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा न करें तो छह माह तक नहीं करते हैं और यदि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो साधिक एक वर्ष तक नहीं करते हैं । अतः पुरुषवेदमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मास प्राप्त होता है तथा १३, १२, ११, और ५ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है । उपशमश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व बनलाया है । अतः अपगतवेदमें २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्राप्त होता है । तथा क्षपकश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है अतः अपगतवेदमें शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना बन जाता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ५ विभक्तिस्थान पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंके ही होता है और पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक तथा नपुंसकवेदी जीव वर्ष-पृथक्त्व काल तक क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते हैं अतः अवगतवेदमें ५ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कहा ।

§ ३८३. कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायमें तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल छह महीना है । तथा तेरहसे लेकर चार तकके विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक वर्ष है । शेष पदोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार मानकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानकषायमें तीन

दोण्हं वि० अत्थि । अकसा० चउवीम-एक्कीस० अंतरं के० ? जह० एयसमओ, उक्क० वामपुधत्तं । एवं जहाक्खाद० । एवं सुहुममांप०, णवार एयवि० जह० एयसमओ, उक्क० छम्माया । मदि-सुद-विहंगअण्णाण० एइंदियभंगो । एवमभवमिद्धि० मिच्छादि अमणि ति । अभिणि०-सुद० अट्टावीम-चउवीम-एक्कीस० णत्थि अंतरं । सेमपदाणं

विभक्तिस्थान भी पाया जाता है । इसीप्रकार मायाकषायमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मायाकषायमें दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है । कषायरहित जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । इसीप्रकार यारुख्यात संयत और सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल छह महीना है ।

विशेषार्थ क्वाकषायी, मानकषायी और मायाकषायी जीव यदि दर्शनमोहनोयकी क्षणना न करे तो अधिक से अधिक छ महीना काल तक नहीं करते हैं इसके पश्चात् अवश्य करते है और इसीलिये इन कषायोंमें १३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है । तथा उक्त कषायवाले जीव यदि क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते हैं तो अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक नहीं चढ़ते हैं और इसीलिये क्रोधकषायमें १३, १२, ११, ५ और ४ विभक्तिस्थानोंका, मानकषायमें १३, १२, ११, ५, ४ और ३ विभक्तिस्थानोंका तथा माया कषायमें १३, १२, ११, ५, ४, ३ और २ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कहा है । इन कषायोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । उपशमश्रेणीका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्ष प्रथक्त्व कहा है और इसीलिये अकषायी जीवोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व प्रमाण होता है । तथा अकषायी जीवोंके समान यथारुख्यातसंयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसाम्परायसंयतके एक विभक्तिस्थान भी होता है तथा क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान अधिकसे अधिक छह महीनाके पश्चात् नियमसे होता है, अतः सूक्ष्मसाम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है ।

मलज्जानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । तथा इसीप्रकार अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—ऊपर जितने मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें, जहां जितने विभक्तिस्थान सम्भव हैं उनका अन्तरकाल नहीं पाया जाता यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

ओघभंगो । एवं संजद०-मामाइय-छेदो०-संजदासंजद-मम्मादि०-वेदय० वत्तव्वं । णवरि वेदय० एकवीम० णत्थि । ओहि-मणपज्ज० एवं चेव, णवरि वामपुधत्तं । एवं परिहार० ओहिदंमण० वत्तव्वं । असंजद०-तेउ०-पम्म०-सुक० अप्पणो पदाणं ओघ-भंगो । खइय० एकवीम० णत्थि अंतरं । सेमप० ओघभंगो । उवमम० अट्टावीस० जह० एगममओ, उक्क० चउवीममहोरत्ती० । एवं चउवीमविह० । सामण० अट्टा-वीम० के० ? जह० एयममओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । मम्मामिच्छाइही० अट्टावीम-चउवीम० जह० एयममओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । अणाहार०

मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । तथा शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार मंयत, मामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, नंयनामंयत, सम्यग्दृष्टि और वेदकमस्यक्त्वमिणोके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदकमस्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व कहना चाहिये । इसीप्रकार परिहारविशुद्धिमंयत और अवधिदर्शनमें कथन करना चाहिये ।

।वशेषार्थ—वेदकमस्यक्त्वमें १३ आदि विभक्तिस्थान तो होते ही नहीं । साथ ही २१ विभक्तिस्थान भी नहीं होता । अतः मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंके २३ और २२ तथा १३ आदि स्थानोंका अन्तरकाल जहां ओघके समान होगा वहां वेदकमस्यक्त्वमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल भी ओघके समान होगा । तथा अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्व काल तक न तो दर्शनमोहनीयकी और न चारित्रमोहनीयकी श्रवणा करते हैं अतः इनके २३, २२ और १३ आदि विभक्ति-स्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व कहा है । तथा अवधि-ज्ञानी जीवोंके समान परिहारविशुद्धिमंयत और अवधिदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु परिहारविशुद्धिमंयतमें १३ आदि विभक्तिस्थान नहीं होते ।

असंयतोंमें तथा पीत, पद्म और शुक्लेश्यामें अपने अपने पदोंका अन्तरकाल ओघके समान कहना चाहिये । क्षायिकमस्यक्त्वमें इक्कीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है । उपशमसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिनगत है । इसी प्रकार उपशमसम्यग्दृष्टियोंके चौबीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल जानना चाहिये । सासादनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अट्टाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-

कम्मइयभंगो ।

एवमंतरं समत्तं ।

§ ३८३. भावाणुगमेण दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सव्व-
पदाणं को भावो ? ओदइओ भावो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारए त्ति । णवरि
अप्पप्पणो पदाणि जाणियव्वाणि ।

एवं भावो ममत्तो ।

* अप्पाबहुअं ।

§ ३८४. पुव्वं परिमाणादिना अवगयपदाणं थोवबहुत्तं परूवेमो त्ति जइवसठा-
इ रएण कयपइजावयणमेयं । तम्मि जीव-अप्पाबहुए भणमाणे पुव्वं ताव पदविमय-
कालाणमप्पाबहुअं उच्चदे, तेण विणा जीवप्पाबहुअस्स अवगमोवायाभावादो । तं जहा-
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनाहारकोका अन्तरकाल कामेणकाययोगियोंके
अन्तरकालके समान जानना चाहिये ।

इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ३८३. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ।
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अट्टाईस आदि सभी पदोंका कौनसा भाव है ? औदयिक-
भाव है । इसीप्रकार अनाहारकों तक कथन करते जाना चाहिये । इतनी विशेषता है
कि सर्वत्र अपने अपने पद जानकर कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—अट्टाईस आदि सब पद मोहनीयके उदयके रहते हुए होते हैं इस अपेक्षासे
यहां अट्टाईस आदि सबपदोंका औदयिक भाव कहा है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि उप-
शान्तमोही जीवके २४ और २१ विभक्तिस्थान मोहनीयके उदयके अभावमें भी होते हैं
तो भी वे स्थान उदयके अनुगामी हैं, क्योंकि ऐसा जीव उपशान्तमोह गुणस्थानसे नियमसे
च्युत होकर पुनः मोहनीयके उदयसे संयुक्त हो जाता है, अतः २८ आदि विभक्तिस्थानोंका
औदयिक भाव कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इसप्रकार भावानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

* अब अल्पबहुत्वानुयोगद्वारका कथन करते हैं ।

§ ३८४. पहले संख्या आदिके द्वारा जाने गये पदोंके अल्पबहुत्वका कथन करते हैं, इस
बातका ज्ञान करानेके लिये यतिवृषभ आचार्यने यह प्रतिज्ञावचन किया है । उसमें भी
जीव विषयक अल्पबहुत्वका कथन करनेसे पहले अट्टाईस आदि पदोंके कालोंका अल्पबहुत्व
कहते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवविषयक अल्पबहुत्वके ज्ञान करानेका कोई दूसरा उपाय
नहीं है । पदविषयक कालोंका अल्पबहुत्व इसप्रकार है—

§ ३८५. काल-अप्पाबहुआणुगमेण द्दविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मन्वथोवो पंचविहत्तियकालो । लोभसुहृमसंगहकिट्टीवेदयकालो संखेअ-गुणो, पंचविहत्तियसमयूण-दोआवलिकालेण संखेजावलयमेत्तसुहुमाकिट्टीवेदयका-लम्मि भागे हिदे संखेअरूवोवलंभादो । लोभविदियषादरकिट्टीवेदयकालो विसे-साहियो । केत्तियमेत्तो विसेमो ? संखेजावलयमेत्तो । उवरि वि जत्थ विसेमाहियं भणिहिदि तत्थ तत्थ मो विसेमो संखेजावलयमेत्तो त्ति वेचन्वो । लोभ० पढमसंगह-किट्टीवेदयकालो विसेमाहियो । मायाए तदियसंगहकिट्टीवेदयकालो विसेमा-हियो । तिस्से चेव विदियमंगहकिट्टीवेदयकालो विसे० । पढमसंगहकिट्टीवेदय-कालो विसे० । माणतदियमंगहकिट्टीवेदयकालो विसे० । विदियसंगहकिट्टीवेदय-कालो विसे० । पढममंगहकिट्टीवेदयकालो विसेमाहियो । कोहतदियसंगहकिट्टीवेदय-कालो विसे० । विदियमंगहकिट्टीवेदयकालो विसे० । पढमसंगहकिट्टीवेदयकालो

विशेषार्थ—यहां अल्पबहुत्वके दो भेद कर दिये हैं एक काल अल्पबहुत्व और दूसरा जीव अल्पबहुत्व । काल अल्पबहुत्वके द्वारा विभक्तिस्थान विषयक कालोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है और जीव अल्पबहुत्वके द्वारा एक आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है ।

§ ३८५. काल-अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है इससे लोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदककाल संख्यातगुणा है । पांच विभक्तिस्थानका जो एक समय कम दो आवली काल कहा है उसका लोभके सूक्ष्म संग्रहकृष्टिके संख्यात आवलीप्रमाण वेदककालमें भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त होते हैं । इससे जाना जाता है कि पांच विभक्तिस्थानके कालसे लोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदक काल संख्यातगुणा है । इससे लोभकी दूसरी बादरकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । यहां विशेषका प्रमाण कितना है ? संख्यात आवली है । आगे भी जहां जहां पूर्व स्थानके कालसे उससे आगेके स्थानका काल विशेष अधिक कहा जायगा वहां वह विशेष संख्यात आवली प्रमाण लेना चाहिये । लोभकी दूसरी बादरकृष्टिके कालसे लोभकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदक काल विशेष अधिक है । इससे मायाकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेदक काल विशेष अधिक है । इससे मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मायाकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मानकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मानकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मानकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे क्रोधकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे क्रोधकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाल

विसे० । चहुणहं संजलणाणं किट्टीकरणद्वा संखेज्जगुणा । अस्सकण्णकरणद्वा विसे०
 छण्णोकसायखवणद्वा विसे० । इत्थि० खवणद्वा विसे० । णवुंम० खवणद्वा विसे० ।
 तेरसविहत्तियकालो संखेज्जगुणो, बावीसविहत्तियकालो विसे०, तेवीसविहत्तियकालो विसे-
 साहिओ । सत्तावीसविहत्तियकालो असंखेज्जगुणो । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखे०
 भागो । एकवीसविहत्तियकालो असंखेज्जगुणो । चउत्रीसविहत्तियकालो संखेज्जगुणो ।
 अट्ठावीसविहत्तियकालो विसे० । केत्तियमेत्तो विसेसो ? तिण्णि पालिदो० असंखे-
 ज्जदिभागमेत्तो । कुदो ? चउत्रीसविहत्तियउक्कम्मकालो अंतोमुहुत्तम्भहियवेत्तावट्ठिभाग-
 रोवममेत्तो । तं पेक्खिवय अट्ठावीसविहत्तियकालस्स तीहि पालिदो० असंखेज्जदिभागेहि
 अम्भहियवेत्तावट्ठिभागरोवममेत्तस्म विसेमाहियत्तुवलंभादो । छव्वीसविहत्तियकालो
 अणंतगुणो । चउण्हं तिण्हं दोण्हमेक्खिस्से विहत्तियकालो जहण्णओ वि अत्थि उक्कम्मओ
 वि । तत्थ परोदएण चड्ढिदस्म जहण्णओ । सोदएण चड्ढिदस्म उक्कम्मो होदि । पंच-
 चिहत्तियप्पहुडि जाव तेवीसविहत्तियो त्ति ताव एदेसिं जहण्णुकुक्कम्मकालो मरिसो । कुदो
 विशेष अधिक है । इससे श्लोचकी पहली सं-हकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है ।
 इससे चारों संखलनोंके कृष्टिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अश्वकर्णकरणका काल
 विशेष अधिक है । इससे छह नोकषायोंके क्षपणका काल विशेष अधिक है । इससे स्त्री-
 वेदके क्षपणका काल विशेष अधिक है । इससे नपुंसकवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक
 है । इससे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है । इससे बाईस विभक्तिस्थानका काल
 संख्यातगुणा है । इससे तेईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । इससे सत्ताईस
 विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । गुणकारका प्रमाण क्या है ? यहां गुणकारका
 प्रमाण पर्योपमका असंख्यातवां भाग है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यात-
 गुणा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है । इससे अट्ठाईस विभक्ति-
 स्थानका काल विशेष अधिक है । यहां विशेषका प्रमाण कितना है ? पर्योपमके तीन
 असंख्यातवें भागमात्र है; क्योंकि चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त अधिक
 एकसौ बत्तीस सागर है । और अट्ठाईस विभक्तिस्थानका काल पर्योपमके तीन असंख्यातवें
 भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर प्रमाण है । अतः इन दोनों कालोंको देखते हुए
 चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे अट्ठाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है यह सुनि-
 श्चित होता है । अट्ठाईस विभक्तिस्थानके कालसे छव्वीस विभक्तिस्थानका काल अनन्त-
 गुणा है । चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल जघन्य भी पाया जाता है और
 उत्कृष्ट भी । उनमेंसे अन्य कषायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जघन्य काल
 पाया जाता है और स्वोदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके उत्कृष्ट काल पाया जाता है ।
 पांच विभक्तिस्थानसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक ५, ११, १२, १३, २१, २२, २३

णन्वदे ? आइरियपरंपरागयमयलमुत्ताविरुद्धवक्खाणादो । णवरि तेरस-बारसविहृत्ति-
यकालो जहण्णो वि अत्थि सो एत्थ ण विवक्खिओ ।

एवमोघण्पावहुअं समत्तं ।

§ ३८६. आदेसेण णेरइएसु सन्वथोवो बावीसवि० कालो । सत्तावीसविह०
कालो असंखेज्जगुणो, एकवीसविह० कालो असंखेज्जगुणो, चउवीसविह० संखेज्जगुणो,
छन्वीस-अट्ठावीसविहृत्तियकालो विसेसो । पढमाए पुढवीए सन्वथोवो बावीसवि०
कालो, सत्तावीसविह० असंखेज्जगुणो, एकवीसविह० असंखेज्जगुणो, चउवीसविह०
इन सात विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल समान है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—आचार्यपरंपरासे सकल सूत्रोंका जो अविरुद्ध व्याख्यान चला आ रहा
है, उससे जाना जाता है कि उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल समान है ।
यहां इतनी विशेषता है कि तेरह और बारह विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल भी पाया
जाता है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है ।

विशेषार्थ—क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार विभक्तिस्थानका,
मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके तीन विभक्तिस्थानका, मायाके उदयसे क्षप-
कश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके दो विभक्तिस्थानका और लोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े
हुए जीवके एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । तथा इनसे अतिरिक्त कषायके
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार आदि विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल प्राप्त
होता है । किन्तु ऊपर लोभकी सूक्ष्म संग्रह कृष्टिसे लेकर अश्रवकर्णकरणके काल तक जो
अल्पबहुत्व बतलाया है वह क्रोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवकी प्रधानतासे
जानना चाहिये । तथा जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके १३
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता है और बारह विभक्तिस्थानका जघन्य । तथा जो
जीव पुरुषवेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके १३ विभक्तिस्थानका
जघन्य काल प्राप्त होता है और १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट । किन्तु इस अल्पबहुत्वमें
१३ और १२ विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कथनकी विवक्षा नहीं की गई है ।

इस प्रकार ओघ अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

§ ३८६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है ।
इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल
असंख्यातगुणा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है । इससे छन्वीस
और अट्ठाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है ।

पहली पृथिवीमें बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । इससे सत्ताईस

विसेसाहियो । केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण । छब्बीस-अट्ठा-
वीस-विहत्तियाणं काला वे वि सरिसा विसेमाहिया । केत्तियमेत्तेण ? अंतोमुहुत्तेण ।
बिदियादि जाव सत्तमि त्ति मव्वत्थोवो सत्तावीसविह० कालो । चउवीसवि० कालो
असंखेज्जगुणो । छब्बीस-अट्ठावीसविह० कालो दो वि सरिसा विसेसाहिया । एवं
भवण०-वाण०-जोदिसि० वत्तव्वं ।

§ ३८७. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु सव्वत्थोवो चावीसविह० कालो । सत्तावीस-
विह० कालो असंखेज्जगुणो । चउवीसविह० कालो असंखेज्जगुणो । एकवीसविह०
कालो विसे० । केत्तियमेत्तेण ? मासपुधत्तेण सादिरेएण । अट्ठावीसविह० कालो वि० ।
के० मेत्तेण ? पलिदो० असंखे० भागेण । छब्बीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं दोण्हं
पंचिदियतिरिक्खाणं । णवरि एकवीस-विहत्तियकालस्सुवरि अट्ठावीस-छब्बीसविहत्तिय-
कालो विसेसा० । केत्तियमेत्तेण ? पुव्वकोडिपुधत्तेण । एवं जोण्णिणीणं । णवरि चावीस-
विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा
है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । कितना विशेष अधिक है ?
पल्लयोपमकं असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष अधिक है । छब्बीस और अट्ठाईस विभक्तिस्था-
नोंके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे विशेष अधिक हैं ।
कितने विशेष अधिक हैं ? अन्तर्भूहूर्तप्रमाण विशेष अधिक हैं ।

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका
काल सबसे थोड़ा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । छब्बीस
और अट्ठाईस विभक्तिस्थानके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके काल
से विशेष अधिक हैं । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये ।

३८७. तिर्यचगतिमें तिर्यचोमं बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । इससे सत्ता-
ईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्या-
तगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । कितना विशेष अधिक
है ? साधिक मासपृथक्त्व विशेष अधिक है । इक्कीस विभक्तिस्थानके कालसे अट्ठाईस विभ-
क्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । कितना विशेष अधिक है ? पल्लयोपमके असंख्यातवें
भागप्रमाण विशेष अधिक है । अट्ठाईस विभक्तिस्थानके कालसे छब्बीस विभक्तिस्थानका
काल अनन्तगुणा है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यचोंके कथन
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन दोनोंके इक्कीस विभक्तिस्थानके कालसे
अट्ठाईस और छब्बीस विभक्तिस्थानोंका काल विशेष अधिक कहना चाहिये । कितना
विशेष अधिक कहना चाहिये ? पूर्वकोटि पृथक्त्व विशेष अधिक कहना चाहिये । इसी-
प्रकार योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके कथन कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके

एकवीसविहत्तिया णत्थि । पंचिदियतिरिक्ख-मणुस्सअपजत्तएसु णत्थि कालअप्पा-
बहुअं । कुदो ? अट्टावीस-सत्तावीस-छब्बीसवि० उक्कस्सकालाणं तत्थ सरिसत्तुवलं-
भादो । अथवा पंचिदियतिरिक्ख-मणुस्सअपजत्तएसु सव्वत्थोवो छब्बीस-सत्तावीस-
अट्टावीसवि० जहण्णकालो । उक्कस्सओ असंखेज्जगुणो ।

§ ३८८. मणुस्सेसु पंचविहत्तिय-कालप्पहुडि जाव तेवीसविहत्तियकालो त्ति ताव
मूलोषभंगो । तदो सत्तावीसविह० कालो असंखेज्जगुणो । चउवीसविह० कालो
असंखेज्जगुणो । एककवीसविहत्तियकालो विसेसाहिओ पुव्वकोडितिभागेण सादिरेएण ।
छब्बीस-अट्टावीसविह० कालो विसेसाहिओ पुव्वकोडिपुधत्तेण । एवं मणुसपज्जचाणं ।
मणुसिणीसु लोभसुहुमकिट्टीवेदय-कालप्पहुडि जाव तेवीसविहत्तियकालो त्ति ताव
मूलोषभंगो । तदो तेवीस-विहत्तियकालम्सुवरि एककवीसविहत्तियकालो संखेज्जगुणो,
सत्तावीसविह० कालो असंखेज्जगुणो, चउवीसविहत्तियकालो असंखेज्जगुणो, छब्बीस-
अट्टावीसविह० कालो विसे० ।

बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त और
मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त जीवोंमें कालविषयक अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन
जीवोंके अट्टाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल समान पाया
जाता है । अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्त और मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंमें छब्बीस,
सत्ताईस और अट्टाईस विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल सबसे थोड़ा है और उत्कृष्टकाल
असंख्यातगुणा है ।

§ ३८८. मनुष्योंमें पाँच विभक्तिस्थानके कालसे लेकर तेईस विभक्तिस्थानके काल
तकके स्थानोंका कालविषयक अल्पबहुत्व मूलोषके समान है । तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानके
कालसे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका
काल असंख्यातगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । यहाँ
विशेष अधिकका प्रमाण साधिक पूर्वकोटिका त्रिभाग है । इक्कीस विभक्तिस्थानके कालसे
छब्बीस और अट्टाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । यहाँ विशेष अधिकका
प्रमाण पूर्वकोटिप्रथक्त्व है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंके कथन करना चाहिये । ब्रह्मिणी
मनुष्योंमें लोभकी सूक्ष्मकृष्टिके वेदकालसे लेकर तेईस विभक्तिस्थान तक काल विषयक
अल्पबहुत्व मूलोषके समान जानना चाहिये । तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानके कालसे इक्कीस
विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है । इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा
है । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे छब्बीस और अट्टाईस
विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है ।

§ ३८६. देवेषु मन्वन्थोवो वावीमविह० कालो । सत्तावीसविह० असंखेज्जगुणो । छब्बीसविह० असंखेज्जगुणो । एकवीस-चतुर्वीस-अट्ठावीसवि० कालो विमेसाहिओ । सोहम्ममादि जाव उवरिमगेवज्ज ति ताव मन्वन्थोवो वावीमवि० कालो, सत्तावीसवि० कालो असंखेज्जगुणो, एकवीस-चतुर्वीस-छब्बीस-अट्ठावीसवि० काला चत्तारि वि सरिसा असंखेज्जगुणा । अणुदिमादि-अणुत्तरविमाणवासियदेवेषु मन्वन्थोवो वावीसवि० कालो । एकवीस-चतुर्वीस-अट्ठावीसविह० काला तिण्णि वि मरिसा असंखेज्जगुणा ।

§ ३६०. इंदियाणुवादेण एइंदिएसु मन्वन्थोवो सत्तावीसवि० कालो, अट्ठावीस-विह० कालो असंखेज्जगुणो, छब्बीसविह० कालो अणंतगुणो । एवं जाणिदूण षेद्वं जाव अणाहारए ति ।

एवं काल-अप्पाबहुअं समंतं ।

§ ३६१. मंपहि कालमस्मिदूण जीव-अप्पाबहुअं परूत्रणट्ठं जइवसहाइरियो उत्तरसुत्तं

§ ३८६. देवोंमें बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । इससे सत्ताईस विभक्ति-स्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे छब्बीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे इक्कीस, चौबीस और अट्ठाईस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है । सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तक बाईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इक्कीस, चौबीस, छब्बीस और अट्ठाईस विभक्तिस्थानोंके चारों काल परस्परमें समान होते हुए भी सत्ताईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं । अनुदिशसे लेकर अनुत्तर विमान तक रहनेवाले देवोंमें बाईस विभक्ति-स्थानका काल सबसे थोड़ा है । इक्कीस, चौबीस और अट्ठाईस विभक्तिस्थानोंके काल परस्परमें समान होते हुए भी बाईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातगुणे हैं ।

§ ३६०. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेंन्द्रियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है । इससे अट्ठाईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे छब्बीस विभक्तिस्थानका काल अनन्तगुणा है । इसीप्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहां शेषमार्गणाओंमें विभक्तिस्थानोंके काल विषयक अल्पबहुत्वका कथन नहीं किया है किन्तु जानकर कथन कर लेनेकी सूचना की है । सो पहले सब मार्गणाओंमें एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन कर आये हैं । अतः उसके अनुसार यहां अल्पबहुत्वका विचार करलेना चाहिये ।

इस प्रकार कालविषयक अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

§ ३६१. अब कालका आश्रय लेकर जीवविषयक अल्पबहुत्वके कथन करनेके लिये बतिषुषम आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

मणदि-

* सन्वथोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया ।

§ ३६२. जीवा इदि एत्थ वत्तन्वं ? ण, अत्थावत्तीदो चैव तदवगमादो । कुदो ण्देसिं थोवत्तं ? समयूणदोआवलियाहि मंचिदत्तादो ।

* एकसंतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा ।

§ ३६३. कुदो ? संखेज्जावलियकालभंतरे मंचिदत्तादो । संखेज्जावलियत्तं कुदो णवदे ? उच्चदे, तं जहा-लोभसुहुमकिट्टीवेदयकालं अणियट्टिम्म विदियवादरलोभ संगहकिट्टिं वेदय-काल (-किट्टिवेदयकालं) समयूणदोआवलिऊणलोभपढमंगहकिट्टी-वेदयकालं च धेतूण एगविहत्तियकालो होदि । पुणो एदे तिण्णि वि काला पादेक्कं संखे-ज्जावलियमेत्ता अण्णोणं पेक्खिय संखेज्जावलियाहि ममया (ममम्भ) हिया । तेण एकस्से

* पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं ।

§ ३६२. शंका-इस उपर्युक्त सूत्रमें 'जीवा' इस पदको और निश्चिन्ना करना चाहिये था ? समाधान-नहीं, क्योंकि उक्त सूत्रमें 'जीवा' इस पदके नहीं रखने पर भी अर्थापत्तिसे ही उसका ज्ञान हो जाता है ।

शंका-ये पांच विभक्तिस्थानवाले जीव अन्य सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे थोड़े क्यों हैं ?

समाधान-क्योंकि पांच विभक्तिस्थानका काल एक समय कम दो आवली है, अतः इतने कालमें सबसे थोड़े ही जीव संचित होंगे ।

* पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ३६३. शंका-ये एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे क्यों हैं ?

समाधान-क्योंकि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है जो कि पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है । अतः पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणे कालके भीतर संचित एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुणे ही होंगे ।

शंका-एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवली है यह किससे जाना जाता है ?

समाधान-इस शंकाका समाधान इमप्रकार है-लोभकी सूक्ष्मकृष्टिका वेदककाल तथा अनिवृत्तिकरणमें लोभकी दूसरी बाहर मंग्रहकृष्टिका वेदककाल और लोभकी पहली मंग्रहकृष्टिका एक समयकम दो आवलीसे न्यून वेदककाल इन तीनों कालोंको मिलाकर एक विभक्तिस्थानका काल होता है, इससे जाना जाता है कि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवलीप्रमाण है । तथा ये तीनों ही काल अलग अलग संख्यात आवलीप्रमाण हैं और एक दूसरेसे संख्यात आवली अधिक हैं । इमसे जाना जाता है कि एक विभक्तिस्थानका

विहासियकालो मंखेअगुणो । लोभतदियबादरकिट्टीवेदयकालो एकस्से विहासिए काल-
 मंतरे किण्ण गहिदो ? ण, तिस्से मगमरूवेण उदयाभावेण वेदयकालाभावादो ।
 अट्टममयाहियल्लम्मासमंतरे जेण अट्ट चेव सिद्धममया होंति तेण समयूण-दोआव-
 लियमेत्तकालमंतरे मंखेअवलिवासु च अट्टसमयसंचओ सव्वो लब्भइ ति जीव-अप्पा-
 बहुअमाहण्ठं परूविदकाल-अप्पाबहुअं णिरत्थयामिदि ? होदि णिरत्थयं जदि अट्टसम-
 याहियल्लम्मासमंतरे चेव अट्टसिद्धममया होंति ति णियमो, किंतु अंतोसुहुत्त-दियस-
 पक्ख-मासमंतरे वि अट्टसिद्धसमया वि होंति, सत्त-ल्ल-पंच-चत्तारि-ति-दु-एकसिद्ध-
 समया वि होंति अणियमेण तेण कालपडिभागेणेव संचओ ति काल-अप्पाबहुअं ण
 काल पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है ।

शंका—लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका वेदककाल एक विभक्तिस्थानके कालमें सम्मिलित
 क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका स्वस्वरूपसे उदय नहीं होता है,
 अतः उसका वेदककाल नहीं पाया जाता । तात्पर्य यह है कि लोभकी तीसरी बादर
 कृष्टि सूक्ष्म कृष्टिरूपसे परिणत हो जाती है जिसका उदय सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानमें होता
 है । अतः लोभकी तीसरी बादरकृष्टिका अलगसे वेदककाल नहीं बतलाया है ।

शंका—चूंकि आठ समय और छह महीना कालमें केवल आठ ही सिद्ध समय होते हैं
 अतः आठ सिद्ध समयोंमें होनेवाला जीवोंका ममस्त संचय एक समय कम दो आवलि
 कालके भीतर तथा मंख्यात आठली कालके भीतर प्राप्त हो जाता है, इसलिये जीवविषयक
 अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये जो कालविषयक अल्पबहुत्व कहा है वह निरर्थक है । इस
 शंका का यह तात्पर्य है कि ऋह माह और आठ समयोंमें जो आठ सिद्ध समय होते हैं
 वे लगातार होनेके कारण पांच विभक्तिस्थानके एक समय कम दो आवलिप्रमाण कालमें
 तथा अन्य एक आदि विभक्तिस्थानोंके संख्यात आवलिप्रमाण कालमें भी एक साथ प्राप्त
 हो जाते हैं । अतः विभक्तिस्थानके कालविषयक अल्पबहुत्वकी अपेक्षा जो जीवोंका अल्प-
 बहुत्व कहा है वह नहीं बनता है ।

समाधान—यदि आठ समय अधिक छह महीना कालके भीतर ही लगातार आठ
 सिद्धसमय होते हैं ऐसा नियम होना तो जीवविषयक अल्पबहुत्वकी सिद्धिके लिये कहा
 गया काल विषयक अल्पबहुत्व निरर्थक होता, किन्तु एक अन्तर्मुहूर्त, एक दिन, एक पक्ष,
 और एक महीनाके भीतर भी अनियमसे आठ सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं और सात
 छह, पांच, चार, तीन, दो और एक सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं । अतः कालके प्रति-
 भागसे ही जीवोंका संचय होता है ऐसा मानना चाहिये और इसलिये कालविषयक अल्प-
 बहुत्व निरर्थक नहीं है ।

णिरस्थयं । ण च जीवट्टाणसुणेण अट्टममयाहियल्लमामणियमबलेण एगेगुणहाणम्मि जीवमंचयं मरिमभावेण परूवणेण सह विरोहो, पुघभूद-आइरियाणं मुहविणिग्गयमेत्तेण दोण्हं थप्पभावसुवगयाणं विरोहाणुववत्तीदो ।

यदि कहा जाय कि आठ समय अधिक छह महीनाके नियमके बलसे एक एक गुण-स्थानमें जीवोंके मंचयका समानरूपसे कथन करनेवाले जीवस्थानके सूत्रके साथ इस कथन का विरोध हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्यों कि ये दोनों उपदेश अलग अलग आचार्योंके मुखसे निकले हैं, अतः दोनो स्वतन्त्ररूपसे स्थित होनेके कारण इनमें विरोध नहीं हो सकता ।

विशेषार्थ—दसवें गुणस्थानमें १ विभक्तिस्थान होता है और नौवें गुणस्थानमें २, ३, ४, ५, ११, १२ और १३ विभक्तिस्थान होते हैं । यद्यपि २१ विभक्तिस्थान भी नौवें गुणस्थानमें होता है किन्तु वह केवल नौवेंमें न होकर अन्यत्र भी होता है और इस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याका निर्देश भी इसी अपेक्षासे किया गया है । अतः इसे छोड़ भी दिया जाय तो भी दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें कई गुनी जीवराशि प्राप्त होती है । यह बात उक्त विभक्तिस्थानोंके अल्पबहुत्वपर ध्यान देनेसे समझमें आ जाती है । किन्तु जीवट्टाणके द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें बतलाया है कि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीणमोह और अथोगिकेवली गुणस्थानमें जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या समान होती है । अतः यतिवृषभ आचार्यके चूर्णिसूत्रोंके उक्त कथनका जीवट्टाणके कथनके साथ विरोध आता है । किन्तु वीरसेन स्वामीने इसको मान्यताभेद कह कर समाधान किया है । वे लिखते हैं कि कदाचित् छह माह और आठ समयके अन्तमें लगातार आठ सिद्ध समय प्राप्त होसकते हैं और उनमें ६०८ जीव क्षपक श्रेणीपर चढ़ सकते हैं । अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०८ जीव बन जाते हैं यह जीवट्टाणके द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वारके उक्त सूत्रका अभिप्राय है । किन्तु चूर्णिसूत्रोंका यह अभिप्राय है कि यद्यपि आठ सिद्ध समयोंके प्राप्त होनेका कोई नियम नहीं है कदाचित् ७, ६, ५, ४, ३, २ और १ सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं, फिर भी वे लगातार न प्राप्त होकर एक अन्तर्मुहूर्त, एक दिन, एक पक्ष आदिके भीतर भी प्राप्त होते हैं । अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०८ जीव न मान कर कालके प्रतिभागके अनुसार ही जीवोंकी संख्या मानना चाहिये । तात्पर्य यह है कि कदाचित् इस क्रमसे जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ें जिससे उक्त विभक्तिस्थानोंके कालके अनुसार बटवारा होगया । इसप्रकार यह बात चूर्णिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव है, किन्तु जीवट्टाणके अभिप्रायानुसार सम्भव नहीं । तथा जो बात जीवट्टाणके अभिप्रायानुसार सम्भव है वह चूर्णिसूत्रोंके अभिप्रायानुसार सम्भव नहीं है ।

* दोणहं संतकम्मविहत्तिया विसेसा० ।

§ ३२४. कुदो ? लोभतिण्णिकिटीवेदयकालमंचिदजीवेहिंतो मायाए तिण्णिसंगहकिटीवेदयकालेण लोभतिण्णिसंगहकिटीवेदयकालादो विसेसाहिण्णसंचिदजीवाणं पि विसेसाहियत्तदंमणादो । ण च विसेसाहियदंसणमसिद्धं पुव्विल्लकालादो अहियसंखेज्जावलियासु सिद्धासिद्धसमएहि करंबियासु संचिदजीवोपलंभादो ।

* तिणहं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया ।

§ ३२५. कुदो ? मायातिण्णिसंगहकिटीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो माणतिण्णिसंगहकिटीवेदयकालेण मायातिण्णिसंगहकिटीवेदयकालादो विसेसाहिण्णसंचिदजीवाणं विसेसाहियत्तुवलंभादो । ण च संचयकाले विसेसाहिण्णसंचे जीवसंचओ सरिसो, विरोहादो ।

* एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

§ ३२४. शंका—एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—जब कि लोभकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मायाकी तीन संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है, तब लोभकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालमें जितने जीवोंका संचय होता है, उससे मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालमें जीवोंका संचय भी विशेष अधिक ही देखा जाता है । और यह विशेष अधिक जीवोंका पाया जाना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि एक विभक्तिस्थानक कालसे दो विभक्तिस्थानका काल संख्यात आवलि प्रमाण होते हुए भी विशेष अधिक है, और उन संख्यात आवलियोंमें, जिनमें कि सिद्ध समय और असिद्ध समय, दोनों पाये जाते हैं, जीव मंचित होते हैं । अतः दो विभक्तिस्थानका काल बहुत होनेसे उममें मंचित होने वाले जीव भी बहुत हैं ।

* दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं ।

§ ३२५. शंका—दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल विशेष अधिक है, अतः मायाकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीवोंका संचय होता है उससे मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें अधिक जीवोंका संचय पाया जाता है । यदि कहा जाय कि दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संचय कालसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका संचयकाल विशेष अधिक भले ही पाया जाय पर दोनों विभक्तिस्थानोंमें जीवोंका संचय समान ही होता है तो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

* एकारसण्हं संतकम्मविहृत्तिया विसेसाहिया ।

१ ३६६. कुदो ? माणतिणिसंगहकिट्टीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो छण्णोकसाय-
क्खवणकालेण माणतिणिसंगहकिट्टीवेदयकालादो विसेसाहिण संचिदएकारसविहृत्ति-
याण-मद्दाबहुत्तबलेण बहुत्तसिद्धिदा । माणतिणिसंगहकिट्टीवेदयकालादो कोध-
तिणिसंगहकिट्टीवेदयकालां संखेजावलियाहि अब्भाहिओ । कोधतिणिसंगहकिट्टीवेदय-
कालादो किट्टीकरणद्दा संखेजावलिथाहि अब्भाहिया । तत्तो अस्सकण्णकरणद्दा संखेजा-
वलियाह अब्भाहिया । तत्तो छण्णोकसायक्खवणद्दा संखेजावलिथाहि अब्भाहिया ।
एदाओ चत्तारि संखेजावलिथाओ मिलिदूण तिणिसंगहकिट्टीवेदयकालस्स संखेजदि-
भागमत्ताओ चव हींति । तेष तिण्हं विहृत्तिएहिंतो एकारसण्हं विहृत्तिया विसेसाहिया
त्ति भाणिदं । तिण्हं विहृत्तियाणमुवार चउण्णं विहृत्तिया किण्ण पादिदा ? ण, तिण्हं
विहृत्तियकालादो संखेजगुणम्मि चउण्हं विहृत्तियकालम्मि संचिदजीवाणं संखेज-

* तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक है ।

१ ३६६. शंका—तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदक कालसे छह नोकषायोंका क्षपण-
काल विशेष अधिक है । अतः मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीवोंका
संचय होता है उससे छह नोकषायोंके क्षपणकालमें संचित हुए ग्यारह विभक्तिस्थानवाले
जीव संचयकालके अधिक होनेसे बहुत सिद्ध होत है । मानकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदक-
कालसे क्रोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल संख्यात आवली अधिक है । क्रोधकी तीन
संग्रहकृष्टियोंके वेदककालसे कृष्टिकरणका काल संख्यात आवली अधिक है । कृष्टिकरणके
कालसे अश्वकर्षणकरणका काल संख्यात आवली अधिक है । अश्वकर्षणकरणके कालसे छह
नोकषायोंका क्षपणकाल संख्यात आवली अधिक है । ये चारों (विशेषाधिकरूप) संख्यात
आवलिथां मिलकर तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालके संख्यातत्वे भागमात्र ही होती हैं,
इसलिये तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं
यह कहा है ।

शंका—तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अनन्तर चार विभक्तिस्थानवाले जीव क्यों नहीं कहे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल
संख्यातगुणा है, अतः संख्यातगुणे कालमें संचित हुए जीव तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे
संख्यातगुणे ही होंगे । इसलिये यहां तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके कथनके अनन्तर चार

गुणचं ददूण तथा अपरूवणादो । ण च तक्कालस्स संखेज्जगुणत्तमसिद्धं, क्रोध-अस्स-
कण्णकरणकालं क्रोध-किट्टीकरणकालं क्रोधतिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालं च घेत्तूण चउण्हं
विहात्तियानमद्दाए अवट्ठाणादो । षेदमेत्थासंकण्णिज्जं सोदएण चडिदस्स तिण्हं दोण्ह
मेक्किस्से विहात्तियकालो वि एक्कारसविहात्तियकालादो संखेज्जगुणो लब्भइ तदो तेहि-
म्मि एक्कारसविहात्तिएहिंतो संखेज्जगुणेहि होदव्वमिदि । किं कारणं ? क्रोहोदएण
खवगसेहिं चडंताणमेव सव्वत्थ पहाणभावोवलंभादो । तदो ण किंचि विरुज्जदो ।

* बारसण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया ।

§ ३६७. कुदो ? छण्णोकसायखवणकालादो इत्थिवेदखवणकालस्स संखेजावलि-
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कथन नहीं किया है ।

तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह
बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रोधके अश्रुकरणकाल, क्रोधको कृष्टिकरणका
काल और क्रोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल इन तीनोंका मिलाकर चार विभक्ति-
स्थानका काल होता है ।

यहां पर ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि स्वोदयसे चढ़े हुए जीवके
तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल भी ग्यारह विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा
पाया जाता है इसलिये तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीव भी ग्यारह विभक्ति-
स्थानवाले जीवोंसे संख्यातगुण होने चाहिये । इसका कारण यह है कि क्रोधके उदयसे
क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवोंकी ही सर्वत्र प्रधानता देखी जाती है, इसलिये पूर्वोक्त
कथनमें कोई विरोध नहीं आता है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि मानके उदयमें चढ़े हुए
जीवोंके दो विभक्तिस्थानका काल, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके तीन विभक्तिस्थानका
काल और लोभके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके एक विभक्तिस्थानका काल ग्यारह विभक्ति-
स्थानके कालसे संख्यातगुणा होगा । पर मान, माया और लोभके उदयके साथ क्षपक-
श्रेणीपर चढ़नेवाले जीव बहुत थोड़े होते हैं । अतः एक, दो और तीन विभक्तिस्थानवाले
जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यातगुणे न होकर कम ही होते हैं ।

* ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष
अधिक हैं ।

§ ३६७. शंका—ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष
अधिक क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि छह नोकषायोंके क्षपणकालसे स्त्रीवेदका क्षपणकाल संख्यात
आवली अधिक पाया जाता है । अतः ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थान
वाले जीव विशेष अधिक हैं ।

याहि समहियत्तुवलंभादो । केत्तियमेत्तेण विसेसाहिया ? अहियसंखेजावलियासु संचिद-
जीवमेत्तेण ।

* चदुण्हं मंतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा ।

§ ३६८. को गुणगारो ? किंचूण तिण्णि रूवाणि । कुदो ? इत्थिवेदस्खवणकालादो
चत्तारविहत्तियकालस्म किंचूणतिगुणत्तुवलंभादो । तं जहा—दुसमयूणदोआवलि-
गुणअस्सकण्णकरणकालो क्रोधकिट्टीकरणकालो क्रोधतिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालो त्ति,
एदे तिण्णि चदुण्हं विहत्तियकाला बारसविहत्तियकालादो पादेकं विसेसहीणा ।
संपहि एदेसु तिसु कालेसु तत्थ एगकालस्स संखेजादिभागं घेत्तूण सेसदोकालेसु जहा
परिवाडीए दिण्णेसु ते दो वि काला इत्थिवेदस्खवणकालेण सरिसा होदूण तत्तो दुगुणत्तं
पावेंति । पुणो संखेजादिभागूणो गहिदसेसकालो इत्थिवेदस्खवणकालादो जेण किंचूणो
तेण बारसविहत्तियकालादो चदुण्हं विहत्तियकालो किंचूणतिगुणो त्ति सिद्धं । एदम्मि
काले संचिदजीवाणं पि एमो चेष गुणगारो; कालाणुसारिजीवसंचयभुवगमस्स

शंका—उन विशेष अधिक जीवोंका प्रमाण क्या है ?

समाधान—ग्यारहवें विभक्तिस्थानके कालसे बारहवें विभक्तिस्थानका काल जितनी
संख्यात आवलियां अधिक है, उसमें जितने जीवोंका संचय होता है उतना ही विशेषा-
धिक जीवोंका प्रमाण है ।

* बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ३६८. शंका—यहां गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान—कुछ कम तीन गुणकारका प्रमाण है ।

शंका—गुणकारका प्रमाण इतना क्यों है ?

समाधान—क्योंकि स्त्रीवेदके क्षपणकालसे चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना
पाया जाता है । उसका खुलासा इसप्रकार है—दो समयकम दो आवलियोंसे न्यून अद्व-
कर्णकरणका काल, क्रोधकी कृष्ट करणका काल और क्रोधकी तीन संभ्र कृष्टियोका वेदक
काल ये तीनों काल मिलकर चार विभक्तिस्थानका काल होता है । किन्तु इस तीनों कालों
में से प्रत्येक काल बारह विभक्तिस्थानके कालसे विशेषहीन है । अब इन तीनों कालोंमेंसे
किसी एक कालके संख्यातवे भागको ग्रहण करके और उसके दो भाग करके प्रत्येक भागके
ऊपर शेष दो कालोंको क्रमसे द्यरूपसे दे देनेपर वे दोनों ही प्रत्येक काल स्त्रीवेदके
कालके समान होते हैं और मिलकर स्त्रीवेदके कालसे दूने हो जाते हैं । तथा संख्यातवे भागसे
न्यून शेष तीसरा काल चूंकि स्त्रीवेदके क्षपणकालसे कुछ कम होता है, इससे सिद्ध होता
है कि बारह विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल कुछ कम तिगुना है ।
तथा इस कालमें संचित हुए जीवोंका गुणकार भी इतना ही होगा । कालके अनुसार

पमाणानुकूलत्तदंसणादो ।

* तेरसण्हं मंतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा ।

§ ३६६. कुदो ? चदुण्हं विहत्तियकालादो संखेज्जगुणम्मि तेरसविहत्तियकालम्मि संचिदजीवाणं पि जुत्तीए संखेज्जगुणत्तदंसणादो । तेरसविहत्तियकालस्स संखेज्जगुणत्तं कथं णव्वद ? जुत्तीदो । तं जहा-थीणगिद्वियादिसोलसकम्मणं खवणकालो मणपज्जवणाणावरणादिबारसण्हं दंसघादीबंधकरणकालो अंतरकरणकालो अंतरकरणे कदे णवुंसयवेदकखवणकालो च एदे चत्तारि वि काला तेरसविहत्तियस्स । अस्सकण्णकरणकालो कोधकिट्टीकरणकालो कोधतिणिसंगहकिट्टीवेदयकालो च एदे तिण्णि वि चदुण्हं विहत्तियस्स । एदे तिण्णिवि काले पेक्खिदुण पुव्विज्जकालो संखेज्जगुणो । कालतियं पेक्खिदुण पुव्विज्जकालचउक्कं विसंसाहियं किण्ण होदि ? ण, णवण्हं कालाणं समुदयसमागमेण कालचदुक्कुप्पचीदो । के ते णवकाला ? जीवोंके संचयकी पद्दाति प्रमाणानुकूल देग्वा जाती है ।

* चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात गुणे होते हैं ।

§ ३६६. शंका—चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात-गुणे क्यो हैं ?

समाधान—चूंकि चार विभक्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है, इसलिये युक्तसे यही सिद्ध होना है कि चार विभक्तिस्थानके कालमें मंचित हुए जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानके कालमें मंचित हुए जीव संख्यातगुणे होते हैं ।

शंका—चार विभक्तिस्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यात गुणा है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—युक्तसे जाना जाता है । उसका खुलासा इसप्रकार है—स्थानगृद्धि आदि सोलह कर्मोंका क्षपणकाल, मनःपर्यय ज्ञानावरण आदि बारह कर्मोंका देशघातिबन्धकरणकाल, अन्तरकरणकाल, और अन्तरकरण करनेके अनन्तर नपुंसकवेदका क्षपणकाल ये चारों मिलाकर तेरह विभक्तिस्थानका काल है । तथा अश्वकर्णकरणकाल, क्रोधकृष्टिकरणकाल और क्रोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककाल ये तीनों ही चार विभक्तिस्थानके काल हैं । इसप्रकार इन तीनों कालोंको देखते हुए इनकी अपेक्षा पूर्वोक्त तेरह प्रकृति स्थानका काल संख्यातगुणा है ।

शंका—पूर्वोक्त तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी चारों काल चार विभक्तिसंबन्धी तीनों कालोंसे विशेषाधिक क्यो नहीं हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नौ कालोंके समुदायके समागमसे चार कालोंकी उत्पत्ति हुई

शीणगिद्धियादि सोलसकम्मक्खवणकालो १, मणपञ्जव-दाणंतगइयाणं देमघादीबंध-
करणकालो २, ओहिणाण०-ओ हदंम०-लाहंतगइयाणं देमघादिबंधकरणकालो ३,
सुदणाण०-अचक्खु०-भोगंतगइयाणं देसघादिबंधकरणकालो ४, चक्खुदंम० देस-
घादिबंधकरणकालो ५, आभिणि०-परिभोग० देसघादिबंधकरणकालो ६, विरियंत-
राइयदेमघादिबंधकरणकालो ७, तेरसण्हं कम्माणमंतरकरणकालो ८, णवुंमयवेद-
क्खवणकालो ९, एदे णव काला । चदुण्हं विहत्तियकाला पुण तिण्णि चेव । तेण
एदे पेक्खियूण पुब्बिल्लकाला संखेज्जगुणा । किंच मोलमकम्माणि खविय जाव
मणपञ्जवणाणावरणीयं बंधेण देसघादि ण करेदि ताव से कालो चेव चउण्हं विइ-
त्तियकालादो संखेज्जगुणो संखेज्जट्टिदिबंधमहम्मसगग्गिभणत्तादो । मव्वकालममूहो पुण
संखेज्जगुणो त्ति को संदेहो ? पुब्बिल्लकालअप्पावहुमादो वा तेरसविहत्तियकालस्म
संखेज्जगुणत्तं णव्वदे ।

है अर्थात् इन चार कालोंमें नौ काल सम्मिलित है । अतः वे चार विभक्तिस्थानसंबन्धी
तीन कालोंसे विशेषाधिक नहीं हो सकते ।

शंका—वे नौ काल कौनसे हैं ?

ममाधान—पहला स्थानगृद्धि आदि सोलह कर्मोंका क्षपणकाल, दूसरा मनःपर्यय और
दानान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातिबन्धकरणकाल, तीसरा अवधिज्ञानावरण अवधि-
दर्शनावरण और लाभान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातोबन्धकरणकाल, चौथा श्रुत-
ज्ञानावरण, अचञ्चुदर्शनावरण, और भोगान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातिबन्धकरण-
काल, पांचवां चक्षुदर्शनावरण प्रकृतिका देशघातिबन्धकरणकाल, छठा मतिज्ञानावरण परि-
भोगान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशघातीबन्धकरणकाल, सातवां वीर्यान्तराय प्रकृतिका
देशघातिबन्धकरणकाल, आठवां मोहनीयकी तरह प्रकृतियोंका अन्तरकरण काल और नौवां
नपुंसकवेदका क्षपणकाल इसप्रकार ये नौ काल हैं, पर चार विभक्तिस्थानके काल तीन ही
होते हैं । इससे इन दोनों कालोंको देवते हुए ज्ञात होता है कि चार विभक्तिस्थानसंबन्धी
कालोंसे तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी काल संख्यातगुणे हैं । दूसरे स्थानगृद्धि आदि सोलह
कर्मोंका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानवाला जीव जब तक मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके
बन्धको देशघाति नहीं करता है तब तक जो काल होता है वही चारविभक्तिस्थानके कालसे
संख्यातगुणा होता है, क्योंकि मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्मके देशघाति बन्धकरण संबन्धी
कालके भीतर संख्यात हजार स्थितिबन्ध गर्भित हैं । अतएव तेरह विभक्तिस्थानका समस्त
काल मिलकर चार विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणा है इसमें क्या सन्देह है । अथवा,
पहले जो कालविषयक अल्पबहुत्व कह आये हैं उससे जाना जाता है कि चार विभक्ति-
स्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है ।

* बावीमसंतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा ।

१४००. कुदो ? चारित्तमोहणीय-अणियट्ठीकालादो मंखेज्जगुणम्मि दंसणमोहणीय-अणियट्ठीकालम्मि मंचिदजीवाणं पि मंखेज्जगुणत्तं पडि विरोहाभावादो । अट्ठवम्मट्ठिदिसंतकम्मे चेट्ठिदे तदो प्पट्ठुडि जाव मम्मत्तक्खवणणाचरिमममओ ति नाव वावीमविहत्तियकालो । एमो चारित्तमोहक्खवण-अणियट्ठी-अट्ठादो मंखेज्जगुणो ति कधं णव्वदे ? एवं मा जाणिज्जदु, किंतु नेग्गविहत्तियकालादो एमो कालो मंखेज्जगुणो ति णव्वदे । कत्तो ? पुण्विल्लकाल-अप्पाबहुगादो । चारित्तमोहक्खवणं पट्ठवेंत-जीवेहिंतो दंमणमोहक्खवणं पट्ठवेंतजीवा मंखेज्जगुणा ति ण घेत्तव्वं, उभयन्थ अट्ठुत्तर-सदजीवे मोत्तूण एत्तो बह्हाआणं चडणासंभवादो । ण च पट्ठवणकालम्म थोवबहुत्त-

* तेग्ग विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव मंख्यातगुणे हैं ।

१४००. शंका—तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे क्यों हैं ?

समाधान—चूंकि चारिमोहनीयके अनिवृत्तिकरणसंबन्धी कालसे दर्शनमोहनीयका अनिवृत्तिकरणकाल संख्यातगुणा है, इसलिये इसमें संचित हुए जीव भी मंख्यातगुणे होते हैं इस कथनमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—स्थितिका पुनः पुनः अपकर्षण करते हुए जब सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थिति आठ वर्ष प्रमाण रह जाती है उस समयसे लेकर सम्यक्प्रकृतिके क्षपणकालके अन्तिम समय तक बाईस विभक्तिस्थानका काल होता है । यह काल चारित्रमोहनीयके क्षपक जीवके अनिवृत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—इस प्रकारका ज्ञान भले ही मत होओ किन्तु तेरह विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह तो जाना ही जाता है ।

शंका—किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—पूर्वोक्त कालविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है ।

यहां पर चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीवोंसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीव मंख्यातगुणे होते हैं ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि दोनों जगह एक सौ आठ जीवोंसे अधिक जीव दर्शनमोहनीय या चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके लिये एक साथ आरोहण नहीं करते हैं । यदि कहा जाय कि चारित्रमोहनीयके क्षपणाके प्रारम्भ कालसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भकाल अधिक होगा इसलिये दोनोंके कालमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि, दोनों प्रस्थापककालोंमें मंख्यात समयका नियम देखा जाता है । यदि कहा जाय कि जघन्य अन्तर और उत्कृष्ट

कओ विसेसो अत्थि, उभयत्थ संखेअसमयणियमदंसणादो । ण च जहणुक्खसंतर-
विसेसो अत्थि एगसमयअम्मसम्भंतरणियमदंसणादो । तदो पुब्बिअत्थो चैव
घेत्तव्वो ।

* तेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया ।

§ ४०१. कुदो ? सम्मत्तक्खवणकालादो विसेसाहियम्मि सम्मामिच्छत्तक्खवण-
कालम्मि मंचिदजीवाणं वि जुत्तीए विसेसाहियत्तदंसणादो । सम्मत्तक्खवणकालादो
सम्मामिच्छत्तक्खवणकालो विसेसाहियो चि कुदो णव्वदे ? पुब्बिअ-अट्टप्पावहुआदो ।

* सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेज्जगुणा ।

§ ४०२. को गुणगारो ? पालदो० असंखेभागो । कुदो ? पालदो० असंखे० भाग-
मेत्तकालेण मंचिदत्तादो सम्मत्तादो मिच्छत्तं पडिवज्जमाणजीवाणं बहुत्तुवलंभादो च ।

अन्तरकी अपेक्षा दोनों प्रस्थापककालोंमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों
प्रस्थापककालोंमें जघन्य अन्तरके एक समय और उत्कृष्ट अन्तरके छह महीना होनेका
नियम देखा जाता है । अतः तेरह विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्थानका काल
संख्यातगुणा है यह पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये ।

* बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष
अधिक हैं ।

§ ४०१. शंका—बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष
अधिक क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि सम्यक्प्रकृतिके क्षपणकालसे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षपणकाल
विशेष अधिक है । अतः उसमें संचित हुए जीव भी विशेष अधिक हैं । यह युक्तिसे सिद्ध
होता है ।

शंका—सम्यक्प्रकृतिके क्षपणकालसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक
है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—पूर्वोक्त कालविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है ।

* तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-
गुणे हैं ।

§ ४०२. शंका—प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान—प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवांभाग गुणकारका प्रमाण है ।

शंका—प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्यों है ?

समाधान—क्योंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सञ्चय पल्योपमके असंख्या-
तवें भाग प्रमाण काल तक होता रहता है और सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त होने वाले

* एकवीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेज्जगुणा ।

§ ४०३. को गुणगारो ? आवलियाए अमंखेज्जदिभागो । कुदो ? बे सागरो-वमकालभंतरउवक्कमणकालम्मि संचिदत्तादो । गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदि-भागो त्ति कुदो णव्वदे ? आइरियपरंपरागयसुत्ताविरुद्धवक्खाणादो । अहवा गुण-गारो तप्पाओग्गअसंखेजरूवमेतो, मम्मामिच्छत्तुव्वेल्लणकालम्मि संचिदजीवे पडुच्च पालिदोवमस्म आवलियाए अमंखेज्जादभागो चेव भागहारो हांदि त्ति णियमकारणा-णुवलंभादो । जुत्तीए पुण असंखेजावलियाहि भागहारेण होदव्वं, अण्णहा एकवीस-विहत्तियभागहारादो असंखेज्जगुणत्ताणुववत्तीदो । तं जहा-संखेजावलियाओ अंतरिय जदि संखेजा उवक्कमणसमया एकवीमविहत्तियाणं लब्भंति, तो दोसु सागरेसु किं जीव बहुत पाये जाते हैं, इन दोनों कारणोंसे जाना जाता है कि यहां गुणकारका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

* सत्ताईम विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्कीम विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४०३. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका अमंख्यातवां भाग है ।

शंका-प्रकृतमें आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकारका प्रमाण क्यों है ?

समाधान-क्योंकि प्रकृतमें दो सागरोपमकालके भीतर जितने उपक्रमण काल होते हैं उनमें संचित हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव लिये गये हैं । अतएव प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग कहा है ।

शंका-फिर भी इससे यह कैसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है ?

समाधान-आचार्य परम्परासे मूत्रके अविरुद्ध जो व्याख्यान चला आ रहा है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका अमंख्यातवां भाग है ।

अथवा तत्प्रायोग्य अर्थात् सत्ताईस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिका इक्कीस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिमें भाग देनेपर जो असंख्यात प्रमाण लब्ध आता है उतना ही यहां गुणकारका प्रमाण है; क्योंकि पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सम्यग्मिथ्यात्वके उद्वेलन कालमें संचित हुए जीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर पल्योपमका भागहार आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है, इस प्रकारके नियमका कोई कारण नहीं पाया जाता । परन्तु युक्तिसे असंख्यात आवली प्रमाण भागहार होना चाहिये, अन्यथा वह भागहार इक्कीस विभक्तिस्थानके भागहारसे असंख्यात गुणा नहीं हो सकता है । आगे इसीका खुलासा करते हैं-संख्यात आवलियोंके अन्तरालसे यदि इक्कीस

लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदमिच्छामोवट्टिदे संखेज्जावलियाहि पालिदोवमे खंडिदे एगभागो एकवीसविहत्तियाणमुवक्कमणकालो होदि । उवरिमवीसकोडाकोडीरूवमेत्त-पलिदोवमगुणगारादो हेट्टा आवलियाए द्वविदगुणगारो संखेज्जगुणो त्ति कुदो णव्वदे ? पलिदोवममेत्तकम्मट्टिदीए आबाधा संखेज्जावलियमेत्ता होदि त्ति आहरियवयणादो, आबाधाकंडयपरूवयसुत्तादो च णव्वदे । एदम्हादो अवहारकालादो एकवीसविहत्तिय-अवहारकालो जदि वि संखेज्जगुणहीणो तो वि संखेज्जावलियमेत्तेण होदव्वं अट्टुत्तर-सदमेत्तजीवेहितो उवरि उवक्कमणाभावादो । अह जइ बहुआ होंति आउअवसेण, तो वि आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तेण हांदव्वं । एदमवहारकालं तप्पाओग्ग-असंखेज्ज-रूवेहि गुणिदे सत्तावीसविहत्तिय-अवहारकालो जेण होदि तेण सत्तावीसविहत्तियाण-मवहारकालो असंखेज्जावलियमेत्तो त्ति सिद्धं ।

विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यात उपक्रमण-समय प्राप्त होते हैं तो दो सागर प्रमाण कालमें कितने उपक्रमण-समय प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्रैाशिक करके फलराशिसे इच्छा-रशिको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर संख्यात आव-लियोंसे पत्त्योपमको भाजित करने पर एक भागप्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उपक्रमणकाल आता है ।

शंका—ऊपर अर्थात् 'तो दोसु भागरेसु किं लभामो' यहां पर जो पत्त्यका गुणकार बीस कोडाकोड़ी अंक प्रमाण है, उससे नीचे अर्थात् 'संखेज्जावलियाहि पालिदोवमे खंडिदे' यहां पर आवलिका गुणकार जो संख्यातगुणा स्थापित किया है, मो यह बात किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान—एक पत्त्य कर्मस्थितिकी आबाधा संख्यात आवलिप्रमाण होती है इस प्रकारके आचार्य वचनसे और आबाधाकाण्डकका कथन करनेवाले मूत्रसे जानी जाती है ।

इस अवहारकालसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहारकाल यद्यपि संख्यातगुणा हीन होता है तो भी वह संख्यात आवलि प्रमाण होना चाहिये, क्योंकि अधिकसे अधिक एक साथ एक सौ आठ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उपक्रमण करते हैं अधिक नहीं । अथवा आयुकी न्यूनाधिकताके कारण अधिक जीव उपक्रमण करते हैं ऐसा मान लिया जाय तो भी इक्कीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका अवहारकाल आवलिके संख्यातवें भाग प्रमाण होना चाहिये । और इस अवहारकालको सत्ताईस विभक्तिस्थान वाले जीवोंके अवहारकालके योग्य असंख्यात अंकोंसे गुणित कर देनेपर चूंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहार काल प्राप्त होता है अतः सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अवहारकाल असंख्यात आवलि प्रमाण सिद्ध होता है ।

* चउवीसाए संतकम्मिया असंखे० गुणा ।

§ ४०४. को गुणगारो ? आवलि० असंखे० भागो । एकवीसविहत्तियकालेण चउवीसविहत्तियकालो सरिसो, सोहम्मीसाणकप्पेसु सयल-असंजदमम्मादिट्ठीणिवासेसु चेव चउवीस-एकवीसविहत्तियाणं संभवादो । उवरि किण्ण वेप्पदे ? ण, सोहम्मीसाण-सम्माइट्ठीहिंतो असंखेज्जगुणहीणेसु वेप्पमाणे कारणबहुत्ताभावेण असंखेज्जगुणहीणाणं गहणप्पसंगादो । ण च उवक्कमणकालमस्सिदूण गुणगारो आवल्लियाए असंखेज्जदि भागो ति वोत्तुं सक्किज्जे, सोहम्मीसाण-उवक्कमणकालादो वेद्धावट्ठिसागरम्भरुवक्कमण-कालस्स वि संखेज्जगुणस्सेव उवलंभादो । एवमुवक्कमणकाले सरिसे संते कथमसंखेज्ज-गुणत्तं जुज्जदि ति, ण एस दोसो, मणुसेहि समुप्पज्जमाणखइयसम्माइट्ठिसंखेज्जवीवेहिंतो सोहम्मीसाणकप्पेसु अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोएमाण-अट्ठावीससंतकम्मियवेदग-सम्माइट्ठीण-मुवसमसम्माइट्ठीणं च समयं पडि पल्लिदो० असंखे० भागमेत्ताणमुवलं-

* इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४०४. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

शंका-चौबीस विभक्तिस्थानका काल इक्कीस विभक्तिस्थानके कालके समान है, क्योंकि समस्त असंयतसम्यग्दृष्टियोंके निवासभूत सौधर्म और ऐशान कल्पमें ही चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव अधिक संभव हैं । शायद कहा जाये कि सौधर्म और ऐशान कल्पके ऊपरके सम्यग्दृष्टि जीव प्रकृतमें कथों नहीं ग्रहण किये गये हैं ? तो उमका समाधान यह है कि सौधर्म और ऐशान कल्पके सम्यग्दृष्टियोंसे ऊपरके कल्पोंमें असंख्यातगुणे हीन सम्यग्दृष्टि होते हैं, अतः उनके ग्रहण करनेपर बहुत्वका कारण न होनेसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी अपेक्षा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हीन स्वीकार करना पड़ेंगे । तथा उपक्रमण कालकी अपेक्षा इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका गुणकार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकृतमें यदि एकसौ बत्तीस सागरके भीतर होनेवाले उपक्रमण कालका भी ग्रहण किया जाय तो वह सौधर्म और ऐशानके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा ही पाया जायेगा । इसप्रकार उपक्रमण कालके समान रहते हुए इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थान-वाले असंख्यातगुणे कैसे बन सकते हैं ?

समाधान-यह ठीक नहीं है, क्योंकि सौधर्म और ऐशान कल्पमें मनुष्योंमेंसे उत्पन्न होने वाले संख्यात क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करने वाले अट्ठाईस विभक्तिस्थानी वेदक सम्यग्दृष्टि तथा उपशमसम्यग्दृष्टि जीव प्रति समय पल्लोपम

भादो, असंखेज्जदीवेसु भोगभूमिपडिभागेसु कम्मभूमिपडिभागदीवसमुदेसु च णिवसंत-
चउवीससंतकम्मियसम्माइट्ठीण सोहम्मीसाणेसु असंखेज्जाणमुवक्कमणसमयं पडि
उप्पज्जमाणणमुवलंभादो च । जदि एवं तो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुण-
गारेण होद्वं ? ण, सच्चोवक्कमणसमएसु पलिदो० असंखे० भागमेत्ताणं जीवाणं
चउवीससंतकम्मियभावमुवक्कममाणणमणुवलंभादो । जदि एवं तो कधमुवक्कमंति ?
कत्थ वि एक्को, कत्थ वि दोण्णि, एवं गंतुण कत्थवि० संखेज्जा, कत्थ वि आवलियाए
असंखेज्जदिभागमेत्ता, कत्थ वि आवलियमेत्ता, संखेज्जावलियमेत्ता असंखेज्जावलिय-
मेत्ता वा उवक्कमंति चउवीससंतकम्मियभावं, तेण आवलियाए असंखे० भागेणैव
गुणगारेण होद्वं । चउवीससंतकम्मियभागहारेण आवलियाए अमंखेज्जदिभागेण
संखेज्जावलियमेत्ते एकवीसविहात्तियभागहारे ओवड्ठिदे आवलियाए असंखेज्जदि-
भागुवलंभादो वा गुणगारो आवलियाए असंखे० भागो । संखेज्जावलियमेत्ते सोह-
के असंख्यातवें भाग पाये जाते है, तथा भोगभूमिसम्बन्धी असंख्यात द्वीपोंमें और कर्म-
भूमिसम्बन्धी द्वीप समुद्रोंमें निवास करने वाले चौबीस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीव
सौधर्म और ऐशान कल्पमें प्रत्येक उपक्रमणकालमें असंख्यात उत्पन्न होते हुए देखे जाते
हैं । इन हेतुओंसे प्रतीत होता है इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले
जीव असंख्यात गुणे होते हैं ।

शंका—यदि ऐसा है तो प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग न
होकर पल्लोपमका असंख्यातवां भाग होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सभी उपक्रमण कालोंमें पल्लोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण
जीव चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते हुए नहीं पाये जाते हैं, अतः प्रकृतमें गुणकारका
प्रमाण पल्लोपमका असंख्यातवां भाग नहीं कहा ।

शंका—यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टि जीव किस क्रमसे चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त
होते है ?

समाधान—किसी उपक्रमणकालमें एक जीव, किसीमें दो, इसप्रकार उत्तरोत्तर किसीमें
संख्यात, किसीमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण, किसीमें आवली प्रमाण, किसीमें संख्यात
आवली प्रमाण, किसीमें असंख्यात आवलीप्रमाण जीव चौबीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते हैं,
इससे यह निश्चित होता है कि गुणकार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होना चाहिये ।
अथवा आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण चौबीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागहारसे संख्यात
आवली प्रमाण इक्कीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागहारको भाजित कर देनेपर आवलीका असं-
ख्यातवां भागमात्र प्राप्त होता है, इससे भी यही निश्चित होता है कि प्रकृतमें गुणकारका
प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग ही है ।

म्भीसाणकप्पेसु एकवीसविहत्तिया (-य) जीवभागहारे संते णिरयतिरिक्खेसु असंखेज्जावलियमेत्तेण भागहारेण होदव्वं ? ण च एवं, वासपुधत्तमेत्तुवक्कमणंतरेण उक्कस्सेण सह विरोहादो । ण एस दोसो, णिरयतिरिक्खगईसु एकवीसविहत्तियाणमसंखेज्जावलियमेत्तभागहारब्भुवगमादो । ण च वासपुधत्तंतरेण सह विरोहो, तस्स वइपुल्लवाचयत्तावलंबणादो । पयारंतरेण वि एत्थ परिहारो चितिय वत्तव्वो ।

* अट्टावीससंतकम्मिया असंखेज्जगुणा ।

§ ४०५. कुदो ? अट्टावीससंतकम्मिए सम्मादिट्ठिणो मोत्तूण अणत्थ अणंताणु० चउक्कस्स विसंजोयणाभावादो । ण च ते सव्वे विसंजोएंति तेसिमसंखेज्जदिभागमेत्ताणं चैव जीवाणं अणंताणुबंधिविसंजोयणपरिणामाणं संभवादो । एत्थ को गुण-

शंका—जब कि सौधर्म और ऐशान कल्पमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण लानेके लिये भागहार संख्यात आवली प्रमाण है तो नारकी और तिर्यंचोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण लानेके लिये भागहारका प्रमाण असंख्यात आवली होना चाहिये । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर नारकी और तिर्यंचोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंके उत्कृष्ट उपक्रमणकालका अन्तर जो वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा उसके साथ विरोध आता है ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि नरकगति और तिर्यंचगतिमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या लानेके लिये भागहारका प्रमाण असंख्यात आवली स्वीकार किया है । विन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी इस कथनका वर्षपृथक्त्व प्रमाण अन्तर कालके साथ विरोध नहीं आता है, क्योंकि यहां वर्षपृथक्त्व पद वैपुल्यवाची स्वीकार किया है । अथवा यहां उक्त शंकाका परिहार प्रकारान्तरसे विचार करके कहना चाहिये ।

● चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४०५. शंका—चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे क्यों हैं ?

समाधान—अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीवोंको छोड़ कर अन्यत्र चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंकी विसंयोजना नहीं होती है । पर सभी अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके असंख्यातवें भागमात्र ही जीवोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाके कारणभूत परिणाम सम्भव हैं । इससे प्रतीत होता है कि चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं ।

गारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । उवक्कमणकालविसेसो एत्थ ण णिहाले-
यव्वो, उवक्कममाणजीवाणं पमाणेण अविसेसे संते उवक्कमणकालविसयफलोवलंभादो ।

* छब्बीसविहत्तिया अणंतगुणा ।

§ ४०६. को गुणगारो ? छब्बीसविहत्तियगासिस्स अमंखेज्जदिभागो ।

एवं चुणिसुत्तोघो उच्चारणोघसमाणो ममत्तो ।

§ ४०७. संपहि उच्चारणमस्सिगूण आदेसप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । कायजोगि-ओरा
लिय०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारि त्ति ओघभंगो ।

§ ४०८. आदेसेण णिरयगईएणेईएसु सन्वथोवा वावीसविहत्तिया । मत्तावी-
मविह० असंखेज्जगुणा, एकवीसविह० अमंखेज्जगुणा, चउवीसवि० अमंखेज्जगुणा, अट्टा-
वीमवि० असंखे० गुणा, छब्बीसविह० अमंखेज्जगुणा । एवं पढमपुढवि-पंचिदिधतिरिक्ख-

शंका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्यासे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी
संख्याके लानेके लिये गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

प्रकृतमें उपक्रमण कालविशेषका विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उपक्रमण कालमें
उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी संख्या यदि समान हो तो उपक्रमणकालकी अपेक्षा विचार करनेमें
सार्थकता है ।

* अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव
अनन्तगुणे हैं ।

§ ४०६. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण छब्बीस विभक्तिस्थानवाली जीबराशिका असं-
ख्यातवां भाग है ।

इस प्रकार चूर्णिसूत्रके ओघका कथन समाप्त हुआ । इसके समान ही उच्चारणाका
ओघका कथन है ।

§ ४०७. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर आदेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको बतलाते
हैं- काययोगी, औदारिककाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक इनमें अट्टाईस
आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ।

§ ४०८. आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे
थोड़े हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभ-
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्ति-
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार पहली पृथिवीके नारकी जीवोंमें, पंचेन्द्रिय

पंचि०तिरि०पज्जत्त-देव-मोहम्मादि जाव सहस्सारे ति वत्तव्वं । विदियादि जाव सत्तामि ति एवं चेव वत्तव्वं । णवरि वावीस-एक्कवीमविहत्तिया णत्थि । एवं पंचिदिय-तिरिक्खजोणणी-भवण०-वाण०-जोदिसि० वत्तव्वं । तिरिक्खि० पढमपुढाविभंगो । णवरि छव्वीसविहात्तिया अणत्तगुणा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सव्वत्थोवा सत्तावीस-विह० । अट्ठावीसविह० असंखेज्जगुणा । छव्वीसविह० अमं० गुणा । एवं मणुस-अपज्ज०-सव्वविगालिंदिय-पंचिदिय अपज्ज०-चत्तारिकाय बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-तस अपज्ज०-विहंग० वत्तव्वं ।

§ ४०६. मणुस्सेसु सव्वत्थोवा पंचविहत्तिया । एगवि० संखेज्जगुणा, दुवि० विसे-साहिया, तिवि० विसेसा०, एक्कारसवि० विसे०, बारसवि० रिसे०, चदुवि० संखे-ज्जगुणा, तेरसवि० संखे०गुणा०, वावीसवि० संखे० गुणा, तेवीमवि० विसे०, एक-तिर्यच और पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त जीवोंमें तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर सहस्रार तकके देवोंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवी पृथिवी तक भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते हैं । दूसरी आदि पृथिवियोंमें अल्पबहुत्वका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमती जीवोंमें तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें कहना चाहिये । सामान्य तिर्यचोंमें पहली पृथिवीके समान अल्प-बहुत्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां पर अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे होते हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्य-पर्याप्तकोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अट्ठाईस विभक्तिस्थान-वाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे पृथिवी आदि चारों स्थावरकाय, त्रसललब्ध्यपर्याप्त और विभंगझानी जीवोंमें कथन करना चाहिये ।

§ ४०६. मनुष्योंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे एक विभक्ति-स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात-गुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभ-

वीमवि० संखेजगुणा, चउवीसवि० संखेजगुणा, सत्तावीसवि० असंखेजगुणा, अट्टा-
वीसवि० असंखे० गुणा, छव्वीसवि० असंखे० गुणा । एवं मणुसपज्ज०, णवरि मंखे-
जगुणं कायव्वं । मणुस्सिणीसु सव्वत्थोवा एगविहत्तिया, द्दुवि० विसेसा०, तिवि०
विसे०, एक्कारसवि० विसे०, बारसवि० विसे०, चदुवि० मंखे० गुणा, तेरमवि०
संखे० गुणा, बावीसविह० संखे० गुणा, नेवीसवि० विसेसा०, एकवीमवि० संखे-
जगुणा, चउवीमवि० संखेजगुणा, सत्तावीसविह० संखे० गुणा, अट्टावीसवि० संखे०
गुणा, छव्वीसवि० संखे० गुणा ।

§ ४१०. आणदादि जाव उवरिमगेवजे त्ति सव्वत्थोवा वावीसवि०, सत्तावी-
सवि० असंखे० गुणा, छव्वीमवि० असंखे० गुणा, एक्कावीसवि० संखे० गुणा, चउ-
वीसवि० संखे० गुणा, अट्टावीसवि० संखे० गुणा । अणुद्दिसादि जाव अवराद्दत्ति
सव्वत्थोवा बावीसवि०, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा,
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात-
गुणे हैं । इनसे छव्वीम विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार पर्याप्त
मनुष्योंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योंमें
सत्ताईस, अट्टाईस और छव्वीम स्थानवाले उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं । पर पर्याप्त-
मनुष्योंमें उक्त स्थानवाले जीवोंको उत्तरोत्तर संख्यातगुणे कहना चाहिये । स्त्रीवेदी मनुष्योंमें
एक विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे दो विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष अधिक हैं ।
इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष
अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्ति-
स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष
अधिक हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्ति-
स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।
इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थान वाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे छव्वीस विभक्तिस्थानवाले
जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ४१०. आनतकल्पसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे
छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव
संख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । अनुद्दिशासे लेकर अपराजित तकके देवोंमें
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव

अट्टावीमवि० संखे० गुणा । एवं मन्वद्वे, णवरि संखेज्जगुणं कायव्वं ।

§ ४११. इंदियाणुवादेऽ, ईंदिय-बादर० पज्ज० अपज्ज०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदिय-पज्ज०-सुहुमेइंदिय अपज्जत्तएसु मन्वत्थोवा मत्तावीसविहत्तिया । अट्टावीमवि० असंखेज्ज-गुणा, छ्वीमवि० अणंतगुणा । एवं मन्ववणप्फदि-सव्वणिगोद-मदि-सुद-अण्णाण-मिच्छादिद्वि असण्णि ति वत्तव्वं । णवरि बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयमरीरपज्ज० अपज्ज०-बादरणिगोदपदिद्विदपज्जत्तअपज्जत्ताणं पुढविकाइयभंगो । पंचिदिय-पंचिदिय-पज्ज०-त्तस-त्तसपज्ज० ओघभंगो । णवरि छ्वीसवि० असंखे० गुणा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-सण्णि-चक्खु ति वत्तव्वं ।

§ ४१२. ओरालियमिस्स० सन्वत्थोवा वावीसविहत्तिया, एक्खीसवि० संखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा, मत्तावीसवि० असंखे० गुणा, अट्टावीमवि० असंखे० असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मवार्थसिद्धिके देवोंमें भी कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनुदिशादिकमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे कह आये हैं, पर यहां बाईस विभक्तिस्थानवालोंसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं ।

§ ४११. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, मूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसीप्रकार सभी वनस्पतिकायिक, सभी निगोद, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, बादरवनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंमें पृथिवी कायिक जीवोंके अल्पबहुत्वके समान अल्पबहुत्व कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें ओघके समान अल्पबहुत्व कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अनन्तगुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संज्ञी और चक्षुदर्शनी जीवोंमें अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये ।

§ ४१२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे

असंखे० गुणा । पुरिसवेदे सव्वत्थोवा पंचविहात्तिया, एकारसवि० संखे० गुणा, बारसवि० विसेसा०, तेरसवि० संखे० गुणा, बावीसवि० संखे० गुणा, तेवीसवि० विसे०, मत्तावीसवि० असंखे० गुणा, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० असंखे० गुणा, अट्टावीसवि० असंखे० गुणा, छब्बीसवि० असंखे० गुणा । णवुंसए सव्वत्थोवा बारसविहात्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, बावीसवि० संखे० गुणा, तेवीसवि० विसे०, सत्तावीसवि० असंखे० गुणा, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० असंखे० गुणा, अट्टावीसवि० असंखे० गुणा, छब्बीसवि० अणंतगुणा । अवगद० सव्वत्थोवा एकारसवि०, एकवीसवि० संखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा, पंचवि० संखे० गुणा, एगवि० संखे० गुणा, दुवि० विसेसा०, तिबि० विसेसा०, चदुवि० संखेज्जगुणा ।

१४१४. कसायाणुवादेण क्रोधक० सव्वत्थोवा पंचविहत्तिया, एकारसवि० संखे० तगुणं इ । पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनसंख्यातगुण हैं । नपुंसकवेदमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणें हैं । अपरातवेदमें ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे पांच विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं ।

१४१४. कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे बारह विभक्ति-

गुणा, बारसवि० विसे०, चदुवि० संखे० गुणा । सेसमोघभंगो । माणक० सव्वत्थोवा पंचवि०, चदुण्हं० संखे० गुणा, एक्कारसवि० विसे०, बारसवि० विसे०, तिण्हं संखे० गुणा, तेरमण्हं० संखे० गुणा । सेममोघभंगो । मायाकमाय० सव्वत्थोवा पंचण्हं विहत्तिया, तिण्हं वि० संखे० गुणा, चदु० विसे०, एक्कारस० विसे०, बारस० विसे०, दोण्हं संखे० गुणा, तेरस० संखे० गुणा । सेसमोघभंगो । लोभक० सव्वत्थोवा पंचण्हं, दोण्हं० संखे० गुणा, तिण्हं० विसे०, चदुण्हं० विसे०, एक्कारस० विसे०, बारस० विसे०, एक्कीस० संखे० गुणा, तेरमण्हं वि० संखे० गुणा । सेसमोघभंगो । अकसायि० सव्वत्थोवा एक्कीसविहत्तिया, चउत्रीस० संखे० गुणा । एवं जहाकखादाणं वत्तव्वं ।

§ ४१५. आभिणि०-सुद०-ओहि० सव्वत्थोवा पंचविहत्तिया, एक्कवि० संखे० स्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष कथन ओघके समान है । मानकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष कथन ओघके समान है । मायाकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष कथन ओघके समान है । अकषायी जीवोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । अकषायी जीवोंमें जिसप्रकार अल्पबहुत्वका कथन किया है उसीप्रकार यथाख्यातसंयतोके भी अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये ।

§ ४१५. मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसप्रकार तेईस विभक्ति-

गुणा । एवं जाव तेवीसविहत्तिओ ति ओघमंगो । तदो एकवीस० असंखे० गुणा, चउवीस० असंखे० गुणा, अट्टावीस० असंखे० गुणा । एवमोहिदंमण० सम्मादिट्ठि ति वत्तव्वं । मणपज्ज० एवं चेव, णवरि मंखेज्जगुणं कायव्वं । एवं मंजद० सामा-इयच्छेदो० वत्तव्वं । परिहार० मव्वत्थोवा वावीसविहत्तिया, तेवीसविह० विसे०, एकवीसवि० संखे० गुणा, चउवीसवि० संखे० गुणा, अट्टावीसवि० संखे० गुणा । एवं संजदासंजदाणं । णवरि चउवीसवि० असंखे० गुणा, अट्टावीसवि० असंखे० गुणा । सुहुमसांपरा० सव्वत्थोवा एकवि०, चउवीसवि० संखे० गुणा, एकवीस० संखे० गुणा । असंजद० सव्वत्थोवा वावीसविह०, तेवीसविह० विसे०, सत्तावीस० असंखे० गुणा, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउवीस० असंखे० गुणा, अट्टावीसवि० असंखे० गुणा, छव्वीसवि० अणंतगुणा । एवं तेउ०-पम्म० । णवरि छव्वीस० स्थान तक ओघके समान कथन करना चाहिये । तदनन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कथन करना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मतिज्ञानी आदि जीवोंमें जिन स्थानवाले जीवोंको असंख्यातगुणा कहा है उन्हें यहा संख्यातगुणा कर लेना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके अल्पबहुत्वके ममान मंयत, सामायिकमंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । परिहारविशुद्धिमंयतोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार संयतासंयतोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । सूक्ष्मसांपराधिकसंयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव-सबसे थोड़े हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । असंयतोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इससे छव्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसीप्रकार तेजोलेदया और पद्मलेदयामें कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि

असंखे०गुणा ।

§ ४१६. किण्ह०-णील० मन्वत्थोवा एकवीमविह०, सत्तावीसविह० असंखे० गुणा, चउवीम० अमंखे० गुणा, अट्टावीम० अमंखे० गुणा, लुब्बीस० अणंतगुणा । काउ० मन्वत्थोवा वावीम विह०, सत्तावीम० अमंखे० गुणा । सेमं ओघभंगो । सुक्कलेस्सि० जाव तेवीमविहत्तिया त्ति ओघभंगो । तदो सत्तावीस० अमंखे० गुणा । उवरि आणदभंगो । अभवमिद्धि० सामण० णत्थि अप्पाबहुगं । न्वइयसम्माइट्ठीसु जाव तेरसविहत्तिओ त्ति ओघभंगो । तदो एकवीम० असंखे० गुणा । वेदय० सन्वत्थोवा वावीसविह०, तेवीमविह० विसेसा०, चउवीस० असंखे० गुणा, अट्टावीस० असंखे० गुणा । उवसम० सन्वत्थोवा चउवीमविह०, अट्टावीम० अमंखे० गुणा । एवं सम्मामिच्छत्ते वि ।

एवमप्पाबहुगं ममत्तं ।

इनमें अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छुब्बीम विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं ।

§ ४१६. कृष्ण और नील लेउगामें इक्कीम विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौवीम विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईम विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । कपोतलेइयामें बाईम विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सत्ताईम विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष कथन ओघके समान है । शुक्कलेइयावाले जीवोंमें तेईम विभक्तिस्थान तक अल्पबहुत्व ओघके समान है । तदनन्तर तेईम विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले असंख्यातगुणे हैं । इनके ऊपर आनतके समान जानना चाहिये । अभव्य और सामादन मय्यगृष्टि जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । श्रायिकसम्यगृष्टियोंमें तेरह विभक्तिस्थान तक अल्पबहुत्व ओघके समान है । तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । वेदकमय्यगृष्टियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे तेईम विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अट्टाईम विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उपशमसम्यगृष्टियोंमें चौवीम विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मय्यगृष्ट्यात्वमें भी कथन करना चाहिये ।

इसप्रकार अल्पबहुत्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

* भुजगारो अप्पदरो अवट्टिदो कायच्चो ।

§ ४१७. एदेण भुजगारणिओगहारं सूचिदं जइवमहाइरिण्ण । कधं भुजगार-
अप्पदर-अवट्टिदाणं निण्हं पि भुजगारमण्णा ? ण, तिण्हमण्णोण्णाविणाभावीणमण्णोण्ण-
मण्णाविरोहादो, अवयविदुवारणे निण्हमवयवाणमेयत्तादो वा । भुजगारणिओगहारं
किमट्ठं बुच्चदे ? पुव्वुत्तपदाणमवट्टाणाभावपरूवणट्ठं । तत्थ भुजगारविहत्तीए इमाणि
मत्तारम आण्णिओगहागणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा-ममुक्कित्तणा मादियविहत्ती
अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्धुवविहत्ती एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं, णाणा-
जीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पाबहुअं
चेदि ।

§ ४१८. समुक्कित्तणाणुगमेण दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
अत्थि भुजगार-अप्पदर-अवट्टिदविहत्तिया । एवं मत्तसु पुट्ठवीसु । तिरिक्ख-पांचंदिय-
तिरिक्ख-पांचिं० तिरिं० पज्ज०-पांचिं० तिरिं० जोणिणी मणुमतिय-देव-भन्नादि जाव

* अब विभक्तिस्थानोंके विषयमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थानोंका
कथन करना चाहिये ।

§ ४१७. यतिवृषभ आचार्यने इस उपर्युक्त सूत्रके द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारको सूचित
किया है ।

शंका-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनोंकी भुजगार संज्ञा कैसे हो सकती है ?
समाधान-भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों एक दृमरेकी अपेक्षासे होते हैं,
इसलिये इन्हें तीनोंमेंसे कोई एक संज्ञाके देनेमें कोई विरोध नहीं आता है । अथवा अव-
यवीकी अपेक्षा ये तीनों अवयव एक हैं इसलिये भी ये तीनों किसी एक नामसे कहे जा सकते हैं ।

शंका-यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किसलिये किया है ?

समाधान-पूर्वाक्त विभक्तिस्थान मर्थात् अवस्थित नहीं है, इसका ज्ञान करानेके
लिये यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किया है ।

भुजगार विभक्तिस्थानमें ये सत्रह अनुयोगद्वार जानने चाहिये । वे इसप्रकार हैं-
समुत्कीर्तना, साद्विभक्ति, अनादिवांभक्ति, ध्रुवविभक्ति और अध्रुवविभक्ति, एक जीवकी
अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग,
परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व ।

§ ४१८. उनमेंसे समुत्कीर्तनानुभगकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान-
वाले जीव हैं । इसीप्रकार सातों पृथिवियोंके नागकियोंमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच,
पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यंच, सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये

उवरिमगेवज्जे ति-पांचदिय-पांच०पज्ज०-तम-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-काय-
जोगि-ओरालिय०-वेउव्विय०-ताण्णवेद०-चत्तारि कपाय-असंजद-चक्खु०-अचक्खु०-
छलेस्स०-भवसि०-सण्णि०-आहारि ति वत्तव्वं । पांचि० तिरिक्खअपज्ज० अत्थि
अप्पदर-अवट्ठिदविहत्तिया । एवं मणुसअपज्ज०-अणुहिमादि जाव सव्वद्व० सव्व-
एइंदिय-सव्वविगलंदिय-पांचि० अपज्ज०-पंचकाय०-तसअपज्ज०-ओरालियमिस्स०-
वेउव्वियमिस्स०-कम्मइय०-अवगद०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग०-आभिणि ०-सुद०-
ओहि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइयच्छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंस० सम्मादि०
व्वइय०-वेदय०-उवसम०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि ति वत्तव्वं । आहार०-आहार-
मिस्स० अत्थि अवट्ठिदविहत्तिया । एवमकसायि०-सुहुमसांपराइय०-जहाकम्वाद०-
अभवसिद्धि०-सामण०-सम्मामिच्छाइ० ।

एवं समुक्तिया समत्ता ।

तीनों प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपाय-वाले, असंयत, चक्षुर्दशनी, अचक्षुर्दशनी, लहो लेश्यावाले, मन्थ, संज्ञी और आहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये । अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं ।

पंचेन्द्रियतिथैच लब्धपर्याप्तक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं भुजगार नहीं । इसीप्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रसलब्ध-पर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधि-दर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये । अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणाओंमें भुजगारके बिना अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैं ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवल एक अवस्थित विभक्ति-स्थानवाले ही जीव होते हैं । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यात-संयत, अभन्थ, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

इस प्रकार समुक्तीर्तना अनुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ ४१६. सादिय-अणादिय धुव-अधुव-अणिओगहाराणि जाणिदूण वत्तव्वाणि ।

§ ४२०. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण भुजगार-अप्पदर-अवट्टिदविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स मम्मादिट्टिस्स मिच्छादिट्टिस्स वा । एवं सत्तमपुढवि०-तिरिक्ख-पंचि०-तिरिक्ख-पंचि०-तिरि०-पज्ज०-पंचि०-तिरि०-जोणिणी-मणुस्सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-पंचिंदिय-पंचि०-पज्ज०-तम-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालिय०-वेउव्विय०-तिणिवेद-चत्तारि क०-असंजद-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा०-भवसिद्धिय०-सण्णि०-आहारि ति वत्तव्वं । पंचि०-तिरि०-अपज्ज०-अप्पदर०-अवट्टिद०-कस्स ? अण्णदरस्स । एवं मणुमअपज्ज०, अणुहिसादि जाव सव्वट्ट०-सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचि०-अपज्ज०-पंचकाय-तसअपज्ज०-ओरालियमिस्स०-वेउव्वियमिस्स०-कम्मइय-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग०-मिच्छाइ०-असण्णि०-अणाहारि ति वत्तव्वं ।

§ ४२१. आहार०-आहारमिस्स०-अवट्टिद०-कस्स ? अण्णदरस्स । एवमकसायि०-

§ ४१६. सादि, अनादि, धुव और अधुव अनुयोगद्वारोंको जानकर कथन करना चाहिये ।

§ ४२०. स्वामित्व अनुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? यथामम्भव किसी एक सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होते हैं । इसी प्रकार सातवीं पृथ्वीके जीवोंमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच योनीमती, सामान्य पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस-पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाय-योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपायवाले, अमंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेइयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कथन करना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकके होते हैं । इसी प्रकार लब्धपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्धपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिए ।

§ ४२१. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्ति-स्थान किसके होता है ? किसी भी आहारककाययोगी या आहारकमिश्रकाययोगी जीवके होता है । इसी प्रकार अकषायी, यथाख्यातमंयत, सामादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-

जहाक्त्वाद०-सासण०-सम्मामि०वत्तव्वं । अविगद० अप्पदरं कस्स ? खवयस्स । अवट्ठिदं कस्स ? अण्ण० उवसामयस्स खवयस्स वा । आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज० अप्पदरं कम्म ? अण्ण० । अवट्ठिदं कस्स ? अण्ण० । एवं संजदासंजद-सामाइय-छेदो०-परिहार०-संजद-ओहिदंम०-सम्मादि०-वेदय-उवसम० वत्तव्वं । सुहुम-सांपराइय० अवट्ठिदं कम्म ? अण्णदर० उवमामयस्स खवयस्स वा । अम्मवसि० अवट्ठिदं कस्स ? अण्णद० । त्वइयसम्माइट्ठि० अप्पदरं कस्स ? खवयस्स । अवट्ठिदं कस्स ? अण्ण० ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

* एत्थ एगजीवेण कालो ।

§ ४२२. समुक्कित्तणं सामित्तं सेमाणिओगदाराणि च अभणिदूण कालाणिओग० चेव भणंतस्स जइवसह-भयवंतस्म को अहिप्पाओ ? कालाणिओगदारे अवगए संते दृष्टि जीवोके कथन कग्ना चाहिये ।

अपगतवेदी जीवोमे अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है ? क्षपक अपगतवेदीके होता है । अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी उपशामक या क्षपक अपगत-वेदी जीवके होता है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है । उक्त चार ज्ञानवाले जीवोमे अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है । इभीप्रकार संयतासंयत, मामागिकसंयत, उद्योगस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि-संयत, संयत, अर्वावदर्शना, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशामसम्यग्दृष्टिके कहना चाहिये ।

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोमे अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी उप-शामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके होता है । अभव्योंमें अवस्थित विभक्ति-स्थान किसके होता है ? किसी भी अभव्यके होता है । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षपक क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवके होता है । अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टिके होता है ।

इसप्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

* अब एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं ।

§ ४२२. शंका-यतिवृषभ आचार्यने समुत्कीर्तना, स्वामित्व और शेष अनुयोगद्वारोंका कथन न करके केवल कालानुयोगद्वारका कथन किया, सो इससे उनका क्या अभिप्राय है ? समाधान-कालानुयोगद्वारके ज्ञात हो जानेपर बुद्धिमान शिष्य दूसरे अनुयोगद्वारोंको

सेसाणिओगद्वाराणि बुद्धिमतेहि सिस्सेहि अवगंतुं साक्किजंति, सेसाणिओगद्वाराणं काल-
जोणितादो, तेण कालाणुओगद्वारं चेव परूवेमि त्ति एदेण अहिप्पाएण एत्थ एगजीवेण
कालो त्ति भणिदं ।

* भुजगार-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णु-
कस्सेण एगसमओ ।

§ ४२३. कुदो ? छुब्बीसविहत्तिएण सत्तावीसविहत्तिएण वा सम्मत्ते गहिदे जहण्णु-
कस्सेण भुजगारस्स एगसमयमेत्तकालुवलंभादो । को भुजगारो णाम ? अप्पदरपयडि-
संतादो बहुदरपयडिसंतपडिवज्जणं भुजगारो । चउवीससंतकम्मियसम्मादिट्ठिम्मि मिच्छ-
त्तमुवगदम्मि वि भुजगारस्सेगसमओ लब्भइ, चउवीमसंतादो अट्टावीससंतमुवगयस्स
पयडिवड्ढिदंसणादो ।

* अप्पदर-संतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण
एगसमओ ।

जान सकते हैं, क्योंकि शेष अनुयोगद्वारोंका काल अनुयोगद्वार योनि है । इसलिये 'भै
(यतिवृषभ आचार्य) कालानुयोगद्वारका ही कथन करता हूँ' इस अभिप्रायसे यतिवृषभ
आचार्यने यहां 'एगजीवेण कालो' यह सूत्र कहा है ।

* भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय है ।

§ ४२३. शंका—भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
कैसे है ?

समाधान—जब कोई एक छुब्बीस विभक्तिस्थानवाला या सत्ताईस विभक्तिस्थानवाला
जीव सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस विभक्तिस्थानवाला होता है तब उसके भुजगारका
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय पाया जाता है ।

शंका—भुजगार किसे कहते हैं ?

समाधान—थोड़ी प्रकृतियोंकी सत्तासे बहुत प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होना भुजगार
कहलाता है । तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होकर जिसके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता
है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव जब मिध्यात्वको प्राप्त होता है तब उसके भी भुजगारका एक समय
मात्र काल देखा जाता है, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तासे अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको
प्राप्त हुए जीवके प्रकृतियोंमें वृद्धि देवी जाती है, इसलिये यह भुजगार है ।

* अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका कितना काल है ? जघन्य काल एक
समय है ।

§ ४२४. कुदो ? अद्वावीस-विहत्तिण्ण अणंताणुबंधिचउके विसंजोइदे अप्पदरस्स एगसमयकालुवलंभादो । एवं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तुव्वेच्छिदपढमसमए मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्त-सम्मत्ताणि खविदपढमसमए खवगसेठीए खविदपपडीणं पढमसमए च अप्पदरस्स एगसमओ जहण्णओ परूवेयव्वो ।

* उक्कस्सेण वे समयया ।

§ ४२५ कुदो ? णवुंसयवेदोदएण खवगसेठिं चड्ढिमि सवेदयदुचरिमसमए इत्थिवेदे परसरूवेण संकामिदे तेरससंतकम्मादो बारससंतकम्ममुवणमिय से काले णवुंसयवेदे उदयट्ठिदं गालिय बारससंतकम्मादो एक्कारससंतकम्ममुवणयम्मि णिरंतर-मप्पदरस्स वेसमयउवलंभादो ।

* अवट्ठिदसंतकम्मविहत्तियाणं तिण्णि भंगा ।

§ ४२६. तं जहा, केसिं पि अणादिओ अपज्जवसिदो, अभव्वेसु अभव्वसमाण-भव्वेसु च णिञ्चणिगोदभावमुवगएसु अवट्ठाणं मोत्तूण भुजगारअप्पदराणमभावादो ।

§ ४२४. शंका-अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्यकाल एक समय कैसे है ? समाधान-जो अद्वाईस विभक्तिस्थानवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना करता है उसके अल्पतरका एक समय मात्र काल देखा जाता है ।

इसीप्रकार सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना कर चुकनेपर पहले समयमें, मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिके क्षय कर चुकनेपर पहले समयमें तथा क्षपक श्रेणीमें क्षयको प्राप्त हुई प्रकृतियोंके क्षय हो चुकनेपर पहले समयमें अल्पतरके एक समयप्रमाण जघन्य कालका कथन करना चाहिये ।

* अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका उत्कृष्टकाल दो समय है ।

§ ४२५. शंका-अल्पतर विभक्तिस्थानवालेका उत्कृष्टकाल दो समय कैसे है ?

समाधान-जब कोई जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर और जैसे-सवेद भागके द्विचरम समयमें स्त्रीवेदको परप्रकृतिरूपसे संक्रान्त करके तेरह प्रकृतियोंकी सत्तासे बारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता है और उसके अनन्तर समयमें ही नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गलाकर बारह प्रकृतियोंकी सत्तासे ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता है तब उसके अल्पतरका निरन्तर दो समय प्रमाण काल देखा जाता है ।

* अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थानोंके तीन भंग होते हैं ।

§ ४२६. वे इसप्रकार हैं-किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थान अनदि-अनन्त होता है, क्योंकि जो अभव्य हैं या अभव्योंके समान नित्यनिगोदको प्राप्त हुए भव्य हैं, उनके अवस्थित स्थानके सिवाय भुजगार और अल्पतर स्थान नहीं पाये जाते हैं । किन्हीं जीवोंके

केसिं पि अणादिओ सपञ्जवसिदो, अणादिसरूवेण क्व्वीसपयडीसंतम्मि अच्छिय सम्मत्तमुवगयजीवम्मि अवट्ठाणस्स अणादिसणिहणत्तदंसणादो । केसिं पि सादिस-पञ्जवसिदो ।

* तत्थ जो सो सादिओ सपञ्जवसिदो तस्स जह० एगसमओ ।

§ ४२७. कुदो ? अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपटमट्टिदिदुचरिमसमयम्मि सम्मत्त-मुव्वेलिय अप्पदरं काऊण तदो मिच्छादिट्टिचरिमसमयम्मि एगसमयमवट्ठाणं काऊण तदियसमए सम्मत्तं पडिवण्णजीवम्मि अप्पदरभुजगाराणं मज्जे अवट्टिदस्स एगसमय-कालुवलंभादो ।

* उक्कस्सेण उवदुपोग्गलपरियट्टं ।

अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त होता है, क्योंकि जिस जीवके अनादि कालसे क्व्वीस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेपर अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त देखा जाता है। किन्हीं जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थान सादि-सान्त होता है।

* इन तीनोंमेंसे जो अवस्थित विभक्तिस्थानका सादि-सान्त भंग है उसका जघन्यकाल एक समय है ।

§ ४२७. शंका—इसका जघन्यकाल एक समय कैसे है ?

समाधान—जो जीव अन्तरकरण करनेके अनन्तर मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम समयमें सम्यक्त्वकी उद्वेलना करके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त होकर एक समय तक अल्पतर विभक्तिस्थानवाला होता है। अनन्तर मिध्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमें सत्ताईस विभक्तिस्थानरूपसे एक समय तक अवस्थित रहकर मिध्यात्वके उपान्त्य समयसे तीसरे समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अट्टाईस विभक्ति-स्थानवाला होता है उसके अल्पतर और भुजगारके मध्यमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय देखा जाता है ।

विशेषार्थ—यहां अवस्थित विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय बतलाते समय मिध्यात्वगुणस्थानके अन्तके दो समय और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए सम्यग्दृष्टिका पहला समय, इसप्रकार ये तीन समय लेना चाहिये । इनमेंसे पहले समयमें सम्यक्त्वकी उद्वेलना कराके सत्ताईस विभक्तिस्थान प्राप्त करावे, दूसरे समयमें तदवस्थ रहने दे और तीसरे समयमें उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कराके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करावे । तब जाकर अल्पतर और भुजगार विभक्तिस्थानके मध्यमें अवस्थितविभक्तिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाकी अपेक्षा भी अवस्थितका एक समय काल प्राप्त किया जा सकता है ।

* अवस्थित विभक्तिस्थानका उपार्थबुद्दल परिवर्तनप्रमाण उत्कृष्टकाल है ।

§ ४२८. ऊणस्स अद्दपोग्गलपरियद्वस्स उवक्कुपोग्गलमिदि सण्णा । उपसन्नदस्स हीनार्थवाचिनो ब्रह्मणात् । तं जहा—एगो अणादियमिच्छादिद्वी तिग्णि वि करणाणि काऊण पढमसम्मत्तं पडिवण्णो । तत्थ सम्मत्तं पडिवण्णपढमसमए संसारमणंतं सम्मत्तगुणेण छेत्तुण पुणो मो संमारो तेण अद्दपोग्गलपरियद्वमेत्तो कदो । सव्वलहुएण कालेण मिच्छत्तं गंतूण सव्वजहण्णुव्वेद्वणद्वाए सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणि उव्वेलिय अप्पदरं करिय अवद्दाणमुव्वगदो । पुणो एदेण पलिदो० असंखे० भागेणूण-मद्दपोग्गलपरियद्वमवद्विदेण सह परिभमिय अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे सम्मत्तं वेत्तूण भुजगारविहत्तिओ जादो । एवमवद्विदस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणमद्द-पोग्गलपरियद्वमुक्कस्सकालो । एवमचक्खु० भवसिद्धि० ।

§ ४२९. संपहि जइवसहाइरियपरूविदमोघमुच्चारणमरिसं भणिय बालजणाणुग्ग-हट्ठं परूविदमुच्चारणादेसं वत्तइस्सामो ।

§ ४३०. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु भुज० अप्प० जहण्णुक० एगसमओ ।

§ ४२८. अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालसे कुछ कम कालकी उपार्धपुद्गलपरिवर्तन संज्ञा है, क्योंकि यहाँपर 'उप' शब्दका अर्थ हीन लिया है । उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । तथा सम्यक्त्वके प्राप्त होनेके पहले समयमें सम्यक्त्वगुणके द्वारा अनन्त संसारका छेदन कर उसने उस संसारको अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र कर दिया । अनन्तर वह अतिलघु कालके द्वारा मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और सबसे जघम्य उद्वेलनकालके द्वारा सम्यक्प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करके २८ विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानसे छव्वीस, इसप्रकार अल्पतर करता हुआ छव्वीस विभक्तिस्थानमें अवस्थानको प्राप्त हो गया । यह सब काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । अतः इस कालसे न्यून अर्धपुद्गलपरिवर्तन तक अवस्थित विभक्तिस्थानके साथ संसारमें परिभ्रमण करके वह जीव संसारमें रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रह जानेपर सम्यक्त्वको ग्रहण करके छव्वीस विभक्तिस्थानसे अट्ठाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करके भुजगारविभक्तिस्थानवाला हो जाता है । इसप्रकार अवस्थित विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनमात्र प्राप्त होता है । इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ४२९. इसप्रकार यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे गये ओघनिर्देशका, जो कि उच्चारणाके समान है, कथन करके अब बाल जनोंके अनुग्रहके लिये कहे गये उच्चारणमें बर्णित आदेशको बतलाते हैं—

§ ४३०. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें भुजगार और अल्पतरका

अवाट्टि० जह० एगममओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । षट्मादि जाव सत्तमिचि भुज० अप्प० जहण्णुक्क० एगममओ, अवट्टिद० जह० एगसमओ, उक्क० अप्पप्पणो उक्कस्माट्टिदी । एवं तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० तिरि० पज्ज०-पंचि० तिरि० जााणीणीसु । णवरि अवट्टिद० उक्क० अप्पप्पणो उक्कस्माट्टिदी । एवं मणुस-मणुमपज्जत्त-एमु । णवरि अप्प० जह० एगस० उक्क० बे समया । मणुसणीणमेवं चेव, णवर अप्प० जहण्णुक्कस्सेण एगममओ । पंचि० तिरि० अपज्ज० अप्पदर० केव० ? जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्टिद० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं मणुस अपज्ज० वत्तव्वं ।

§ ४३१. देव० भुज० अप्पदर० केव० ? जहण्णुक्क एगसमओ । अवट्टिद० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । भवणादि जाव उवरिमगेवजे त्ति भुज० अप्पदर० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्टिद० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सग-जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । पहली पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक प्रत्येक नरकमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती जीवोंमें भुजगार आदि तीनोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन करना चाहिये । यहां इतनी विशेषता है कि इन सामान्य तिर्यंच आदिकमें अवस्थितका उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त जीवोंमें कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहना चाहिये । खीवेदी मनुष्योंमें भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय होता है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें अल्पतरका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्योंके अल्पतर और अवस्थितके जघन्य और उत्कृष्टकालका कथन करना चाहिये ।

§ ४३१. देवोंमें भुजगार और अल्पतरका काल कितना है ? इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिमगैवेयक तक प्रत्येक चातिके देवोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । अवस्थितका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण

सगुक्कस्सट्ठिदी। अणुहिमादि जाव मन्वहे त्ति अप्पदर० जहण्णुक्क० एगसमओ। अव-
ट्ठिद० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० मगसगउक्कस्सट्ठिदी ।

§ ४३२. एइंदिय० अप्पदर० जहण्णुक्क० एकसमओ। अवट्ठिद० के० ? जह०
एगसमओ, उक्क० अणंतकालममंखेजा पोग्गलपरियट्ठा। बादरसुहुम-एइंदियाणमेवं चेव।
णवरि अवट्ठिद० उक्क० सगमगुक्कस्सट्ठिदी। बादरेइंदियपज्ज० अप्पदर० के० ? जह-
ण्णुक्क० एयसमओ। अवट्ठिद० जह० एयसमओ, उक्क० संखेजाणि वाससइस्साणि।
बादरेइंदियअपज्ज०-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्त-विगलंदियपज्ज० (अपज्ज०)-पंचिं० अपज्ज०-
पंचकायाणं बादर-अपज्ज० तेसिं सुहुम पज्जत्तापज्जत्त-तम अपज्ज०-ओगालियमिस्स०-
वेउन्वियमिस्सकायजोगीणं पंचिं० तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो। विगलंदिय-विगलंदि-
यपज्ज०-पंचकायाणं बादरपज्ज० बादरेइंदियपज्जत्तभंगो। पंचिंदिय-पंचिं० पज्ज०-तस-
तसपज्जत्ताणं भुज० अप्पदर० ओघभंगो। अवट्ठिद० जह० एगसमओ, उक्क० सगस-
गुक्कस्सट्ठिदी।

है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय है। अवस्थितका काल कितना है? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट
काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है।

§ ४३२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अव-
स्थितका काल कितना है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल अनन्तकाल है जो
असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके अल्पतर और
अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल इसीप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें
अवस्थितका उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिये। बादर एकेन्द्रिय
पर्याप्तकोमें अल्पतरका कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितका
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त,
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त,
पांचों स्थावर काय बादर अपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय सूक्ष्म पर्याप्त, पांचों स्थावर काय
सूक्ष्म अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके
पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोके समान अल्पतर और अवस्थितका काल जानना चाहिये।
विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त, पांचों स्थावर काय बादर अपर्याप्त जीवोंके अल्पतर और
अवस्थितका काल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान जानना चाहिये। पंचेन्द्रिय,
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके भुजगार और अल्पतरका काल ओघके
समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

§ ४३३. जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० भुज० अप्प० ओघमंगो । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । कायजोगि-ओरालिय० भुज० अप्पदर० ओघ-मंगो । अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० सगट्टिदी । आहार० अवट्टि० जह० एग-समओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमकमाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्त्वाद० वत्तच्चं । आहारमिस्स० अवट्टि० जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमुवसम०-सम्मामि० । णवरि उव-सम० अप्प० जहण्णुक्क० एयसमओ । कम्मइय० अप्पदर० के० ? जहण्णुक्क० एय-समओ । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया । वेउच्चिय० भुज० अप्प-दर० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० ।

§ ४३४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु भुज० अप्पदर० जहण्णुक्क० एग-समओ, अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्सट्टिदी । अवगद० अप्पदर० जहण्णुक्क० एगसमओ, अवट्टिद० जह० एगसमओ उक्क० अंतोमुहुत्तं । क्रोध-माण-

§ ४३३. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें भुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें भुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। आहारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है। इसीप्रकार कषाय रहित जीवोंमें तथा सूक्ष्मसांपरा-यिक संयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके कथन करना चाहिये। आहारकमिश्रकाययोगमें अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार उपशमसमन्यगृष्टि और सम्यग्मिथ्यागृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उपशमसमन्यक्त्वमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। कर्मणकाययोगियोंमें अल्पतरका काल कितना है? जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है। वैक्रियिककाययोगियोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।

§ ४३४. वेदमार्गणाके अनुवादसे ऋग्वेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है।

संज्वलनक्रोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और संज्वलन लोभमें भुजगार और

माया-लोभसंजल० भुज० अप्प० ओघभंगो । अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० अंतो-मुहुत्तं ।

§ ४३५. मदि-सुद-अण्णाण० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ, अवट्टि० तिण्णि भंगा । जो सो सादि सपजवसिदो, तस्स जह० एगसमओ उक्क० उवइट्टपोग्गलपरियडुं । एवं मिच्छादिद्वीणं वत्तव्वं । विहंग० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्टिद० जह० एगसमओ, उक्क० सगुक्कस्सट्टिदी । आमिणि०-सुद०-ओहि० अप्पद० ओघभंगो । अवट्टिद० जह० दुसमऊण दोआवलियाओ, उक्क० छावट्टिमागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंस० सम्मादिद्वी० वत्तव्वं । मणपज्ज० अप्पदर० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्टिद० जह० दुसमऊण दोआवलिय०, उक्क० पुव्वकोडी देखणा । एवं परिहार० संजदासंजद० । णवरि, अवट्टिद० जह० अंतोमुहुत्तं । सामाइय-छेदो० अप्पदर० ओघभंगो । अवट्टिद० मणपज्जवभंगो । णवरि जह० एयसमओ । संजद० अप्पदर० अवट्टिद० सामाइयछेदोवट्टावणभंगो । णवरि अवट्टि० जह० दुसमयूण दो आवलि० । अल्पतरका काल ओघके समान है । तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४३५. मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितके तीन भंग हैं । उनमेंसे सादि-सान्त अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके भी अल्पतर और अवस्थितके कालका कथन करना चाहिये । विभंगज्ञानियोंमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अल्पतरका काल ओघके समान है । तथा अवस्थितका जघन्य काल दो समय कम दो आवलीप्रमाण और उत्कृष्ट काल साधक छथासठ सागर प्रमाण है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके अल्पतर और अवस्थितका काल कहना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्य काल दो समय कम दो आवलीप्रमाण और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है । इसीप्रकार परिहार विशुद्धि संयत और संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके अवस्थितका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है । सामायिक और छेदोपस्थापना संयतोंमें अल्पतरका काल ओघके समान है । तथा इनके अवस्थितका काल मनःपर्ययज्ञानके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितका जघन्यकाल एक समय है । संयतोंमें अल्पतर और अवस्थितका काल सामायिक और छेदोपस्थापनाके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि संयतोंमें

असंजद० भुज० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्टिद० मदि-अण्णाणीभंगो ।

§ ४३६. चक्खु० तसपज्जतभंगो । पंचलेस्सा० भुज० अप्प० णारयभंगो । अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीस सत्तारस सत्त वे अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । सुक्कले० भुज० अप्प० ओघभंगो । अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीससागरो० सादिरेयाणि । एवं खइय० । णवरि० भुज० णत्थि । अवट्टि० जह० दुसमयूण दोआवलि० । वेदग० आभिणि०भंगो । णवरि अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्टि० जह० अंतोसु०, उक्क० छावट्टिसागरोवमाणि देसूणाणि । अभव्व० अवट्टि० अणादि-अपज्जवसिदं । सासण० अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० छ्वावलियाओ । सण्णि० भुज० अप्पदर० ओघभंगो । अवट्टि० पुरिसभंगो । असण्णि० एइंदियभंगो । आहारि० भुज० अप्प० ओघभंगो । अवट्टि० जह एगसमओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो ।

अवस्थितका जघन्यकाल दो समय कम दो आवलीप्रमाण है । असंयतोमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अवस्थितका काल मत्त्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

§ ४३६. चक्षुदर्शनी जीवोंमें भुजगार आदिका काल त्रस पर्याप्त जीवोंके समान है । कृष्ण आदि पांच लक्ष्याओंमें भुजगार और अल्पतरका काल नारकियोंके समान है । तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल क्रमसे साधिक तेत्तीस सागर, साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक अटागह सागरप्रमाण है । शुक्लेंद्रियामें भुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है । तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागरप्रमाण है । इसीप्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें कहना चाहियं । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें भुजगार विभाक्तस्थान नहीं पाया जाता है । तथा अवस्थितका जघन्य काल दो समय कम दो आवलीप्रमाण है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर आदिका काल मतिज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम लघासठ सागर प्रमाण है । अभव्योंमें अवस्थितका काल अनादि-अनन्त है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ आवलीमात्र है । संज्ञी जीवोंमें भुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है । तथा अवास्थितका काल पुरुषवेदियोंके समान है । असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहियं । आहारक जीवोंमें भुजगार और अल्पतरका काल ओघके समान है । तथा अवास्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण

अणाहारि० कम्मइयमंगो ।

एवमेगजीवेण कालो समत्तो ।

* एवं सञ्चाणि अणिओगद्वाराणि णेवञ्चाणि ।

§ ४३७. सुगमत्तादो । एवं जइवसहाइरिएण सइदाणं सेसाणिओगद्वाराणं मंद-
बुद्धिज्जाणुगगहट्टं उच्चारणाइरिएण लिहिदुच्चारणमेत्थ वत्तइस्सामो ।

§ ४३८. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण
भुज० विह० अंतरं के० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० अद्रपोग्गलपरियट्टं देसणं । अप्प-
दर० जह० दो आवलियाओ दुसमयूणाओ, उक्क० अद्रपोग्गलपरियट्टं देसणं । अवट्ठि०
जह० एयसमओ, उक्क० वेसमया । एवमच्चक्खु० भवसिद्धि० वत्तव्वं । एवं तिरि-
क्खा० णवुंस० असंजद० । णवरि अप्पदरस्स जहण्णंतरं दुसमयूण-दोआवलियमेत्तं
णत्थि किंतु अंतोमुहुत्तमेत्तं । कथमवट्ठिदस्स उक्कस्संतरं दुसमयमेत्तं ? उच्चदे-पटमसम्मत्ता-
दिमुहेण दंसणमोहस्स कयंतरेण अवट्ठिदपदावट्ठिदेण मिञ्चत्तपटमट्ठिदिचरिमसमए
हे । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये ।

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

* इसीप्रकार शेष अनुयोगद्वारोंका कथन कर लेना चाहिये ।

§ ४३७. चूँकि शेष अनुयोगद्वारोंका कथन सरल है, अतएव यतिवृषभ आचार्यने
यहां उनका कथन नहीं किया ।

इसप्रकार यतिवृषभ आचार्यने उपर्युक्तसूत्रके द्वारा जिन शेष अनुयोगद्वारोंकी यहां सूचना
की है, उच्चारणाचार्यके द्वारा लिखी गई उन अनुयोगद्वारोंकी उच्चारणाको मन्दबुद्धि जनोंके
अनुग्रहके लिये यहां बतलाते हैं—

§ ४३८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओषनिर्देश और आदेस-
निर्देश । उनमेंसे ओषनिर्देशकी अपेक्षा भुजगारविभक्तिका अन्तर कितना है ? जघन्य
अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । अवस्थित-
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसीप्रकार अचक्षु-
दर्शनी और मव्य जीवोंके भुजगार आदि विभक्तियोंका अन्तर कहना चाहिये । इसी-
प्रकार सामान्य तिर्यच, नपुंसकवेदी और असंयत जीवोंके कहना चाहिये । यहां इतनी
विशेषता है कि इन जीवोंके अल्पतरका जघन्य अन्तर काल दो समय कम दो आबडी
नहीं है किन्तु अन्तर्मुहूर्त है ।

शंका—अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय कैसे है ?

समाधान—जिसने दर्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया है और जो मोहनीयकी
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्त्वरूपसे अवस्थितपदमें स्थित है ऐसा कोई एक प्रथमोपराम

सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमेकदरमुव्वेलिय अप्पदरेणंतरिय विदियसमए सम्मत्तं वेत्तूण उव्वेद्धिदपयडिसंतमुप्पाइय भुजगारेणंतरिय तदियसमए अवट्टाणे पदिदस्स उक्कस्सेण वेसमया अवट्टिदस्स अंतरं ।

§ ४३६. आदेसेण णेइय० भुज० अप्पद० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीससा-गरोवमाणि देसूणाणि । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० वे-समया । कारणमेत्थ वि उवरिं पि पुव्विद्धमेव वत्तव्वं । पटमादि जाव मत्तामि ति भुज० अप्प० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सग-सगुक्कस्साट्टिदीओ देसूणाओ । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० वेसमया । पंचिदियतिरिक्खतिगे भुज० अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो-वमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । अवट्टि० ओघभंगो । एवं मणुमतियस्स वत्तव्वं । णवरि मणुस-मणुसपज्जत्तएसु अप्प० जह० दोआवलियाओ दु-ममयूणाओ । पंचि-दियतिरिक्खअपज्ज० अप्पदरस्स णत्थि अंतरं । अवट्टि० जह० उक्क० एगसमओ ।

सम्यक्त्वके सम्मुख हुआ जीव जब सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति इन दोमेंसे किसी एक प्रकृतिकी उद्वेलना करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अल्पतर पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तरित करता है । तथा दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके उद्वेलित प्रकृतिकी सत्ताको पुनः उत्पन्न करके भुजगार पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तरित करता है और तीसरे समयमें पुनः अवस्थानपदको प्राप्त करता है तब उमके अवस्थितपदका उत्कृष्टरूपसे दो समय प्रमाण अन्तरकाल देखा जाता है ।

§ ४३६. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीम सागरप्रमाण है । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । यहां पर भी अवस्थितके उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय होनेका कारण पहलेके समान कहना चाहिये । पहले नरकसे लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक नरकमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्ततिर्यंच और पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यंचोमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि-प्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्यप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और क्षीवेदी मनुष्योंके भुजगार आदिका अन्तरकाल कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है ।

पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक तिर्यंचोमें अल्पतरका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है ।

एवं मणुसअपज० । अणुदिसादि जाव सव्वट्टासिद्धी एइंदिय-बादरएइंदिय-तेसिं पज्ज०
अपज्ज०-सुहुम०-तेसिं पज्ज० अपज्ज०-सव्वविगलिंदिय-पांचिं० अपज्ज०-पंचकाय०-तेसिं
बादर०-तेसिं पज्ज० अपज्ज०-सव्वसुहुम०-तसअपज्ज०-ओरालियमिस्स०-वेउव्विय-
मिस्स०-कम्मइय-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०-अमण्णि-अणाहारि सि वत्तव्वं ।
णवरि एइंदिय-बादर-सुहुम०-पंचकाय० बादर-सुहुम-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग०-
मिच्छादि० अमणीसु अप्पदर० जहण्णुक० पलिदो० असंखे० भागो ।

§ ४४०. देवेसु भुज० अप्प० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० एकत्तीससागरोवमाणि
देसणाणि । अवट्ठि० ओघभंगो । भवणादि जाव उवरिम-भेवज्ज ति भुज० अप्प०
जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सगमगुक्कम्मसट्ठिदीओ देसणाओ । अवट्ठि० जहण्णुक०
ओघभंगो । पांचिंदिय-पांचिं० पज्ज०-तस-तमपज्ज० भुज० जह० अंतोमुहुत्तं, अप्पदर०
जह० दोआवलियाओ दु-ममऊणाओ । उक्क० दोण्हं पि सगुक्कम्मसट्ठिदी देसणा ।
अवट्ठि० ओघभंगो । पंचमण०-पंचवचि० भुज० णत्थि अंतरं । अप्पद० जहण्णुक०
तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । इसीप्रकार लब्ध-
पर्याप्त मनुष्य, अनुदिशमे लेकर सर्वार्थमिद्वि तकके देव, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर
एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म
एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावर-
काय, पांचों प्रकारके बादर स्थावरकाय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, सभी प्रकारके सूक्ष्म,
त्रस लब्धपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्स-
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।
इतनी विशेषता है कि बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म पांचों स्थावरकाय,
मत्सज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें अल्पतरका जघन्य
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४४०. देवोंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट
अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है ।
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तक प्रत्येक स्थानमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य
अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण
है । तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान है ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें भुजगारका जघन्य अन्तर-
काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली है । तथा
भुजगार और अल्पतर इन दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट
स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है ।

वे-आवलियाओ दुसमऊणाओ । अवट्टि० ओघभंगो । एवमोरालिय० कायजो० । भुज० णत्थि अंतरं । अप्प० जह० दो-आवलियाओ दु-समऊणाओ, उक्क० पालिदो-वमस्स असंखे० भागो । अवट्टि० ओघभंगो । आहार०-आहारमिस्स० अवट्टि० णत्थि अंतरं । एवमकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-सासण०-सम्मामि०-अभव्वसि० वत्तव्वं । वेउम्बिय० भुज० अप्प० जहणुक्क० णत्थि अंतरं । अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० वेसमया ।

§ ४४१. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस० भुज० अप्प० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सगट्टिदी देखणा । अवट्टि० ओघभंगो । अवगद० अप्प० जहणुक्क० अंतोसु०, अवट्टि० जहणुक्क० एगसमओ । चत्तारि कसाय भुज० णत्थि अंतरं । अप्प० जह० दुसम-ऊणदोआवलिय०, उक्क० अंतोसु० । अवट्टिद० ओघभंगो । आमिणि०-सुद०-ओहि०

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें भुजगारका अन्तर नहीं पाया जाता है । अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार औदारिककाययोगमें जानना चाहिये । यहां भी भुजगारका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाय-योगमें अवस्थितका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, सासादन सम्यग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि, और अभव्य जीवोंमें कहना चाहिये । वैक्रियिक काययोगमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-काल दो समय है ।

§ ४४१. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेद और पुरुषवेदमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । अपगदवेदमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है ।

चारों कषार्योंमें भुजगारका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समयकम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा अव-स्थितका अन्तरकाल ओघके समान है ।

मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें अल्पतरका अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक छयासठ सागर है । तथा अवस्थितका अन्तर-

अप्प० जह० दो आवलियाओ दुममऊणाओ, उक्क० छावट्टि सागरोवमाणि सादिरे-
याणि । अवट्टिदं ओघभंगो । एवं सम्मादि०-ओहिदंमणी० । मणपज्जव० अवट्टि०
जहण्णुक्क० एगममओ । अप्प० जह० दोआवलियाओ दुममऊणाओ, उक्क० पुब्बकोडी
देसुणा । संजदासंजद-सामाइय-छेदो० अप्पदर० अवट्टि० मणपज्जवभंगो । णवरि
संजदासजद० अप्प० जह० अंतोमु० । सामाइयछेदो० अवट्टि० उक्क० बेसमया ।
परिहार० संजदासंजदभंगो । चक्खु० तसपज्जवभंगो ।

§ ४४२. पंचलेस्सा० भुज० अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० तेतीस-सत्तारस-सत्त-
सागरो० देखणाणि सादि०, वेअट्टारम सागरो० सादिरेयाणि । अवट्टि० ओघं । सुक्क०
भुज० अप्प० जह० अंतोमु० दुममऊण-दोआवलिय०, उक्क० एकतीसमागरो० देख-
णाणि सादि० । अवट्टि० ओघभंगो । बेदयसम्मादि० अप्पदर० जह० अंतोमु०
छावट्टि० सा० देखणाणि । अवट्टि० जहण्णुक्क० एयसमओ । रवइय० अप्प० जह०
काल ओघके समान है । इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि और अवधिदर्शनी जीवोंके जानना
चाहिये । मनःपर्यय ज्ञानमे अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है ।
तथा अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली और उत्कृष्ट अन्तरकाल
कुछ कम पूर्वकोटि है । संयतासंयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके
अल्पतर और अवस्थितका अन्तरकाल मनःपर्ययज्ञानके समान है । इतनी विशेषता है कि
संयतासंयतजीवके अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा सामायिक और
छेदोपस्थापना संयत जीवोंके अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । परिहारविशुद्धि-
संयत जीवोंके संयतासंयत जीवोंके समान कथन करना चाहिये । चक्षुदर्शनमे त्रसपर्याप्रकोंके
समान कथन करना चाहिये ।

§ ४४२. कृष्णादि पांचों लेश्याओंमें भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल
अन्तर्मुहूर्त है और भुजगारका उत्कृष्ट अन्तरकाल कृष्ण, नील और कपोल लेश्यामें क्रमसे कुछ
कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर, कुछ कम मात सागर तथा अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तर
काल साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक मात सागर है । तथा पीत
और पद्मलेश्यामे दोनोका उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमशः साधिक दो सागर और साधिक अठारह
सागर है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । शुक्ल लेश्यामें भुजगार और
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और दो समय कम दो आवली है तथा
भुजगारका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर और अल्पतरका अन्तरकाल
साधिक इकतीस सागर है । तथा शुक्ललेश्यामें अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है ।

वेदकमन्दगृष्टियोंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल
कुछ कम छथासठ सागर है । तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक

दुसमऊणदोआवलि०, उक्क० अंतोसु० । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० बे-समया ।
 उवसम० अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्टि० जहणुक्क० एयसमओ । सण्णि० पुरि-
 सभंगो । णवरि अप्प० जह० दुसमऊणदोआवलि० । आहारि० भुज० अप्प० जह०
 अंतोसु० दुसमऊण-दोआवलि०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो । अवट्टि० ओघभंगो ।
 एवमेगजीवेण अंतरं समत्तं ।

§ ४४३. णाणाजीवेहि भंगविचयानुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य ।
 तत्थ ओघेण अवट्टिद० णियमा अत्थि, सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं सत्तसु पुढ-
 वीसु, तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्ख-पांचि० तिरि० पज्ज०-पांचि० तिरि० जोणणी-मणु-
 सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्जं ति-पांचिदिय-पांचि०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंच-
 मण०-पंचवाचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-वेउव्वय०-तिण्णिवेद-चत्तारिकसाय-असं-
 जद-चक्खु०-अचक्खु०-छलस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि ति वत्तव्वं ।

समय है । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली
 और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय
 और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरका अन्तरकाल नहीं
 पाया जाता है । तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है ।

संज्ञी मार्गणामें पुरुषवेदके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके
 अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली प्रमाण है । आहारक जीवोंमें
 भुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और दो समय कम दो आवली
 प्रमाण है । उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका अंगुलके असंख्यतवें भाग प्रमाण है । तथा
 अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है ।

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल ममात्र हुआ ।

§ ४४३. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है ओघ-
 निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले
 जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं अर्थात् भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले
 जीव कभी रहते भी हैं और कभी नहीं भी रहते हैं । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी,
 तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती जीवोंमें तथा
 सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें, मामान्य देवोंमें और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम
 त्रैवेयक तकके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी,
 पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले,
 क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, ब्रह्म लेख्यावाले, भव्य, संज्ञी
 और आहारक जीवोंमें कहना चाहिये । अर्थात् इन मार्गणामें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले

§ ४४४. पंचि० तिरि० अपञ्ज० सिया सव्वे जीवा अवट्टिदविहत्तिया, सिया अवट्टिदविहत्तिया च अप्पदरविहत्तियो च, मिया अवट्टिदविहत्तेया च अप्पदरविहत्तिया च । एवं तिण्णि भंगा ३ । एवमणुदिसादि जाव मव्वट्टु त्ति-सव्वएइंदिय-मव्वविगालिंदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय०-तसअपञ्ज०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मदिअण्णाण-सुद-अण्णा०-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद-सामा-इय-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओहिदंस०-मम्मादि०-खइय०-वेदय०-मिच्छादि० असण्णि०-अणाहारए त्ति वत्तव्वं । मणुसअपञ्जत्त० अट्टभंगा ८ । एवं वेउव्विय-मिस्स०-अवगद०-उवसम० वत्तव्वं ।

नाना जीव निरन्तर नियमसे पाये जाते हैं । पर शेष दो स्थानवाले जीव कदाचित् होते भी हैं और कदाचित् नहीं भी होते हैं ।

§ ४४४. पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें कदाचित् सभी जीव अवस्थितविभक्ति-स्थानवाले होते हैं । कदाचित् अनेक जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और एक जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाला होता है । कदाचित् नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाले होते हैं । इसप्रकार तीन भंग पाये जाते हैं । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें तथा सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पाँचों प्रकारके स्थावर काय, त्रय लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, ध्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामार्थिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयता-संयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्गृष्टि, क्षार्थिकसम्यग्गृष्टि, वेदकसम्यग्गृष्टि, निध्यागृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें कहना चाहिये । अर्थात् इन मार्गणास्थानोंमें लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिर्यचोंके समान कदाचित् सब जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले होते हैं । कदाचित् नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और एक जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाला होता है । तथा कदाचित् नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले और नाना जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाले होते हैं ।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी और उपपन्नसम्यग्गृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—ये लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य आदि ऊपरकी चारों मार्गणाएं सान्तरमार्गणाएं हैं । इनमें कदाचित् एक जीव और कदाचित् नाना जीव पाये जाते हैं । तथा कदाचित् इन मार्गणाओंमें एक भी जीव नहीं पाया जाता है । अतः इनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले कदाचित् नाना जीवोंका और कदाचित् एक जीवका तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले कदा-

§ ४४५. आहार०-आहारमिम्म० मिया अवट्टिदविहत्तिओ, सिया अवट्टिदविहत्तिचा, एवं वे भंगार । एवमकमाय०-सुहुममांपराय०-जहाकखाद०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं । अभव्व० अवट्टि० णियमा आत्थि ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो ।

§ ४४६. परिमाणानुगमेण दुविहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण भुज्ज० अप्पद० विहत्तिया केत्तिया ? असंखेज्जा । अवट्टि० केत्तिया ? अणंता । एवं तिरिक्ख-कायजोगि०-ओरालिय०-णवुंस०-चत्तारि कसाय०-असंजद-अचक्खु०-तिष्णिले०-भवसिद्धि०-आहारि त्ति वत्तव्वं ।

§ ४४७. आदसेण णेरईएसु भुज्ज० अप्पद० अवट्टि० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सत्तसु पुढवीसु, पंचिदियतिरिक्खतिय-देव-भवगादि जाव उवरिमगेवज्ज०-पंचिदिय-चित्त नाना जीवोका और कदाचित् एक जीवका पाया जाना संभव है । अतः इनके प्रत्येक और द्विसंयोगी इसप्रकार कुल आठ भंग हो जाते हैं ।

§ ४४५. आहारककाययोगो और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें कदाचित् अवस्थित विभक्तिस्थानवाला एक जीव तथा कदाचित् अवस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव इसप्रकार दो भंग होते हैं । इसीप्रकार अकषाथी, सूक्ष्म सांपरायसंयत, उपशमश्रेणीपर चढ़े हुए यथाख्यातसंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये । ये उपर्युक्त सभी मार्गणाएं सात्तरमार्गणाएं हैं और इनमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान ही पाया जाता है । इसीलिये इनमें एक जीव और नाना जीवोकी अपेक्षा दो ही भंग होते हैं । अभव्योंमें अवास्थित विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे हैं ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविषयानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४४६. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओषनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओषानिर्देशकी अपेक्षा भुज्जगर और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार तिरिक्ख, काययोगी, औदारककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि तानों लेश्यावाले, भव्य और आहारक जीवोंमें कथन करना चाहिये । अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें भुज्जगर और अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीव असंख्यात और अवास्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं ।

§ ४४७. आदशानिर्देशकी अपेक्षा नाराक्योंमें भुज्जगर, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसप्रकार सातों पृथिवियोंमें, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और पंचेन्द्रिय थोनिमती तिरिक्खोमें, देवोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिचरित्र प्रवेयक तकके देवोंमें, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, ब्रह्म, ब्रह्म पर्याप्त, पांचों मनोयोगी,

पंचि०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-वेउन्वि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्कु०-
तेउ०-पम्म०-सुक०-साण्णि० वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तएसु अप्पदर० अवट्ठि०
के० ? असंखेजा । एवं मणुसअपञ्ज०-अणुहिसादि जाव अवराजिद०-सव्वविगलिदिय-
पंचिदियअपञ्ज०-चत्तारिकाय०-तमअपञ्ज०-वेउन्वियामिस्स०-विहंग०-आभिणि०-सुद०-
ओहि०-संजदासंजद-ओहिदंम०-मम्मादिट्ठि-वेदय०-उवमम० वत्तव्वं ।

§ ४४८. मणुस्सेसु भुज० के० ? संखेजा । अप्पदर० अवट्ठि० के० ? असंखेजा ।
मणुसपञ्ज०-मणुसिणी० भुज० अप्पदर० अवट्ठि० के० ? संखेजा । मव्वट्ठे अप्पदर०
अवट्ठि० के० ? संखेजा । एवमवगद०-मणपञ्ज०-संजद०-सामाइयक्खेदो०-परिहार०
वत्तव्वं ।

§ ४४९. एइंदिएसु अप्पदर० के० ? असंखेजा । अवट्ठि० के० ? अणंता । एवं
पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्म-
लेख्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंमें कथन करना चाहिये । अर्थात् इन उपर्युक्त
मार्गणास्थानोंमें नारकियोंके समान भुजगार आदि तीनों विभक्तिस्थानवाले जीव पृथक्
पृथक् असंख्यात असंख्यात हैं ।

पंचेन्द्रियतिथं च लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव
कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें, अनुदिशसे लेकर
अपराजिन तकके देवोंमें, तथा मभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, पृथिवी
आदि चार प्रकारके स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी,
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतामंयत, अवधिदर्शनी, मस्यगृष्टि, वेदकसम्यगृष्टि
और उपशमसम्यगृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये । अर्थात् इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें पंचेन्द्रिय
तिथं च लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान अल्पतर अवस्थित ये दो स्थान होते हैं । तथा प्रत्येक
स्थानमें असंख्यात जीव होते हैं ।

§ ४४८. सामान्य मनुष्योंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव कितने होते हैं ?
संख्यात होते हैं । तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर और अवस्थित
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार अपगत वेदी, मनःपर्ययज्ञानी,
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयतोंमें अल्पतर और
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये ।

§ ४४९. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय,

बादरेइंदिय-चादरेइंदियपजतापजत्त - सुहुमेइंदिय -सुहुमेइंदियपजत्तापजत्त -सव्ववणप्फ-
दिकाइय-ओगालियमिम्म०-कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण-मिच्छादिट्ठि-असण्णि० आणा-
हारि ति वत्तव्वं । आहार०-आहारमिम्म० अवट्ठि० के० ? संखेज्जा । एवम-
कसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । अभव्व० अवट्ठि० के० ? अणंता । खइय०
अप्पदर० के० ? संखेज्जा । अवट्ठि० के० ? अमंग्वेज्जा । सासण-सम्भामि० अवट्ठि०
के० ? अमंखेज्जा ।

एवं परिमाणानुगमो समतो ।

§ ४५०. भागाभागाणुगमेण दूविहो णिहमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
अवट्ठिदविहत्तिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंता भागा । भुजगार-अप्पदर-
विहत्तिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-
ओरालि०-णवुंस० - चत्तारिक० -अमंजद-अचक्खु० -तिण्णिले० भवसि०-आहारि०
वत्तव्वं ।

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, मूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त,
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी प्रकारके वनस्पतिकार्थिक, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मण-
काययोगी, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञा, और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर
और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इनीप्रकार अरुपायी, मूक्ष्ममांपरायिकमंस्यत और यथारूपाय
संस्यत जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात कहना चाहिये ।

अभक्ष्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । क्षायिक
सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अवस्थित
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-
दृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

इसप्रकार परिमाणानुगम द्वार समाप्त हुआ ।

§ ४५०. भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ? ओघनिर्देश और
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिवाले जीव मर्ब जीवोंके
कितनेवें भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव
मर्ब जीवोंके कितनेवें भाग हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यंच,
काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंस्यत, अचक्षु-
दर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेइयावाले, भव्य और आहारक जीवोंमें अवस्थित आदि विभक्ति-
स्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

§ ४५१. आदेसेण षेगईएसु अवट्टिद० के० भागो ? असंखेज्जा भागा । भुज० अप्पद० के० भागो ? असंखे० भागो । एवं मत्तसु पुट्टवीसु पंचिदियतिरिक्ख-पंचि० तिग्गि० पज्ज०-पंचि० तिग्गि० जोणिणी-मणुम-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-पंचिदिय-पंचि०पज्ज०-तय-तमपज्ज०-पंचमग० पंचवचि०-वेउत्तिय०-इत्थि०-पुग्गिम०-चक्खु०-तिणिले०-मण्णि ति वत्तव्व । पंचि०तिग्गि०अपज्ज० अवट्टि० मच्चजीवाणं केवड्ढिओ भागो ? अमंखेज्जा भागा । अप्पदर० अभंखे०भागो । एवं मणुमअपज्ज०-अणुहि-मादि जाव अवगइद०-मव्यविमालिंदिय-पंचि०अपज्ज०-चत्तारिकाय-तमअपज्ज०-वेउ-त्तियभिम्म०-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मंजदामंजद-ओहिदंमण०-मम्मादि०-खुइय०-वेदय०-उवमम० वत्तव्वं ।

§ ४५२. मणुम्मपज्ज०-मणुमिणी० अवट्टि० संखेज्जा भागा । भुज० अप्पदर० केव० ? संखे० भागो । मव्वट्ट० अवट्टि० मच्चजी० के० ? संखेज्जा भागा । अप्प०

§ ४५१. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व नारकियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इसीप्रकार मातों पृथिवियोंके नारकी तथा पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनीमती, सामान्य मनुष्य और सामान्य देवोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रेथेयक तकके देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, ब्रह्म, ब्रह्मपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चतुर्दशनी, कृष्ण आदि तीन लेख्यावाल और मंजी जीवोंमें कहना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तक जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इसीप्रकार मनुष्य लब्धपर्याप्त-कोंमें, अनुदिशमे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी प्रकारके त्रिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पृथिवी आदि चार स्थावरकाय, ब्रह्म लब्धपर्याप्त, वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी, मतिज्ञानी, ध्रुतज्ञानी, अर्वाधज्ञानी, संयतामयत, अवधिदर्शनी, मध्यदृष्टि, क्षायिकमध्यदृष्टि, वेदकमध्यदृष्टि और उपशम मध्यदृष्टि जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भागाभाग कहना चाहिये ।

§ ४५२. मनुष्यपर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । सर्वार्थसिद्धिमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वार्थसिद्धिके सभी देवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा

संखे० भागो । एवं अवगद०-मणपज्ज०-संजद-मामाइयछेदो०-परिहार० वत्तव्वं । सव्वएइंदिएसु अवट्ठि० सव्व० के० ? अणंता भागा । अप्पद० सव्व० के० । अणं-
तिमभागो । एवं वणप्फदि०-णिगोद०-ओरालियमिस्म०-कम्मइय०-मदिअण्णाण-
सुद०-मिच्छादि०-असण्णि० अणाहारि० वत्तव्वं । आहार०-आहारमिस्स० अवट्ठि०
भागाभागो णत्थि । एवमकसा०-सुहुमसांप०-जहाक्खाद०-अभव०-सासण०-
सम्मामि० वत्तव्वं ।

एवं भागाभागानुगमो समत्तो ।

§ ४५३. खेत्तानुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य । तन्थ ओघेण अब-
ट्ठिदविहत्तिया केवडि०खेत्ते ? सव्वलोए । भुज्ज०अप्पद० के० खेत्ते ? लोगस्स अमंखे०
भागे । एवं सव्वामिमणंतरासीणं चत्तारिकाय बादर० अपज्ज० सुहुमपज्जत्तापज्जत्ताणं
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव मंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अपगतवेदी, मनः-
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छंदोपस्थापनासंयत, और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें
अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

सभी प्रकारके एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रियोंके
कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव
सभी एकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । इसीप्रकार वनस्पति-
कायिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मण्यकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी,
मिथ्यादृष्टि, असंक्षी और अनाहारक जीवोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले
जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें एक अवस्थित विभ-
क्तिस्थान ही पाया जाता है, इसलिये वहां भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार अकषायी,
सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथारूयात संयत, अभव्य, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-
दृष्टि जीवोंमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान पाया जाता है इसलिये यहां भी भागाभाग नहीं
पाया जाता, ऐसा कहना चाहिये ।

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४५३. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें
रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं । भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने
क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार जितनी भी अनन्त
राशियां हैं उनका तथा पृथिवी आदि चार स्थावरकाय तथा इनके बादर और बादर-
अपर्याप्त, सूक्ष्म, सूक्ष्मपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवोंका क्षेत्र कहना चाहिये । इतनी

च वत्तव्वं । णवरि पदविसेसो जाणियव्वो । वादरवाउ०पज्ज० अबट्ठि० के० ? लोगस्स संखे० भागे । अप्प० असंखे० भागे । सेससंखेज्जासंखेज्जसव्वरासीओ केवडि० खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे ।

एवं खेषाणुगमो समत्तो ।

§ ४५४. फोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण भुजगारविहत्तिएहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-चोइस-भागा वा देखणा । अप्पदरविहत्तिए केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट-चोइसभागा देखणा, सव्वलोगो वा । अबट्ठि० सव्वलोगो । एवं कायजोगि-चत्तारि कमाय-असंजद०-अचक्खु०-भवसिद्धि०-आहारि पि वत्तव्वं ।

§ ४५५. आदेसेण णेरइएसु भुज० खेत्तमंगो । अप्पदर० अबट्ठिदविहत्तिएहि केव० फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, छ चोइस भागा वा देखणा । पढमपुढवि० विशेषता है जहां जितने अवस्थित आदि पद हों उन्हें जानकर ही तदनुसार क्षेत्र कहना चाहिये । बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । तथा ये ही बादरवायुकायिक अल्पतर विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । शेष संख्यात और असंख्यात संख्यावाली सर्व जीव राशियां कितने क्षेत्रमें रहती हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती हैं ।

इसप्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४५४. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ? ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछकम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्शन कहना चाहिये ।

§ ४५५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें भुजगारविभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । नारकियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । पहली पृथिवीमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका

खेत्तभंगो ! त्रिदियादि जाव मत्तमि ति भुज० खेत्तभंगो । अप्पद० अवट्टि० के० खेत्तं फोमिदं ? लोग० असंखे० भागो । एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोइस-भागा वा देसूणा ।

§ ४५६. तिरिक्खेसु भुज० अवट्टिदाणं खेत्तभंगो । अप्पद० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा । एवमोरालि०-णवुंम०-तिण्णिले० वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि० पज्ज०-पंचि० तिरि० जोणिणीसु भुजगार० खेत्तभंगो । अप्पद० अवट्टि० के० खेत्तं फोमिदं ? लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा । एवं मणुसतियस्स वत्तव्वं । पंचि० तिरि० अपज्ज० अप्पद० अवट्टिदवि० के० खे० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा । एवं मणुमअपज्ज०-सव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय-अपज्ज० ।

स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है । दूमरी पृथिवीसे लेकर मानवी पृथिवी तकके अल्पतर और अर्वास्थान विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीकं चौदह भागोंमेंसे दूसरी पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम एक राजु, तीसरी पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम दो राजु, चौथी पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम तीन राजु, पांचवीं पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम चार राजु, छठी पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम पांच राजु और सातवीं पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम छह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ ४५६. तिर्यच्चोमें भुजगार और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । तिर्यच्चोमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिर्यच योनिमती जीवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । तथा इन्हीं तीन प्रकारके तिर्यच्चोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंके स्पर्शका कथन करना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तकोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार मनुष्य लब्धपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये ।

§ ४५७. देव० भुज० के० खेतं फोसिदं ? लोगस्स अमंखे० भागो, अट्ट चोदस-
भागा वा देखगा । अप्पद० अवट्टि० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो,
अट्ट-णव-चोदमभागा वा देखणा । एवं मोहम्मीसाणेसु । मवण०-वाण०-जोदिसि० एवं
चेव, णवरि जम्मि अट्ट-णव चोदमभागा देखणा त्ति वुत्तं तम्मि अट्ट-अट्ट-णव-
चोदसभागा देखणा त्ति वत्तव्वं । मणक्कुमारदि जाव सहस्सारे त्ति भुज० अप्प०
अवट्टि० केव० ? लोग० अमंखे० भागो, अट्ट-चोदसभागा वा देखणा । आणद-
पाणद-आरणच्चुद एवं चेव । णवरि छ चोदमभागा देखणा । उवरि खेतभंगो । एवं
वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिस्स०-अवगदवेद०-अकसा०-मणपज्जव०-सामाइय-
छेदो०-परिहार०-सुहुमसांप०-जहाक्खाद०-अभविय० वत्तव्वं ।

§ ४५८. एइदिंएसु अप्प० के० खेतं फोसिदं ? लोग० अमंखे० भागो, सव्वलोगो

§ ४५७. देवोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ?
लोकके असंख्यातवें भाग और त्रमनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे
कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार
मौधर्म और एशान कल्पमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये ।
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें भी इसीप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता
है कि सामान्य देवोंमें जिन विभक्तिस्थानवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ
कम आठ और कुछ कम नौ भाग प्रमाण स्पर्श कहा है, भवनत्रिक देवोंमें त्रसनालीके
चौदह भागोंमें से कुछ कम साढ़े तीन भाग, कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भाग
प्रमाण स्पर्श कहना चाहिये । सनत्कुमार स्वर्गसे लेकर महस्वार स्वर्ग तकके देवोंमें भुजगार,
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके
असंख्यातवे भाग तथा त्रमनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श
किया है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पके देवोंमें भी इसीप्रकार स्पर्श कहना
चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहांके भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले देवोंने त्रस-
नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इनके ऊपर
नौ प्रवेयक आदिके देवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी,
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्ययज्ञानी, सामा-
यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाख्यातसंयत
और अभव्य जीवोंमें कहना चाहिये ।

§ ४५८. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया

वा। अवट्टि० के० खेतं फोसिदं? सव्वलोगो। एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज०-
 बादरेइंदियअपज०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज०-सुहुमेइंदि० अपज०-पुढवि०-
 बादरपुढवि०-नादरपुढवि० अपज०-सुहुमपुढवि०-सुहुमपुढवि० पजत्तापजत्त-आउ०-
 बादरआउ०-नादरआउ० अपज०-सुहुमआउ०-सुहुमआउ० पजत्तापजत्त-तेउ०-नादर-
 तेउ०-नादरतेउ० अपज०-सुहुमतेउ०- सुहुमतेउ०पजत्तापजत्ताणं वत्तठवं। बादर-
 पुढवि०पज०-नादरआउ० पज०-नादरतेउपजत्ताणं अप्पदर-अवट्टिदविहृत्तिएहि के० खेतं
 फोसिदं? लोग० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा। वाउ०-नादरवाउ०-नादरआउ-
 अपज०-सुहुमवाउ०-सुहुमवा०पजत्तापजत्त-ओरालियमिस्स०-असण्णीणमेइंदियभंगो।
 वादरवाउ०पज० अप्पद० लोग० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा। अवट्टि० के० खेतं
 फोसिदं? लोगस्स संखे० भागो, सव्वलोगो वा।

§ ४५६. पंचिदिय-पंचिदियपज-तस-त्तसपज० भुज० अप्प० ओघभंगो। अवट्टि०
 है? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा अवस्थित
 विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।
 इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय,
 सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पृथिवीकायिक, बादर पृथिवीकायिक,
 बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म
 पृथिवीकायिक अपर्याप्त, अष्कायिक, बादर अष्कायिक, बादर अष्कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म
 अष्कायिक, सूक्ष्म अष्कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अष्कायिक अपर्याप्त, अग्निकायिक, बादर
 अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त
 और सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका
 स्पर्श कहना चाहिये। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर
 अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका
 स्पर्श किया है? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है।
 वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म
 वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी और असंज्ञी जीवोंका
 स्पर्श एकेन्द्रियोंके समान है। बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले
 जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोकक्षेत्रका स्पर्श किया है। तथा उनमें अवस्थित
 विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है? लोकके संख्यातवें भाग और
 सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है।

§ ४५६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें भुजगार और
 अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श ओघके समान है। तथा उक्त चारों प्रकारके

के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो अट्ट-चोइसभागा वा देखणा, सब्वलोगो वा । एवं पंचमण०-पंचवाचि०-इत्थि०-पुरिम० चक्खु०-मणि० वत्तव्वं । वेउव्विय० भुज० अप्प० अवट्ठि० के० खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-तेरह चोइस-भागा वा देखणा । णवरि भुज० तेरस० णत्थि । कम्मइय० अप्प० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो, सब्वलोगो वा । अवट्ठिद० के० खेतं फोसिदं ? सब्वलोगो । मदि-अण्णाण-सुद-अण्णाण० अप्प० ओघमंगो, अवट्ठि० ओघं । एवं मिच्छादिट्ठी० । विहंग० अप्प० अवट्ठि० के० खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट-चोइसभागा वा देखणा सब्वलोगो वा । आभिणि०-सुद०-ओहि० अप्प० अवट्ठि० के० खेतं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो । अट्ट-चोइस० देखणा । एव-जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये ।

वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इतनी विशेषना है कि वैक्रियिककाययोगियोंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श त्रसनालीके तेरह भाग प्रमाण नहीं पाया जाता है । कर्मणकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

मति-अज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श ओघके समान है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भी स्पर्श ओघके समान है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श कहना चाहिये । विभङ्गानियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अबधिज्ञानी जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार अबधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि

मोहिदं०-मम्मादि०-वेदय०-उवसम० वत्तव्वं । संजदासंजद० अप्प० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० अमंखे० भागो । अवट्टि० लोग० असंखे० भागो, छ चोदस० देखणा । तेउ० मोहम्मभंगो । पम्म० सणक्कुमारभंगो । सुक्क० आणदभंगो । खइय० अप्प खेत्तभंगो । अवट्टि० लोग०अमंखे० भागो, अह चोदम० देखणा । सम्मामि० अवट्टि० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० अमंखे० भागो, अह-चोदम० देखणा । मामण० अवट्टि० लोग० असंखे० भागो, अह-बाग्ह-चोदम० देखणा । अणाहारि० कम्मइय भंगो ।

एवं फोसणाणुगमो समत्तो ।

§ ४६ . कालाणुगमेण दुविहो णिदंमो, ओघेण आदंसेण य । तत्थ ओघेण भुज० अप्प० के० ? जह० एगममआ उक्क० आवलियाय असंखे० भागो । अवट्टि० के० ? सव्वद्द। एवं मव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खति-य-देव-भवणादि जाव उवरिमगे-और उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये । संयतामंगतोमें अल्पतर विभक्तिस्थान-वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके अमंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके अमंख्यातवें भाग और चौदह राजु-मेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

तेजोलेइयामें औघर्म स्वर्गके समान, पद्दलेइयामें गानत्कुमार स्वर्गके समान और शुक्कलेइयामें आनत स्वर्गके समान स्पर्श जानना चाहिये । क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श उनके क्षेत्रके समान है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके अमंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । न्मग्गिमध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके अमंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । मानादनसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके अमंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बाग्ह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणक्काययोगियोंके समान जानना चाहिये ।

इसप्रकार स्पर्शानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४६० . कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार और अल्पतरविभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके अमंख्यातवें भाग-प्रमाण है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्वकाल है । इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेन्द्रिययोनीमती तिर्यंच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देव

वज्र०-पंचिंदिय-पंचि०पञ्ज०-तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-
 बेउव्विय०-तिण्णिवेद०-चत्तारि कसाय०-असंजद-चक्खु०-अचक्खु०-ल्लोस्स०-भव-
 सिद्धि०--सण्णि०-आहारि० वत्तव्वं । पंचि० तिरि०अपञ्ज० अप्पद० जह० एगसमओ,
 उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अवाट्ठो मव्वद्दा । एवमणुहिसादि जाव अवगाइद-
 मव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचि० अपञ्ज०-पंचकाय-तसपञ्ज०-ओगलियमिस्स०-
 कम्मइय० -- मदिअण्णाण - सुदअण्णाण - विहंग० - आभिणि० - मुद० - ओहि० - संजदा-
 संजद०-ओहिंदस०-मम्मादि०-वेदगमम्मा०-मिच्छादि०-अमाण्णि०-अणाहारि चि वत्तव्वं ।

१४६१. मणुस० भुज० जह० एयममओ, उक्क० संखेज्जा समया । अप्प० जह०

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम, त्रसपर्याप्त, पांचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारो कपायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, लहो लेख्यावाले, मध्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जब बहुतसे जीव एक समय तक भुजगार और अल्पतर विभक्तिको करते हैं, किन्तु दूसरे समयमें संसारमें कोई जीव इन विभक्तियोंको नहीं करता तब भुजगार और अल्पतरका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । तथा प्रत्येक समयमें अन्य अन्य नाना जीव भुजगार और अल्पतर विभक्तियोंको निरन्तर करे तो आवलीके असंख्यातवें भाग काल तक करते हैं । अतः भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्टकाल आवलीके अमंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा अवस्थित पदका काल सर्वदा स्पष्ट ही है । ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है अतः उनमें भुजगार आदिके कालको ओघके समान कहा है ।

पंचेन्द्रिय त्रयंच लब्धपर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके अमंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय त्रयंच लब्धपर्याप्त जीव निरन्तर पाये जाते हैं, इसलिये उनका सर्वकाल है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एव-न्द्रिय, सभी विक्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचो स्थावरकाय, त्रम लब्धपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, मातज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतामंयत, अवधिदर्शनी, मध्यगृष्टि, वेदक मध्यगृष्टि, मिध्या-दृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये ।

१४६१. मामान्य मनुष्योमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल

एयसमओ, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अवट्टि० मव्वद्धा । मणुसपज्ज०-मणु-
सिणीसु भुज्ज० अप्प० जह० एगममओ, उक्क० संखेज्जा समया । अवट्टि० मव्वद्धा ।
मणुसअपज्ज० अप्पद० जह० एयममओ, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अवट्टि० जह०
एगसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे० भागो । एवं वेउच्चियमिस्स० । सव्वट्टे अप्पद०
जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । अवट्टि० मव्वद्धा । एवं मणपज्ज०-संजद-
सामाहय-छेदो०-परिहार० खइयसम्मार्हाट्टि ति वत्तव्वं । आहार० अवट्टि० जह० एय-
समओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवमकमा०-सुहुम -जहाक्खाद० वत्तव्वं । आहारमि०स०
अवट्टि० जहणुक्क० अंतोमुहुत्तं ।

§ ४६२. उवसम० मम्मामि० अवट्टि० जह० अंतोमुहुत्तं उक्क० पालिदो० असंखे०
एय समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अवस्थित विभ-
क्तिस्थानवाले मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्व काल है । पर्याप्त मनुष्य
और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त और
स्त्रीवेदी मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये इनका सर्व काल है । लब्धपर्याप्त मनुष्योंमें
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके
असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले लब्धपर्याप्त मनुष्योंका जघन्य
काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्न्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसीप्रकार
वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल
जानना चाहिये ।

सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले सर्वार्थसिद्धिके देघ
सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वकाल है । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत,
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये ।

आहारक काययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और
यथाख्यात संयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कहना चाहिये । आहारक-
मिश्रकाययोगियोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४६२. उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले
जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्न्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

भागो ।

§ ४६३. उवममममादिष्टिम्म अणंताणुबंधिच्चउकं विमंजोएंतस्स अप्पदरं होदि त्ति तत्थ अप्पदरकालपरूवणा कायन्वा ति ? ण, उवममसम्मादिष्टिम्मि अणंताणुबंधि-विमंजोयणाए अभावादो । तदभावो कुदो णव्वदे ? उवममममादिष्टिम्मि अवद्धिद-पदं चैव परूवेभाण-उञ्चारणाइरियवयणादो णव्वदे । उवममममादिष्टिम्मि अणंता-णुबंधिच्चउकविमंजोयणं भणंत-आइरियवयणेण विरुज्झमाणमेदं वयणमप्पमाणभावं किं ण दुक्कदि ? मच्चमेदं जदि तं सुत्तं होदि । सुत्तेण वक्खाणं बाहिज्जदि ण वक्खाणेण वक्खाणं । एत्थ पुण दो वि उवएमा परूवेयन्वा दोण्हमेकदरस्म सुत्ताणुमारित्ताव-गमाभावादो । किमट्टमुवममममादिष्टिम्मि अणंताणुबंधिच्चउकविमंजोयणा णत्थि ?

§ ४६३. शंका—जो उपशमसम्यग्दृष्टि चार अनन्तानुबन्धीकी विमंयोजना करता है उमके अल्पतर विभक्तिस्थान पाया जाता है, इसलिए उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानके कालकी प्ररूपणा करनी चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विसयो-जना नहीं पाई जाती है ।

शंका—उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चारकी विमंयोजना नहीं होती है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—उपशमसम्यग्दृष्टिके एक अवस्थित पद ही होता है इसप्रकार प्रतिपादन करनेवाले उच्चारणाचार्यके वचनसे जाना जाता है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसयोजना नहीं होती ।

शंका—उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विमंयोजना होती है इसप्रकार कथन करनेवाले आचार्य वचनके साथ यह उक्त वचन विरोधको प्राप्त होता है इसलिये यह वचन अप्रमाण क्यों नहीं है ?

समाधान—यदि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विमंयोजनाका कथन करनेवाला वचन सूत्रवचन होना तो यह कहना सत्य होता, क्योंकि सूत्रके द्वारा व्याख्यान बाधित होजाता है, परन्तु एक व्याख्यानके द्वारा दूसरा व्याख्यान बाधित नहीं होता । इसलिये उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विमंयोजना नहीं होती है यह वचन अप्र-माण नहीं है । फिर भी यहां पर दोनों ही उपदेशोंका प्ररूपण करना चाहिये; क्योंकि दोनोंमेंसे अमुक उपदेश सूत्रानुसारी है इसप्रकारके ज्ञान करनेका कोई साधन नहीं पाया जाता है ।

शंका—उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विमंयोजना क्यों नहीं होती है ?

उपशमसम्यक्कालं पेक्खिय अणंताणुबंधिचउक्कविमंजोयणाकालस्स बहुत्तादो अणं-
ताणुबंधिविसंजोयणपरिणामाणं तत्थाभावादो वा । एत्थ पुण विसंजोयणापक्खो चेव
पहाणभावेणावलंबियच्चो पवाइजमाणत्तादो चउवीममंतकम्मियस्स सादिरेयबेद्धावट्ठि-
सागरोवममेत्तकालपरूवयसुत्ताणुसारित्तादो च । तदो अप्पदरसंभवो वि मव्वत्थाणुम-

ममाधान—उपशम सम्यक्त्वके कालकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका
काल अधिक है, अथवा वहां अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं
पाये जाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना
नहीं होती है ।

फिर भी यहां उपशमसम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है यह पक्ष ही
प्रधानरूपसे स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि, इस प्रकारका उपदेश परंपरासे चला आ रहा
है । तथा इस प्रकारका उपदेश 'चौबीस सत्त्वस्थानवाले जीवका काल साधिक एकसौ बत्तीभ
सागरप्रमाण है' इस प्रकार प्ररूपण करनेवाले सूत्रके अनुसार है । इस लिये सर्वत्र उपशम-
सम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानकी सम्भावना भी समझ लेना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहां उपशमसम्यक्त्वमें अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है । इसपर
शंकाकारका कहना है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना
करके २८ विभक्तिस्थानसे २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त होता है अतः उसके अल्पतरविभ-
क्तिका कथन करना चाहिये । इस शंकाका समाधान करते हुए बीरसेन स्वामीने बतलाया
है कि 'उच्चारणाचार्यने उपशमसम्यग्दृष्टिके एक अवस्थित पदका ही कथन किया है और
यहां भुजगारविभक्तिका कथन उन्हींके कथनानुसार किया जा रहा है । अतः उपशमसम्यक्त्वमें
अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है । यद्यपि उच्चारणाचार्यका यह उपदेश उपशमसम्य-
क्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाले उपदेशके प्रतिकूल पड़ता है,
किन्तु मूल सूत्रग्रन्थोंमें अनुकूल या प्रतिकूल कोई उल्लेख न होनेसे ये दोनों उपदेश पर-
स्पर बाधित नहीं होते, अतः दोनों उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये ।' उपशमसम्यक्त्वमें
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती इसकी पूर्तिमें बीरसेन स्वामीने दृमरी यह युक्ति
दी है कि उपशमसम्यक्त्वके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजनाकाल संख्यातगुणा
है । अतः उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना सम्भव नहीं
है । किन्तु बीरसेनस्वामी 'उपशमसम्यक्त्वके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजना
काल संख्यातगुणा है' यह किस आधारसे लिख रहे हैं इसका हमें अभी स्रोत नहीं
मिल सका । मालूम होता है यह मत भी उन्हीं उच्चारणाचार्यका होगा जिनके मतसे
यहां उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका निषेध किया है । हां, यह
उल्लेख अवश्य पाया जाता है कि 'अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विसंयोजनाकालसे उपशम-

गियव्वो त्ति । सासण० अवट्ठि० जह०, एयसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे० भागो । अभविय० अवट्ठि० सव्वद्दा ।

एवं कालाणुगमो समत्तो ।

§ ४६४. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण भुज्ज० अप्पदर० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० चउवीस-अहोरत्ता सादि० । अवट्ठि० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख०-पंचि० तिरि० पज्ज०-पंचि०तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-पंचिदिय-पंचि० पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्विय०-तिण्णि-वेद०-चत्तारिकसा०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्स०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि सम्यक्त्वका काल संख्यातगुणा है । जिसका प्रतिपादन स्वयं वीरसेन स्वामी २४ विभक्ति-स्थानके उत्कृष्टकालका कथन करते समय कर आये हैं । इससे तो यही सिद्ध होता है कि उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है । स्वयं वीरसेन स्वामी इसे प्रबाह्यमान उपदेश बतला रहे हैं । तथा यतिवृषभ आचार्यने जो २४ विभक्ति-स्थानका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतलाया है वह उपशमसम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना माने बिना बन नहीं सकता । अतः सिद्ध होता है कि प्रकृत कपायप्राभृतमें उपशमसम्यक्त्वकं रहते हुए अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है यह उपदेश मुख्य है । और अन्तमें स्वयं वीरसेन स्वामी इसी उपदेश पर जोर देते हैं ।

सामादनसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अभव्योंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव ही सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वकाल है ।

इमप्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवालोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । इसी प्रकार समी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच योनिमती, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाय-योगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कपायवाले, अमंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, उहो

त्ति वत्तव्वं ।

§ ४६५. पांचिदियतिरिक्खअपज्ज० अप्पदर० जह० एगसमओ उक्क० चउवीस अहो-
रत्ता सादि० । अवट्ठि० णत्थि अंतरं । एवमणुहिसादि जाव अवाइद ति-सव्वएइंदिय-
सव्वविगालिंदिय-पांचि० अपज्ज०- पंचकाय०- तसअपज्ज०- ओरालियमिम्म०- कम्मइय०-
मदि-अण्णाण-सुदअण्णाण-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संजद- सामाइय-
छेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-ओहिदंम०-सम्मादि०-वेदय०-मिच्छादि०-३.सण्णि०-अणा
हारि ति वत्तव्वं । मणुस-अपज्ज० अप्पदर० अवट्ठि० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो०
असंखे० भागो । सव्वट्ठे अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो ।

§ १६६. अणुहिसादि अवराइयदंताणं अप्पदरस्स अंतरं एत्थ उच्चारणाए चउवीस
अहोरत्तमेत्तमिदि भणिदं । वप्पदेवाइरियलिह्दि-उच्चारणाए वासपुघत्तमिदि परूविदं ।
एदासिं दोणहमुच्चारणाणमत्थो जाणिय वत्तव्वो । अम्हाणं पुण वासपुघत्तंतरं सोह-
लेइयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ४६५. पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है । तथा अव-
स्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । अर्थात् अवस्थित विभक्तिस्थानवाले
पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तक जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर
अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त,
पांचों स्थावरकाय, त्रय लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी,
श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा-
यिकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि
वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कहना चाहिये ।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।
सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट
अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४६६. अनुदिशसे लेकर अपराजितकल्प तकके देवोंके अल्पतर विभक्तिस्थानका
अन्तरकाल यहाँ उच्चारणमें चौबीस दिनरात कहा है, पर वप्पदेवके द्वारा लिखी गई उच्चा-
रणमें वर्षपृथक्त्व कहा है । अतएव इन दोनों उच्चारणाओंका अर्थ समझकर अन्तर
कालका कथन करना चाहिये । पर हमारे (वीरसेन स्वामीके) अभिप्रायसे वर्ष पृथक्त्व
अन्तरकाल ही ठीक प्रतीत होता है । क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका उत्कृष्ट

णमिदि अहिप्पाओ । कुदो ? अणंताणुबंधिविसंजोयणाए उक्कस्सेण वासपुघत्तरे संते विसंजोयत्ताणमभावादो । तत्थ चउवीस-अहोरत्ताणि अंतरं होदि जत्थ सम्मत्त-मम्मामिच्छत्ताणमुवेल्लणादो अप्पदरमिच्छिज्जदि । एत्थ पुण तं णत्थि । तम्हा वास-पुघत्तंरमणुदिसादिसु णिरवज्जमिदि ।

§ ४६७. वेउव्वियमिस्स० अप्पदर० एगसमओ, उक्क० चउवीस अहोरत्ताणि सादि० । अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० बारस मुहुत्ता । आहार० आहारमिस्स० अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुघत्तं । एवमकसाय० जहाक्खाद० णेदव्वं । अवगद० अप्पदर० अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । सुहुममांपराइय० अवट्ठि० जह० एगसमओ उक्क० छम्मासा । अभव्व० अवट्ठि० णत्थि अंतरं । खइय० अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा । अवट्ठि० णत्थि अंतरं । उवसम०-सासण०-अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व रहते हुए बीचमें विसंयोजना नहीं बन सकती है । अल्पतर विभक्तिस्थानका चौबीस दिनरात अन्तरकाल तो वहां होता है जहां सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलनासे अल्पतर विभक्तिस्थान स्वीकार किया जाता है । पर अनुदिशमे लेकर अपराजित तकके देवोंमें इस प्रकारका अल्पतर विभक्तिस्थान ही नहीं पाया जाता है । इससे प्रतीत होता है कि अनुदिशादिकमें अल्पतर विभक्तिस्थानका वर्ष-पृथक्त्वप्रमाण अन्तरकालका कथन निर्दोष है ।

§ ४६७. वैक्रियकमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल भाधिक चौबीस दिनरात है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । इसीप्रकार अकषायी और यथाक्यातसंयत जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कहना चाहिये ।

अपगतवेदियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । अभव्योंमें सर्वदा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले ही जीव पाये जाते हैं इसलिये उनमें अन्तरकाल नहीं पाया जाता है ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्-

सम्मामि० अबट्टि० जह० एगममओ। उक० चउवीसअहोरचाणि सादि० उवसमसम्मा-
दिट्ठीणमंतरं। सेमदोणं वि पालिदो० असंखे० भागो। उवमम० अप्पदर० अबट्टिद० मंगो।

एवमंतराणुगमो समत्तो ।

§ ४६८. भावाणुगमेण सव्वन्थ ओदइओ भावो ।

एवं भावाणुगमो समत्तो ।

§ ४६९. अप्पाचहुगाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओवेण आदेसेण य । तत्थ ओवेण
सव्वन्थोवा अप्पदरविहत्तिया, भुजगारविहत्तिया विसेसाहिया, अबट्टिदविहत्तिया अणंत-
गुणा । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालिय०-णवुंम०-चत्तारिकमा०-असंजद०-अचक्खु०
क्किण्ह-णील-काउ०-भवसिद्धि०-आहारि त्ति ।

§ ४७०. आदेसेण णेरइएसु सव्वन्थोवा अप्पदर०, भुज० विसेसाहिया, अबट्टि०
असंखेअगुणा । एवं सव्वणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिम-
गेवज्ज०-पंचिंदिय-पंचि०पज्ज०-तस-तमपज्ज०-पंचमण०-पंचवच्चि०-वेउन्विय०-इत्थि-
दट्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तर-
काल एक समय है । और उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात
है तथा सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंमें उत्कृष्ट अन्तर पन्त्यके असंख्यातवें
भाग है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानका अन्तर अवस्थितके समान है ।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४६८. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदायिक भाव होता है ।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

§ ४६९. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओषनिर्देश और
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओषकी अपेक्षा अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं ।
इनसे भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान
वाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यच, काययोगी, औदारिक काययोगी
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण, नील और कापोत
लेदयावाले, भव्य तथा आहारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्प-
बहुत्व कहना चाहिये ।

§ ४७०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े
हैं । इनसे भुजगारविभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित विभक्ति-
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतिर्यच, सामान्य पंचे-
न्द्रिय पर्याप्त तिर्यच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम
प्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, ब्रह्म, ब्रह्मपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों

पुरिस०-चक्खु०-तेउ०-पम्म०-सुक्क०-सण्णि ति । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुस-
अपज्ज०-अणुहिसादि जाव अवराइद ति-सव्वविगल्लिदिय-पंचिदियअपज्ज०-चचा-
रिकाय-तसअपज्ज०-वेउन्वियमिस्स०-विहंग०-आमिणि०-सुद०-ओहि०-संजदा-संजद-
ओहिदंस०-मम्माइटी-वेदय०-त्तइयसम्मादिदि ति एदेसु सव्वेसु वि सव्व-
त्थोवा अप्पदरविहत्तिया, अवट्ठिद० असंखे०गुणा । सव्वट्ठे सव्वत्थोवा अप्पदर-
विहत्तिया, अवट्ठिदविहत्तिया संखेज्जगुणा । एवमवेद०-मणपज्जव०-संजद०-सामाइय-
छेदो०-परिहार० वत्तव्वं ।

§४७१. मणुस्सेसु सव्वत्थोवा भुज०, अप्पदर० असंखेज्जगुणा, अवट्ठि० असंखेज्ज-
गुणा । मणुमपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा भुज०, अप्पदर० संखेज्जगुणा, अवट्ठि०
संखेज्जगुणा ।

§४७२. एइंदिएसु सव्वत्थोवा अप्पदर०, अवट्ठि० अणंतगुणा । एवं सव्ववणप्फदि
वचनयोगी, वैक्रियिक कागयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, पीतलेइयावाले, पद्म-
लेइयावाले, शुक्ललेइयावाले और मंझी जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका
अल्पवहुत्व जानना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय नियंच लब्धपर्याप्तक, मनुष्य लब्धपर्याप्तक, अनुदिशसे लेकर अपराजित
तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक, पृथिवी आदि चार स्थावरकाय,
त्रसलब्धपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-
ज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, मय्यगृष्टि, वेदकसम्यगृष्टि और क्षायिकसम्यगृष्टि
जीवोंमें सबसे थोड़े अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान-
वाल जीव असंख्यातगुणे हैं ।

सर्वार्थसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थित
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इमीप्रकार अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत,
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें अल्पतर आदि
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पवहुत्व कहना चाहिये ।

§ ४७१. मनुष्योंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असं-
ख्यातगुणे हैं । मनुष्य पर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्योंमें भुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव
सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ४७२. एकेन्द्रियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अव-
स्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसीप्रकार सभी वनस्पतिकायिक, सभी

सव्वणिगोद०-ओगालियमिस्स०-कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण०-मिच्छा०-अमण्णि०-
अणाहारि त्ति वत्तव्वं। आहार०-आहारमिस्स०-अकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्व०-
उवमम०-मामण०-सम्मामि० गान्धि अप्पाबहुअं एगपदत्तादो। अथवा उवमम०
सव्वत्थो० अप्पद०, अवट्ठि० अयंत्वे०गुणा ।

एवं पयडिभुजगारविहत्ती समत्ता ।

निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि,
असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्व
कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकमंयत, यथा-
रूपातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें
अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, इनमें एक अवस्थितस्थान ही पाया जाता है । अथवा, उप-
शमसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरविभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभ-
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं ।

इसप्रकार प्रकृतिभुजगारविभक्ति समाप्त हुई ।



* पदणिक्खेवे वड्डीए च अणुमग्गिदाए सम्मत्ता पयडिविहत्ती ।

§ ४७३. पदणिक्खेवो णाम अहियारो अवरो वड्डी णाम । एदेसु दोसु अहियारेसु एत्थ परूविदेसु पयडिविहत्ती ममप्पदि त्ति जइवसहाइरिएण भण्णिदं ।

§ ४७४. संपहि जइवसहाइरिय-सूइदाणं दोण्हमत्थाहियाराणमुच्चारणाइरियपरूविद-
मुच्चारणं वत्तइस्सामो-

§ ४७५. पदणिक्खेवे तिण्णिण अणियोगद्वाराणि समुक्कित्तणा, मामित्तमप्पाबहुअं चेदि । को पदणिक्खेवो णाम ? जहण्णुक्कम्मपदविमयणिञ्छए खिवदि पादेदि त्ति पदणिक्खेवो । तत्थ समुक्कित्तणाणुगमो दुविहो उक्कस्सओ जहण्णओ चेदि । तत्थ उक्कम्मए पयदं ।

* यहां पर पदनिक्षेप और वृद्धि इन दो अनुयोगद्वारोंका विचार कर लेनेपर प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त होता है ।

४७३. एक अधिकारका नाम पदनिक्षेप है और दृमरेका नाम वृद्धि । इन दोनों अधिकारोंका यहां कथन कर देनेपर प्रकृतिविभक्तिका कथन समाप्त होता है, यह यतिवृष-भाचार्यका अभिप्राय है ।

§ ४७४. अब यतिवृषभाचार्यके द्वारा सूचित किये गये दोनों अर्थाधिकारोंकी उच्चारणाचार्यके द्वारा कही गई उच्चारणावृत्तिको बतलाते हैं-

§ ४७५. पदनिक्षेपमें तीन अनुयोगद्वार हैं-समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अरूपबहुत्व । शंका-पदनिक्षेप किसे कहते हैं ?

समाधान-जो जघन्य और उत्कृष्ट पदविषयक निश्चयमें ले जाता है उसे पदनिक्षेप कहते हैं ।

पदनिक्षेपके उन तीनों अनुयोगद्वारोंमेंसे समुत्कीर्तनानुयोगद्वार उत्कृष्ट और जघन्यके भेदसे दो प्रकारका है । उन दोनोंमेंसे उत्कृष्ट समुत्कीर्तना प्रकृत है अर्थात् पहले उत्कृष्ट समुत्कीर्तनाका कथन करते हैं -

विशेषार्थ-पहले २८, २९ आदि विभक्तिस्थान बतला आये हैं । उनमेंसे अमुक स्थान से अमुक स्थानकी प्राप्ति होते समय वह हानिरूप है या वृद्धिरूप इत्यादि बातोंका इसमें विचार किया गया है । यथा-एक जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाला है उसने सम्यक्त्वकी उद्वेलना करके सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि हुई । तथा एक जीव इक्कीस विभक्तिस्थानवाला है उसने क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कषायोंका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट हानि है । इसी प्रकार सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जिस जीवने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि है तथा चौबीस विभक्तिस्थानवाले एक जीवने सिध्यात्वमें जाकर अट्टाईस

§ ४७६. उक्त्सपदसमुक्त्तणाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अत्थि उक्त्सवद्दी-हाणि-अवट्टाणाणि । एवं सत्तपुट्टवि०-तिरिक्त्त०-पंचिदियतिरिक्त्तवतिय-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज०-पंचिदिय-पंचि-पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउच्चि०-तिण्णिवेद-चत्तारि क०-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-छलेस्सा-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि सि । पंचि० तिरि०अपज्ज० अत्थि उक्त्सहाणि-अवट्टाणाणि । एवं मणुसअपज्ज०-अणुहिसादि विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह उत्कृष्ट वृद्धि है । यहां इतनी विशेषता है कि हानि सब स्थानोंसे होती है पर वृद्धि २७, २६ और २४ इन तीन विभक्तिस्थानोंसे ही होती है । इस प्रकार इन सब बातोंका विचार इस पदनिक्षेप अनुयोगद्वारमें किया गया है ।

§ ४७६. उत्कृष्ट पद समुक्त्तीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच आदि तीन प्रकारके तिर्यंच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पांचों मनयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक-काययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्णादि छहों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—ओघकी अपेक्षा २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उत्कृष्टहानि और २४ विभक्तिस्थानसे २८ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उत्कृष्टवृद्धि होती है । तथा उत्कृष्ट हानिके पश्चात् होनेवाले अवस्थानको हानिसम्बन्धी और उत्कृष्ट वृद्धिके पश्चात् होनेवाले अवस्थानको वृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कहते हैं । ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उन सबमें उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान संभव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा । पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि उक्त सभी मार्गणाओंमें २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति होती है । किन्तु यहां ओघके समान कहनेका यह अभिप्राय है कि उक्त मार्गणाओंमें हानि, वृद्धि और अवस्थान तीनों संभव हैं अतः उनका कथन ओघके समान कहा गया है । किस मार्गणामें अधिकसे अधिक कितनी प्रकृतियोंकी हानि, वृद्धि और तदनन्तर अवस्थान होता है इसका आगे स्वामित्व अनुयोगद्वारमें खुलासा किया ही है । अतः इस विषयको बहांसे जान लेना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, सर्व पंचेन्द्रिय,

जाव सव्वह०-सव्वएइंदिय-सव्वविगालींदिय-पंचि० अपज्ज०-पंचकाय-तसअपज्ज०-ओरा-
लियमिस्स०-वेउव्वियमिस्स०-कम्मइय०-अवगदवेद-मदि-सुदअण्णाण-विहंग०-
आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइयच्छेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-
ओहिदंस०-सम्मादि०-खइय०-वेदय०-मिच्छादि०-सण्णि०-अणाहारि ति । आहार०-आहार-
मिस्स०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्व०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० अत्थि
उकस्समवट्ठाणं ।

एवमुक्त्स्सवद्धी-हाणि-अवट्ठाण-समुक्तिर्या समत्ता ।

§ ४७७. जहण्णए पयदं । द्रुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
सर्वं विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्धपर्याप्त, औदारिक-
मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्त्वज्ञानी, श्रुता-
ज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक-
संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि,
क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिध्यादृष्टि, मंझी और अनाहारक जीवोंके कहना
चाहिये ।

विशेषार्थ—आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि नहीं होती । किन्तु उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट
अवस्थानका विचार करते समय जिस जिस मार्गणामें अधिकसे अधिक जितनी प्रकृति-
योंकी हानि और तदनन्तर अवस्थान होता है वही यहां उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अव-
स्थान लिया गया है । उदाहरणके लिये लब्धपर्याप्त निर्गोचोंमें अधिकसे अधिक एक प्रकृ-
तिकी ही हानि होती है तथा मतिज्ञानियोंके अधिकसे अधिक आठ प्रकृतियोंकी हानि
होती है । अतः ये अपनी अपनी अपेक्षासे उत्कृष्ट हानियां जानना चाहिये । इसीप्रकार ऊपर
जितनी और मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी समझ लेना ।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-
क्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि, जीवोंमें
उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

विशेषार्थ—ये आहारककाययोगी आदि मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें स्थानकी हानि वृद्धि
तो नहीं होती, परन्तु इनमें अभव्यमार्गणाको छोड़ कर शेष सब मार्गणाओंमें उत्कृष्ट और
जघन्य अवस्थान सम्भव है । उनमेंसे यहां उत्कृष्ट अवस्थानका ग्रहण किया है । यद्यपि
उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हैं, अतः वहां उत्कृष्ट
हानि सम्भव है पर यह कुछ आचार्योंका मत है इसलिये इसकी यहां विवक्षा नहीं की ।

इस प्रकार वृद्धि हानि और अवस्थानरूप समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ४७७. अब जघन्य वृद्धि आदिकी समुत्कीर्तनाका प्रकरण है । इसकी अपेक्षा निर्देश

अत्थि जहण्णवडिह-हाणि-अवट्टाणाणि । एवं गिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतियं मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-पंचिदिय-पंचि० पज्ज०-तम-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-वेउव्विय०-तिण्णवेद०-चत्तारिकसाय-असंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-द्धलेस्सा०-भवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि ति । पंचिदियति-रिक्ख-अपज्ज० अत्थि जहण्णहाणि-अवट्टाणाणि । एवं मणुसअपज्ज०-अणुहिसादि जाव सव्वट्ट०-सव्वएहंदि-सव्वविगल्लिदिय-पंचि० अपज्ज०-पंचकाय-तसअपज्ज०-ओरालिय-मिस्स० वेउव्वियमिस्स०-कम्मइय०-अवगदवेद०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग०-आभिणि० सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइयच्छेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-ओहिदंम० सम्मादि०-खइय०-वेदय०-मिच्छा०-असण्णि०-अणाहारि ति । आहार०-आहारमिस्स०-अकसाइ०-सुहुम०-जहाक्खाद०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० अत्थि जहण्णमवट्टाणं ।

दो प्रकारका हैं—ओघनिर्देश और आवेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार नारकी, तिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच आदि तीन प्रकारके तिर्यच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारो कपायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेश्या-वाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तकोमें जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार लब्धपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रसलब्धपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाय-योगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक-सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-ख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जघन्य अवस्थान होता है ।

विशेषार्थ—जघन्य वृद्धि आदिकी समुत्कीर्तनामें जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका प्रहण किया है, जो स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जाना जा सकता है । अभव्योंके एक २६ विभक्तिरूप ही स्थान होता है अतः उसका जघन्य अवस्थानमें निर्देश नहीं किया है ।

एवं समुक्तिपणा ममत्ता ।

§ ४७८. सामित्तं दुविहं जहणुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण उक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? अण्णदरो जो चउवीससंत-कम्मिओ मिच्छत्तं गदो तस्स उक्कस्सिया वड्ढी । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरस्स जो एक्कवीससंतकम्मिओ अट्ठकसाए खवेदि तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्समवट्ठाणं । एवं मणुसातिय-पंचिदिय-पचि०पज्ज०-तम-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओगालि०-तिण्णिवेद०-चत्तारि क०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक्क०-भवसिद्धि०-सण्णि-आहारि ति ।

§ ४७९. आदेसेण णेरइएसु उक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? अण्णदरस्स अणंताणुबंधि-चउक्कं विसंजोइय संजुत्तस्स । हाणी कस्स ? अण्णदरस्स अट्ठावीस-संतकम्मियस्स अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोएंतस्स उक्कस्सिया हाणी । एगदरत्थ अवट्ठाणं । एवं सव्व-णिरय-तिरिक्ख-पंचि०तिरि०-पंचितिरि० पज्ज०-पंचितिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव

इसप्रकार समुत्कीर्तना ममाप्त हुई ।

§ ४७८. जषन्य और उत्कृष्टकं भेदसे स्वामित्व दो प्रकारका है । उनमेंसे उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता-वाला जो कोई जीव मध्यात्वको प्राप्त हुआ, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? इक्कीस प्रकृतियोंकी मत्तावाला जो कोई जीव आठ कपायोंका क्षय करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और शीघ्र इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी औदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारो कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ४७९. आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके पुनः उससे संयुक्त होता है अर्थात् अनन्तानुबन्धीकी सत्ता-वाला होता है उस नारकी जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । नारकियोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस नारकीके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके अनन्तर जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसीप्रकार सभी नारकी, तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, वैश्विककाययोगी, असंयत और कृष्ण आदि पांच लेख्यावाले

उवारिमगेवज्ज०-वेउच्चिय०-असंजद०-पंचलेस्साणं वत्तच्चं । पंचि०तिरि०अपज्ज० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरस्स अट्ठावीससंतकम्मियस्स सत्तावीससंतकम्मियस्स वा सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तं वा उव्वेल्लंतस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्समवट्ठाणं । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदिय-पंचिंदिय अपज्ज०-पंचकाय-त्तसअपज्ज०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०-असण्णीणं वत्तच्चं । अणुहिमादि जाव सव्वह० उक्क०हाणी कस्स ? अण्णद० अट्ठावीससंतकम्मियस्स अण्णताणुबंधि-चउक्कविसंजोएंतस्स णिस्संतकम्मियपढमसमए उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्समवट्ठाणं । एवं परिहार०-संजदासंजद०-वेदय० सम्मादिट्ठीणं वत्तच्चं । ओरालिय-मिस्स० उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरस्स वावीससंतकम्मियस्स कदकरणि-ज्जस्स पुग्वाउअबंधवसेण तिरिक्खेसुव्वण्णसम्मादिट्ठिस्स अपज्जत्तकाले एक्कावीससंत-कम्मियपढमसमए वट्ठमाणस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्समवट्ठाणं । जीवोंके कहना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना की है उसके या जिसके पहले सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने सम्यग्मिभ्यात्वकी उद्वेलना की है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इभी उत्कृष्ट हानिवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध-पर्याप्तक जीवके उत्कृष्ट हानिके अनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसीप्रकार लब्ध-पर्याप्तक मनुष्य, सर्व एकेन्द्रिय, सर्व विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक, पांचों स्थावर काय, त्रसलब्धपर्याप्त, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये ।

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है अनन्तर जिसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसं-योजना की है उसके अनन्तानुबन्धी कर्मका अभाव होनेके पहले समयमें उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी प्रकार परिहारविशुद्धि संयत, संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये ।

औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिसके बाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है, अतएव जो कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि है और सम्यग्दर्शन होनेके पहले तिर्यंचायुका बन्ध कर लेनेके कारण तिर्यंच सम्यग्दृष्टि जीवोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसे किसी औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके अपर्याप्त कालमें बाईस प्रकृतियोंसे इक्कीस प्रकृतियोंकी सत्ताके प्राप्त होने पर पहले समयमें उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और कामर्णकाययोगी

वेउम्बियमिस्स०-कम्मइय० एवं चेव वत्तव्वं । णवरि देव-णेरइय-अपञ्जत्तएसु वेउम्बिय-मिस्सकायजोगीसु विग्गहगदीए च वट्टमाणवाषीसविहत्तियसम्माइटीसु वत्तव्वं । अणाहारीणं कम्मइयभंगो । आहार०-आहारमिस्स०-अकसा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव्व०-उवसम०-सासण०-सम्माभिच्छादिटीणं वद्दी-हाणी-अवट्टाणाणि णत्थि । कुदो अवट्टाणस्स अभावो ? वद्दीहाणीणमभावादो । ण च समुत्तिण्णाए बियहिचारो, तत्थ वद्दीहाणीणिरवेक्खत्तियमेत्तावट्टाणमस्सिऊण तद्वा परूविदत्तादो । अवगद० उक्क० हाणी कस्म ? जो अवगदवेदो एक्कारसविहत्तिओ सत्त णोकसाए खवेदि तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्समवट्टाणं । आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपञ्ज०-संजद०-सामाहय-छेदो०-ओहिदंम०-सम्मादि०-खइयमम्माइटीणं उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरम्म अणियट्टियस्स अट्टकमाए खवेत्तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव जीवके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कहते समय देव और नारकियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें कहना चाहिये । तथा कर्मणकाययोगमें कहते समय बिभ्र-हगतमें विद्यमान बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिमें ही कहना चाहिये । अनाहारक जीवोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान कर्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये । आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-क्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, मासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थान नहीं पाये जाते हैं ।

शंका—उक्त जीवोंके प्रकृतियोंके अवस्थानका अभाव कैसे है ?

समाधान—यतः उक्त जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि नहीं पाई जाती है, अतः यहां अवस्थानका भी अभाव कहा है ।

यदि कहा जाय कि इम कथनका समुत्कीर्तनासे व्यभिचार हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि समुत्कीर्तनामें वृद्धि और हानिकी अपेक्षा न करके एक समान रूपसे तदवस्थ रहने वाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा उभयप्रकारका कथन किया है ।

अपगतवेदियोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? ग्यारह विभक्तिस्थानकी सत्तावाला जो अपगतवेदी जीव सात नोकषायोंका क्षय करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा उसी जीवके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, मामाधिकसंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? कषायोंका क्षय करनेवाले किसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीवके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा उसीके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

से काले उक्कस्ममवट्टाणं ।

एवमुक्कस्मयं मामित्तं ममत्तं ।

§४८०. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण जहण्णिया वइढी कम्म ? अण्णदरो जो सत्तावीससंतकम्मिओ तेण मम्मत्ते गहिदे तस्स जहण्णिया वइढी । जहण्णिया हाणी कम्म ? अण्णदरो जो अट्टावीसंतकम्मिओ तेण मम्मत्ते उव्वेल्लिदे तस्स जह० हाणी । एगदरन्थ अवट्टाणं । एवं मत्तपुट्ठवि-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख पंचि०तिरि०पज्ज०-पंचि० तिरि०जोणिणी-मणुमतिय-देव-भवणादि जाव उव्वारमगेवज्ज०-पंचिदिय-पचि०पज्ज०-तम-तमपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-काय-जोगि०-ओगलि०-वेउव्विय०-तिण्णिवेद०-चत्तारिक०-अमंजद०-चक्खु०-अचक्खु०-छलेम्मा०-भवसिद्धि०-मण्णि० आहारीणं वत्तव्वं । पंचि०तिरि० अपज्जत्तएसु जहण्णिया हाणी कम्म ? अण्णदरो जो अट्टावीससंतकम्मिओ तेण मम्मत्ते उव्वेल्लिदे तस्स जह० हाणी । तस्सेव से काले जहण्णमवट्टाणं । एवं मणुम-अपज्ज०-मन्वएइदिय-सव्वविगलिं-दिय-पंचिदिय-अपज्ज०-पंचकाय०-तमअपज्ज०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग०-मिच्छादि०

इसप्रकार उत्कृष्ट स्वामित्वानुयोगद्वार ममाप्त हुआ ।

§४८०. अब जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है । उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि किमके होनी है ? मत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तब उसके जघन्य वृद्धि होती है । जघन्य हानि किसके होती है ? अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव जब सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना कर देता है तब उसके जघन्य हानि होती है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंके नारकी, तिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियतिर्यच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिमती, सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवामियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रम पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, अमंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, लहो लेइयावाले, भव्य, संझी और आहारक जीवोंके जघन्य हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्तक जीवोंमें जघन्य हानि किसके होती है ? जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्त जीव जब सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना करता है, तब उसके जघन्य हानि होती है । तथा उसी जीवके तदनन्तर कालमें जघन्य अवस्थान होता है । इसी प्रकार मनुष्य लब्धपर्याप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रस लब्धपर्याप्त, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग-

अमणीणं वत्तव्वं ।

५४८१. अणुहिमादि जाव मन्वद्वत्ति जहाणिया हाणी कम्म ? जो वावीमसंत-
कम्मओ तेण मम्मत्ते खविदे तम्म जह० हाणी । तम्सेव से काले जहणमवट्टाणं ।
एवमवगद० आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज० मंजद०-मामाइय छेदो०-परिहार०-
मंजदामंजद० ओहिदंम० मम्मादि०-वइय०-वेदय० दिट्ठीणं वत्तव्वं । ओरालियमिम्म०
जहाणिया हाणी कम्म ? जो अहावीमसंतकम्मओ अण्णदरो तेण मम्मत्ते उव्वेलिदे
जहाणिया हाणी । तम्सेव से काले जहणमवट्टाणं । एवं वेउक्खियामिम्म०-कम्मइय०-
अणाहारीणं वत्तव्वं । आहार०-आहारमिम्म०-अकमा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभवि०-
उवमम०-मामण०-सम्मामि० जहणवइटी-हाणि-अवट्टाणाणि णत्थि ।

एवं मामित्तं ममत्तं ।

§ ४८२. अप्पाबहृअं दुविहं जहणमुक्कम्मं च । उक्कम्मए पयदं । दुविहो णिहेसो
ओघेण आदमेण य । तन्थ ओघेण गव्वन्थोवा उक्कम्मिया वइटी ४। उक्कम्मिया हाणी
ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और अमंज्ञी जीवोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये ।

§ ४८१. अनुदिशसे लेहर सर्वार्थ सिद्धि तकके देवोंमें जघन्य हानि किमके होती है ?
बाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव जब सम्यक्प्रकृतिका क्षय करता है तब उसके जघन्य
हानि होती है । तथा उभी देवके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है । इसी
प्रकार अपगतवेदी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, मामाधिकसंयत,
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, श्रायिक-
सम्यग्दृष्टि और तेरकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये ।

औदारिक मिश्रकाययोगियोंमें जघन्य हानि किमके होती है ? अट्ठाईस प्रकृतियोंकी
सत्तावाला जो कोई एक औदारिकमिश्रकाययोगी जीव जब सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना करता
है तब उसके जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें उसीके जघन्य अवस्थान होता
है । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना
चाहिये ।

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकबायी, मूक्षमसांपरायिकसंयत, यथा-
ख्यातसंयत, अभव्य, उपक्षमसम्यग्दृष्टि, सामादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि
जीवोंके जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान ये तीनों ही नहीं पाये जाते हैं ।

इसप्रकार स्वाभित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ४८०. अल्पबहुत्वं दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे पहले उत्कृष्ट
अल्पबहुत्वका प्रकरण प्राप्त है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश ।

अवद्वाणं च दोवि सरिसाणि संखेज्जगुणाणि ८। एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचि०पञ्ज०-
तस-तसपञ्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारि क०-
चक्खु०-अचक्खु०-सुक०-भवसि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं ।

१४८३. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु उक्क० वड्ढी-हाणी-अवद्वाणाणि तिण्णि
वि तुल्लाणि ४। एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पञ्ज०-पंचि०
तिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव उवरिर्मगेवज्ज०-वेउव्विय०-असंजद-पंचले०वत्तव्वं ।
पंचि०तिरिक्खअपञ्ज० उक्कम्मिया हाणी अवद्वाणं च दोवि सरिसाणि । १ । १ ।
एवं मणुसअपञ्ज०-अणुदिसादि जाव मव्वट्ट०-सव्वएइदिय-सव्वविगळिंदिय-पंचिदिय-
अपञ्ज०-पंचकाय०-तसअपञ्ज०-ओरालियमिस्म०-वेउव्वियमिस्स०-कम्मइय०-अव-
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, जिसका प्रमाण चार है। उत्कृष्ट हानि
और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों समान होते हुए भी उत्कृष्ट वृद्धिकी अपेक्षा संख्यातगुणे
हैं। जिनमें प्रत्येकका प्रमाण आठ है। इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन
तीन प्रकारके मनुष्योंके तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी,
पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायवाले,
चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेउयावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—यह ऊपर ही बता आये हैं कि उत्कृष्ट वृद्धि चार प्रकृतियोंकी और
उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट हानि संबन्धी अवस्थान आठ प्रकृतियोंका होता है, इसीलिये
यहां पर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी और उत्कृष्ट हानि तथा उत्कृष्ट अव-
स्थान उत्कृष्ट वृद्धिसं संख्यातगुणा बताया है। यहां संख्यातका प्रमाण दो है, क्योंकि
चारको दोसे गुणा करनेपर आठ होते हैं।

§ ४८३. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि
और उत्कृष्ट अवस्थान ये तीनों ही समान हैं, जिनका प्रमाण चार है। इसीप्रकार सभी
नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच
योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देव, वैक्रियिक-
काययोगी, असंयत और कृष्णादि पांचों लेइयावाले जीवोंके कहना चाहिये।

विशेषार्थ—ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें अधिकसे अधिक चार प्रकृतियोंकी
वृद्धि, चार प्रकृतियोंकी हानि और अवस्थान होता है, इसलिये यहां तीनोंको समान बताते
हुए उनका प्रमाण चार कहा है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तक जीवोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान
हैं, जिनमें प्रत्येकका प्रमाण एक है। इसीप्रकार लब्धपर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर
सर्वार्थमिदितकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्धपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, पांचों

गद०-मदि-सुद-अण्णाणि-विहंग०-आभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइय-
 छेदो०- परिहार०- संजदासंजद०- ओहिदंस०- सम्मादि०- खइय०- वेदय०- मिच्छादि०
 असण्णि० अणाहारि त्ति वत्तव्वं । आहार०-आहारमिम्म० णन्थि अप्पाबहुअं एग-
 पदत्तादो । एवमकमा०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव०-उवमम०-मासण०-सम्मामि० ।
 एवमुक्कम्मप्पाबहुअं समत्तं ।

§ ४८४. जहण्णए पयदं । दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण

स्वावरकाय, त्रसलब्धपर्याप्तक, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकामिश्रकाययोगी, कर्मण-
 काययोगी, अपगतवेदी, मृत्युज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-
 ज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत,
 मंयनासंयत, अवधिदशनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि,
 असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ पर लब्धपर्याप्तक मनुष्योंसे लेकर अनाहारकजीवों तक ऊपर गिनाये
 गये मार्गणास्थानोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थानको जो पंचेन्द्रियतिथैच लब्धपर्याप्तकोंके
 उत्कृष्ट हानि और अवस्थानके समान बताया है, इसका यह अर्थ नहीं कि जिसप्रकार
 लब्धपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिथैचोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका प्रमाण एक है उसीप्रकार
 इन सब उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें भी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका प्रमाण एक एक है ।
 यहां पंचेन्द्रियतिथैच लब्धपर्याप्तकोंके समान कहनेका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जिस
 प्रकार पंचेन्द्रियतिथैच लब्धपर्याप्तकोंके उत्कृष्ट हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं वही
 प्रकार ऊपर कही गई मार्गणाओंमें भी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानकी समानता जान लेना
 चाहिये । किम मार्गणामें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान कितना है यह ऊपर स्वामित्वानु-
 योगद्वारमें बतला ही आये हैं ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि-
 सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो स्थान होता है आहारक-
 काययोग और आहारकमिश्रकाययोगके काल तक बही एक बना रहता है उसमें अन्य
 प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि नहीं होती । इसीप्रकार अकषायी, मूत्रमसांपरायिकसंयत,
 यथाकृयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, मासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि
 जीवोंके कहना चाहिये । अर्थात् आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके
 समान इनके भी प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है ।

इसप्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

४८४, अब जघन्य अल्पबहुत्वका प्रकरण है । उसका निर्देश दो प्रकारका होता

जहणवद्दीहाणी अवहाणाणि तिणि वि तुल्लाणि । एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खनिय-मणुमतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवञ्ज-पंचिदिय-पंचि-पञ्ज-तम-तमपञ्ज-पंचमण-पंचवचि-कायजोगि-ओरालिय-वेउव्विय-तिणि वेद-चत्तारिकसाय-असंजद-चक्खु-अचक्खु-द्वलेस्मा-भवसिद्धि-सणि-आहारीणं वचव्वं । पंचि-तिरि-अपञ्ज-जहणहाणिअवहाणाणि दो वि तुल्लाणि । एवं मणुसअपञ्ज-अणुहिसादि जाव सव्वह-सव्वएइंदिय-सव्वत्रिगलिदिय-पंचिदिय-अपञ्ज-पंचकाय-तसअपञ्ज-ओरालियमिस्म-वेउव्वियमिस्म-कम्मइय-अवगद-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग-आभिणि-सुद-ओहि-मणपञ्ज-संजद-सामाइय-छेदो-परिहार-संजदासंजद-ओहिदंसण-मम्मादि-खइय-वेदय-मिच्छादि-अमणि-हे-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि, जघन्यहानि और अवस्थान ये तीनों समान हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेन्द्रियथोनिमनी तिर्यंच, सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम, त्रमपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छहों लेश्यावाले, मध्य, मंज्जी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि एक प्रकृतिकी होती है अतः यहां ओघकी अपेक्षा जघन्य वृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानको समान कहा है । ऊपर और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें जघन्य हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं । इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देव, सभी एकन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रमलब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतामंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्जी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—इन मार्गणास्थानोंमें वृद्धि तो होती ही नहीं, हां हानि और अवस्थान होता है । मो सर्वत्र जघन्य हानिका प्रमाण एक है अतः यहां सबकी जघन्य हानि और अवस्थानको समान कहा है ।

अणाहारीणं वत्तव्वं । आहार०-आहारमिस्स० णत्थि अप्पावहुअं । एवमकसाय०-
सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद०-अभवसि०-उवसम०-मासण०-मम्मामि० वत्तव्वं ।

एवं जहण्णप्पावहुअं समत्तं ।

एवं पदणिकखेवो समत्तो ।

§ ४८५. वृद्धीविहतीए तत्थ इमाणि तेरम अणियोगदाराणि समुक्तियाणां जाव
अप्पावहुए ति । समुक्तियाणुगमेण दुविहो णिदेमो ओषेण आदेसेण य । तत्थ
ओषेण अत्थि संखेज्जभागवद्वीहाणीओ संखेज्जगुणहाणी अवहाणं च । एवं मणुस-
तिय-पंचिदिय ०-पांचि०पज्ज०-तम- तमपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरा-
लिय०-पुरिम०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक्क०-भवसि०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्वं ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि-
संबन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अरुपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत,
यथाह्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सामादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मध्यादृष्टि
जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओमें हानि और वृद्धि तो है ही
नहीं, केवल अवस्थान है अतः अल्पबहुत्व नहीं पाया जाना ।

इसप्रकार त्रयन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इसप्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वारा समाप्त हुआ ।

§ ४८५. वृद्धिविभक्तिका कथन करते हैं । उसके विषयमें समुत्कीर्तनासे लेकर
अल्पबहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं । उनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा
निर्देश दो प्रकारका है—ओषनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओषनिर्देशकी अपेक्षा
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार
सामान्य, पथप्र और क्षीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त,
त्रस, त्रसपर्याप्त, पाचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुष-
वेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संज्ञी
और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त होते समय जो हानि और वृद्धि और
अवस्थान होता है वह उसके संख्यातवे भाग है या संख्यात गुणा, इसका विचार वृद्धि
विभक्तिमें किया गया है । यद्यपि हानिकी अपेक्षा संख्यात भाग हानि, संख्यातगुण हानि
और इनके अवस्थान संभव हैं, क्योंकि क्षपक जीवोंके दो प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे एक
प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय या ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्ति-
स्थानके प्राप्त होते समय संख्यात गुणहानि और उसका अवस्थान होता है तथा शेष
हानियां और उनके अवस्थान संख्यात भाग हानि रूप ही होते हैं । पर वृद्धिकी अपेक्षा

§४८६. आदेसेण णेरईएसु अत्थि संखेज्जभागवड्ढी-हाणी-अवट्टाणाणि । एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिं० तिरिक्खनिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-वेउच्चिय०-इत्थि०-णवुंम०-अमंजद०-पंचलेस्मा० वत्तव्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० अत्थि संखेज्ज-मागहाणी-अवट्टाणाणि । एवं मणुस्मअपज्ज०-अणुहिसादि जाव सव्वद्व०-मव्वएइंदिय-मव्वविगल्लिंदिय-पंचिंदिय-अपज्ज०-पंचकाय०-तसअपज्ज०-ओरालियमिस्स०-वेउच्चिय-मिस्स०-कम्मइय०-मदि-सुद अण्णाण-विहंग०-परिहार०-मंजदांमंजद०-वेदय०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारीणं वत्तव्वं । आहार० आहारमिस्स० णत्थि समुत्तिका, वड्ढी-हाणीहि विणा अवट्टाणाभावादो । अथवा अत्थि वड्ढी-हाणीणिरवेक्ख संख्यातभागवृद्धि और उसका अवस्थान ही सम्भव है, क्योंकि २४, २६ और २७ प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे २८ प्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होनेपर संख्यातवे भाग प्रमाण क्रमशः ४, २ और १ प्रकृतिकी ही वृद्धि होती है । ऊपर जितनी भी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनको ओषके समान कहा है । आगे आदेशकी अपेक्षा भी जहां जो वृद्धि हानि और अवस्थान कहा हो उसे इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिये ।

§ ४८६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहानि और इनके अवस्थान होते हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच और योनिमती तिर्यंच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रबैयक तकके देव, वैक्रियक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, अमंयत और प्रारंभके पांच लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यात गुणहानिको छोड़ कर शेष सब पद होते हैं ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान ये दो स्थान होते हैं । इसीप्रकार मनुष्यलब्ध्यपर्याप्त, अनुद्दिशसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतामंयत, वेदकमध्यवृष्टि, मिध्यावृष्टि, अमंज्जी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान ही होते हैं, क्योंकि इनमें भुजगार विभक्ति नहीं पाई जाती ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके मसुत्कीर्तना नहीं है, क्योंकि वहां स्थानोंकी वृद्धि और हानि नहीं पाई जाती है और इनके न पाये जानेसे वहां इनका अवस्थान नहीं हो सकता है । अथवा उक्त दोनों योगवाले जीवोंमें वृद्धि और हानिकी

तत्तियमेत्तावट्टाणस्स विवाक्खियत्तादो । एवमकमा०-सुहुममांप०-जहाक्खाद० अभव०-
उवमम०-सामण०-सम्मामि० वत्तव्वं । अवगद० अन्थि संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुण-
हाणी-अवट्टाणाणि । एवमाभिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्ज०-संजद०-सामाहयत्तेदो०-
ओहिदंमण०-सम्मदि०-खइयसम्मादिट्ठि ति वत्तव्वं ।

एवं ममुक्कित्तणा समत्ता ।

§ ४८७ सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
संखेज्जभागवड्डी-हाणि-अवट्टाणाणि कस्स ? अण्णदरस्स सम्मादिट्ठिस्स मिच्छादिट्ठिस्स
वा । संखेज्जगुणहाणी कस्स ? अण्णदरस्स अणियट्ठिक्खवयस्सम् । एवं मणुमतिय-
पंचिदिय-पंचि० पज्ज०-तम-तमपज्ज०-पंचमण०-पंचवाचि०-कायजोगि०-ओगालिय०-
पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु०-सुक०-भवसिद्धिय०-सण्णि०-आहारीणं वत्तव्वं ।
अपेक्षाके बिना तावन्मात्र स्थानोंकी विवक्षासे समुत्कीर्तना है । इसीप्रकार अकपायी,
सृक्षमसांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि
और सम्यग्निमग्नादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि उक्त मार्गणाओंमें जहां
जो स्थान है वही रहता है वृद्धि और हानि नहीं होती, अतः यहां वृद्धि, हानि और
अवस्थानका निषेध किया है । अब यदि इन मार्गणाओंमें वृद्धि और हानिके बिना
अवस्थान स्वीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है उसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार
किया जा सकता है । तथा उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं
करता इस अपेक्षासे यहा उपशमसम्यग्दृष्टिके हानिका निषेध किया है ।

अपगतवेदी जीवोंमें संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान ये स्थान
हैं । इसी प्रकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अर्वाधज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत,
छेदोपस्थापनासंयत, अर्वाधदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना
चाहिये ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ४८७. स्वामित्वाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि संख्यातभाग हानि और अवस्थान
किमके होते हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या सिद्ध्यादृष्टि जीवके होते हैं । संख्यातगुणहानि
किसके होती है ? किसी भी अनिष्टान्तरण गुणस्थानवर्ती क्षपक जीवके होती है । इसी
प्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके और पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-
पर्याप्त, त्रस त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी,
पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी
और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

१४८८. आदेशेण षेर्गङ्गसु संखेज्जभागवद्दी-हाणी-अवट्टाणाणि कम्म ? अण्णद० मम्मदिद्विम्म मिच्छादिद्विम्म वा । एवं मन्वणिरय-तिरिक्ख०-पंचि०तिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवग्गिमेवज्ज० वेउच्चिय०-इत्थि०-णवुंम०-अमंजद०-पंचले० वत्तव्वं । पंचि०तिरि १अपज्ज० संखेज्जभागहाणि-अवट्टाणाणि कम्म ? अण्णद० । एवं मणुम अपज्ज०-अण्णदिमादि जाव मन्वट्ठ०-मन्वण्णदिय-मन्वविगळ्ळिदिय-पंचिदिय अपज्ज०-पंचकाय-तम अपज्ज०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग०-परिहार०-संजदासंजद-वेदय०-मिच्छा०-

विशेषार्थ—संख्यातगुणहानि ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय और दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय ही होती है। और ये विभक्तिस्थान श्रुपक अनिवृत्तिकरणमें ही होते हैं। अतः संख्यातगुणहानि क्षपक अनिवृत्तिगुणस्थानवाले जीवके होती है यह कहा है। तथा संख्यातभागहानि और संख्यात भागवृद्धि मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके सम्भव है, क्योंकि छवीस या सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके पहले समयमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी जाती है। अतः सम्यग्दृष्टिके संख्यात भागवृद्धि बन जाती है। इसीप्रकार चौवीस विभक्तिस्थानवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होता है उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके पहले समयमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी जाती है, अतः मिथ्यादृष्टिके भी संख्यात-भागवृद्धि बन जाती है तथा मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके संख्यातभागहानिका कथन सरल है। अतः उमका विचार कर खुलामा लेना चाहिये। इसीप्रकार जिस वृद्धि या हानि सम्बन्धी अवस्थान हो उमका भी कथन कर लेना चाहिये। ऊपर जितनी भी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनको आद्यके समान कहा है।

१४८९. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थान किमके होते हैं ? किमी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नारकीके होते हैं। इसी-प्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेन्द्रिय योनीमती तिर्यंच, सामान्यदेव, भवनवागीसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, अनयत और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यातगुणहानि नहीं पाई जाती है। तथा संख्यातभागवृद्धि संख्यातभागहानि और अवस्थानका खुलामा जिस प्रकार ऊपर किया है उम प्रकार कर लेना चाहिये।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान किसके होते हैं ? किसी भी जीवके होते हैं। इसीप्रकार लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकर्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचों स्थावर-

असण्णीणं वत्तव्वं । ओरालियमिस्स० संखेज्जभागहाणी-अवट्टाणाणि कस्स ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छादिद्विस्स वा । एवं वेउव्वियमिस्स०-कम्मइय०-अणाहारीणं । आहार०-आहारमिस्स० अवट्टाणं कस्स ? अण्णद० । एवमकमाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव०-उवमम०-सासण०-सम्मामि० वत्तव्वं । अवगद० संखेज्जभागहाणीसंखे० गुणहाणीओ अवट्टाणं च कस्स ? अण्णद० खवयस्स । आभिणि०-सुद०-ओहि० मणपज्ज० संखेज्जभा० हाणी-संखे० गुणहाणीअवट्टाणाणं ओघभंगो । एवं संजद०-मामाइय-छेदो०-ओहिदंम०-सम्मादि०-खइय० वत्तव्वं ।

एवं सामिचं समत्तं ।

काय, त्रसलब्धपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयता-संयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईससे छुब्बीस विभक्ति-स्थानोंका प्राप्त होना ही सम्भव है । अतः इनमें संख्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं ।

औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थान किसके होते हैं ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । इसीप्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्ग-णाओंमें २८ से २७, २७ से २६ और २२ से २१ विभक्तिस्थानोंका प्राप्त होना सम्भव है । अतः इनमें भी संख्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थान किसके होता है ? किसी भी जीवके होता है । इसीप्रकार अकपार्या, मूक्षमसांपरायिकसंयत, यथाख्यात-संयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सामादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें प्रकृतियोंकी हानि और वृद्धि नहीं होती अतः एक अवस्थान पद ही कहा है । यद्यपि उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्करी विसंयोजना करता है, तथा भी उपदेश पाया जाता है । अतः इसके संख्यात-भागहानि सम्भव है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की है । अपगतवेदी जीवोंमें संख्यात-भागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान किसके होते हैं ? किसी भी श्रपकके होते हैं ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवाधज्ञानी और मनः पर्ययज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थान ओषके समान जानना चाहिये । इसीप्रकार संयत, सामा-यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये ।

इसप्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

६ ४८६. कालाणुगमेण द्रुविहो णिहसो ओषेण आदेसेण य । तन्थ ओषेण संखेज्जभागवद्दी संखेज्जगुणहाणीओ केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णुक्खसेण एगममओ । संखेज्जभागहाणी० जह० एगममओ उक्क० वेममया अब्हाणं तिविहो अणादि-अपज्जवसिदो अणादिमपज्जवमिदो मादिमपज्जवसिदो चेदि । तत्थ जो सो मादिमपज्जवमिदो तस्म जह० एगममओ, उक्क० अद्दपोग्गलपरियट्टं देख्खणं । एवम-चक्खु० भवसि० । णवरि भवसि० अणादि-अपज्जवसिदं णत्थि ।

६ ४८६. कालानुगमकी अपेक्षा निदश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे आघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका कितना काल है । इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थान तीन प्रकारका है—अनादि-अनन्त, अनादि-मान्न और मादि-मान्न । उनमेंसे जो मादि-सान्त अवस्थान है उसका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और मन्थजीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मन्थ-जीवोंके अनादि-अनन्त अवस्थान नहीं होता है ।

विशेषार्थ—यहां एक जीवकी अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि आविका काल बतलाया है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिके होनेके पश्चात् दूसरे समयमें पुनः संख्यात-भागवृद्धि और संख्यातगुणहानि नहीं होती । अतः इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ा है वह पहले समयमें म्त्रावेदका और दूसरे समयमें नपुंसकवेदका भय करके कमलः १२ और ११ प्रकृतिक स्थानवाला होता है । अतः संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय बन जाता है । इसका जघन्य काल एक समय पूर्ववत् जानना । तथा जो जीव सम्यक्त्व या सम्यग्-मिध्यात्वकी चट्टेलना करके एक समय तक मिध्यात्वमें रहा और दूसरे समयमें प्रथमोप-शमसम्यग्दृष्टि हो गया उसके अवस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा जिस जीवने अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालके पहले समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त किया और अति-लघु अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्वके साथ रह कर जो जीव मिध्यात्वमें चला गया । पुनः वहां पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी चट्टेलना करके छब्बीस प्रकृतिशोधी सत्ता वाला हो गया । और जब अर्धपुद्गल परिवर्तन-प्रमाण कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रह गया, तब पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्ठाईस प्रकृ-तियोंकी सत्ता वाला हो गया उसके आदि और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्त और पल्यके असं-ख्यातवे भाग प्रमाण कालसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण काल तक छब्बीस विभक्ति-स्थानका अवस्थान देखा जाता है । अतः अवस्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल-

§ ४६०. आदेशेण षेरहएसु मंखेजभागवद्दीहाणीणं कालो जहणुक्सेण एगसमओ । अवट्टा० केवचिरं० ? जह० एगममओ-उक्क० तेत्तीसमागरोवमाणि । पढमादि आव सत्तमि सि एवं चेव । णवरि अवट्टाणस्स जहणुणेण एगसमओ, उक्क० सग-सगुक्कस्सद्दिदीओ । तिरिक्ख-पंचिदियतिरि०तिगस्स मंखेजभागवद्दीहाणीणं णारयमंगो । अवट्टाण० जह० एगममओ, उक्क० मगमगुक्कस्सद्दिदीओ । पंचि० तिरि० अपज्ज० संखेजभागहाणी० जहणुक्सेण एगममओ । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोष्ठु० । एवं मणुस्सअपज्ज०-पंचिदियअपज्ज०-तसअपज्ज० ओरालिपमिस्स०-वेउव्वियमिस्स० वत्तव्वं ।

§ ४६१. मणुस-मणुमपज्ज० संखेजभागहाणी-मंखेजभागवद्दी-संखेजगुणहाणीण-परिवर्तनप्रमाण कहा है ।

§ ४६०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका काल कितना है ? अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है ।

विशेषार्थ-नरकमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर उसीके प्राप्त होगा जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव नरकमें जाकर या तो वेदकमम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर ही रहे या जो लब्धीम प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव नरकमें जाकर निरन्तर लब्धीम प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर ही रहे । शेष कथन सुगम है ।

पहली पृथ्वीसे लकर सातवीं पृथ्वी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि प्रथमादि पृथिवियोंमें अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सामान्य तिर्यंच और पंचेन्द्रिय आवि तीन प्रकारके तिर्यंचोके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानेका जघन्य और उत्कृष्टकाल नारकियोंके समान है । तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तात्पर्य यह है कि जिस मार्गणामें निरन्तर रहनेका जितना उत्कृष्ट काल कहा है तत्प्रमाण वहां अवस्थानका उत्कृष्टकाल है शेष कथन सुगम है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, ब्रह्मलब्ध्यपर्याप्त, औदारिक-मिश्रकाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणामें जीवके रहनेका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । अतः इनमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ ४६१. सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें संख्यातभागहानि, संख्यातभाग-

मोषमंगो । अवट्टि० जह० एगममओ, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोट्टिपुध्द-
णम्महियाणि । एवं मणुस्मिणी० । णवरि० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक्क० एगसमओ ।
देवा०णारगमंगो । भवणादि जाव उररिमगेवज्ज० संखेज्जभागवहट्टिहाणी० णारग-
मंगो । अवट्टाणं के० ? जह० एगममओ, उक्क० सगमगुक्कम्हाट्टिदी । अणुहिसादि
जाव सव्वद० संखेज्जभागहाणि० जहण्णुक्क० एगसमओ, अवट्टा० जह० एगममओ,
उक्क० सगट्टिदी ।

§ ४६२. एहंदिद्य-वादर०-सुहुम०तेसि पज्जत्त-अपज्जत्त०-विगलिंदिद्यपज्जत्तापज्जत्त-
पंचकाय-बादर-बादरपज्जत्तापज्जत्त-सुहुम-सुहुमपज्जत्तापज्जत्त० संखेज्जभागहाणीए
बुद्धि और संख्यातगुणहानि इन तीनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओषके समान है । तथा
अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक तीन
पत्त्य है । इसीप्रकार खीवेदी मनुष्योंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि खीवेदी
मनुष्योंके संख्यातभाग हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

विशेषार्थ—सामान्य और पर्याप्त मनुष्योंमें संख्यात भाग हानिका उत्कृष्ट काल दो
समय नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके ही घटित करना चाहिये ।
किन्तु खीवेदके उदयवाले मनुष्योंको ही खीवेदी मनुष्य कहते हैं । अतः इनके संख्यात
भागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय नहीं प्राप्त होता क्योंकि ये जीव नपुंसकवेदका क्षय हो
जानेके पश्चात् अर्न्तमुहूर्त कालके द्वारा ही खीवेदका क्षय करते हैं । अतः इनके संख्यात
भागहानिका उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता है । तथा उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंके
अवस्थानका उत्कृष्ट काल जो पूर्वकोटि पृथक्त्वसे अधिक तीन पत्त्य रहा है वह उनके उच
पर्यायके साथ निरन्तर रहनेके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षासे कहा है । शेष कथन सुगम है ।

सामान्य देवोंमें संख्यातभागबुद्धि आदिका काल नारकियोंके समान कहना चाहिये ।
भवनवासियोंसे लेकर उपरिभूत भवेयक तकके देवोंमें संख्यातभागबुद्धि और संख्यातभाग-
हानिका काल नारकियोंके समान है । उक्त देवोंमें अवस्थानका काल कितना है ? अव-
स्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण होता है ।
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल
एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी
स्थितिप्रमाण है ।

§ ४६२. सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एके-
न्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विक्-
लत्रय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, तथा इनके बादर और बादरोंके

जह० उक्क० एगसमओ । अवट्टा० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुक्कस्सट्टिदी । पंचिदिय०-पंचि० पज्ज०-तस०-तसपज्ज० संखेज्जभागवट्टीहाणीसंखेज्जगुणहाणी० ओघमंगो । अवट्टा० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सगट्टिदी । पंचमण०-पंचवचि०-संखेज्जभागवट्टीहाणी-संखेज्जगुणहाणि० ओघमंगो । अवट्टा० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० ।

§ ४६३. कायजोगि० संखेज्जभागवट्टीहाणी-संखेज्जगुणहाणी० ओघमंगो । अवट्टा० जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोगलपरियट्टं । एवमोरालि० । णवारि० अवट्टा० जह० एगसमओ, उक्क० वावीमत्राससहस्साणि देसुणाणि । वेउक्खिय० णारगमंगो । णवारि० अवट्टा० उक्क० अंतोमु० । आहार० अवट्टा० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुचं । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तब्बं । आहारमि० पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म पांचों स्थावर काय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेदोंमें संख्यात-भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यात-भागहानी और संख्यातगुणहानीका काल ओघके समान है । इन जीवोंमें अवस्थानका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानी और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४६३. काययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यात-गुणहानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जिसका प्रमाण अमंख्यात पुद्गल परिवर्तन है । काययोगियोंके समान औदारिककाययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिक काययोगी जीवोंके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । बैक्रियिककाययोगीजीवोंके संख्यातभाग-वृद्धि आदिका काल जिसप्रकार नारकियोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारककाययोगी जीवोंके अवस्थानका काल कितना है ? इनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके अवस्थानका काल कहना चाहिये । आहारकमिभकाययोगी जीवोंके अवस्थानका

अवट्टा० जहण्णुक० अंतोमु० । एवमुवमम० मम्मामि० । कम्मइय० संखेज्जभाग-
हाणि० जहण्णुक० एगममओ । अवट्टा० जह० एगममओ, उक्क० तिण्णि समया ।

§ ४६४. इत्थि० संखेज्जभागवट्टी-हाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवट्टा०
जह० एगसमओ, उक्क० सगुक्कस्सट्ठिदी । एवं णवुंमं वत्तव्वं । पुरिस० संखेज्ज-
भागवट्टीहाणि-संखेज्जगुणहाणि० जहण्णुक० एगममओ । अवट्टा० जह० एगसमओ,
उक्क० सगुक्कस्सट्ठिदी । अवगद० संखेज्जभागहाणी-संखेज्जगुणहाणी० जहण्णुक०
एगसमओ । अवट्टा० जह० एगसमओ उक्क० अंतोमुहुत्तं । चत्तारिकसाय०
मणजोगिभंगो ।

§ ४६५. मदि-सुदअण्णाण० संखे० भागहाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अवट्टा०
ओघमंगो । एवं मिच्छादिदी० । विहंग० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० एगममओ ।
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार उपशममस्यग्दृष्ट और सम्यग्मिथ्या-
दृष्टिजीवोंके कहना चाहिये । कर्मणकाययोगी जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
तीन समय है ।

विशेषार्थ—एक जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल तक रह सकता है और वहां
एक काययोग ही होता है अतः काययोगमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल अनन्त कहा है । तथा
औदारिककाययोगका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष है । अतः औदारिककाय-
योगमें अवस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है ।

§ ४६४. स्त्रीवेदी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और
उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके कहना चाहिये । पुरुषवेदी
जीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अपगतवेदियोंमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य
और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त है ।

चारों कषायवाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार मनोयोगियोंके
कहा है उसप्रकार जानना चाहिये ।

§ ४६५. मन्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका काल ओषके समान है । इसीप्रकार मिथ्या-
दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । विभङ्गज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और

अवट्टा० जह० एगममओ, उक्क० तेत्तीस-सागरोवमाणि देखणाणि । आभिणि०-सुद०-ओहि० संखेज्जभागहाणि-मंखे० गुणहाणि० ओघमंगो । अवट्टा० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० लावट्टि सागरोवमाणि मादिरेयाणि । एवमोहिदंम०-मम्मादिट्ठी० । मणपज्ज० मंखे० भागहाणि-मंखे० गुणहाणि० जहण्णुक्क० एगममओ । अवट्टा० जह० अंतो-सुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देखणा ।

§ ४६६ मंजद० मंखे० भागहाणि मंखे० गुणहाणी० ओघमंगो । अवट्टा० मणपज्जव० मंगो । एवं सामाइयच्छेदो० । णवरि अवट्टा० जह० एगममओ । परिहार० मंखे० भागहाणि० जहण्णुक्क० एगममओ । अवट्टा० जह० अंतोसुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देखणा । एवं मंजदासंजद० । अमंजद० मदि० मंगो । णवरि मंखेज्जभाग-वट्ठी० जहण्णुक्क० एगममओ । चक्खु० तसपज्जत्तमंगो ।

§ ४६७. पंचले० मंखे० भागवट्ठी-हाणी० जहण्णुक्क० एगममओ । अवट्टा० उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीम सागर है ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुण-हानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छ्वासठ सागर है । उसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्ट जीवोंके कहना चाहिये । मन पर्ययज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

§ ४६६. संयत जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका काल मनःपर्ययज्ञानियोंके अवस्थानके कालके समान है । इसीप्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थानसंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका जघन्यकाल एक समय है । परिहारविशुद्ध संयत जीवोंके संख्या-तभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । इसीप्रकार संयतासंयत जीवोंके कहना चाहिये । असंयत जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार मत्त्यज्ञानी जीवोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभाग-वृद्धि भी होती है, जिसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । चक्षुदर्शनी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिसप्रकार त्रसपर्याप्त जीवोंके कहा है उसप्रकार जानना चाहिये ।

§ ४६७. कृष्ण आदि पाचो लेश्यावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-

जह० एगसमओ उक्क० मगसगुक्कसहिदी । सुक्क० संखे० भागवड्ढीहाणी-संखे० गुणहाणि० ओघभंगो । अवट्टा० जह० एगसमओ उक्क० तेत्तीस सागरो० सादिरेयाणि । अभव० अवट्टा० के० ? अणादिअपज्ज० । खइय० संखे० भागहाणि-संखे० गुणहाणि० ओघभंगो । अवट्टा० जह० अंतोमु० उक्क० तेत्तीस-साग० सादिरेयाणि । वेदग० संखे० भागहाणि० जहणुक्क० एगसमओ । अवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० छावट्टि सागरो० देखणाणि । सामण० अवट्टा० जह० एगसमओ, उक्क० छावलिआ० । सण्णि० पुरिसभंगो । गवरि भंखेज्जभागहाणि० उक्क० वेसमया । असण्णि० एहंदिअभंगो । आहारि० संखेज्जभागवड्ढीहाणी-संखेज्जगुणहाणि० ओघभंगो । अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो । अणाहारि० कम्मइयभंगो ।

एवं कालाणुगमो समत्तो ।

हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । शुक्ललेइयावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है । तथा इनके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागर है । अभव्य जीवोंके अवस्थानका काल कितना है ? अनादि-अनन्त है ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थानका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागर है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयामठ सागर है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अवस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली है ।

संज्ञी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काल जिम प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके कहा है उसप्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय है । अमंजो जीवोंके जिसप्रकार एकेन्द्रियोंके संख्यातभागहानि आदिका काल कहा है उसप्रकार जानना चाहिये ।

आहारकजीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अनाहारक जीवोंके कर्मणकाययोगियोंके समान काल कहना चाहिये ।

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ४६८. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेज्ज-
भागवड्ढीहाणीणमंतरं केव० ? जह० अंतोमु०, उक्क० अद्दपोग्गलपरियट्ठं देसुणं ।
अवट्ठि० जह० एगममओ, उक्क० वेत्तमया । संखेज्जगुणहाणि० अंतरं केव० ? जहणुक्क०
अंतोमु० । एवमच्चक्खु० भवसिद्धि० ।

§ ४६८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तरकाल
कितना है ? जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल-
परिवर्तन प्रमाण है । अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है ।
संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।
इसीप्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—२६ या २७ प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक जीवने उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया । पुनः उपशमसम्यक्त्वका काल पूरा हो जानेपर जो मिथ्यात्वमें चला गया उसके संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त होता है । तथा २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो जीव मिथ्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया पुनः अति लघु अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा वेदक सम्यग्दृष्टि होकर और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो जाता है उसके भी संख्यात भागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । जो २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया । पुनः मिथ्यात्वमें जाकर और सम्यग्दृष्टि होकर जिसने अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की उसके संख्यात मुणहानिका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । जिस जीवने संसारमें रहनेका काल अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण शेष रहनेपर उसके पहले समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की । तत्पश्चात् पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा जो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विसंयोजना करके लब्धीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया । पुनः अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर जिसने पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करके २८ प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर ली, उस जीवके संख्यात भागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल एक अन्तर्मुहूर्त कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालप्रमाण होता है । तथा संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर काल कहते समय अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कालके प्रारम्भमें पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करावे, अनन्तर संसारमें रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करावे । इसप्रकार

§ ४६६. आदेशेण बोरईएसु संखेज्ज० भागवद्दी-हाणी० अंतरं जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेतीस सागरोवमाणि देख्णणि । अवद्धि० ओघं । पढमादि जाव सत्तमि ति संखेज्जभागवद्दी-हाणी० अंतरं जह० अंतोमु०, उक्क० सगसगुक्कसाट्टिदी देख्णणि । अवद्धा० ओघभंगो । तिरिक्ख० संखे० भागवद्दीहाणी० जह० अंतोमु० । उक्क० अद्धपोग-संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और पत्यका अमंख्यातवाँ भागकम अधपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण प्राप्त होता है । जो संख्यातभागवृद्धि आदिका एक समय जघन्य काल है वही अवस्थितका जघन्य अन्तर जानना चाहिये । तथा संख्यात भागहानिका जो दो समय उत्कृष्टकाल है वही अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये । या सम्यक्त्व अथवा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेवाला जो जीव पहले समयमें २७ या २६ विभक्ति-स्थानवाला हुआ और दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके २८ विभक्ति-स्थानवाला हो गया उसके भी अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर दो समय पाया जाता है । तथा चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जितना काल है वह संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । जिसका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त होता है ।

§ ४६६, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तथा इनके अवस्थितका अन्तर ओघके समान है । पहली पृथिवीसे लेकर मातवी पृथिवी तक संख्यात-भागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तर ओघके समान है ।

विशेषार्थ—जिस नारकी जीवने भवके आदिमें पर्याप्त होनेके पश्चात् वेदकमस्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है । तथा भवके अन्तमें पुनः जिसने अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है । तथा मध्यके कालमें जो २४ और २८ विभक्तिस्थानवाला बना रहा है, उसके प्रारम्भ और अन्तके कालको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । तथा २७ या २६ प्रकृतियोंकी सच्चावाले जिस नारकी जीवने पर्याप्त होनेके पश्चात् प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके संख्यातभागवृद्धि की । अनन्तर २४ विभक्ति-स्थानको प्राप्त करके भवके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहनेपर जिसने पुनः मिथ्यात्वमें जाकर २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया उसके प्रारम्भ और अन्तके कालको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । शेष अन्तर कालोंका कथन जिसप्रकार ओघमें कर आये हैं उसी प्रकार यथासम्भव यहां टिप्पणी कर लेना चाहिये ।

तिर्यचोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तर

लपरियट्टं देसुणं । अवट्टा० ओघभंगो । पंचि०तिरिक्खतियस्स संखेज्जभागवट्टी-हाणी० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोट्टि-पुघत्तेणव्वहियाणि । अवट्टा० ओघभंगो । एवं मणुसतियस्स । णवरि संखेज्जगुणहाणीए ओघभंगो । पंचिदिय-तिरिक्खअपज्ज० संखे० भागहाणी० णत्थि अंतरं । अवट्टा० जहणुक्क० एगसमओ । एवं मणुमअपज्ज०-अणुहिमादि जाव सव्वट्ट०-बादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्त-सव्वविगल्लिंदिय-पंचिदियअपज्ज०-पंचकायाणं बादर-सुहुम-पज्जत्ता-पज्जत्त-ओरालियभिस्स०-वेउक्खियभिस्स०-कम्मइय० वत्तव्वं ।

ओघके समान है । पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि मती इन तीन प्रकारके तिर्यंचोके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पत्त्य है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार सामान्य, पर्याप्त और बीवेदी मनुष्योंके अन्तरकाल कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानि भी होती है जिसका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—तिर्यंच और मनुष्योंमें तथा उनके अवान्तर मेदोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तरकाल नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये पर इनमें जिसका जितना उत्कृष्ट काल कहा है उमको ध्यानमें रखकर घटित करना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तके संख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय होता है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरक्षत्रके बादर पर्याप्त और बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और कर्मण-काययोगी जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक आदि उपर्युक्त मार्गणाओंमें संख्यातभागहानिका अन्तर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि एक जीवकी अपेक्षा उक्त मार्गणाओंका काल थोड़ा है जिससे वहां दो बार संख्यात भागहानि नहीं बनती । यद्यपि नौ अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके देवोंका काल बहुत अधिक है पर वहां भी दो बार संख्यात भागहानि नहीं प्राप्त होती अतः इन मार्गणाओंमें संख्यात भागहानिका अन्तरकाल नहीं कहा । तथा इन सभी मार्गणाओंमें संख्यातभागहानिका जो एक समय काल है वही यहां अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये ।

§ ५००. देव० संखेज्जभागवद्दी-हाणी० जह० अंतोमु०, उक्क० एकतीससागरो-
वमाणि देसुणाणि । अवट्टा० ओघभंगो । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जे चि संखेज्ज-
भागवद्दीहाणी० जह० अंतोमु०, उक्क० मगमगुक्कस्सट्टिदी देसुणा । अवट्टा० ओघ-
भंगो । एइंदिय० बादर० सुहुम०-पंचकाय० बादर०सुहुम० संखेज्जभागहाणि० जह-
ण्णुक्क० पलिदो० असंखेज्जदिभागो । कुदो ? सम्मत्तुव्वेएण संखेज्जभागहाणिं
करिय पुणो पलिदो० असंखे० भागकालेण सम्मामि० उव्वेलिदण संखेज्जभागहाणि
कूणंतस्स तदुवलंभादो । अवट्टा० जहण्णुक्क० एगसमओ । पंचिंदिय-पंचिं० पज्ज०-

§ ५००. देवोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्त-
सुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल
ओघके समान है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंके संख्यातभागवृद्धि
और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तसुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—सामान्य देवोंमें और नौप्रैवेयक तकके उनके अवान्तर भेदोंमें अपने अपने
कालकी मुख्यतासे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्व
प्रक्रियानुसार घटित कर लेना चाहिये । यहाँ सामान्य देवोंमें जो इकतीस सागरकी अपेक्षा
अन्तर काल कहा है उसका कारण यह है कि यहीं तकके देवोंके गुणस्थानोंमें बदल
बदल होती है जिसकी अन्तरकालोंको घटित करते समय आवश्यकता पड़ती है । तथा
शेष अन्तरकालोंका कथन सुगम है ।

एकेन्द्रिय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पांचों म्यावरकाय और उनके
बादर और सूक्ष्म जीवोंके संख्यात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्थके
असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

शंका—उक्त जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्थोपमके
असंख्यातवें भाग क्यों है ?

समाधान—क्योंकि सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलनाके द्वारा संख्यातभागहानिको करनेके
अनन्तर पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाके द्वारा
संख्यातभागहानिको करनेवाले उक्त जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्त-
रकाल पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है ।

तथा उक्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक
समय होता है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियादिके उक्त मार्गणार्थोंमें संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट
अन्तरकाल पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है इसका खुलासा उपर किया ही है ।

तस-तमपज्ज० मंखेज्जभागवद्धिहाणि० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सगुक्कसाद्धिदी
देसणा । अवट्ठा० मंखेज्जगुणहाणीणमोघमंगो । पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-
वेउब्बिय० अवट्ठा० ओघमंगो । सेमाणं णत्थि अंतरं ।

§ ५०१. कायजोगि० संखे० भागवद्धी० संखे० गुणहाणी० णत्थि अंतरं । संखे०
भागहाणि० जहण्णुक्क० पालिदो० असंखे० भागो । अवट्ठा० ओघमंगो । आहार०-
आहार-मिस्स० अव० णत्थि अंतरं । एवमकसाय०-सुहुम०-जहावसाद०-अचभव०-
उवसम०-सम्मामि०-सामण० ।

§ ५०२. वेदाणुवादेण इत्थि० संखेज्जभागवद्धीहाणि० जह० अंतोमु० उक्क०
उसका तात्पर्य यह है कि इनमें २८ से २७ और २७ से २६ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति
होना सम्भव है जिनके प्राप्त होनेमें पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल लगता है ।
अथ यदि किसी एक जीवने २८ से २७ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह पहली संख्यात
भागहानि हुई । पुनः उसी जीवने पत्न्यके असंख्यातवें भाग कालके ज्ञानेपर २७ से २६
विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह दूसरी संख्यात भागहानि हुई । इस प्रकार पहली
संख्यात भागहानिसे दूसरी संख्यातभागहानिके होनेमें पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्त-
रकाल प्राप्त हुआ । तथा संख्यातभागहानिका जो एक समय काल है वही यहां अवस्थितका
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रम और त्रमपर्याप्त जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और
संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थान और संख्यात गुणहानिका अन्तरकाल
ओघके समान है । पांचों मनोदोगी, पांचों वचनयोगी, औदारिककाययोगी और वैक्रि-
यिककाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । शेष स्थानोंका अन्तर
काल नहीं पाया जाता है ।

§ ५०१. काययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका अन्तर-
काल नहीं पाया जाता है । संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्न्यो-
पमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है ।
आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल नहीं है ।
इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि,
सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ५०२. वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यात-
भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट
स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । पुरुषवेदवाले जीवोंके

मगुकस्सट्टिदी देखणा । अवट्टि० ओघभंगो । पुरिम० एवं चेव । णवरि संखेज्ज-
गुणहाणी० णत्थि अंतरं । णनुम० संखे०भागवद्दीहाणि०-अवट्टा० ओघभंगो ।
अवगद० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० अंतोमु० । अवट्टा० जहण्णुक० एगसमओ ।
चचारिकमाय० संखेज्जभागहाणि० जहण्णुक० अंतोमु० । अवट्टा० ओघभंगो ।
सेमप० णत्थि अंतरं । णवरि लोभक० संखेज्जगुणहाणि० ओघभंगो ।

§ ५०३. मदि०-सुद०-विहंग०-संखे० भागहाणि० अवट्टा० एहंदियभंगो । एवं
मिच्छा० असण्णीणं । आभिणि०-सुद०-ओहि०-संखेज्जभागहाणी० जह० अंतोमु०,
उक्क० छावट्टि सागरोवमाणि देखणाणि । अवट्टि० संखेज्जगुणहाणीणं ओघभंगो ।
एवमोहिदंस० सम्मादि०-वेदय० । णवरि वेदए संखे० गुणहाणी णत्थि । अवट्टि०
जहण्णुक० एगममओ । मणपन्न० संखेज्जभागहाणि० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्व-
कोडी देखणा । अवट्टा० जहण्णुक० एगममओ । संखेज्जगुणहाणी० ओघभंगो । एवं
स्त्रीवेदी जीवोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुण-
हानि भी पाई जाती है पर उसका अन्तरकाल नहीं होता है । नपुंसकवेदी जीवोंके संख्यात
भागवद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । अपगतवेदी
जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तथा अव-
स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है ।

क्रोधादि चारों कषायवाले जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट
अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । तथा शेष दो पदोंका
अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि लोभकषायी जीवोंके संख्यातगुणहानिका
अन्तरकाल ओघके समान है ।

§ ५०३. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि और
अवस्थानका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टि और अनंज्ञी-
जीवोंके कहना चाहिये । मतिक्षानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभाग-
हानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छयासठ सागर
है । तथा अवस्थित और संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार
अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये । इतनी
विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातगुणहानि नहीं होती है । तथा वेदकस-
म्यग्दृष्टि जीवोंके अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । मनःपर्ययज्ञानी
जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ
कम एक पूर्वकोटि है । अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । तथा
संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान संयत

संजद०-सामाहयछेदो० । णवर० अवट्टा० ओघभंगो । परिहार० संखेज्जभागहाणी० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडी देसणा । अवट्टा० जहण्णुक्क० एगसमओ । एवं संजदासंजद० । चक्खु० तसपज्जभंगो ।

§ ५०४. पंचलेस्सा० संखेज्जभागवट्टीहाणी० जह० अंतोमु०, उक्क० सगसगुक्क-
म्माट्टिदी देसणा । अवट्टा० ओघभंगो । सुक्कलेस्सा० संखे० भागवट्टीहाणी० जह०
अंतोमु० उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि सादिरेयाणि । सेसमोघभंगो । खइय०
संखेज्जभागहाणि० अंतरं जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं, संखेज्जगुणहाणि-अवट्टाणं ओघभंगो ।
सण्णी० पुरिसभंगो । णवरं संखेज्जगुणहाणी० ओघं । आदारि० ओघभंगो । णवरं
सगाट्टिदी देसणा । अणाहारि० कम्मइयभंगो ।

एवमंतराणुगमो समतो ।

सामायिक संयत और छेदोपम्यापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके संख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । इसीप्रकार संयता-संयत जीवोंके कहना चाहिये । चक्षुदर्शनी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल असपर्याप्त जीवोंके समान है ।

§ ५०४. कृष्ण आदि पाँच लेश्यावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-
हानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है । शुक्ललेश्यावाले
जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और
संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस भाग तथा संख्यातभागहानिका
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक इकतीस भाग है । तथा शेष स्थानोंका अन्तरकाल ओघके
समान है ।

आधिकमम्यर्हाष्ट जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल
अन्तर्मुहूर्त है । तथा संख्यातगुणहानि और अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है ।
संज्ञी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान है । इतनी
विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान है । आहारक-
जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है । इतनी विशेषता है
कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण होता है । अनाहारक
जीवोंके अन्तरकाल कार्मणकाययोगी जीवोंके समान होता है ।

इसप्रकार अन्तराणुगम समाप्त हुआ ।

§ ५०५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अवट्ठा० णियमा अत्थि सेसपदा० भयणिज्जा । भंगा सत्तावीस २७ । एवं सच्चणोरइय-तिरिक्ख-पांचिदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देव भवणादि जाव उवरिम-गेवज्ज०-पांच०-पांचिदियपज्ज०- तस-तमपज्ज०- पंचमण०-पंचवाच०-कायजोगि०-ओरा-लिय०-वेउच्चिय०- तिण्णिवेद० चत्तारिक्क०-अमजद०-चक्खु०- अचक्खु०- छलेस्मा०- भवसिद्धि०-मण्णि०-आहारि० वत्तव्वं । णवारं जत्थ संखेज्जगुणहाणी णत्थि तत्थ णव

§ ५०५. नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ-निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थानपदवाले जीव नियमसे हैं तथा शेष पदवाले जीव भजनीय हैं । अतः इनके सत्ताईस भंग होते हैं ।

विशेषार्थ—संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि इनके एक जीव और नानाजीवोंकी अपेक्षा एक संयोगी द्विसंयोगी और तीन संयोगी कुल भंग छब्बीस होते हैं और इनमें अवस्थान पदकी अपेक्षा एक ध्रुव भंगके मिला देने पर कुल भंगोंका जोड़ सत्ताईस होता है । जितने भजनीय पद हों उतनी बार तीनको रखकर परस्पर गुणा करनेसे ये कुल भंग आ जाते हैं । यहाँ भजनीय पद तीन हैं अतः तीन बार तीनको रखकर परस्पर गुणा करनेसे सत्ताईस उत्पन्न होते हैं यही कुल भंगोंका प्रमाण है । पहले जो अट्ठाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भंग और उनके उच्चारण करनेकी विधि लिख आये हैं उसीप्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिये ।

इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य, सामान्य देव, भवनवाभियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पाचो मनोयोगी, पांचो वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाषयोगी, वैक्रियिक-काययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, झुहो लेदयावाले, भव्य, संज्ञा और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमेंसे जहाँ पर संख्यातगुणहानि नहीं पाई जाती है वहाँ पर कुल नौ ही भंग होते हैं ।

विशेषार्थ—किस मार्गणास्थानमें संख्यातभागवृद्धि आदिमेंसे कितने पद पाये जाते हैं यह स्वामित्वानुयोगद्वारमें बता आये हैं । ऊपर जो मार्गणास्थान गिनाये हैं उनमें कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें संख्यातगुणहानिके बिना शेष तीन और कुछमें चारों पद पाये जाते हैं । जहाँ चारों पद पाये जाते हैं वहाँ २७ भंग होंगे, इसका खुलासा ऊपर ही कर आये हैं । पर जहाँ संख्यात गुणहानिके बिना शेष तीन पद पाये जाते हैं वहाँ दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक और द्विसंयोगी आठ भंग होंगे और

चेव भंगा ६ । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० अवट्ठा० णियमा अत्थि । संखेज्जभागहाणी भयणिज्जा । भंगा तिणिण ३ । एवमणुहिमादि जाव सव्वट्ठ०-सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचि०अपज्ज०-ममेद पंचकाय-तम अपज्ज०-ओगलियमिस्स ०-कम्मइय मदि-सुद-अण्णा०-विहंग०- परिहार०- मंजदामजद०- वेदय०- मिच्छादि० अमणिण०- अणाहारि ति वत्तव्वं ।

§ ५०६. मणुमअपज्ज० अवट्ठि० संखेज्जभागहाणीविहत्तीण अट्ठभंगा वत्तव्वा । त जहा, मिया अवट्ठिदविहत्तीओ । मिया अवट्ठिदविहत्तिया । मिया संखेज्जभागहा-णिविहत्तिओ । सिया मंखेज्जभागहाणिविहत्तिया । मिया अवट्ठिदविहत्तिओ च संखे-ज्जभागहाणिविहत्तिओ च । मिया अवट्ठिदविहत्तिओ च मंखेज्जभागहाणिविहत्तिया च । सिया अवट्ठिदविहत्तिया च संखे० भागहाणिविहत्तिओ च । सिया अवट्ठिदविहत्तिया च मंखे० भागहाणिविहत्तिया च । एवमट्ठ भंगा ८ । एवं वेउव्वियमिम्म० । आहार० इनमें अवस्थान पदके एक ध्रुव भंगके मिला देनेपर कुल भंग नौ होंगे ।

पंचेन्द्रिय त्रिच लब्धपर्याप्तकोमें अवस्थान पदवाले जीव नियमसे हैं । तथा संख्यातभाग हानि भजनीय है । अतः यहां कुल भंग तीन होते हैं । इसीप्रकार अनु-दिशसे लेकर मवार्थमिद्धि तकके देव, मभी एकेन्द्रिय, मभी विकलोन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध-पर्याप्त, मभी पांचों स्थावरकाय, त्रमलब्धपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मस्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धिमयत, संयतामंयत, वेदकसम्यगृष्टि, मिश्यादृष्टि, अमंही और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मार्गणाओमें संख्यातभागहानि और अवस्थान ये दो ही पद पाये जाते हैं । उनमेंसे अवस्थान पद ध्रुव है और संख्यातभागहानि अध्रुव पद है । अतः संख्यातभागहानिके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और ध्रुवपदकी अपेक्षा एक भंग ये तीन भंग उक्त मार्गणांम्यानोंमें पाये जाते हैं ।

§ ५०६. लब्धपर्याप्तक मनुष्योंमें अवस्थित और संख्यातभागहानि विभक्तिकी अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये । वे इसप्रकार हैं—कदाचिन् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव है । कदाचिन् अवस्थितविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं । कदाचित् संख्यात भागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव है । कदाचिन् संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं । कदाचिन् अवस्थितविभक्तस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि-विभक्तिस्थानवाला एक जीव है । कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं । कदाचित् अवस्थितविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाला एक जीव है । कदाचिन् अवस्थित विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और संख्यातभागहानिविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं ।

आहारमिम्म-अवट्टिदम्म वे भंगा २ । एवमकमाई०-सुहुम० जहाकरवाद०-उचमम०-
मासण० मम्मामि०-आदिट्टीणमवट्टिदम्म एक बहुजीवे अवलंविद्य वेभंगा वत्तवा ।

५०७. अवगद० मव्वपदा भयणिज्जा । भंगा छव्वीम २६ । आभिणि० सुद०
आहि० मणपज्ज० अवट्टा० णियमा अन्थि । सेमपदा भयणिज्जा । भंगा णव ६ ।
एवं संजद० सामाइय छेदा० आहिदंम०-मम्मदि० खइय०दिट्टीणं वत्तवं । अभव०
अवट्टिद० णियमा अन्थि ।

इसप्रकार आठ भंग होते हैं । इसीप्रकार वैकल्पिकमिश्रकाययोगी जीवोंके उक्त दो पदोंकी
अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये । आहारक काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी
जीवोंके अवस्थितपदके दो भंग होते हैं । इसीप्रकार अकपायी, मृदुममांपरायिकमंयत,
यथास्थितसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सामादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें
अवस्थितपदके एक जीव और बहुत जीवोंका आश्रय लेकर दो भंग कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त लब्ध्यपर्याप्तक आठ मान्तर मार्गणाण है । इनमें कभी जीव नहीं
भी पाये जाते हैं । कभी एक और कभी अनेक जीव पाये जाते हैं । अतः लब्ध्यपर्याप्तक
मनुष्य और वैकल्पिकमिश्रकाययोगी इन दो मार्गणाओंमें अवस्थित और संख्यात भागहानि
ये दो पद पाये जानके कारण एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक और द्विसंयोगी
कुल आठ भंग हो जाते हैं । तथा शेष मान्तर मार्गणाओंमें एक अवस्थान पद ही पाया
जाता है इसलिए वहा एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक भंग दो ही होते हैं ।

५०७. अपगतवेदियोंमें सभी पद भजनीय हैं । यहा कुल भंग छव्वीम होते हैं ।

विशेषार्थ—अपगतवेदियोंके मरुत्यातभागहानि संख्यातगुणहानि और अवस्थित ये तीन
पद पाये जाते हैं जो कि भजनीय हैं । तीन पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा
प्रत्येक, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी कुल भंग छव्वीम होते हैं । अतः अपगतवेदियोंके छव्वीम
भंग कहे । तीन पदोंके छव्वीम भंग कहे होते हैं इसकी प्रकिया ऊपर लिख आये हैं ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अवस्थित पद वाले
जीव नियमसे हैं । शेष संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि इन दो पदवाले जीव
भजनीय हैं । यहा भंग नौ होते हैं । इसीप्रकार संयत, सामाधिकमयत, छेदोपस्थापना
संयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और श्रायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त मार्गणाओंमें तीन पद बनलाये हैं उनमें से अवस्थित पद ध्रुव
और शेष दो भजनीय हैं । दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा
एक संयोगी और द्विसंयोगी कुल आठ भंग होते हैं । तथा उनमें एक ध्रुव भंगके मिला
देने पर कुल भंग नौ होते हैं । उपर्युक्त मार्गणास्थानोंमें यही नौ भंग कहे हैं ।

अभ्युत्थोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे हैं ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो ममतो ।

§ ५०८. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेमो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण अवट्ठिदविहत्तिया मव्वजीवाणं केवट्ठिओ भागो ? अणंतभागा । सेमपदा अणत्तिम-
भागा । एवं तिरिक्ख-कायजोगि ओगलि०-णवुंम०-चचारिक्क०-अमंजद०-अचक्खु०
तिण्णिलेम्मा-भवसिद्धि०-आहारि० ।

§ ५०९ आदेसेण षोड्ढणु अवाट्ठे मव्वजीवा० के० ? अमखेज्जा भागा ।
सेमप० अमंखे० भागो । एव मव्वपुट्ठवी पंचि०तिरिक्खजतिय मणुम देव-भवणादि जाव
णवगेवज्ज०-पंचि०-पंचि०)पज्ज० तम-तमपज्ज० पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्विय०-इत्थि-
पुरिम०-चक्खु०-तेउ० पम्म०-मुक्क०-माण्ण ति वत्तव्वं । पंचि० तिरि० अपज्ज० अवट्ठि०
मव्वजी० के० ? अमंखेज्जा भागा । मखेज्जभागाणां अमखे० भागो । एवं
मणुमअपज्जत्ताणं । अणुहिमादि जाव अणुट्ठ ति पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभागा ।
एव मव्वविगलिदिय-पंचि०पज्ज० (अपज्ज)-चचारि काय-तमअपज्ज० वेउव्वियमिस्स०-

इमप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचयानुगम समान हुआ ।

५०८. भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश की प्रमाणका है—ओषनिर्देश और आदेश-
निर्देश । उनमेंसे ओषकी अपेक्षा अर्थात् निर्मात्स्थानवाले जीव सब जीवोंके कितनेवें
भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं तथा ओष मत्स्थानभागवृद्धि जाति मत्स्थानवाले जीव अनन्तवें
भाग हैं । इसीप्रकार तिर्यच, त्र्ययोगी, औदारिकका स्थोत्री, तपुंसकवटी, शोषार्द्र चारों
प्रकारवाले, अमंयत, अचक्षुदर्शनी, अण्णाणि निर्देशवाले, मय और आहारक जीवोंका
भागभाग कहना चाहिये ।

५०९ आदशकी अपेक्षा नारिकेलीय अर्थात् निर्मात्स्थानवाले जीव सब नारिकेली
जीवोंके कितने भाग हैं ? असंख्यात एक भाग हैं । ओष पर्याप्त अर्थात् एक भाग हैं ।
इसीप्रकार सभी प्रायश्चित्तके नारिकेली, पंचेन्द्रिय, पंचोन्द्रिय पर्याप्त और योनिमयी ये तीन
प्रकारके तिर्यच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, मत्स्थानमियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके
देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रम, त्रम पर्याप्त, पाचो मनायोगी, पांचो वचनयोगी
वैक्रियककाययोगी, ध्रुवेदी, पुरुषवती, चक्षुदर्शनी, पीतलेस्यावाले, पद्मलेस्यावाले, शुद्ध-
लेस्यावाले और संज्ञी जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच लक्ष्यपर्याप्तकोमे अर्थात् निर्मात्स्थानवाले जीव सभी पंचेन्द्रिय
लक्ष्यपर्याप्तकोके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तथा मत्स्थानभाग हानिवाले
जीव असंख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार लक्ष्यपर्याप्त मनुष्योंका भागाभाग कहना
चाहिये । अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंका भागाभाग पंचोन्द्रिय तिर्यच लक्ष्य-
पर्याप्तकोके समान है । इसीप्रकार सभी त्रिकलेन्द्रिय, पंचोन्द्रिय लक्ष्यपर्याप्त, पृथिवी-

विहंग०-संजदामंजद०-वेदय० दिट्टीणं वत्तव्वं ।

§ ५१०. मणुमपज्ज०-मणुसिणीसु अवट्टिद० सव्वजी० के० संखेज्जा भागा । सेसप० संखे० भागो । एवं मणपज्ज०-संजद०-सामाइयच्छेदो० वत्तव्वं । मव्वट्टे अवट्टि० सव्वजी० के० ? संखेज्जा भागा । संखेज्जभागहाणि० संखे० भागो । एवं परिहार० ।

§ ५११. एइंदियसु अवट्टिद० सव्वजी० के० ? अणंता भागा । संखेज्जभाग-हाणीए अणंतिमभागो । एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त-सुहुमेइंदिय-सुहुमे-इंदियपज्जत्तापज्जत्त-सव्ववणप्फदि०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारीणं । आहार० आहारमिस्स० भागाभागं णत्थि । एवमकसाय०-सुहुम०-जहाक्खाद०-अभव०-उवसम०-सासण०-सम्माभिच्छाइट्टि ति वत्तव्वं । आभिणि०-सुद०-ओहि० अवट्टि० सव्वजीवा० के० ? अमंखेज्जा भागा । कायिक आदि चार स्थावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्तक, वैकियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये ।

§ ५१०. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अपनी अपनी सर्व जीवराशिके कितने भाग हैं । संख्यात बहुभाग हैं । तथा शेष पदवाले संख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना-संयत जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये ।

सर्वार्थमिद्विमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव सभी सर्वार्थमिद्विके देवोंके कितने भाग हैं ? संख्यात बहुभाग हैं । तथा संख्यातभागहानि वाले जीव संख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार परिहारविशुद्धिमंयनोंका भागाभाग कहना चाहिये ।

§ ५११. एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रिय जीवोंके कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । तथा संख्यातभागहानिवाले जीव अनन्त एक भाग हैं । इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिक-मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके भागाभाग नहीं है, क्योंकि इनके एक अवस्थितपद ही पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-ख्यात संयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव अपनी अपनी सर्व जीव राशिके कितने भाग हैं ? असंख्यात बहुभाग हैं । तथा शेष

सेसप० अमंखे०भागो । एवमोहिदंस०-मम्मादि०-खइयमम्माइ० ।

एवं भागाभागाणुगमो समत्तो ।

§ ५१२. परिमाणानुगमेण दुविहो णिहेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मंखेज्जभागवट्ठी-हाणिविहत्तिया केत्तिया ? अमंखेज्जा । मंखे० गुणहाणि० मंखेज्जा । अवट्ठिया केत्तिया ? अणंता । एवं कायजोगि०-ओरालि०-चत्तारिक०-चक्खु०-भव-सिद्धि०-आहारीणं वत्तव्वं ।

§ ५१३. आदेसेण णेरइणुसु मंखेज्जभागवट्ठीहाणी-अवट्ठानाणि केत्तिया ? अमंखेज्जा । एवं मच्चणिय०-पच्चिंदियतिरिक्खवतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-वेउच्चिय०-इत्थि०-तेउ०-पम्म० वत्तव्वं । तिरिक्खव० ओघमंगो । णवरि मंखेज्जगुण-हाणी णत्थि । एवं णाणुम०-अमंजद०-तिणिलेस्माणं । पंचिं० तिरि० अपज्ज० मंखेज्ज-भागहाणि-अवट्ठि० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं मणुमअपज्ज०-अणुदिसादि जाव अवगाइद-मच्चविगालिंदिय-पंचिं०अपज्ज०-चत्तारिकाय०- तमअपज्ज०-वेउच्चियमिम्म०-स्थानवाले जीव असंख्यात एक भाग हैं । इसीप्रकार अर्वाचनदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये ।

इसप्रकार भागाभागाणुगम समाप्त हुआ ।

§ ५१४. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिविभक्तिस्थानवाले जीव और संख्यात भागहानि विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा संख्यात-गुणहानि विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं । अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार काययोगी, औदार्यककाययोगी, ओर्धात् चारों कपायवाले, अचक्षु-दर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये ।

§ ५१५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और योनिमती ये तीन प्रकारके तिर्यंच, सामान्य देव, भवन-वासियोंसे लेकर उपरिम भ्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, शीवेदी, पीतलेइयावाले और पद्मलेइयावाले जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । तिर्यंचोंका द्रव्यप्रमाण ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणहानि नहीं होती हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेइयावाले जीवोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये,

पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार लब्धपर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पृथिवीकायिक

विहंग०-संजदामंजद०-वेदय० वत्तव्वं ।

५१४. मणुस्सेसु मंखेज्जभागवट्ठी-मंखे०गुणहाणी० केत्ति० ? मंखेज्जा । सेस पदा० अमंखे० । मणुमपज्जत्त-मणुमिणीसु मन्वपदा मंखेज्जा । मन्वट्ठे दो पदा केत्ति० ? मंखेज्जा । एवं परिहार० । एहंदि० अवाट्ठि० केत्ति० ? अणंता । मंखेज्जभागहाणि० के० ? अमंखेज्जा । एवं वणप्फदि०-णिगोद०-ओगलियमिम्म०-कम्मइय०-मदि-सुदअण्णाण०-मिच्छादि०-अमण्णि०-अणाहारि त्ति । पंचि०-पंचि०पज्ज०-तम०-तमपज्ज० ओधमंगो । णवरि अवाट्ठि० अमंखेज्जा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिम०-चक्खु०-मण्णि त्ति । आहार०-आहारमिम्म० अवाट्ठि० के० ? मंखेज्जा । एवमकमा०-सुहुम०-जहाक्खादे त्ति । अवगद० मन्वपदा० केत्ति० ? मंखेज्जा । एवं मणपज्ज०-मंजद०-आदि चाग स्थावरकाय, त्रसल्लब्धपर्याप्त, वेत्ति-कमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी, संयतासंयत और वेदवसम्यग्दर्शि जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

५१४. मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहाणिवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा शेष स्थानवाले जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियमोंमें सभी स्थानवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अस्मत्पर्याप्तिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, सत्यवाणी, त्रासनीय मिथ्या, अमंती और अनाहारक जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनंत है । तथा संख्यातभागहाणिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार अस्मत्पर्याप्तिक, निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, सत्यवाणी, त्रासनीय मिथ्या, अमंती और अनाहारक जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका अवस्थित आदि विभक्ति स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण ओचके समान है । इसीप्रकार विशेषता है इन मार्गणास्थानोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । इसीप्रकार पाचो मनोयोगी, पाचों प्रचन योगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका उक्त स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार अरुपायी, सृक्षमसांपरायिकसंयत और यथा-ख्यातसंयत जीवोंका अवस्थित विभक्तिस्थानकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

अपगतवेदियोंमें संभव सभी पद वाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार मनः पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंका संभव सभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

सामाह्यच्छेदो० इति । आभिण०गुद०ओहि० पांचिंदियभंगो । णवरि वड्ढी णत्थि । एवमोहिदम० मम्मदिद्विचि । अभव० अवट्टि० के० ? अणंता । खड्य० संखेज्ज-भागहाणि संखेज्जगुणहाणि, केचि० ? संखेज्जा । अवट्टि० केचि० ? अमंखेज्जा । उभमम० सामण० मम्मामि० अवट्टि० के० ? अमंखेज्जा ।

एवं परिमाणानुगमो ममत्तो ।

§ ५१७. खेत्ताणुगमेण द्विविहो णिहेमो ओघेण आदसेण य । नत्थ ओघेण अवट्टिद्विहात्तया केवडि० खेत्तं ? मव्वलोगे । मेगपदा० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगम्म अमंखे० भागो । एव तिरिक्ख कायजासि आगलि०-णवुम०-चत्तारि-(कमाय)-असंजद० अचक्खु०-भवमि०-तिणिले० आहारि ति वत्तव्वं । णवरि पदगयविसेमो णायव्वो ।

§ ५१८. आदसेण णेरइण्णु मव्वपदा० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० अमंखे० ज्जदिभागो । एवं मव्वणिरय पांचिदिपरिक्खवितिय-पांच०तिरि०अपज्ज०-मव्व

गतिजानी, राज्ञानी और अरविजानी जीवोंका संभव सभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्य-प्रमाण पांचेन्द्रियों समान है । यहा पंचेन्द्रियों इतनी निशपना है कि उनमें संख्यात भागवृद्धि नहीं पाई जाती है । उसीप्रकार अरविदर्शनी और सम्यग्दर्ष्ट जीवोंका संभव-पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये ।

अभव्योमे अवस्थित पदवाले जीव कितने है ? अनन्त है । त्वाथिकसम्यग्दर्ष्टियोंमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि पदवाले जीव प्रत्येक कितने है ? संख्यात हैं । तथा अवस्थित पदवाले जीव कितने है अमर्यात है । उपशमसम्यग्दर्ष्ट, सामादनसम्यग्दर्ष्टि और सम्यगामभ्यादर्ष्ट जीवोंमें जवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने है ? अमख्यात है ।

उसप्रकार परिमाणानुगम ममाम अत्र ।

§ ५१९. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है प्राधान्य और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते है ? सर्वलोकमें रहते है । शेष नख्यातभागवृद्धि आदि पदवाले जीवोंने वर्तमानमें कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार सामान्यनिर्गन्ध, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंगकवेदी, क्रोधादि चारो कथायवाले, अगंयत, अचक्षुदर्शनी, भन्थ, कृष्णादि तीन लेश्यावाले और आहारक जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गिणास्थानोंमें सर्वत्र संख्यातभागवृद्धि आदि सभी पद संभव नहीं है इसलिये जहां जो पद हो वह जान लेना चाहिये ।

§ ५२०. आदेशसे नागक्रियोंमें संख्यातभागवृद्धि आदि संभव सभी पदोंको प्राप्त हुए जीवोंने वर्तमानमें कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवेभाग क्षेत्रका स्पर्श किया

मणुम-देव०-भवणादि जाव मव्वट्ट०-मव्वविगल्लिंदिय-मव्वपांचिंदिय-मव्वतस०-पंच-
मण०-पंचवाचि०-वेउव्विय०-वेउव्वियमिस्म-इत्थि०-पुरिम०-अवगद०-विहंग०-आभिणि०-
सुद०-ओहि० मणपज्जव०-मंजद०-सामाइयछेदो०-परिहार०-मंजदामंजद०-चकखु०
ओहिदमण०-तेउ०-पम्म०-गुक्क०-मम्मादि०-म्वइय०-वेदय०-मणिण ति ।

५१७. इंदियाणुवादेण इंदिय-बादर०-बादरपज्जतापज्जत-सुहुम०-सुहुमेइंदिय-
पज्जतापज्जत० अवाट्ट० के० खेचे ? मव्वलोगे । मंवेज्जभागहाणि० के० खेते ?
लोग० अंगंखे० भागे । एवं चत्तारिकाय-बादरपज्जत-सुहुम० पज्जतापज्जत-ओग-
लियमिस्म०-कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण-मिच्छादि०-मणिण०-अणाहारि ति
वत्तव्वं । बादरपुट्टवि० पज्ज०-बादर-आउ० पज्ज०-बादरनेउ०पज्ज०-बादरवाउपज्ज०
पांचिंदिय-अपज्जतभंगो । णवरि बादरबाउ० पज्ज० अवाट्टि० लोगम्म संखे०-
भागे । मव्ववणफ्फदिकाइयाणमेइंदियभंगो । आहार०-आहारमिस्म० अवाट्टि० के०
हे । इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिक, पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्धपर्याप्त, सर्व
मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय,
सभी पंचेन्द्रिय, सर्व त्रय, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वक्रियिककाययोगी,
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, विभंजानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी,
अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, लेडोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि-
संयत, संयतासयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीतलेड्यावाले, पद्मलेड्यावाले, शुद्धलेड्या-
वाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वरकसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोका क्षेत्र संभव पदोंकी
अपेक्षा लोकका असंख्यातवा भाग है ।

५१७. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादमे एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त,
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सुदम एकेन्द्रिय, मृदम एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय
अपर्याप्त अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ।
संख्यात भागहानिवाले उक्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवे भागक्षेत्रमें
रहते हैं । इसीप्रकार पृथिवीकायिक आदि चार स्थावर कायिक, तथा उन चारोंके बादर-
लब्धपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, औदारिक, मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्य-
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, सर्जी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त,
बादरवायुकायिक पर्याप्त जीवोका अपनेमें सम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र पंचेन्द्रिय लब्ध-
पर्याप्तकोके क्षेत्रके समान होता है । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रमें रहते हैं । समस्त वन-
स्पतिकायिक जीवोंका संभव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान है ।

खेत्ते० ? लोग० असंखे० भागे । एवमकसाय०-सुहृम०-जहाकखाद०-उवसम०-सामण०-सम्मामिच्छादिदि ति । अभव० अवट्टि० के० खेत्ते ? सव्वलोए ।

एवं खेत्ताणुगमो समत्तो ।

§ ५१८. पोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेज्जभागवट्टीविहत्तिएहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो अट्ट चोदसभागा वा देसूणा । संखेज्जभागहाणि० के० खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो, अट्ट चोदस० देसूणा, सव्वलोगो वा । अवट्टि० के० खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । संखेज्जगुणहाणि० खेत्तभंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिक०-अचक्खु० भवसि० आहारि ति ।

§ ५१९. आदेसेण णेरइएसु संखेज्जभागवट्टी० खेत्तभंगो । संखेज्जभागहाणि अवट्टिदं के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो छ चोदसभागा वा देसूणा ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं । लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । अभव्य अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सर्व लोकमें रहते हैं ।

इसप्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ ।

§ ५२०. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । और अतीत कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । और अतीत कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है या सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । संख्यातगुणहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।

§ ५२१. आदेशकी अपेक्षा नाराकियोंमें संख्यातभाग वृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भागक्षेत्रका स्पर्श किया है और अतीत

पठमाए खेत्तभंगो । विदियादि जाव मचमि सि मंखेज्जभागवड्ढी० खेत्तभंगो । संखे० भागहाणि-अवट्ठि० के० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ चोदमभागा देसूणा ।

§ ५२०. तिरिक्खेसु मंखेज्जभागहाणि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो मव्वलोगो वा । सेमप० खेत्तभंगो । ओरालि०-णवुंस०-तिण्णिले० तिरिक्खभंगो । पंचिदियतिरिक्खतियम्मि संखेज्जभागवड्ढी० खेत्तभंगो । संखेज्जभागहाणि-अवट्ठि० के० खे० फो० ? लोग० असंखेज्जदिभागो मव्वलोगो वा । पंचि० तिरि० अपज्ज० संखेज्जभागहाणि अवट्ठि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो, मव्वलोगो वा । एवं मणुमअपज्ज०-मव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय अपज्ज० - बादरपुढवि० पज्ज०-बादरआउ० पज्ज०-बादरतेउ०पज्ज०-बादरवाउपज्ज०-तसअपज्ज० वत्तव्वं । णवरि बादरवाउपज्ज० कालकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । पहली पृथिवीमें स्पर्श क्षेत्रके समान है । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवीमें संख्यातभागवृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । तथा उक्त द्वितीयादि पृथिवियोंमें संख्यातभागहाणि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे क्रमसे कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पांच और कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ ५२०. तिर्यंचोमें संख्यातभागहाणि विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके समान है । औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्णादि तीन लेश्यावाले जीवोंका स्पर्श तिर्यंचोके स्पर्शके समान है । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती इन तीन प्रकारके तिर्यंचोमें संख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है । संख्यात-भागहाणि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके तिर्यंचोने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोमें संख्यातभागहाणि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिकपर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बादर वायु कायिकपर्याप्त और त्रसलब्ध्यपर्याप्त जीवोंके संख्यातभागहाणि और अवस्थित पदकी अपेक्षा स्पर्श कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

अवट्टि० लोग० संखे० भागो सव्वलोगो वा । मणुसतिय० संखेज्जभागहाणि-अवट्टि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । सेसप० के० खेत्तं फो० ? लोग० असंखे० भागो ।

§ ५२१. देवेषु संखेज्जभागवद्दी० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो अट्ट चोदस० देसुणा । संखेज्जभागहाणी-अवट्टि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट णव चोदस० देसुणा । एवं सोहम्मीसाणेषु । भवण०-वाण०-जोहसि० संखेज्जभागवद्दी० देवोधं । णवरि अट्टुट्ट-अट्ट चोदम० । संखेज्जभागहाणि-अवट्टि० अट्टुट्ट-अट्ट णव चोदसभागा वा देसुणा । सणक्कुमारार्दि जाव सहस्सारे त्ति सव्व-पदा० अट्ट चोदस० देसुणा । आणदपाणदआरणच्चुद० सव्वपदा० छ चोदसभागा वा देसुणा । उवरि खेत्तभंगो ।

सामान्य, पर्याप्त और स्त्रीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें संख्यातभागहानि और अर्वास्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

§ ५२१. देवोंमें संख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवेंभाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । संख्यातभागहानि और अर्वास्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग और नौ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसीप्रकार सौधमें और ऐशान स्वर्गके देवोंमें उक्त पदोंकी अपेक्षा स्पर्श कहना चाहिये । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें संख्यात-भागवृद्धि पदकी अपेक्षा स्पर्श सामान्य देवोंके संख्यातभागवृद्धिपदकी अपेक्षा कहे गये स्पर्शके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां पर त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग स्पर्श कहना चाहिये । संख्यातभागहानि और अर्वास्थितविभक्तिस्थानवाले उक्त भवनवासी आदि देवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, आठ और नौ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार तकके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गके देवोंमें वहां संभव सभी पदवाले जीवोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसके ऊपर नौमैवेयक आदिमें स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

§ ५२२. इंदियाणुवादेण एइंदिय० संखेज्जभागहाणि-अवट्टि० तिरिक्खोषं । एवं बादर-सुहुम - पज्जत्तापज्जत्त - चत्तारिकाय - बादरअपज्ज०- सुहुमपज्जत्तापज्जत्त - सव्व-वणप्फदि०-ओगलियमिम्म०-कम्मइय०-अमण्णि०-अणाहारि चि वत्तव्वं । [पांचि०] पांचिदियपज्ज०-तस-तमपज्ज० संखेज्जभागहाणि-अवट्टि० के० खे० फो० ? लोग० अमंखे० भागो, अट्ट चोइम० देसूणा, मव्वलोगो वा । सेमप० ओघभंगो । एवं पंचमण०-पंचबचि०-पुरिम०-चकसु०-मण्णि चि । वेउत्तिय० संखेज्जभागवट्टी० के० खे० फो० ? लोग० अमंखे०भागो अट्ट चो० देसूणा । संखेज्जभागहाणि-अवट्टि० के० खेत्तं फोमिदं ? लोग० अमंखे० भागो, अट्ट-तेरह-चोइमभाग देसूणा । वेउत्तिय-मिस्स०-आहारमिस्स० - अकमा०-मणपज्ज०-संजद०-मामाइयत्तेदो०-परिहार० सुहुम-सांपराय०-जहाक्खाद०-अभव० खेत्तभंगो । इत्थि० पांचिदियभंगो । णवरि संखेज्ज-

§ ५२२. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श सामान्य तिर्यचोंमें उक्त पदोंके आश्रयसे कहे गये स्पर्शके समान है । इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, पृथिवी कायिक आदि चार स्थावरकाय, बादर पृथिवीकायिक आदि चारोंके अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदि चारोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, असंज्ञी और अनाहागक जीवोंके स्पर्श कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है । लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श ओघके समान है । इसीप्रकार पांचों मनोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके स्पर्श कहना चाहिये ।

वैक्रियिककाययोगियोंमें संख्यातभागवृद्धिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवेभाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिककाययोगी जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और तेरह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषाथी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार विशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा-ख्यातसंयत और अभव्य जीवोंका स्पर्श क्षेत्रके समान है ।

कीवेदमें स्पर्श पंचेन्द्रियोंके स्पर्शके समान है । इतनी विशेषता है कि कीवेदी

गुणहाणी गन्धि ।

§ ५२३. मदि-सुदअण्णाण० संखेज्जभागहाणि-अवट्ठि० ओघं । विहंग० संखेज्ज-भागहाणि-अवट्ठि० के० खेत्तं फो० ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट चोइम० देखणा, सम्बलोगो वा । आभिणि०-सुद०-ओहि० संखेज्जादिभागहाणिअवट्ठि० के० खे०फो० ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट चोइस० देखणा । संखेज्जगुणहाणी ओघं । एवमोहि-इंसव-सम्मादिट्ठित्ति । एवं वेदय० । णवरि संखेज्जगुणहाणी गन्धि ।

§ ५२४. संजदासंजद० संखेज्जभागहाणी० खेत्तमंगो । अवट्ठि० छ चोइस० देखणा । असंजद० संखेज्जभागवट्ठी-हाणि-अवट्ठि० ओघं । तेउ० सोहम्ममंगो । पम्म० सहस्सारमंगो । सुक्क० आणदमंगो । णवरि संखेज्जगुणहाणि० ओघं । खइय० अंवट्ठि० जीवोंके संख्यातं गुणहानि नहीं पाई जाती है ।

§ ५२३. मत्त्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्ति-स्थानवाले जीवोंका स्पर्श ओघके समान है । विभंगज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, प्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और प्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । संख्यातगुण-हानिवाले उक्त मतिज्ञानी आदि जीवोंका स्पर्श ओघके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्श होता है । इसीप्रकार वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्श होता है । इतनी विशेषता है वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातगुणहानि नहीं है ।

§ ५२४. संयतासंयत जीवोंमें संख्यातभागहानिकी अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके समान है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले संयतासंयत जीवोंने प्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । असंयतोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पर्श ओघके समान है ।

पीतलेइयावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श मौर्धम स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है । पद्मलेइयावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श सहस्सार स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है । शुक्कलेइयावालोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पर्श आनत स्वर्गमें कहे गये स्पर्शके समान है । इतनी विशेषता है कि शुक्कलेइयावालोंमें संख्यातगुणहानिपदवाले जीवोंका स्पर्श ओघके समान है ।

ध्यायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श

के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो, अट्ट चोदस० देखणा । सेस० खेत्तमंगो ।
उवसम० सम्मामि० अवट्टि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो अट्ट-चोदस०
देखणा । सासण० अवट्टि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो अट्ट-बारह
चोदस० देखणा । मिच्छादिट्ठी० मादिअण्णाणिमंगो ।

एवं पोसणाखुगमो समत्तो ।

§ ५२५. कालानुगमेण दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
संखेज्जभागवद्धी-हाणी केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एगसमओ, उक्क० आव-
लियाए असंखे० भागो । संखेज्जगुणहाणी के० कालादो ? जह० एगसमओ, उक्क०
संखेजा समया । अवट्टि० के० ? सव्वद्धा । एवं पंचिदिय०-पांचि०पज्ज०-तस-तमपज्ज०-
पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु०-अचक्खु०
सुक्क०-भवसि०-मणि० आहारि ति ।

किया है ? लोकके असंख्यातवेभाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । यहां शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्श क्षेत्रके समान है ।
उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्याग्मध्याट्टि जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने
क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम
आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले
जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवे भाग और त्रसनालीके चौदह
भागोंमेंसे कुछ कम आठ और बारह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । मिध्याट्टियोंमें स्पर्श
मत्यञ्जानियोंमें कहे गये स्पर्शके समान जानना चाहिये ।

इसप्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ ।

§ ५२५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-
निर्देश । उनमेंसे ओघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका
काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवे भाग
है । संख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल
संख्यात समय है । अवस्थित विभक्तिस्थानका काल कितना है ? सर्वकाल है । इसीप्रकार
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी,
औदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ल-
लेदयावाले, भव्य, संझी और आहारक जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका जघन्य और
उत्कृष्टकाल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जब नाना जीव एक समय तक संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिको
करके दूसरे समयमें अवस्थान भावको प्राप्त हो जाते हैं किन्तु दूसरे समयमें अभ्य कोई

६५२६. आदेशेण षोरईएसु संखेज्जमागवड्ढी-हाणि-अवट्ठाणाणमोघभंगो । एषं मत्तपुढवि-तिरिक्खव०-पंचि०तिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज०-वेउच्चिय०-इत्थिय०-णवुंम०-असंजद०-पंचलोस्मिया सि वत्तव्वं । पंचिदियतिरिक्ख अपज्ज० संखे०-भागहाणि० के० ? जह० एगममओ, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अवट्ठि० मव्वद्दा । एवमणुद्दिमादि जाव अवराइद सि , सव्वएइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचि०-अपज्ज०-पंचकाय-तस अपज्ज०-ओगल्लियमिस्म०-कम्मइय-मदि-सुद अण्णाण-विहंग-जीव संख्यातभागहानि या संख्यातभागवृद्धिको नहीं करते हैं तब संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । तथा यदि एकके बाद दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे आदि नाना जीव संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि निरन्तर करते हैं तो आवलिके असंख्यातवें भाग काल तक ही संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि होती हैं इसके पश्चात् अन्तर पड़ जाता है । अतः संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । संख्यातभाग वृद्धिके समान संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय जानना चाहिये । किन्तु जब क्षपकश्रेणीमें नाना जीव प्रति समय ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच विभक्तिस्थानको या दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानको प्राप्त होते रहते हैं तब संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट-काल संख्यातसमय प्राप्त होता है, क्योंकि इसप्रकार संख्यातगुणहानि निरन्तर संख्यात समय तक ही हो सकती है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानका सर्वकाल कहनेका कारण यह है कि ऐसे अनन्त जीव हैं जिनके सर्वदा अवस्थित विभक्तिस्थान बना रहता है । ऊपर और जितनी मार्गणां गिनाई हैं उनमें भी ओषके समान व्यवस्था बन जाती है ।

६५२६. आदेशसे नाराकियोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थानका काल ओषके समान है । इसीप्रकार मातो पृथिवियोंमें और मामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनीमती तिर्यंच, मामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत तथा कृष्णादि पांच लेइयावाले जीवोंके काल कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका काल जो ओषसे कहा है वह इन मार्गणाओंमें भी बन जाता है । किन्तु इन मार्गणाओंमें संख्यातगुणहानि नहीं होती है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें भाग है । तथा अवस्थित विभक्ति-स्थानका काल सर्वदा है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंके तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्धपर्याप्त, पांचो स्यावर काय, त्रस-लब्धपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्भणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग-

संजदासंजद-वेदय०-मिच्छाह०-अमणि०-अणाहारि ति ।

§ ५२०. मणुम० संखेज्जभागवद्दी-संखेज्जगुणहाणी० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । सेस० ओघं । मणुसपज्ज-मणुसिणीसु संखेज्जभागवद्दी-हाणि० संखे०गुणहाणि० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । अबट्ठि० सन्वद्धा । मणुमअपज्ज० संखेज्जभागहाणी० के० ? जह० एगसमओ उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अबट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । एवं झानी, संयतासंयत, वेदकसम्यगुदृष्टि, मिध्यादृष्टि, असंझी और अनाहारक जीवोंके उक्त दोनों स्थानोंका काल कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंमें संख्यातभाग-हानि और अवस्थान ही होते हैं, अतः इनमें संख्यातभागहानि और अवस्थानका उक्त काल बन जाता है ।

§ ५२७. मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । मनुष्योंमें शेष स्थानोंका काल ओघके समान है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनी जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यात-भागहानि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थितका सर्व काल है । लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें संख्यात-भागहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग है । तथा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्त्यो-पमके असंख्यातवें भाग है । इसीप्रकार वैक्रियिक मिश्रकाययोगियोंके उक्त दोनों पदोंका काल जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानि पर्याप्त और खीवेदी मनुष्योंके ही होती हैं और इनका प्रमाण संख्यात ही हैं, अतः मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । सामान्य मनुष्योंमें लब्ध्यपर्याप्तक भी सम्मिलित हैं अतः मनुष्योंमें संख्यात भाग हानिका काल ओघके समान बन जाता है । तथा अवस्थितका काल ओघके समान स्पष्ट ही है । मनुष्य पर्याप्त और खीवेदी मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय क्यों है इसका कारण ऊपर हमने बतलाया ही है । इनके संख्यातभाग हानिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका भी यही कारण जानना चाहिये । तथा इनमें भी अवस्थितका काल ओघके समान बन जाता है । लब्ध्य-पर्याप्तक मनुष्य और वैक्रियिकमिश्र ये मार्गणा सान्तर हैं । यदि इन मार्गणाओंमें नाना जीव निरन्तर होते रहे तो तो पत्त्यके असंख्यातवेंभाग प्रमाण काल तक ही होते हैं । अतः इनमें अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्त्यके असंख्यातवें भाग

वेज्वियमिस्स० । सव्वट्टे संखे० भागहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । अवट्ठि० ओघं । एवं परिहार० वत्तव्वं । आहार० अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोसु० । एवमकमाय०-सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्वं । अवगद० संखेज्जा भागहाणी-संखे० गुणहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा ममया । अवट्ठि० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोसु० । आहारमिस्स० अवट्ठि० जहण्णुक्क० अंतोसुहुत्तं । प्रमाण बन जाता है । किन्तु संख्यात भागहानि निरन्तर आबलिके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक ही होती है, अतः इनमें भी संख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । इन मार्गणाओंमें शेष हानि और वृद्धि नहीं होती ।

सर्वाथेसिद्धिमें संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थितका काल ओघके समान है । इसीप्रकार परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके उक्त दोनों पदोंका काल कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन मार्गणाओंका प्रमाण संख्यात है अतः इनमें संख्यातभाग हानिका उक्त प्रमाण काल ही घटित होता है । तथा अवस्थितका काल ओघके समान बननेमें कोई आपात नहीं, क्योंकि इन मार्गणाओंमें जीव निरन्तर पाये जाते हैं ।

आहारक काययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अकपायी, रूक्षमभांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवोंके अवस्थित पदका काल कहना चाहिये । सारांश यह है कि इन मार्गणाओंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही होता है और इनमें एक अवस्थित पद ही पाया जाता है अतः इनमें मरणकी अपेक्षा अवस्थितका जघन्य काल एक समय और अपने अपने कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

अपगतवेदी जीवोंमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यदि अपगतवेदी जीव निरन्तर संख्यातभागहानि और संख्यात गुणहानि करें तो संख्यात समय तक ही करते हैं, अतः इनमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । तथा मोहनीय कर्मके साथ अपगतवेदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है, अतः अपगतवेदमें अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है और इसमें

§ ५२८. आमिणि०-मद०-ओहि० संखेज्जभागहाणी-संखेज्जगुणहाणी-अवट्टि० ओघं । एवमोद्धिदंम०-मम्मादिट्टि ति वत्तत्वं । मणपज्ज० संखेज्जभागहाणी-संखेज्जगुणहाणी-अवट्टि० मणुमपज्जनभगो । एवं संजद-मामाइयछेदो० । खइए० संखेज्जभागहाणी-संखेज्ज गुणहाणी । जह० एगममओ, उक्क०संखेजा ममया । अवट्टि० के० ? मव्वद्दा । उवमम०-मम्मामि० अवट्टि० के० ? जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । मामण० अवट्टि० जह० एगममओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । एक अवस्थित पद ही होता है, अतः इसमें अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ ५२८. मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित पदका काल ओघके समान है । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंका काल कहना चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवस्थित पदका काल पर्याप्त मनुष्योंके कहे गये उक्त तीन पदोंके कालके समान है । इसीप्रकार संयत, सामाग्यिकसंयत, और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके उक्त तीन पदोंका काल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—मतिज्ञानीमे लेकर सम्यग्दृष्टि तक ऊपर जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें संख्यातभागवृद्धिको छोड़कर शेष पदोंका काल ओघके समान इसलिये बन जाता है कि इनका प्रमाण अमंख्यान है और इनमें जीव सर्वदा पाये जाते हैं । किन्तु मनःपर्ययज्ञान पर्याप्त मनुष्योंके ही होता है, अतः इसमें सम्भव सब पदोंका काल पर्याप्त मनुष्योंके समान कहा । तथा संयत, सामाग्यिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत ये मार्गणाएँ पर्याप्त और श्रिवेदी मनुष्योंके ही होती हैं, अतः इनमें सम्भव सब पदोंका काल भी पर्याप्त मनुष्योंके समान बन जाता है ।

श्रायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अवस्थित पदका काल कितना है ? सर्वदा है । उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यगभिध्यादृष्टि जीवोंके अवस्थित पदका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग है । सामादनसम्यग्दृष्टिोंके अवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके अमंख्यानवें भाग है । अमंख्य जीवोंके अवस्थित पदका काल सर्वदा है ।

विशेषार्थ—जब बहुतसे जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं और दूसरे समयमें कोई भी जीव क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते तब श्रायिकसम्यक्त्वमें संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा जब अनेक समय तक निरन्तर नाना जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते रहते हैं तब संख्यातभागहानि और संख्यात-

अमच्च० अवष्टि० सच्चद्धा ।

एवं कालाणुगमो समनो ।

§ ५२६. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेज-
भागवद्वी-हार्णा० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । संखेजगुणहाणि०
अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० छमासा । अवष्टि० णन्थि अंतरं । एवं पंचि-
दिय-पंचि० पज्ज०- तस- तसपज्ज०- पंचमण०- पंचवचि०- कायजोगि-ओगालि०- पुरिस०-
चत्तारिक०- चवसु०- अचवसु०- सुक्क०- भवसिद्धि०- मण्णि-आहारं ति वत्तव्वं । णवारं
पुरिस० संखेजगुणहाणि० वासं सादिरेयं ।

गुणहानिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है । क्षायिक सम्यक्त्वमें अवस्थित पदका सर्वदा काल स्पष्ट ही है । तथा उपशमसम्यक्त्व आदिमें अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपने अपने जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा जानना चाहिये ।

इसप्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

§ ५२६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-
निर्देश । उनमेंसे ओघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा संख्यात भागवृद्धि और संख्यातभाग-
हानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है । संख्यात-
गुणहानिका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-
काल छह महीना है । तथा सामान्यसे नाना जीवोंकी अपेक्षा अवस्थित पदका अन्तरकाल
नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रम, त्रमपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों
वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, पुरुषवेदी, क्राधादि चारो कपायवाले, चक्षु-
दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्लवेदियावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके कहना चाहिये ।
इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवके संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक
एक वर्ष है ।

विशेषार्थ—सब जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त
काल तक मोहनीय कमकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिकी नहीं करते हैं, अतः
ओघसे इनका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण
कहा है । क्षपकश्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है,
अतः संख्यात गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा
है, क्योंकि संख्यातगुणहानि क्षपकश्रेणीमें ही होती है । तथा अवस्थितपद सर्वदा पाया
जाता है अतः अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं कहा है । ऊपर और जितनी मार्गणाएं
गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है । अतः उनमें सब पदोंका अन्तरकाल ओघके
समान कहा है । किन्तु पुरुषवेदी जीव अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक क्षपकश्रेणी

§ ५३०. आदेशेण षोडशसु संखेज्जभागवद्धी-संखे० भागहाणी० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । भुजगारम्मि चउवीम अहोरत्तमेत्ततरं भुजगार-अप्पदगणं परूविदं । एत्थ पुण अंतोमुहुत्तमेत्तं, कधमेदं घडदे ? ण एम दोमो, अंत-रम्म दुवे उवण्णमा-चउवीम अहोत्तमेत्तमिदि एगो उवण्णो, अवरो अंतोमुहुत्तमिदि । तत्थ चउवीमअहोरत्ततर-उवण्णसेण भुजगारपरूवणं काऊण गंपहि अंतोमुहुत्ततर-उवण्ण-जाणावण्ह वडदीए अंतोमुहुत्ततरमादं भणिदं । तेण एदं घडदे । एवं सव्वण्णय-तिरिक्ख-पांचि-तिग्गि० तिय-देव-भवणादि-जाव उवरिमभेवज्ज०-वेउत्तिय०-इत्थि०-णत्तुंम०-अमंजद० पर नहीं चढ़ते हैं अतः पुरुषत्रयमें संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधक एक वर्ष प्रमाण कहा है ।

§ ५३०. आदेशसे नारकियोंमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका अन्तर-काल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

शंका—भुजगार अनुयोगद्वारमें भुजगार और अल्पतरका अन्तरकाल चौबीस दिनरात कहा है पर यहां इन दोनोंका अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तमात्र कहा है, इसलिये यह कैसे बन सकता है ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरकालके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं । भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिनरात है यह एक उप-देश है और अन्तर्मुहूर्त है यह दूसरा उपदेश है । उनमेंसे चौबीस दिनरात प्रमाण अन्तर-कालके उपदेश द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारका कथन करके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण अन्तरकाल रूप उपदेशका ज्ञान करानेके लिये इस वृद्धि नामक अनुयोगद्वारमें संख्यातभागवृद्धि और संख्या-तभागहानिका अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है, यह कहा है । इसलिये यह घटित हो जाता है ।

जिभप्रकार सामान्य नारकियोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल कहा उसीप्रकार सभी नारकी, तिर्थच सामान्य, पंचेन्द्रिय तिर्थच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्थच, योनि-मती तिर्थच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देव, वैश्विक-काययोगी, स्त्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्णादि पांच लेख्यावाले जीवोंके संख्यात-भागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरके कहनेके पश्चात् भुजगारविभक्ति अनुयोगद्वारमें कहे गये भुजगार और अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तर साधक चौबीस दिनके साथ यहां संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बतलाये गये उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तका विरोध बतला कर उसका समाधान किया गया है सो यह कथन ओघमें भी घटित कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है, क्योंकि सामान्य नारकियोंसे लेकर पांच लेख्यावाले जीवों तक एक मार्गणाओंमें

पंचलेस्सा० वत्तव्वं । पंचित्तिरि०अपज्ज० संखेज्ज० भागहाणी-अवट्ठि० ओधं । एव-
मणुहिसादि जाव अवराइद० सव्वेइंदिय-मव्वविगलिंदिय-पंचि० अपज्ज०-पंचकाय०-
तमअपज्ज०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग०-परिहार०-संजदा-
मंजद० वेदग०-मिच्छादि०-अमण्णि०-अणाहारं ति । एत्थ अणुहिमादि अवराइदंताणं
वासुपुधत्तंरगमिदि केमिं वि पाढो तं जाणिय वत्तव्वं ।

§ ५३१. मणुम-मणुमपज्जत्तयाणमोघभंगो । एवं मणुमिणीसु । णवरि संखेज्जगुणहा-
णीए वासपुधत्तंरं । मणुमअपज्जत्ताणं दोणं पदाणमंतरं जह० एगममओ, उक्क० पलिदो०
अमंखे० भागो । मव्वट्ठे संखेज्जभागहाणी० जह० एगममओ, उक्क० पलिदो० (अ-)
संखे० भागो । अवट्ठिणत्थि अंतरं । वेउव्वियमिस्स० संखेज्जभागहाणि-अवट्ठिद० जह० एग-
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल बतलाया
है वह ओघके समान ही है, अतः ओघमें जिमप्रकार घटित कर आये हैं उसीप्रकार यहां
भी घटित कर लेना चाहिये । विशेष बात यह है कि इन मार्गणाओमें अवस्थित पदके
विषयमें कुछ भी नहीं कहा है । रो द्रमका यही अभिप्राय है कि यहां भी ओघके समान
अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है ।

पंचेन्द्रियतिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदका अन्त-
रकाल ओघके समान है । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी एके-
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रमलब्ध्यपर्याप्त,
औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहार-
विशुद्धिसंयत, संयतान्यत, वेदगसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अभङ्गी और अनाहारक जीवोंके
संख्यातभागहानि और अवस्थित पदोंका अन्तरकाल होता है । यहां पर अनुदिशसे लेकर
अपराजित तकके देवोंके संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है ऐसा पाठ
पाया जाता है सो जानकर कथन करना चाहिये ।

§ ५३१. मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकोके संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल ओघके
समान है । इसीप्रकार मनुष्यनियोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका अन्तरकाल कहना चाहिये । इतनी-
विशेषता है कि मनुष्यनियोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । लब्ध्यपर्याप्त
मनुष्योंके संख्यातभागहानि और अवस्थित इन दोनोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है
और उत्कृष्टकाल अन्तरकाल पर्यके असंख्यातवें भाग है ।

सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर-
काल पर्यके असंख्यातवें भाग है । तथा अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदका जघन्य
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह सुहूर्त है । आहारककाययोगी और

समओ, उक्क० चारसमुहुता । आहार०-आहारमिस्स० अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । एवमकमा० जहाक्खाद० वत्तव्वं । अत्रगद० सन्वपदा० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मामा । आभिणि०-सुद०-ओहि० ओधं । णवरि संखेज्जभागवड्ढी णत्थि । एवं संजद०-सामाइयच्छेदो०-सम्मादि०-ओहिदंमण० । णवरि ओहिणाणी-ओहिदंसणीसु संखेज्जगुणहाणीए वामपुधत्तं । एवं मणपज्जव० । सुहुमसांपराय० अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० छम्मामा । अभव० अवट्टि० णत्थि अंतर । खइय० संखेज्जभागहाणी संखे०गुणहाणी-अंतरं जह० एगसमओ, उक्क० छमासा । अवट्टि० णत्थि अंतरं । उवसम० अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० चउवीम अहोरत्ताणि सादिरेयाणि । सामण०-सम्मामि० अवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० पालिदो० अमंखे०भागो ।

एवमंतराणुगमो समत्तो ।

आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । आहारककाययोगियोंके अवस्थित पदके अन्तरकालके समान अकपायी और यथाख्यात संयत जीवोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल कहना चाहिये । अपगतवेदी जीवोंके सम्भव सभी पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है ।

मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके पदोंका अन्तरकाल ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणावाले जीवोंके संख्यातभागवृद्धि नहीं होती है । इसी-प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, सम्यग्दृष्ट और श्रवधदर्शनी जीवोंके संभव पदोंका अन्तरकाल होता है । इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी और अवधिदर्शनी जीवोंके संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है । जिसप्रकार अवधिज्ञानियोंके पदोंका अन्तरकाल कहा उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके संभव पदोंका अन्तरकाल होता है ।

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । अभव्य जीवोंके अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है ।

क्षायिकसम्यग्दृष्ट जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । क्षायिकसम्यग्दृष्ट जीवोंके अवस्थितपदका अन्तरकाल नहीं है । उपशम सम्यग्दृष्ट जीवोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिनरात है । सासादन-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ।

इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

§ ५३२. भावाणुगमेण दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सव्व-
पदाणं सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

एवं भावाणुगमो ममत्तो ।

§ ५३३. अप्पावद्गुणगमेण दुविहो णिदेमो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
मव्वत्थोवा संखेज्जगुणहाणिविहत्तिया । संखेज्जभागहाणि० असंखेज्जगुणा । संखेज्ज-
भागवद्दी० विसेमाहिया । अवट्ठिद० अणंतगुणा । एवं कायजोगि०-ओरालि०-
चत्तारिक०-अचक्खु०-भवसिद्धि० आहारि ति ।

§ ५३४. आदेसेण णेरइएसु मव्वत्थोवा संखेज्जभागहाणी । संखेज्जभागवद्दी०
विसेमाहिया । अवट्ठि० असंखेज्जगुणा । एवं मव्वणिरय-पंचिंदिय तिरिक्खतिय-देवा
भवणादि जाव णव गेवज्ज०-वेउच्चिय०-इत्थि०-तेउ०-पम्म० वत्तव्वं ।

§ ५३५. तिरिक्खेसु मव्वत्थोवा संखेज्जभागहाणि०, वद्दी० विसेमा०, अवट्ठि०
अणंतगुणा । एवं णवुंम०-अमंजद०-तिणिण लेस्सा ति । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज०

§ ५३२. भावानुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और आदेश-
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मभी पदोंमें सर्वत्र औद्यिक भाव है ।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

§ ५३३. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघनिर्देश और
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं ।
संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव अरु संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसी
प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, क्रोधादि चारों कपायवाले, अचक्षुदर्शनी, भय और
आहारक जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

§ ५३४. आदेशकी अपेक्षा नार्गक्रियोंमें संख्यातभागहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं ।
इनसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले
जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मभी नार्गकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और थोनिमती
तिर्यच, सामान्य देव, भवनवासियोंमें लेकर ती भवेयक तकके देव, वैक्रियककाययोगी,
स्त्रीवेदी, पीतलेदयवाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके संख्यातभागहानि आदि उपर्युक्त तीन
पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

§ ५३५. तिर्यचोंमें सबसे थोड़े संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव हैं । इनसे संख्या
तभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्त-
गुणे हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके उप-
र्युक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

सव्वत्थोवा संखेज्जभागहाणि० । अवट्ठि० असंखेज्जगुणा । एवं मणुस्सअपज्ज०-
अणुद्दिसादि जाव अवरारुद०-सव्वविर्गालादिय-पंचिंदिय-अपज्ज०-चत्तारिकाय-तस-
अपज्ज०-वेउच्चियमिस्स०-विहंग०-मंजदासजदाणं वत्तव्वं ।

§ ५३६. मणुस्सेसु सव्वत्थोवा संखेज्जगुणहाणि० । संखेज्जभागवट्ठी० संखेज्ज-
गुणा । संखेज्जभागहाणि० असंखेज्जगुणा । अवट्ठि० असंखेज्जगुणा । मणुमपज्ज०
मणुसिणीसु सव्वत्थोवा संखेज्जगुणहाणी० । संखेज्जभागवट्ठी० संखेज्जगुणा । संखेज्ज-
भागहाणि० संखे० गुणा । अवट्ठि० संखे० गुणा । सव्वट्ठे सव्वत्थोवा संखेज्जभाग-
हाणी० । अवट्ठि० संखे० गुणा ।

§ ५३७. एइंदिय-बादरेइंदिय - बादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्त - सुहुमेइंदिय - सुहुमेइंदिय-
पत्तापज्जत्तएसु सव्वत्थोवा संखेज्जभागहाणी० । अवाट्ठि० अणतगुणा । एवं मव्ववण-
प्फदि०-सव्वणिगोद०-ओगलियमिस्स०-कम्मइय०-मदि-सुद-अण्णाण०-मिच्छादि०-
असण्णि०-अणाहारि त्ति । णवरि बादरवणप्फदिपत्तेयसरीरंसु असंखेज्जगुणं कायव्वं ।

पंचेन्द्रिय नियंष लब्ध्यपर्याप्तकोंमें संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं ।
इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इमीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य,
अनुादशमे लेकर अपगजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पृथिवी-
कायिक आदि चार म्यावरकाय, त्रस लब्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी
और संयतारांयत जीवोंके उक्त दोनों पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

§ ५३६. मनुष्योंमें संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्या-
तभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यपर्याप्त और
मनुष्यनियोंमें संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि-
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे
हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातभाग-
हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५३७. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपर्याप्त, बादर एकेन्द्रियअपर्याप्त
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभाग-
हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुने हैं ।
इमीप्रकार सभी वनस्पति, सभी निगोद, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मय-
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा
अल्पबहुत्व कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बादरवनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंमें
संख्यातगुणहानिवाले जीवोंसे अवस्थितपदवाले जीवोंको असंख्यातगुणा कहना चाहिये ।

१५३८. पंचिदिय-पंचि०पञ्ज०-तम-तमपञ्ज०-ओघभंगो । णवरि अवट्टि० अमंखे० गुणा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-पुरिम०-चक्खु०-सुक्क० मण्णि० वत्तव्वं आहार०-आहारमिस्म० अवट्टि० णत्थि अप्पाबहुअं । एवमकसा०-सुहुम-मांपराय०-जहाक्खाद०-अभवसिद्धि०-उवमम०-मामण०-सम्मामि० दिट्ठीणं वत्तव्वं ।

§ ५३६. अवगद० मव्वत्थोवा संखेज्जगुणहाणी० । संखेज्जभागहाणी मंखेज्जगुणा । अवट्टि० मंखेज्जगुणा । एवं मणपञ्जव०-मंजद०-मामाइयल्लेदो० वत्तव्वं । आभिणि० सुद०-ओहि० मव्वत्थोवा मंखेज्जगुणहाणी । मंखेज्जभागहाणी अमंखेज्जगुणा । अवट्टि० असंखे०गुणा । एवमोहिदंमण० मम्मामि० त्ति वत्तव्वं । परिहार० सव्वट्टभंगो । स्वइय० सव्वत्थोवा मंखेज्जगुणहाणी । मंखेज्जभागहाणी मंखेज्जगुणा । अवट्टि० अमंखेज्जगुणा ।

§ ५३८. पंचेन्द्रिय, पचेन्द्रियपर्याप्त, त्रम और त्रमपर्याप्त जीवोंमें संख्यातभागवृद्धि आदि पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व ओंनके समान है । इनकी विशेषता है कि यहां पर संख्यात-भागवृद्धिवाले जीवोंसे अवस्थित पदवाले जीव अनन्त गुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं । इसीप्रकार पांचां मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले और संज्ञी जीवोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें एक अर्वास्थित पद ही है, इसलिये अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अरुपायी, सूक्ष्ममांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, अभव्य, उपशममम्यगृष्टि, मामादनमम्यगृष्टि और मम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके एक अवस्थित पद होनेके कारण अल्पबहुत्व नहीं है यह कहना चाहिये ।

§ ५३९. अपगनवेदियोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यात-भागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसी-प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, मयत, मामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार अवधिदर्शनी और मम्यगृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये ।

परिहागविशुद्धिसंयतोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व सर्वार्थमिद्धिके देवोंके कहे गये अल्पबहुत्वके समान होता है । क्षायिकमम्यगृष्टियोंमें संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । वेदकमम्यगृष्टि जीवोंके संभवपदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व

वेदय० पंचिदियतिरिक्ख अपजत्तमंगो ।

एवमप्पाबहुअं समत्तं ।

एवं पयडिविहत्ती समत्ता ।



पंचेन्द्रियातर्यैच लब्धपर्याप्तकोके कहे गये अल्पबहुत्वके समान है ।

इसप्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इसप्रकार प्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई ।



परिशिष्ट

१ पयडिविहत्तिगयगाहा-चुणियासुत्ताणि

पंगदीण मोहणिज्जा विहत्ति तह द्विदीण अणुभागे ।

उक्कस्समणुक्कस्सं झीणमझीणं च द्विदियं वा ॥२२॥

चु० सु०—संपहि एदिस्से गाहाण अत्थो बुच्चदे । तं जहा, मोहणिज्जपयडीए विहत्तिपरूवणा, मोहणिज्जद्विदीण विहत्तिपरूवणा, मोहणिज्जअणुभागे विहत्तिपरूवणा च कायव्वा त्ति एसो गाहाण पढमद्धम्म अत्थो । एदेहि तिहि वि अत्थेहि एको चेव अत्थाहियारो । ‘उक्कस्समणुक्कस्सं’ चेदि उत्ते पदेमविमय-उक्कस्साणुक्कस्माणं गहणं कायव्वं; अणोसिममंभवादो । पयाडि द्विदि-अणुभाग-पदेमाणमुक्कस्साणुक्कस्माणं गहणं किण्ण कीग्दे ? ण, तेसिं गाहाण पढमत्थे (द्वे) परूविहत्तादो । एदेण पदेमविहत्ती सूहदा । ‘झीणमझीणं’ त्ति उत्ते पदेमविमयं चेव झीणाझीणं घेत्तव्वं; अणुस्स अमंभवादो । एदेण झीणाझीणं सूचिदं । ‘द्विदियं’ त्ति वुत्ते जटणुक्कस्साणुक्कस्माणुक्कस्माणं गहणं । एदेण द्विदियंतिओ सूहदा । एट् तिण्णि वि अत्थे घेत्तण एको चेव अत्थाहियारो; पदेसपरूवणादुवारंण एयत्तुवलंभादो । एसो गुणहरभट्टारण णिदिहत्थो ।

‘विहत्तिद्विदि अणुभागे च त्ति’ अणियोगदारे विहत्ती णिक्कस्सवियव्वा । णाम विहत्ती दृवणविहत्ती दव्वविहत्ती खेवविहत्ती वत्ताविहत्ती गणणविहत्ती मंटाणविहत्ती भावविहत्ती चेदि ।

णोआगमदो दव्वविहत्ती दुविहा, कम्मविहत्ती च्च णोआगमविहत्ती चेव । कम्म विहत्ती थप्पा । तुल्लपदसियं दव्वं तुल्लपदसियस्स अविहत्ती । वभादपदसियस्स विहत्ती । तदुभयेण अवत्तव्वं । खेत्तविहत्ती तुल्लपदमोगाढ तुल्लपदमोगाट्ठस्स अविहत्ती । कालविहत्ती तुल्लममयं तुल्लममयस्स अविहत्ती । गणणविहत्तीए एको एक्कस्स अविहत्ती ।

संटाणविहत्ती दुविहा संटाणदो च, संटाणवियप्पदो च । संटाणदो वटं वट्टस्स अविहत्ती । वटं तंमस्स वा चउरंमस्स वा आयदपरिमंडलस्स वा विहत्ती । वियप्पेण वट्टमंटाणाणि अमंखेज्जां लोगा । एवं तंम-चउरंम-आयदपरिमंडलाणं । सरिमवटं सरिसवट्टस्स अविहत्ती । एवं मव्वत्थ ।

जा सा भावविहत्ती सा दुविहा, आगमदो य णोआगमदो य । आगमदो उवजुत्तो पाहुडजाणओ । णोआगमदो भावविहत्ती ओद्वत्तो ओद्वयस्स अविहत्ती । ओद्वत्तो उवसमिण्ण भावेण विहत्ती । तदुभयेण अवत्तव्वं । एवं सेसेमु वि । एवं सव्वत्थ । २ ।

जा सा दव्वविहत्तीए कम्मविहत्ती तीण पयदं । तत्थ सुत्तगाहा—

(१) पृ० १ । (२) पृ० २ । (३) पृ० ३ । (४) पृ० ४ । (५) पृ० ५ । (६) पृ० ६ । (७) पृ० ७ । (८) पृ० ८ । (९) पृ० ९ । (१०) पृ० १० । (११) पृ० ११ । (१२) पृ० १२ । (१३) पृ० १३ । (१४) पृ० १४ ।

पयडीण मोहणिजा विहत्ती तह द्विदीण अणुभागे ।

उक्कम्ममणुक्कम्मं झीणमझीणं च द्विदियं वा ॥२२॥

पदच्छेदो । तं जहा—‘पयडीण मोहणिजा विहत्ति’ ति एमा पयडिविहत्ती १ । ‘तह द्विदि’ चेदि एमा द्विदिविहत्ती २ । ‘अणुभागे’ ति अणुभागविहत्ती ३ । ‘उक्कम्ममणुक्कम्मं’ ति पदमविहत्ती ४ । ‘झीणमझीणं’ ति ५ । द्विदियं वा ति ६ । तन्थ पयडिविहत्ति वण्णइस्सामो ।

पयडिविहत्ती दुविहा, मूलपयडिविहत्ती च उत्तरपयडिविहत्ती च । मूलपयडिविहत्तीण इमाणि अट्ट अणियोगदाराणि । तं जहा—माभित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुगेत्ति । एदेसु अणियोगदारेसु परुविदेसु मूलपयडिविहत्ती समत्ता होदि ।

तदो उत्तरपयडिविहत्ती दुविहा, एगेग उत्तरपयडिविहत्ती चैव पयडिद्वान्ण उत्तरपयडिविहत्ती चैव । तन्थ एगेग उत्तरपयडिविहत्तीण इमाणि अणियोगदाराणि । तं जहा, एगजीवण माभित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो परिमाण-णुगमो खेत्ताणुगमो पौष्णाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो मणियासो अप्पाबहुगत्ति । एदेसु अणियोगदारेसु परुविदेसु तदो एगेग उत्तरपयडिविहत्ती समत्ता ।

पयडिद्वान्णविहत्तीण इमाणि अणियोगदाराणि । तं जहा, एगजीवण साभित्तं कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेतं पौष्णं कालो अंतरं अप्पाबहुअं भुजगारो पदणिक्खंओ वट्टटि ति ।

पयडिद्वान्णविहत्तीण पुब्बं गमांणजा द्वाणभंभुत्तिणो । अत्थि अट्ठावीसाए सत्तावीसाए छुर्वीसाए चउवासाए तथीसाए वावासाए एदुवीसाए तरसण्हं बारसण्हं पंचण्हं चदुण्हं तिण्हं दाण्हं एक्किस्स च २५ । एदं आधेअ ।

एक्किस्स विहत्तिओ को होदि ? लाहसंजलणा । दाण्हं विहत्तिओ को होदि ? लोहो माया च । तिण्हं विहत्ती लाहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलणाओ । चउण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ । पंचण्हं विहत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च । एकारसण्हं विहत्ती एदाणि चव पंच छण्णोकसाया च । बारसण्हं विहत्ती एदाणि चव इत्थिवदो च । तरसण्हं विहत्ती एदाणि चव णसुसयवेदो च । एक्कवीसाए विहत्ती एदं चव अट्ठकसाया च । सम्मत्तेण वावासाए विहत्ती । सम्माभिच्छत्तेण तेवीसाए विहत्ती । भिच्छत्तेण चदुवीसाए विहत्ती । अट्ठावीसादो सम्मत्तसम्माभिच्छत्तेसु अवणिदेसु छुर्वीसाए विहत्ती । तत्थ सम्माभिच्छत्ते पक्खित्ते सत्तावीसाए

(१) पृ० १७ । (२) पृ० १८ । (३) पृ० २० । (४) पृ० २२ । (५) पृ० २३ । (६) पृ० ८० । (७) पृ० ८२ । (८) पृ० १९९ । (९) पृ० २०१ । (१०) पृ० २०२ । (११) पृ० २०३ । (१२) पृ० २०४ ।

विहत्ती । मन्वाओ पयडीओ अट्टावीमाए विहत्ती । संपहि एमा २८ २७ २६ २४
२३ २२ २१ १३ १२ ११ १० ९ ८ ७ ६ ५ ४ ३ २ १ । एवं गादियादिम् षोडश्व्वा ।

सामित्तं ति ज पं तम्म विहाण पट्टमाहयागे । त जहा—एक्किस्से विहत्तिओ
को होदि ? णियमा मणुम्मो वा मणुम्मिणी वा खवओ एक्किस्से विहत्तिए सामिओ ।
एवं दोण्ह तिण्हं चउण्हं पचण्हं एक्कारमण्हं बारमण्हं तेरमण्हं विहत्तिओ । एक्कावीसाए
विहत्तिओ को होदि ? खीणदंसणमोहणिज्जो । बावीसाए विहत्तिओ को होदि ?
मणुम्मो वा मणुम्मिणी । मिच्छत्ते मम्मामिच्छत्ते च खविदे ममत्ते सेसे । तेवीसाए
विहत्तिओ को होदि ? मणुम्मो वा मणुम्मिणी वा मिच्छत्ते खविदे मम्मत्त-सम्मामि-
च्छत्ते सेसे । चउवीसाए विहत्तिओ को होदि ? अणंताणुबंधिविमजोडदे मम्मादिट्ठी
वा सम्मामिच्छादिट्ठी वा णणयगं । छउवीसाए विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाड्ठी
णियमा । मत्तावीसाए विहत्तिओ का होदि ? मिच्छाड्ठा । अट्टावीसाए विहत्तिओ को
होदि ? मम्माड्ठी मम्मामिच्छाड्ठी मिच्छाड्ठी वा ।

कालो । एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं विहत्तियाणं । पंचण्हं विहत्तिओ केवचिं कालादो ?
जहण्णक्कस्सेण दो आवालयओ ममयुणाओ । एक्कारमण्हं बारमण्हं तेरमण्हं विहत्ती केवचिं
कालादो होदि ? जहण्णक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । पंचण्हं बारमण्हं विहत्ती केवचिं कालादो ?
जहण्णेण एगममओ । एक्कावीसाए विहत्ती केवचिं कालादो ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।
उक्कस्सेण तेतीम मागरोवमाणि सादिरेयाणि । बावीसाए तेवीसाए विहत्तिओ केवचिं
कालादो ? जहण्णक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । चउवीसविहत्ती केवचिं कालादो ? जहण्णेण
अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण वल्लाट्ठि मागरोवमाणि सादिरेयाणि । छउवीसविहत्ती केवचिं
कालादो ? अणादि-अपज्जवमिदो । अणादिमपज्जवमिदो । मादिमपज्जवमिदो ।
तन्थ जो मादिओ मपज्जवमिदो जहण्णेण एगममओ । उक्कस्सेण उवट्टं पोग्गलपरि-
यट्टं । मत्तावीसविहत्ती केवचिं कालादो ? जहण्णेण एगममओ । उक्कस्सेण पालदा-
वमम्म अमंखेज्जदिभागो । अट्टावीसविहत्ती केवचिं कालादो होदि ? जहण्णेण
अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण वे छावट्ठि मागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

अंतंगणुममेण एक्किस्से विहत्तीए णत्थि अंतरं । एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं
एक्कारमण्हं बारमण्हं तेरमण्हं एक्कावीसाए बादीसाए तेवीसाए विहत्तियाणं । चउवी-
साए विहत्तियम्म केवडियमंतरं ? जहण्ण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवट्टपोग्गलपरि-

- (१) पृ० २०५ । (२) पृ० २१७ । (३) पृ० २११ । (४) पृ० २१७ । (५) पृ० २१३ ।
(६) पृ० २१७ । (७) पृ० २१८ । (८) पृ० २२१ । (९) पृ० २२२ । (१०) पृ० २२३ । (११) पृ० २६३ ।
(१२) पृ० २६४ । (१३) पृ० २६५ । (१४) पृ० २६६ । (१५) पृ० २६७ । (१६) पृ० २६९ ।
(१७) पृ० २५२ । (१८) पृ० २५३ । (१९) पृ० २५४ । (२०) पृ० २५५ । (२१) पृ० २८१ ।
(२२) पृ० २८२ ।

यद्दं देसूणमद्भुपोग्गलपरियट्टं । छ्वीमविहत्तीणं केवडियमंतरं ? जहण्णेण पलिदो०
असंखे० भागो । उक्कस्सेण वेत्तावट्टि मागरोवमाणि मादिरेयाणि । मत्तावीमविहत्तीणं
केवडियमंतरं ? जहण्णेण पलिदो० असंखे० भागो । उक्कस्सेण उवड्ह पोग्गलपरियट्टं ।
अट्टावीमविहत्तियम्म जहण्णेण एगममओ । उक्कस्सेण उवड्हपोग्गलपरियट्टं ।

णाणाजीवेह भंगविचओ । जेमिं मोहणीयपयडीओ अत्थि तेसु पयदं । मंखे
जीवा अट्टावीम-मत्तावीम-छ्वीम-चउवीम-एक्कीमसंतकम्मविहत्तिया णियमा अत्थि ।
सेमविहत्तिया भजियत्वा ।

सेमाणिओगहागणि णद्ववाणि ।

अप्पावह्अं ।

मंखेत्थोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया । ए० संतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा ।

दोण्हं संतकम्मविहत्तिया णियेमा । तिण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेमाहिया ।
एक्कारमण्हं संतकम्मविहत्तिया णियेमाहिया । चंगमण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेमा-
हिया । चेट्टण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा । तेमंण्हं संतकम्मविहत्तिया संखेज्ज-
गुणा । बांवीससंतकम्मविहत्तिया संखेज्जगुणा । तेवीमाणं संतकम्मविहत्तिया विसे-
माहिया । मत्तावीमाणं संतकम्मविहत्तिया असंखेज्जगुणा । एक्कीमाणं संतकम्मविह-
त्तिया असंखेज्जगुणा । चउवीमाणं संतकम्मविहत्तिया असंखे० गुणा । अट्टावीम संतकम्मिया
असंखेज्जगुणा । छ्वीमविहत्तिया अणंतगुणा ।

भुजगारो अप्पदरो अवट्टिदां कायत्थो ।

एत्थ एगजीवेण कालो । भुजगारसंतकम्मविहत्तियो केवचिरं कालादो होदि ? जह-
ण्णुक्कस्सेण एगममओ । अप्पदरसंतकम्मविहत्तियो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण
एगममओ । उक्कस्सेण एगममया । अयाद्द संतकम्मविहत्तियाणं तिण्णि भंगा । तंथ जो
मो सादिओ मपज्जवसिदां तम्म जह० एगममओ । उक्कस्सेण उवड्हपोग्गलपरियट्टं ।

एवं सत्त्वाणि अणिओगहागणि णद्ववाणि ।

पंदराणक्खेवे वड्ढीणं च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहनी ।

॥ ३३६ ॥

(१) पृ० २८२ । (२) पृ० २८१ । (३) पृ० २८५ । (४) पृ० २८६ । (५) पृ० २९२ । (६) पृ०
२९३ । (७) पृ० २९४ । (८) पृ० ३५२ । (९) पृ० ३५९ । (१०) पृ० ३६२ । (११) पृ० ३६३ ।
(१२) पृ० ३६४ । (१३) पृ० ३६५ । (१४) पृ० ३६६ । (१५) पृ० ३६७ । (१६) पृ० ३६९ । (१७) पृ०
३७० । (१८) पृ० ३७२ । (१९) पृ० ३७३ । (२०) पृ० ३७५ । (२१) पृ० ३८४ । (२२) पृ० ३८७ ।
(२३) पृ० ३८८ । (२४) पृ० ३८९ । (२५) पृ० २९० । (२६) पृ० ३९७ । (२७) पृ० ४२५ ।

२ अवतरण सूची

क्रमसंख्या	अवतरण	पृष्ठ	क्रमसंख्या	अवतरण	पृष्ठ	क्रमसंख्या	अवतरण	पृष्ठ
ए १	एकोत्तर पदबृद्धो-	३०९	भ ४	भयणिज्जपदा		म ६	सूत्रानीतविक-	
ख २	खत खलू आगासं-	७		निगुणा-	२९२		पञ्चके-	१०
न ३	निरस्यंती परस्यार्थ-	२१७	५	भगायामपमाणो-	३०१			

-*-

३ ऐतिहासिक नाम सूची

उ	उच्चारणाचार्यं	२२,	ग	गणधरः,	१८, १९	यतिवृषभ	१९, २२, २३,
	८१२०५,			गौतमम्बामी	२११,		८१, २०२, २१५,
	२३, २१०,		च	चणिसूत्राचार्यं	२०५,		२०२, २५६,
	२१५, २२२,				२०९,		३५०, ३५८,
	२५६, २८५,		व	वृषपदेव	४००,		३८४, ३९१,
	३९७, ४१७,		य	यतिवृषभ	५, १०,		३९७, ४२५,
	४२५,				१६, १,		

- * -

४ ग्रन्थनामोल्लेख

उ	उच्चारणा	१००, १६,	ख	खट्वाय	३०,		१०१, २१६,
	३१६, २७५,		च	चणिसूत्र	१, १६, १०,		२७५,
	३९१, २६७,				२०, २१,	ग	जाडिगण
	४२०, ४२५				३१९, २०६,	म	महावध
							११९,

-*-

५ माथा-चृणिसूत्रगत शब्दसूची

अ	अद्	२१, २००	अणुत्तरः,	१, १७,	अर्वाचनसतकम्मविहानिय	
	अट्टावीम	१०१, १०	अणुभाग १, ६, १७, १,			८९,
		२२१, २९२,	अणुभागविहाना	११,	अर्वाचन	३, १३,
	अट्टावीसविहती (हानिय)		अणुताणबधिविमजोड.		अर्वाहती ६, ३, ८, ११,	
		२५५, २८५,		२१८-		१२,
	अट्टावीससंतकाम्मय ३७६,		अणुतगण	२५,	असपञ्ज	१०
	अणुयर	२१८,	अणुपागल परिपट्ट	२८०,	असपञ्जदि भागा २५,	
	अणादि अपञ्जविसदा		अणुदर	३८८,		२८०, २८६,
		२५०,	अणुदरसतकामविहानिय		असपञ्जगण ३६० ३७०	
	अणादि सपञ्जविसदा			३८८,		३७०, ३७६,
		२५२,	अणुवहुम २२, ८०,		आ आगम	१२,
	अणुयोगद्वार ४, २२, २३			१०० ३५०,	आयदपरिमण्डल १०, ११,	
	८०, ८२, ३१६, ३०३		अर्वाट्ट	३८८,	इ इस्थिवद	२०३,

(१) सर्वत्र स्थूल संख्याक माथागत शब्दाके और सूक्ष्म संख्याक चृणिसूत्रगत शब्दके पृष्ठके सूचक हैं। जिस शब्द को काले टाइपमें दिया है उसकी व्युत्पत्ति या परिभाषा चृणिसूत्रमें आई है।

उ उक्कस्म १, १७, २४७, २४०, २५३, २५४, २७५, २८२, २८४, २८६, ३००, उत्तरपयडिबिहत्ती २० ८०, उवजुत्त १२, उवट्ट २५३, नवट्टपोभग्लपरियट्ट २८२, २८४, २८६, ३९, उवममिअ १३, ए एक्क ८, २०१, २०२, एक्कवीम-एक्कवीम २०१, २०३, २४७, २८२, २९३, ३७०, एक्कमतकम्मविहत्तिय ३५९, एक्कारस २०१, २०३, २१२, २४४, २८२, ३६३, एग जीव ३८७, एगसमअ २४६, २५३, २५८, २८५, ३८८, ३९०, एगग उत्तरपयडिबिहत्ती ८०, ८२, ओ ओष २०१, आदहअ १२, १३, अंतर २२, ८०, १९९, २८१, २८२, २८३, अनराणुगम ८०, २८१, अनामूत्त २४६, २४७, २८८, २८९, २५५, २८२, क कम्मविहत्ती ५, ६, १८, कसाय २०३, काल २२, ८०, १९९, २४३, २४४, २४५, २४७, २४८, २४९, २५३, २५४, २५५, ३८३, ३८८, कालविहत्ती ४, ८, कालाणुगम ८०, ख स्वअ २११, खीणदसणमोहणिज्ज २१२, खेन १९९, खेतविहत्ती ८, ७, खेत्ताणुगम ८०, ग गगगाविहत्ती ४, ८,	गदियादि २०५, च चउरम १०, ११, चउवीसविहत्ती २४९, चट्टु (चउ) २०१, २१२, २३७, २८२, ३६५, चट्टुवीस २०१, २०४, २८२, २९३, ३७२, छ छण्णीकमाय २०३, छब्बीस २०१, २०४, २९३, छब्बीमविहत्ती २५२, २८३, ३७५, ज जहण २४६, २४७, २४९, २५३, २५४, २५५, २८३, २८४, २८५, ३८८, ३९०, जहण्णकम २४३, २४४, २४८, ३८८, जीव २९३, झ भीणमजाण १, १४, १८, ट टुवणविहत्ती ८, ट्टाणसमविकत्तण २०१, ट्टुदि १, ४, १७, ट्टुदिय १, १७, १८, ट्टुदिबिहत्ती १७, ग गणुमयवेद २०३, णामविहत्ती ८, णियम २११, २२१, २९३, णा आगम ५, १२, णाकम्मविहत्ती ५, न नडुअय ७, १३, नह १, १७, ति २०१, २०२, २३७, २८२, २६२, नुत्तमसिय ६, नुत्तपदगागाह ८, नुत्तममय ८, नताम २०१, नवीम २०१, २०४, २६७, २४८, २८२, २६८, नेरम २०१, २०३, २१०, २४६, २८५, ३६६, नम १०, १८, द डव्व ६, दव्वविहत्ती ४, ५, १६, दुविहा ५, ९, १२, २०, दो २०१, २०२, २१२, २२७, २८२, ३६२, दोआणालय २४३, दमूण २८२,	प पगदि १ पहमाहियार २१०, पद २१०, पदच्छेद १७, पदणिकखेव १९९, ४२५, पयडि १७, २०४, पयब १३, २९३, पयडिबिहत्ती १७, १८, २०, ४२५, पर्याडट्टाण उत्तरपयडि विहत्ती ८०, पर्याडट्टाणविहत्ती १९९, २०१, परिमाणुणुगम ८०, परिमाण १९९, पलिदोवम २५५, २८३, २८४, चसंतकम्मविहत्तिय ३५९, पच २०१, २०३, २१२, २४३, पाहुड जाणअ १२, पुरिसवद २०३, पुव्व पाग्लपरियट्ट २५३, पासणाणुगम ८०, फ फासण १९९, ब बारस २०१, २०३, २१२, २४४, २४६, २८२, ३६४, वागीमसन कम्मविहत्तिय ३६८, भ भग ३८९, भगविअ २२, १९२, २९२, भागाभाग २२, भाव १३, भावविहत्ती १२, भुजगार १९९, २८४, भुजगारमतकम्मविहत्तिय २८८, म मणुग्ग २११, २१३, २१७, मणुग्गणी २११, २१३, २१७, माणमजलण २०२, माया २०२, मायासजलण २०२, मिच्छत २०६, २१७, २१७, मिच्छादट्टी २२१,
--	--	---

मूलपयडिविहती २०, २२, २३, मोहणिञ्ज १, १७, मोहणीयपयडि २१२, ल लोम लोह २०२, लोहसजलण २०२, व वट्ट वट्टमठाण १०, वट्टि १०९, ४२५, वावीस २०१, २०४, २१२, २४८, ८२, वियण १०, विमेसाहिय ३६२, ३६३, ३६४, विहत्ति (विहती) १, ४, ६, १०, १३, १७, २०२ २०३, २०४, २११, २१६, २१६, २४ विहत्तिय २०२, २१०, २१२, २१७, २१८, २१९, २३७, २४३, २४८, २८२, २९२, विहासा २१०, वेमादपदेसिय ६, वेछावट्टि २४९, २५५, २८४, म गणिणयाम ८०, सत्तावीस २०१, २०४, २२१, २९३, ३६९, सत्तावीसविहती २५६, २८४, सपञ्जवसिदो २५३, ३९ समयूण २६३, सम्मन २०४, २१३, २१७, सम्मामिच्छत्त २०४, २१३, २१७, सम्मादिट्ठी २१८, २२१, सम्मामिच्छादिट्ठी २१८, २२१ मरिसवट्ट ११, मव्व २०६, २०३, ३९७, मव्वत्थ ११, १३, संख्खज्जण ३६५, ३६६, ३६८, संजलण २०२, २०३, सठाण ९, सठाणवियप्प ९, सठाणविहती ४, ९, सनकम्मिय ३७२, संतकम्मविहत्तिय २९३, ३६२, ३६३, ३६६, ३६५, ३६६, ३६९, ३७०, मागरोवम २४७, २४९, २५५, २८४, सादि २५३, ३९०, मादिरेय २६७, २४९, २५५, २८४, सादिमपञ्जविमिदा २५२, सामिअ २११, सामित्त २२, ८०, १९९, २१०, सुत्तगाहा १६,
--



७ जयधवलागत-विशेषशब्दसूची

अ अक्खपयगत २०७ अजहणविहति ८९, अणदर २१९, अणादिअ २४, ८०, अणिओगहार ८०, ८१, २००, ४२५, ४३७, आणयट्टिकाल ३६८, अण्णम्मविहत्ति ८८, अणभागविहती १८, अण्णान्णुर्बाधि १०८, २१८, २१९, ३७४, ४१७, ४१८, अण्णान्णुर्बाधिसजोयणा ४१७, ४२१, अण्णान्णुर्बाधिसउक्क- विमजोयणाकाल ६१८, अत्थपद १७, अस्थहियार १७, १९, २२, अट्ठपोगलपरियट्ट ३९७ अट्ठव २४, ८९, अदिरेणपमाण २५०, अप्पदर ३८९, अप्पावट्टअ ६७३, अप्पावट्टाण्णुगम १५६, ३५७, ४२२, ६७७, अवट्ठाण ६६७, अवट्टिद २९०, ३०७, अवट्टिदपद ६१७, अवल्लव ७, १५, अवहारवाल २७१, अविभक्ति ६, अमकम २३४, अम्मकणकरण २३५, २३८, आ आउअ ८५, आउत्तरकरण २३४, आगम १२, आगमविहती ४, १०, आण्णुविमसकम २३४, आवाधाकडय ३७१, आलाव ३९०, आलावम्बवणा २३३, इ इगिवीम सनकम्मिअ २३४, उ उक्कसविहती ८८, उच्चारणमलागा ३०३, ३१० उत्तरपयडिविहति ८०, उदअ २३४, उदयट्ठाण १९९,

१ यहा ऐमे शब्दोका ही संग्रह किया है जिनके विषयमें ग्रंथमें कुछ कहा है या जो संग्रहकी दृष्टिमें आवश्यक समझ गये। चोटह मार्गणाओं या उनके अवाग्नर भेदोंके नाम अनुयोग द्वारामें पुनः पुनः आये हैं अतः उनका यहा संग्रह नहीं किया है। जिम पृष्ठपर जिस शब्दका लक्षण, परिभाषा या व्युत्पत्ति पाई जाती है उस पृष्ठके अंकको बड़े टाईपमें दिया है।

उदयावलि	२३४,	ट्टाणसमक्रीडाणा	२०१	परिमाणानुगम	४९, १५७,
उदीरणा	२३४,	ट्टिदियतिअ	२, १८,		३१९, ४०४, ४६१,
उदकमण	३७१, ३७३,	ट्टिदिविहत्ती	१७,	पवाइज्जमाण	४१८,
उदकमणकाल	३७०,	टीका	४४	पजिया	१४
	३७३, ३७५,	ण णवववध	२३५, २३७,	पाहुडगथ	१७६,
उदुपोगलपरिगट्ट	२०४,		२४२,	पुच्छामुत्त	२१०
	३६१,	णाणाजीवेहि भगविचया-		फ फद्य	२३६, २३८,
उयवाद पद	५९,	णुगम	४४, १४४, २९३,	फोमणानुगम	६०, १६५,
उवसमसम्मादिट्ट	४१७,		६०२, ४५६,		३२६, ४०९,
उवसमसम्मतकाल	४१८,	णाणावर्गणज्ज	२१,	ब बध	२३४,
उव्वेन्नलणकाल	२५६, ३७०,	णामकम्म	२१,	बधग	१९९,
उव्वेन्नलणा	४२१,	णामविहत्ती	१,	बधट्टाण	१९९,
प पंगेय उत्तरपयडिविहत्ती ८०		णिवखव	४	बधावलिय	२४३,
आ ओदइअ	१३	णिस्मनकम्मिय	४३०	बादरुकि ट्ट	२३५,
अ अंतर (करण)	२३४, २५२, ३९०,	णो आगम	१२	बीजाद	३०७,
		णो आगमभाव	१२	भ भयणज्जपद	२९३
अंतराडअ	२७,	णो आगमविहत्ती	५,	भविद्यविहत्ती	५,
अनराणुगम	४४, ७४,	णा कम्मविहत्ती	६,	भागाभागाणुगम	१७,
	१२३, १७३, २४४,	णामव्वविहत्ति	८८,		१५१, ३१६, ६०६,
	३०७, ४१०, ४६९,	न नालपल्लमुत्त	२१४,		४०९,
	४७५,	निश्चयर	२११,	भाविहत्ती	१०
क कदकरणिज्ज	५१४, २५,	न दव्वट्टियणय	८१,	भावाणुगम	७७, १७५,
	४३०,	दव्वविहत्ती	५, १६,		४२२, ४३९,
कम्मविहत्ती	५, १६,	दमणमाहणीयक्खवण	२१३,	भुजगार	३८४, ३८८,
करण	२५३, ३०१	दसणावणज्ज	२१	म मज्झिमपद	१७,
कालाणओगहार	३८०,	देमगादि	२३३,	मणस्म	२१२, २१,
कालाणगम	२७, ७१, ०९	देमामा, मय	८, २१६,	महाबध	१९९,
	१७१, २२३, ३३५,	घ ध्रुव	२६, ८९,	मदबद्धिजण	३९७,
	४१४, ६०२	धदपद	२९५	मारणनिय	५९,
कालविहत्ती	१	धनभग	२००	मिच्छाडट्टो	२१८,
किट्टीकरणट्टा	३५४, ३६३	द पज्ज इट्टियणय	८१,	मलपयाडिविहत्ती	२२,
किट्टीवेदयकाल	३५३	पद	१७,	मोहणज्ज	२१
	३५९, ३६०,	पदाणक्खव	४२५,	मोहणीय	२०,
ख खेत	७,	पदेमविहत्ती	१८,	ल लिहिदुच्चारण	३९७,
खेतविहत्ती	७,	पकड	१४,	व वक्खाण	४१७,
खेत्ताणुगम	१३, १६३	पणवणकाल	३६८,	वड्ढिविहत्ती	४२७,
	३०६, ४०८, ४६३	पढमसम्मतारिहमुह	३९७,	ववत्थापद	१७
ग गामामुत्ता	१६	पत्थारगलागा	३००, ३०२,	वित्तमुत्ता	१४,
गोद	२७,	पत्थारालाव	३०१	विमात्रप्रदेश	६
गोवुच्छ	५५२,	पमाणपद	१७	विसजाअअ	२१८,
च चउवीसविहानअ	२१८,	पय विहत्ती	१७, २०,	विसजायण	२५६,
	२१९,	पयडिट्टाण उत्तरपयडि-		विसंजायणापक्ख	४१८,
	२५२, २५३,	वित्तता	८०,	वित्त	४, २१,
चारित्तमोहणीयक्खवण	२१३, २२३,	पर्याट्टाण	१६६,	विहासा	२१०,
	२१९,	पर्याट्टाण, वहत्ति	२००,	वेदग	१९९,
चारित्तमोहणीय	२१९,		२०१,	वेयणीय	२७
जाणअसरीरविहत्ती	५,	परत्थाणप्पाबह्मगाणुगम		स सण्णियास	१३०,
झ झीणाझीण	२, १८,		१७९,	सम्मतुव्वेन्नलण	४५२,
ट टवण विहत्ती	५	परमगुरुवएस	१०८,		

परिसिद्धाणि

४६३

सम्मामिच्छादृष्टि	२१८,
	२१८,
समवकीर्तना	२३, ८३
	३८४, ४२०
	४३१, ४३७,
सम्बन्धदिबध	२३३,
सम्बन्धविहृति	८८,
सम्बन्धसकम	२३५, २५३,

संकमणावलय	२४३,
सगहणय	८१,
सगर्हाकट्टि	३५९,
सजून	१०१,
सठाण	९,
सठाणविषण	९,
सठाणविहृती	९
सन्तुष्टाण	१९९,

सादित्र	२४, ८९,
सामित्तं	४२६, ४२९,
सामित्तानुगम	२७, ९१,
	३८६, ४३९,
गिद्धसमय	३६०, ३६२,
सुत्तानुसारि	४१७, ४१८,
सुद्धमर्कट्टि	२३५,



